

DEPT. OF COMMERCE, BUREAU OF POSTS

MAINE TALK

with

Class no. 747

Dist. no. R. 17. R.

Reg. no. 2468





रूस में

पच्चीस मास

[ यात्रा ]



राहुल मांकृत्यायन



सितम्बर

१९५२

लेखक : राहुल सांकृत्यायण,  
हर्न क्लिफ, हैपी वैली,  
मसूरी ।

प्रकाशक : चम्पालाल रांका,  
प्रबन्धक, आलोक प्रकाशक,  
के० ई० एम० रोड,  
वीकानेर ।

चित्रकार : कृष्णचन्द्र श्रीवास्तव,  
इलाहाबाद—

मुद्रक : भारतीय मुद्रण मन्दिर,  
वीकानेर ।

## दो शब्द

यह यात्रा १७ अगस्त १९४७ में समाप्त हुई थी, किन्तु इसके लिखने का काम २५ नवम्बर १९५१ में खतम हुआ। ४ साल बाद इसको लिखा गया, यह आश्चर्य की बात नहीं है। शायद अब भी इसमें हाथ नहीं लगता यदि डायविटीज ने मुझे मसूरी के साथ चिपका न दिया होता। डायविटीज को मैं रोग नहीं मानता, यदि यह रोग है तो जैसे ही जैसे अन्वेषण और लंगड़ापन। वह मेरे काम में बाधक नहीं हो रही है, इसका एक उदाहरण तो यहीं पुस्तक है। रूस के २५ मास के निवास में मैंने जो सामग्री मध्य-एशिया के इतिहास के लिखने के लिये जमा की थी, और जिसके ही कारण एक तरह में संघर्ष के रास्ते आने के लिये भजयूर हुआ, उसका उपयोग भी मैंने इसी साल मसूरी में किया और इस यात्रा से दूने आकार की प्रथम जिल्द “मध्य-एशिया का इतिहास” लिखकर तैयार हो गया है। इसलिये डायविटीज से मुझे शिकायत करने का कोई हक नहीं। यात्राओं का आकर्षण अब भी मेरे हृदय में कम नहीं है, लेकिन सदा से लिखने-पढ़ने का भी आकर्षण कम नहीं रहा है। यह यात्रा किन्तु परिस्थितियों में और कैसे हुई, इसके बारे में पुस्तक में ही काफी आशुका है। ईरान से आगे तो मैंने शृंखलाबद्ध यात्रा लिखने की कोशिश की है, ईरान रास्ते में आया था, और वह यात्रा का कोई मुख्य लक्ष्य भी नहीं था; इसलिये उसके बारे में ज्यादा विस्तार में नहीं लिखा।

यात्रा करने में सहायक होनेवाले कितने ही इष्ट-मित्र रहे, जिनके प्रति कृतज्ञ रहते हुए भी सबका नाम देना यहाँ मुश्किल है। भाई सरदार पृथ्वीसिंह ने ईरान की निराशा की अवस्था में केवल पैसे भिजवाकर ही सहायता नहीं दी, बल्कि वह, और दो एक और भिनों का अगर आग्रह न होता, तो शायद मैं उतने दिनों तक ईरान में टहरने के लिये तैयार न होता। भिनों

महमूद अस्फहानी जैसे अकारण बन्धु के गुणों के बारे में मैं काफी कह चुका हूँ । भारत में आकर मैंने कलकत्ता में उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन वह मिल नहीं सके । इतना मालूम हुआ, कि उनकी नव परिणिता वीवी इब्जतखानम भारत आयी थीं और यहां से चली भी गईं । एक दो बार पुराने पते पर चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला । इसमें संदेह है कि वह अब भारत में हैं । शायद पाकिस्तान में हों, या उससे भी अधिक संभावना उनके ईरान में जाने की है । एक पुराने मित्र के उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में भी बहुत आनन्द आता है, लेकिन मिर्जा महमूद के प्रति वैसा करने को भी मेरे पास साधन नहीं हैं । यह भी बहुत संदिग्ध है, कि वह मेरी इस पुस्तक में लिखी अपने सम्बन्ध की पंक्तियों को पढ़ सकेंगे । तो भी महमूद को मैं उन सहृदय रत्नों में मानता हूँ, जिनके जैसे बहुत थोड़े लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला ।

बघेटा में कागज-पत्र ठीक कराने के लिये मुझे अक्तूबर १९४४ में उठरना पड़ा था, उस वक्त अपने १०-११ वर्ष के सहचर कैमरे को मैं यात्रा न मिलने के कारण छोड़ गया था । १०-११ वर्ष काम कर चुकने के बाद उस पुराने मोडल के रोलैफ्लैक्स कैमरे का मूल्य निकल आया था, लेकिन उसके साथ कई बार तिब्बत, फिर जापान, कोरिया, रूस, ईरान आदि की यात्रा की थी, इसलिये उसके प्रति एक तरह का कोमल संबंध स्थापित हो गया था । जिसके पास उसे अमानत रूप में रखा गया था, उसने हमारे बतलाये स्थान पर लौटाने की तकलीफ नहीं की । अब उनसे भी क्या शिकायत हो सकती है । बघेटा के हजारों हिन्दू जिस तरह अपने आशियाने को छोड़ने के लिये मजबूर हुए और जहां तहां बिलर गये, वहा हालत उसकी भी हुई होगी । अब तो वह मेरे दुर्भाग्य नहीं, बल्कि सहृदयता के पात्र हैं ।

यात्रा में मैंने इस बात को स्वीकार किया है, कि सोवियत के साथ की मेरी मैत्री ३३-३४ वर्षों पुरानी है । यह मेरी तीसरी यात्रा उस देश में थी । यदि मैं कहूँ कि मैं वहां के लोगों के बहुत घनिष्ठ संबंध में आया, तो शायद इसमें अतिरंजन से काम नहीं ले रहा हूँ । मैंने अपनी यात्रा में ऐसी बातों को

भी लिखने में संकोच नहीं किया है, जिनको कि अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन वह पृष्ठभूमि का ही काम देती हैं, जिसमें कि वहां के शर्तों को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। मैंने मुक्तकण्ठ से अपने इस ग्रन्थ में भी स्वीकार किया है और यहां भी स्वीकार करता हूं, कि सोवियत जीवन, सोवियत के विशाल निर्माण कार्य से न केवल सोवियत-शासनयुक्त देशों को ही लाभ हुआ है, बल्कि वह नवीन सोवियत राष्ट्र सारों मानवता की आशा है। आज या कल सभी देशों की सारी समस्याओं का हल उसी रास्ते होगा, जिस रास्ते पर १९१७ में रूस पड़ा और जिस रास्ते को उससे ३२ वर्ष बाद चीन ने पाने में सफलता पाई। जो पार्टियाँ और जननायक अपने को नवीन मानवता का पक्षपाती मानते हैं, संसार को सुख और शान्ति के मार्ग पर लेजानेवाला कहते हैं, यदि वह सोवियत रूस और चीन के साथ शत्रुता रखकर वैसा करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं, वह अपने को और अपने पीछे चलनेवाली जनता को धोखा देते हैं। यह पढ़कर आश्चर्य होता है कि हमारे कितने ही सोसलिस्ट पार्टी के महानेता पृथ्वी पर सोसलिज्म लाने के लिये रूस-चीन को बाधक और अमेरिका को साधक समझते हैं।


मैंने जगह जगह पर दिखलाया है, कि कैसे साल भर पहिले कुछ चीजों का अभाव और कुछ बातों में दुर्यवस्था देखी जाती थी, लेकिन साल भर बाद ही उसमें भारी परिवर्तन हो गया। मेरे भारत लौटने के ४ महीने बाद सोवियत से राशनिंग हट गई। मुद्दोपरान्त की पंचवार्षिक योजनायें आज मात्रा से अधिक पूरी हो चुकी हैं। पिछले ४ वर्षों में जहां सुख-समृद्धि के साधनों में रूस ने भारी प्रगति की है, वहां अणुबम जैसे घोर अस्त्रों का भी उसने आविष्कार कर लिया है। सैनिक तौर से वह अत्र दुनिया की सबसे सबल शक्ति है, लेकिन शान्ति का पक्षपाती जितना आज वह है, उतना दुनिया का कोई देश नहीं है। यह मानवता के लिये बड़ी प्रसन्नता की बात है, कि मानवप्रगति का सबसे बड़ा समर्थक और सहायक देश समृद्धि और शक्ति में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। अब वह अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ चीन जैसा महान् राष्ट्र है, जो कि दो



पंचवार्षिक योजनाओं को समाप्त करने के बाद रूस की तरह ही समृद्ध और सबल राष्ट्र हो जायेगा ।

अन्त में मैं इस यात्रा के लिखने में सहायक श्री हरिश्चन्द्र पुष्प के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे बोलने का जल्दी जल्दी टाइप करके पुस्तक को निर्विघ्न समाप्त करने में सहायता की ।

हैपीवैली, जसूरी



लेनिनग्राद के जाड़ों (१९४६) में

लेवक :

लेनिनवाद युनिवर्सिटी में 'रवीन्द्र-दिवस' पर भाषण देते हुए लेखक

## १-ईरान में

: परदेश में खाली हाथ :

१९४४ के अक्टूबर के अन्त में किसी तरह पासपोर्ट पाकर मैं रूस के लिए खाना हुआ। स्थल-मार्ग ही सरता तथा उस वक्त निरापद था, इसलिये मैंने ईरान की ओर पैर बढ़ाया। वैसे मेरी कोई यात्रा पैसे के बल पर कभी नहीं हुई, किन्तु उनमें यह सुभीता अवश्य था, कि “तिते पांव पसारिये, जेती लांबी सौर” की नीति का पालन कर सकता था। युद्ध के कारण विदेशी विनिमय का मिलना बहुत मुश्किल था, जो मिलता था वह भी खर्च करने को देश के नाम-निर्देश के साथ। मुझे सवा सौ पाँड विनिमय मिला था, जिसमें मैं १०० पाँड रूस में खर्च कर सकता था और २५ ईरान में। सोचा था दस-पाँच दिन तेहरान में रहना होगा, जिसके लिये २५ पाँड पर्याप्त होंगे, फिर तो बीजा लेकर सोवियत-भूमि में चल देना है, जहाँ लेनिनप्राद विश्वविद्यालय में संस्कृत की प्रोफेसरी प्रतीक्षा कर रही है।

उस वक्त क्वेटा से ट्रेन सीधे ईरान की सीमा के भीतर जाहिदान (पुराना नाम दुश्दावपानीचोर) तक जाती थी। रजाशाह ने जर्मन नावियों की विजय पर विजय देखकर उर्दीयमान सूर्य का स्वागत करना चाहा, किन्तु जर्मन भुजायें इतनी लम्बी नहीं थीं, कि ईरान तक पहुँच पातीं। रजाशाह पकड़ लिए गये, किन्तु दक्षिणी अफ्रीका में नज़रबन्दी कुछ ही महीनों की रही, अला-मियाँ ने बेचारे को अपने यहां बुला लिया और उनके साहबजादे को तख्त पर बैठा दिया गया। अब ईरान के अलग-अलग भागों पर अंग्रेज, अमेरिकन और रूसी सेनायें नियन्त्रण कर रही थीं। जर्मन सेना की विजय-यात्रा पराजय-यात्रा में परिणत हो चुकी थी। इसी समय २ नवम्बर (१९४४ ई०) को सबेरे ६ बजे हमारी ट्रेन जाहिदान पहुँची। हम समझते थे, पिछली दो यात्राओं की भांति कस्टम वालों से अभी काफी भुगतना होगा, किन्तु राज्य की असली वामडोर परदेशियों के हाथ में हो, तो ईरानी अफसरों को बहुत परेशानी उठाने की क्या आवश्यकता ? मैं अभी भी कस्टमरीक्षा की प्रतीक्षा कर रहा था, इसी समय साथ के भाई ने कहा—वह तो ग्रीरजावा (स्टेशन) में ही खत्म हो गया। स्टेशन से लारी ने नगर में पहुँचा दिया। १९३७ से जाहिदान अब बहुत बढ़ गया था—युद्ध की बरकत। भारत से कितनी ही चीजें भी इस समय इसी रास्ते से रूस भेजी जा रही थीं। लारी ने एक अरक्षित सी गराज में जो उतारा था। ऐसी कोठरी में सामान रखकर पासपोर्ट, मोटर टिकट आदि के प्रबन्ध के लिए इधर-उधर की दौड़-धूप करने जाना बुद्धिमानी की बात नहीं थी। मैं अपने दूसरे ही पूर्व-परिचित के ख्याल से सरदार मेहरसिंह (चकवाल) के मकान पर जा पहुँचा। अपरिचित होने पर भी वह बहुत प्रेम से मिले। बेटे की कुड़माई (सगाई) थी, दो कमरों में मिठाइयों और फल की तश्तरियाँ सजी हुई थीं। “मान न मान मैं तेरा मेहमान” तो मैं बनना नहीं चाहता था, किन्तु सुरक्षित स्थान में सामान रखने के लिए लाचार था।

चीजें भारत में भी बहुत मंहगी हो गई थीं, किन्तु यहाँ तो हमारे यहाँ का २० रुपयों का बूट १०० में बिक रहा था। चीजों का दाम भारत से

नौगुना पांच गुना था। उस पर “जोई राम सोई राम” चलता। मैं उसी दिन महाहद के लिये खाना हो जाना चाहता था। दोपहर तक शहरबानी (कोतवाली) के कई नकर लगाये, किन्तु वहाँ पासपोर्ट का पता नहीं था। बतलाया गया, अभी कोरन्तीन से आया ही नहीं। कोरन्तीन के डाक्टर गस्वी ने कहा—न मिले तो लारी छूटने से बचा पहिले आना, मैं तुम्हारा पासपोर्ट दे दूंगा। लेकिन काम इतना आसान नहीं था। किसी ने सरदार लालसिंह का पता दे दिया। उन्होंने ५० तुमान पर (तुमान=एक रुपया, यद्यपि ईरानी बैंक उसे एक रुपये से कुछ अधिक का मानता था) लारी का टिकट खरीद दिया। अगले दिन (३ नवम्बर) को भी सरदार लालसिंह ने दौड़-धूप की, तब दस बजे पासपोर्ट मिल सका, उसके बिना जाहिदान से आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। आदमी अतीत के तरदुदों को जब्दी भूल जाता है, किन्तु ईरान की बस और लारी की यात्रा तो पूरी तपस्या है—शोफर (डाइवर) मुसाफिर की जान-माल के बादशाह हैं, जब मर्जी हुई चले पड़े, जब मर्जी हुई खड़े हो गये। रजाशाही कड़ाई हट गई थी, इसलिये फिर सड़कों पर तुर्की (पर्दा) आम दिखाई देता था, कितनी ही पराडियाँ भी दिखाई पड़ती थीं, यद्यपि हेट बिल्कुल उठ नहीं गई थी।

लारी आठ बजे रात को चली। हमारी लारी में ३५ बस्ती (काश्मीर) तीर्थयात्री भी थे, जो तिब्बती भाषा ही बोल सकते थे। मुझे कभी-कभी दुमाधिया बनना पड़ता था, वैसे अपनी प्रभुता से वह २६ तुमान में ही लारी का टिकट पा गये थे। डाइवर की सीट कह कर मुझ से ५० तुमान लिया गया था, किन्तु वहाँ भी चार मुसाफिर ठूस गये थे। तकलीफ भी बड़े मंहगे भाव मोल लेनी पड़ी थी। नंगी पराडियों की मानसून-वंचित भूमि थी। सड़क बनाने की सामग्री सब जगह मौजूद थी किन्तु सड़कों का भाग्य सुद्ध ने ही खोला था। चार बजे रात तक लारी चलती गई, फिर दो घन्टे के लिए खड़ी हो गई। हम लोग बैठे-बैठे उँचे। सूर्योदय को फिर चले। चाय के लिए मुक़ाब जगह जरा देर ठहरते एक बजे दिन को विरजन्द पहुँचे। गीला लेहमील थारे जाते ही लारी बिगड़ गई, एक बार तो मिसराशा छा गई, किन्तु फेर वार बाद वह फिर चलन हो

गई। रातों-रात मशहद पहुँचने की बात थी, लेकिन ड्राइवर पर नौद सवार हो गई, हमारे दम में दम आई, जबकि दो बजे रात (५ नवम्बर) को उसने गुनावाद में विश्राम लेने का निश्चय किया। वह १० बजे दिन तक सोता रहा। फिर बल्ती यात्रियों से बाकी किराये के लिये भ्रंशट शुरु हो गया, उन्होंने कुछ मुन रक्खा होगा। कहते सुनते २७ ने दोपहर तक किराया चुकाया, फिर लारी आगे बढ़ी। लारी पर यह तीसरा दिन था। एक एक बार के खाने पर राढ़े तीन रुपये खर्च हो रहे थे।

अंधेरा हो चला था। दूर मशहद नगर के चिराग दिखलाई देने लगे। ड्राइवर ने यात्रियों को दिखला कर कहा—“शागिर्द (कलीनर) को चिराग-दिखाई की दक्षिणा दो।” ड्राइवर मानो साथ ही साथ पंडा भी था। लेकिन गरीब बस्तियों ने बड़ी कसाले की कमाई में से कुछ बचाकर मशहद शरीफ में इमाम रज़ा की समाधि के दर्शन के लिये वह यात्रा की थी, चीजों का दाम भी मंहगा था, फिर वह कैसे हर जगह दक्षिणा देते फिरते? उनके इन्कार करने पर शोफर ने “वहशी, जानवर, वर्वरी” जाने क्या क्या उपाधियां उन्हें दे डालीं। एक जगह रूसी सैनिक ने लाल रोशनी दिखा गाड़ी खड़ी कराई, फिर चलकर नौ बजे रात को हम मशहद-शरीफ पहुँचे। पन्द्रह तुमान और सामान का देना पड़ा। दो एक जगह भटकने पर जब होटल में जगह नहीं मिली, तो पंडाजी मूसा साहिब के प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। दुरेकौ (फिटन) ने चार तुमान और मजूर ने दो तुमान लेकर गली में पंडाजी के घर पर पहुँचा दिया। हर जगह के पंडों की भांति यहां के पंडे भी यजमान के आराम का ख्याल रखते हैं और तुरन्त ही सारे सोने के अन्डों को निकलवाने की बात न करने पर भी अधिक से अधिक दक्षिणा पाने की कोशिश करते हैं। मैंने कह दिया— यथाशक्ति तथामवित।

सबरे (६ नवम्बर) रूसी कौन्सल के पास गया। सोचा कहीं यहीं से अशकाबाद होकर बीजा मिल जाये, तो दिकत से बच जाऊँ, किन्तु वह कहीं होने वाला था। रुपये के रूप में लाये सिक्के खतम हो गये थे, अब ईरान में खर्च

कमरे के लिये प्रायः २५ पौंडों पर हाथ डालना था। १० पौंड के चैक के बंक शाहशाही से १२० तुमान मिले, जिसमें ७५ तुमान तो तेहरान की बस का निराया देना पड़ा, तीन तुमान मूसा साहेब की और साढ़े चार तुमान मजूरों को भी। पैसों के पर उग आये थे, उनके उड़ते देर नहीं लग रही थी। सूर्यास्त के समय बस खाना हुई। ७ नवम्बर के दिन और रात चलते रहे। अत्तारी गांव में बारह बजे रात को आराम के लिए टहरे। उताक (कमरे) का किराया दो तुमान (रुपया) दे दिया, लेकिन पीछे पिस्सुओं से परास्त हो बाहर लेटना पड़ा।

सवेरे फिर चले। सभनान की सँडियों का पता नहीं था, अब तो वहां बड़े-बड़े पक्के घर खड़े थे, पेट्रोल जो निकल आया था। रेल भी था गई थी, किन्तु हमें तो बस ही से तेहरान पहुँचना था। दोपहर बाद हाजियाबाद में रूसी चौकी आई। सोवियत कौंसल का दिया पास यहां दे दिया। पास लेने वाला रूसी सैनिक बहुत रूखा था, यद्यपि वही बात उसके एसियाई साथी की नहीं थी।

हमारी बस में अधिकतर यानी तन्त्रेजी तुर्क थे, जिनमें टोपवालों से भगड़ीवाले अधिक थे। साथ में कारतूस-मालाधारी एक सरकारी अफसर सतिब थे जो अपने तिरियाक (अफीम) को बड़े दिखलाने के साथ पीना परान्द करते थे—कानून के बाधा जो थे। ३०-३२ किलोमीटर तेहरान रह गया था, जब कि उनका तिरियाक पकड़ा गया। पहिले उन्होंने कुछ रोब दिखलाना चाहा, किन्तु उससे कुछ बननेवाला नहीं था। बस रुकी रही। कारतूसों माला डाले अभिमान के पुतले तिरियाकी साहब ने १०० तुमान रिश्वत के गिन दिए और साथ ही उन्हें अफीम से भी हाथ धोना पड़ा, फिर जाकर छुट्टी मिली। इस सात बजे रात को ईरान की राजधानी (तेहरान) में पहुँचे।

पहिले तो कहीं पर रखने की जगह बनानी थी, फिर सोवियत चीना की फिकर में पड़ना था। चिरागबर्क सड़क पर ५ कमर कर ६ तुमान रोज का एक कमरा “मसाफिरखाना तेहरान” में मिला। उसी रात पता लगा, यहां २० तुमान (रुपया) रोज से कम खर्च नहीं पड़ेगा, और हमारे पास थे केवल १५



पौड या १६२ तुमान अर्थात् सिर्फ दस दिन की खर्ची। बस से यहां पहुँचाने वाले एक सहयात्री अभी और आशा बाँधे हुये थे। अगले दिन ५ तुमान देकर उनसे पिंड छुड़ाया।

अगले दिन हमाम-कोरवी के पास कूचा-उन्सरी में अपने पूर्वपरिचित आगा अमीर अली दीमियाद से मिलने गये। छ ही साल में इतने बूढ़े मालूम होने लगे! फिर सोवियत कौंसल के यहां गये। कहा गया—पहिले अंग्रेजी दूतावास की सिपारिशी चिठ्ठी लाओ, फिर बात करो। मनमारे पहुँचे अंग्रेजी दूतावास में, और भारतीय विभाग के मुखिया मेजर नकवी के सहायक रिज्वी साहेब से मिले। रिज्वी प्रयाग (शाहगंज) के रहने वाले थे, इसलिये प्रदेशभार्ई और नगरभार्ई के तौर पर बड़े प्रेम से मिले, अगले सात महीनों तक उनका वैसा ही सौहार्द रहा। उन्होंने सोवियत बीजा का मिलना आसान नहीं बतलाया।

हमारे सामने कड़ी समस्या थी—१६२ तुमान और रोजाना २० तुमान का खर्च! वहीं अब्बासी उर्फ बोस महाशय बैठे थे, उनसे भी परिचय हो गया। वह स्वयं अपनी बीबी-बच्ची (ईरानी) लिवाने आये थे। महीनों बीत जाने पर भी कहीं कूल-किनारा नहीं दिखाई पा रहे थे। मेरी चिन्ता में उन्होंने बड़ी संवेदना प्रकट की। रास्ते में उन्होंने अपने ३० तुमान मासिकवाले कमरे को मेरे हवाले करने का प्रस्ताव किया। मैंने सोचा १५० की जगह मकान का ३० ही तो हुआ। उन्हीं के साथ टैक्सी में सामान रखवा के मैं ख्यावान-फरिश्ता के उस घर में चला आया। दीमियाद साहब का मकान भी पास ही था, यह और प्रसन्नता की बात थी। यद्यपि १६२ तुमानों के १५ पौंड के चेक तथा आगे के अनिश्चित समय को देखकर हृदयकम्पन दूर नहीं हुआ था, किन्तु इतना तो समझ गये कि अब २० तुमान से कम शायद १० तुमान में ही रोज का खर्च चल जाये। ६ नवम्बर की रात को बहुत इतमीनान से सोये। अब्बासी अपनी ससुराल में रहते थे, वह वहां चले गये।

अगले दिन चिन्ता दुगने जोर से बढ़ी, जब मालूम हुआ, कि अब्बासी ने दो महीने का किराया मकान, मालकन को नहीं दिया है। तो भी “दुनियां

बा-उम्मीद कायम ।” हम हिसान बांध रहे थे “रोज डेढ़ तुमान की रोटी, भखन, खजूर पर गुजारा और इन्सान के बेटे पर भरोसा । चार तुमान रोज से ज्यादा नहीं खर्च करना होगा । १६० तुमान में १० दिसम्बर तक चलायेंगे । तब भी ३२ तुमान बच जायेंगे । अंगूठी और रिस्वान् की जंजीर के तीन तोले सोने पर तीन मास और खपा देंगे । १० फग्वरी तक यहां इन्तिजार कर सकते हैं ।” बीजा न मिला तो ? सविष्य प्रकाशमान नहीं था ।

अगले दिन ( ११ नवम्बर ) १० पौंड भुनाना जरूरी था । अब्बासी का १५ तुमान उधार था, भुनाकर १२८ में से अब्बासी को १५ देने लगा, तो उन्होंने ५० तुमान किसी जर्दों के काम के लिये सांग लिये और मैंने सहज भाव से दे दिये । अब हाथ में ६३ तुमान तथा ५ पौंड का चेक रह गया । बीजा के बारे में दौड़-धूप करने पर उस दिन की डायरी में लिखना पड़ा, “अपने बारे में तो अभी आशा की किरण नहीं दिखलाई पड़ती ।”

डेढ़ तुमान रोज पर गुजारा करने का निश्चय कर चुका था, किन्तु ( १२ नवम्बर ) को तीन तुमान गर्मीबा ( स्नानागार ) की ही देना पड़ा । १३ नवम्बर तक अब्बासी से परिचय चार दिन का ही गया था और उनके कई दोष-गुण मालूम हो गये थे । उनको दिए पचास तुमानों के लौटने की आशा नहीं थी, ऊपर से दो मास के बाकी किराये के ६० तुमान के देनदार भी बनने जा रहे थे ! लेकिन अब्बासी का दूसरा भी पहलू था, जिससे वह सच्चे मानवपुत्र जंचते थे । वह बहुत अधिक नहीं बोलते थे, साथ ही बहुत अस्पार्शी भी नहीं थे । “न अकं अपि सत्यं स्यात्, प्ररुषे बहुभाषिणी” के अनुसार उनकी बातों में बिस्कुस सत्य का कोई अंश ही नहीं था, यह बात नहीं थी, तो भी उस जंगल में से सत्य को ढूँढ निकालना मुश्किल काम था । यदि ६ नवम्बर को अब्बासी मिले थे, तो अगले दिन आना दीमियाद के यहां दूसरे मानवपुत्र मिर्जा महयूद अस्पहानी से भी परिचय प्राप्त हुआ ।

## : तेहरान में :

मैं सन् १९४४ के जाइों में तेहरान पहुँचा था। ७ नवम्बर (१९४४) से २ जून (१९४५) तक वहीं इस आशा में पड़ा रहना पड़ा, कि बीजा मिले और सोवियत के लिए खाना हो जाऊँ। यद्यपि यह आवश्यक तथा बहुत कुछ दुर्भर प्रतीचा थी, लेकिन करता तो क्या करता ? सोवियत बीजा तभी मिला, जब यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया, और जर्मनी ने हथियार डाल दिया, लेकिन इस सात महीने की प्रतीचा को बिल्कुल बेकार भी नहीं कहा जा सकता। तेहरान उस वक्त अन्तर्राष्ट्रीय अखाड़ा केवल राजनीतिक बल्कि सैनिक अखाड़ा भी था। राजनीतिक अखाड़ा बल्कि ही नहीं तब नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि ईरान के बिल्कुल अमेरिका के हाथ की कठपुतली हो जाने के कारण खेल बराबर पर नहीं हो रहा था।

तेहरान मेरे देखते देखते बहुत बढ़ गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह एक लाख से कुछ ही अधिक का पुराने ढंग का नगर था। उसकी गलियाँ तंग और अंधेरी थीं। चौड़े रास्तों की ही सड़क कहा जाता था, पक्की सड़कों का उस समय कहीं पता नहीं था। १९३५ में जब पहलपहल में तेहरान पहुँचा, तो वह दो लाख से कुछ ऊपर का शहर था। सड़कें चौड़ी, सीधी और पक्की हो चुकी थीं। सड़कों पर विशेष कर केंद्रीय स्थानों में आधुनिक ढंग की इमारतें खड़ी थीं। १९३७ की द्वितीय यात्रा में शहर का आकार काफी बढ़ गया था, भारत से लौटे मेरे ईरानी मित्र आगा दीमियाद ने अपना मकान शहर के छोर पर बनवाया था, जहाँ आसपास बहुत सी खाली जगह पड़ी हुई थी। ७ बरस बाद तीसरी यात्रा में अब उनका मकान घनी बस्ती के भीतर था, और आवादी

७-८ लाख से ऊपर हो चुकी थी, जिसमें भिन्न-शक्तियों की सेनायों और वृद्धि कर रही थी। यद्यपि अंग्रेजी, अमेरिकन और रूसी सेनाओं के रहने के लिये शहर से बाहर अलग-अलग स्थान नियत थे, किन्तु तो भी सेना का शहर से सम्बन्ध तो था ही। साधारण नहीं तो असाधारण शौकीनी की चीजें खरीदने के लिए सैनिकों को वहां जाना पड़ता था। सिनेमा और दूसरी मनोरंजन की सामग्री भी वहां थी। सड़कों पर अपने-अपने देश की बर्दियां पहिने सैनिक घूमा करते थे।

ऊँचे स्थानों की राजनीति तो यही थी, कि रजाशाह—जिसे नये ईरान का निर्माता कहा जाता है—जर्मन नाजियों का पक्षपाती था। उसने मुत्ताओं की धर्मान्धता के विरुद्ध ईरान के जातीय अभिमान को खड़ा किया। हरेक रजाशाही ईरानो तरुण अरबों और अरबी संस्कृति पर ४ लात लगाकर अपने को कौशेश और दारयोश के आर्यत्व का उत्तराधिकारी मानने लगा। हिटलर के आर्यत्व के प्रचार के पहिले ही रजाशाह ने अपने यहां उसकी भ्रजा गाड़ दी थी, इसलिये कोई आश्चर्य नहीं, यदि हिटलर की नीति के साथ ईरान ने भी अपनी नीति को जोड़ लिया। लेकिन यह नीति का जोड़ना केवल आर्यत्व की भावना के कारण नहीं हुआ। जर्मनी ने जिस तरह यूरोप के प्रायः सारे भाग को हड़प कर अफ्रीका की ओर पैर फैलाया था, उससे रजाशाह को विश्वास हो गया था, कि अबकी विजय जर्मनी की होगी। इसीलिये उसने उगते सूर्य को नमस्कार करना चाहा। चाहे इंग्लैंड और अमेरिका अभी अफ्रीका में हिटलर के बढ़ाव को न रोक सकते हों, किन्तु रजाशाह की रक्षा के लिए हिटलर की धांढ अभी उतनी बर्दा नहीं थी; इसीलिये एक ही भ्रोक में भिन्न-शक्तियों की सेनाओं ने ईरान को अपने अधीन कर लिया, रजाशाह को बन्दी बना उसे दक्षिण-अफ्रीका भेज दिया। रजाशाह ने एक साधारण तुर्क-परिवार से बढ़कर एक राजवंश की स्थापना की, इसलिये उसका गद्दी से बंचित होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसका लड़का (वर्तमानशाह) तो शाहजदा था। हिटलर को हराने के लिये रूस की सहायता की आवश्यकता भलेही मालूम होती हो, किन्तु इंग्लैंड और अमेरिका रूसी राजव्यवस्था को झूत की बीमारी समझते थे। जिस समय जर्मन सेना रूस के भीतर बढ़

रही थी, उस समय रूस इस स्थिति में नहीं था, कि अपनी किसी बात के लिये जिद करे। ब्रिटिश तथा अमेरिकन साम्राज्यवादी सिर्फ उस समय होती लड़ाई को जीतने की ही फिक में नहीं थे, बल्कि युद्ध के बाद के अपने साम्राज्य की भी विन्ता करते थे। इसलिये वह किसी तरह का भारी हेरफेर नहीं होने देना चाहते थे। इस प्रकार रजाशाह युद्ध की भेंट हुआ, किन्तु उसका राजवंश बना दिया गया।

तेहरान की सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में घूमते इन विदेशी सैनिकों को देखकर मालूम हो जाता था, कि ईरान अपने वश में नहीं है। लेकिन जहां तक रोज-रोज के शासन का सम्बन्ध था, वह ईरानियों के ही हाथ में था। रजाशाह की हकूमत एक तानाशाही या आभिजात्य तानाशाही हकूमत थी। उसमें साधारण जनता या साधारण बुद्धिजीवियों को अपनी आवाज बुलन्द करने का कोई अधिकार अथवा अवसर प्राप्त नहीं था। सारे देश में खुफिया पुलिस का जाल बिछा हुआ था। ईरानी स्त्री-पुरुष देश के भीतर भी एक जगह से दूसरी जगह जाते गिरफ्तार होके रहते, यदि उनके पास अपने चित्र सहित जावाज (पासपोर्ट) न रहता। एक तरफ रजाशाह ने इस तरह सारे देश को जकड़बन्द कर रखा था—जिससे उसके शत्रुओं का सर्वथा उच्छेद भी नहीं हो गया था—, लेकिन दूसरी ओर वह कमी-कमी अपनी निर्भक्ता को भी दिखलाना चाहता था। १९२७ में एक बार मैं सरकारी सचिवालय के पास से जाने वाली सड़क पर जा रहा था, उसी समय एक कपड़े के हड़वाली साधारण मोटर पर ड्राइवर के पास बैठे एक आदमी को जाते देखा। तस्वीर देखने से चेहरा परिचित था, इसलिए मुझे संदेह हुआ लेकिन सन्देह की गुन्जाइश नहीं रही, जबकि आसपास और कितने ही लोगों को उधर गौर से देखते तथा “आला हजमत” का नाम लेकर इशारा करते देखा। अब भी जावाज आदि के सम्बन्ध में रजाशाहों का नून का ही पालन हो रहा था, किन्तु युद्ध ने बहुत सी बंधी हुई मुश्कों को खोल दिया था। २०-२० बरस तक जेल में सड़ के अनेक देश-भक्त बाहर निकल आये थे। सोवियत की सेनाओं पास में मौजूद थीं, जिनसे मजूरों और बुद्धिजीवियों का साहस बढ़ गया था। उनका

संगठन तूट (जनता) बहुत भङ्गलूत होता जा रहा था। बुद्धिजीवियों पर उसका काफी प्रभाव था—आज तूटा अवैध संस्था है। साम्यवादी अक्सर को बढ़ते देखकर भी ऐंगलो-अमेरिकन साम्राज्यवादी युद्ध के वक्त उसे दबाने के लिये कुछ नहीं कर सके। युद्ध के बाद उन्होंने ईरान को अपने लिये सर्वथा सुरक्षित बनाना चाहा, लेकिन सोवियत के कारण उन्हें साहस नहीं हो रहा था। ईरानी आज़ुर्वायजान—काकेशस पर्वतमाला तथा कास्पियन समुद्र के बीच में अवस्थित विशाल आज़ुर्वायजान का ही एक अंश है। इसका उत्तरी भाग अर्थात् सोवियत आज़ुर्वायजान एक स्वतन्त्र प्रजातन्त्र के तौर पर सामूहिक खेती और उद्योग-धंधों से सम्पन्न सुशिक्षित राष्ट्र हो गया है, जब कि ईरानी आज़ुर्वायजान सब तरह से पिछड़ा हुआ प्रदेश था। युद्ध के समय सोवियत के नागरिकों के साथ साक्षात् सम्पर्क हुआ। उन्होंने देखा कि सोवियत सेना में किस तरह आज़ुर्वायजानी, तुर्कमान, उज़बेक, काज़ार, रूसी या उकरैनी सभी एक समान पूर्णबन्धुता के साथ रहते हैं। इसका अक्सर इन पर पड़ना जरूरी था। ईरानी आज़ुर्वायजान ने स्वतन्त्रता की मांग नहीं की, बल्कि अपना स्वायत्त शासन स्थापित कर लिया; जिसे अमेरिका की मदद से ईरानी सरकार ने बड़ी बुरी तरह से दबा दिया। जब देस लिया, कि सोवियत राष्ट्र युद्ध को आगे बढ़ाने का कारण नहीं बन सकता, तो अमेरिका की शह में पड़ कर ईरानी सरकार ने सभी तरह के बामपंथी संगठनों को नष्ट करने का निश्चय कर लिया। आज जिन संगठनों को लुक-द्विप कर ही काम करने का मौका मिलता है, उस समय उन में जान था।

भिन्न-शक्तियों के सैनिकों के सम्बन्ध में ईरानियों की क्या राय थी, इसके बारे में मैं एक ईरानी मद्र महिला की बात सुनाता हूँ। उनके पिता भारत में कई साल से रह रहे थे, और शायद अब भी यहाँ हैं। अपनी शिला-दीदा से उक्त महिला को अर्थ-भारतीय कहा जा सकता है। वह कह रही थी; जिस फुट-पाथ पर मैं चल रही हूँ, अगर उसी पर सामने से अमेरिकन या ब्रिटिश सैनिक आता देखूँगा, तो मैं पहिली ही उसे छोड़ कर दूसरी ओर के फुटपाथ से चलने

लगाएंगी; लेकिन अगर सामने से कोई रूसी सैनिक आता हो, तो मैं ज़रा भी नहीं हटूंगी। मैंने कहा—तब तो आप उसको धक्का देती चली जायेंगी। महिला ने हंसते हुए कहा—हां बिल्कुल ठीक है, धक्का लग जाने पर भी कोई डर की बात नहीं है। रूसी सैनिकों के बारे में वहां तरह तरह की दस्त-कथारों प्रचलित थीं। एक दिन भारत से लौटे एक दूसरे ईरानी विद्वान की बृद्धा पत्नी कह रही थीं—हम लोग माजन्दरान के रहने वाले हैं, जो रूसी सीमा के पास है। वहां रूसी सैनिक छावनियां डाले पड़े हुये हैं। एक बात उनके बारे में अभी सुनी, किसी रूसी सैनिक ने किसी के बाग से बिना पूछे बिना दाम दिए एक सेब तोड़ लिया था, जिस पर उसे सरे-बाज़ार कोड़ा लगाने की सज़ा हुई थी। क्या यह अति नहीं है? मुझे इस घटना की सत्यता-असत्यता का क्या पता था, कि जवाब देता। लेकिन रूसी सैनिकों को लोग अग्र होने की सीमा से परे समझते थे। अमेरिकन सैनिक दोनों हाथ से पैसों लुटाते थे। ईरानी और उनसे भी ज्यादा रूसी-क्रांति के वक्त भागे श्वेत रूसी तो समझते थे कि उनके पास सोवियत की खान है। पहिले महीने-दो-महीने तक जिस घर में मैं रहता था, उसके पास के कमरे में एक श्वेत रूसी बृद्धा अपनी तरफ़ी पुरी के साथ रहती थी। उनके यहां जब तब कोई अमेरिकन सैनिक आता रहता था। वह तो मना रही थीं, कि मेरी लड़की किसी अमेरिकन के साथ ब्याह कर लेने का सौभाग्य प्राप्त करे, तो भाग्य खुल जाये।

तेहरान में भारतीय सैनिक भी कई हज़ार थे। प्रथम विश्वयुद्ध के समय भी ईरान में कहीं कहीं भारतीय सैनिक रहे थे, किन्तु तब भारतीय केवल सिपाही भर होते थे। अब तो कितने ही कप्तान, मेजर और कर्नल थे। लेकिन अभी हिन्दुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिये भारतीय सैनिकों के प्रति किसी का कोई भाव-दुर्भाव नहीं था। उनका वेतन भी कम था, इसलिये पैसा खर्च करने में उतनी मुक्तहस्तता नहीं दिखला सकते थे, जितने कि अंग्रेज और अमेरिकन सैनिक।

युद्ध ने सभी जगह चीजों का मूल बढ़ा दिया था। भारत में भी रुपये

का दो मर आटा हो गया था, १० रुपये के जूते २० रुपये में बिक रहे थे, लेकिन तेहरान में तो वह जूता सी पर भी नहीं मिलता। वहां सभी चीजें बहुत महंगी थीं। १९३५ में दो आना या छ पैसा सेर बढ़िया अंगूर बिकता था, और अब वह उसी भाव बिक रहा था, जिस भाव में बस्वई या लाहौर में। खाने की चीजें भी बहुत महंगी थीं। विदेशी सेनायें अपने देश से पैसा मंगाकर यहां खर्च कर रही थीं, इसलिये पैसों की कमी नहीं थी। रोजगार की भी कमी नहीं थी। सैनिकों के उपयोग की भी बहुत सी चीजें बाजार में चली आती थीं। वहां ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेंच, भारतीय सभी देशों के बने सिगरेट मिलते थे। सिनेमा खोलने में तो इन देशों ने एक दूसरे से होड़ भी लगा रखी थी। कितने ही सिनेमाघरों को अमेरिकनों ने किराये पर ले लिया था, जहाँ उनके फिल्म चलते थे। अंग्रेजों के भी दो या तीन सिनेमा चल रहे थे। रूसी भी अपना सिनेमा-हाल खोलते हुये थे। भारत ने अपनी ओर से कोई सिनेमा नहीं खोला था, क्योंकि भारत की उस वक्त पूछ ही क्या थी, लेकिन हमारे यहां के फिल्म तेहरान में कई सिनेमाहालों में दिखाये जाते थे, और वह होते थे, ज्यादातर “भिस्तौलवाली” “हन्टरवाली” टाइप के। यद्यपि इस तरह के फिल्मों को देखने के लिये और जगहों से अधिक भौंड रहती थी, किन्तु भारत के लिए वह गौरव की बात नहीं थी।



## : अकारण बन्धु :

८ नवम्बर १९४४ की शाम को करीब करीब खाली हाथ में ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ा आशावान पहुँचा था। सोचा था जल्दी ही रीवियत बीजा मिल जायेगा और मैं लेनिनग्राद पहुँच जाऊँगा। उस वक्त कहां मालूम था, कि ३ जून १९४५ को प्रायः सात महीने बाद में तेहरान से आगे बढ़ सकूँगा। तेहरान में जो प्रथम भारतीय मित्र मिले थे, उनका असल नाम तो था अभयचरण, किन्तु वह बने थे अश्वत्थामा या सुकरुत्ताह अब्बासी। उस गाढ़ के समय हाथ में बच्चे कुछ तुमानों में से भी कितने ही को बात बनाकर पेंड लेने से उनके बारे में कोई निर्णय कर बैठना भारी गलती होगी। उनमें परस्पर विरोधी पृष्ठितियों का अद्भुत संमिश्रण था। कभी वह सोलह-कलापूर्णा देवता धन जाते थे और कभी उनका रूप कुटिल शैतान जैसा मालूम होता था। उनके बारे में आगे कहूँगा। पहिली यात्रा के परिचित वृद्ध आगा अमीरखली दीमियाद हमारे उस घर से नज़दीक ही थे, जिसमें कि अब्बासी ने मुझे ले जाकर टिकाया था और जिसके बारे में आगे मालूम हुआ, कि महीनों का बाकी किराया अब मुझे चुकाना पड़ेगा। ६ तारीख को ही दौड़ धूप करने से पता लग गया, कि बाँजा इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं है। उसी दिन दीमियाद साहब से मिल आया था। १० नवम्बर को ४८ घंटा तेहरान में रहने के बाद अब अपनी आर्थिक कठिनाइयों सामने नंगी खड़ी मालूम हो रही थीं। घराने से कोई लाभ नहीं था, किन्तु कहीं से भी आशा की किरण दिखलाई नहीं पड़ती थी। मैं १० नवम्बर को सबेरे दीमियाद साहब के घर गया था। वहाँ एक हंसमुख प्रौढ़ गीरे चहरे वाले पुरुष से मुलाकात हुई। उसकी काली आँखों में एक तरह की विशेष चमक दिखलाई

पड़ती थी, जिससे स्नेह और बुद्धि दोनों का आस्वास मिलता था। दामियाद साहब, उनकी लड़की ताहिरा और उक्त सज्जन (मिर्जा महमूद अस्पहानी) से दो घन्टे तक बातचीत करने में अपनी सारी चिन्तार्यें गूल गया था। उन्हीं के साथ में सैयद मुहम्मद अली “दाइउल-इस्लाम” के घर गया। दाइउल-इस्लाम कई सालों से हैदराबाद में रहते थे, जहाँ रहकर उन्होंने “फरहंगे-निज़ाम” नामक एक फारसी कोश लिखा था। उनकी तीन लड़कियाँ यद्यपि ईरान के पक्षपात के कारण अपने पितृदेश में आ गई थीं, किन्तु उनमें हिन्दुस्तानियत की वृत्तितनी अधिक थी, कि वह ईरानी बन जाने के लिये तैयार नहीं थीं। दो बड़ी लड़कियों में एक एम० ए० और दूसरी एम० एस्० सी० थी। छोटी छुनियर केम्ब्रीज पास थी। पिता का मकान हैदराबाद में भी था, किन्तु वह चाहते थे, अपनी लड़कियों का ब्याह ईरानियों से करना। मिर्जा महमूद ईरानी-हिन्दुस्तानी थे, इसलिये वह दामाद बनने के योग्य थे। उनकी हिन्दुस्तानी बोली भर गई थी, इसलिये वह शादी करना चाहते थे, किन्तु बड़ी लड़की से नहीं, जिसे की दोस्त लोग पूरी गौ कहते थे। वह सदा नमाज़-रोज़े रखने वाली भोलीभाली तथा रूप में भी कुछ कम लड़की महमूद को क्यों पसन्द आने लगी? बाकी दोनों में से किसी के साथ विवाह करने को वह तैयार थे, किन्तु पिता अपनी जेठी कन्या को कुमारी रख कर दूसरी का विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे। अन्त में उन्हें मम्हली लड़की का विवाह पहिले करना पड़ा, और महमूद को भी इच्छा या अनिच्छा से अपनी सौतेली माँ की छोटी बहन के साथ निकाह कराना पड़ा।

उस दिन हम दोनों आठ-दस घन्टे साथ-साथ रहे। आठ-दस घन्टा आदमी के पहिचानने के लिए काफी नहीं हैं, लेकिन जान पड़ता है खुलकर बातें करते सुनते एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने की भूमिका तैयार हो गई थी। महमूद के पिता बड़े व्यापारी थे। कलकत्ते के अस्पहानी ब्रादर्स के पिता और वह दोनों सगे भाई थे। दोनों का कारबार भी बहुत दिनों तक साम्भे में था। उनका कारबार विलायत तक था। रुपया कमाने और उड़ाने दोनों में वह बड़े बहादुर थे। मदिरा, मदिरेशणा के अनन्य साथक थे, जिसके लिये अत्यन्त उपयुक्त स्थान

समझकर बुढ़ापे में उन्होंने तेहरान का निवास स्वीकार किया था। उद्घात-पद्घाते भी उन्होंने चार-पांच लाख की जायदाद तेहरान नगर में अपने मरने के समय (१९४३ ई०) छोड़ी थी। लड़ाई के समय चीनी का भाव बहुत बढ़ गया, खास कर ईरान में तो वह सोने के मोल बिक रही थी। वृद्ध सौदागर को इसका आभास पहले ही मिल गया था, और उन्होंने दसियों हजार बोरा चीनी हिन्दुस्तान से मंगाली, जिसमें तेरह चौदह लाख रुपये का नफा हो गया। चीनी के बोरे हिन्दुस्तान की सीमा (नोककुंडी) में आकर अटके हुए थे, जहां से निकाल लाने के लिये पिता ने कलकत्ते से महमूद को बुलाया। महमूद ने चीनी पार कराई। कह रहे थे; यदि वह चीनी आज रही होती, तो नफा एक करोड़ का होता। महमूद के तेहरान पहुँचने के पांच मास बाद पिता मर गये। अब्र उनकी जायदाद को बेचने और उसमें से अपना हिस्सा लेने की समस्या महमूद के सामने थी। उनके सौतेले भाइयों और चहनों की संख्या काफी थी, जिनमें से कुछ भारत में और कुछ ईरान में थे।

१७ नवम्बर तक हम दोनों का परिचय छनिष्ट भिन्नता में परिणत हो गया था। महमूद खुले दिल के आदमी थे, जिसका यह अर्थ नहीं, कि समझ में कसर रखते थे। मेरे भीतर भी उन्होंने कुछ समानता देखी और यह जानने में भी दिकत नहीं हुई, कि मैं किस कठिनाई में पड़ा हूँ। मेरे पास दो-तीन तोले सोने, तथा एकाध और चीजें थीं, जिनके बेचने की मैं सोच रहा था। इसी समय महमूद ने कहा—चलो फकीरों की भोंपड़ी में, संकोच मत करो। उनके फकड़ स्वभाव से भी मैं परिचित हो चुका था। तेहरान विश्वविद्यालय के समीप ही तिमहले पर दो कोठरियाँ उन्होंने ले रखी थीं। बहुत मामूली सामान था। एक नौकरानी (रुकैया) थी जो खाना बना दिया करती थी। महमूद नौ बजे दफ्तर चले जाते थे, उन्होंने एक ईरानी सौदागर के साथ कुछ कारबार शुरू किया था। मैं या तो बीजों के लिए कोशिश करने ब्रिटिश तथा सोवियत-दूतावास का चकर लगाता, या कहीं से कुछ पुस्तकें पैदा करके पढ़ता। महमूद के आने पर कभी हम दीमियाद साहब के यहाँ जाते और कभी दाइउल

इस्लाम के यहां । उनकी सीतेलो मां और पिता के घर भी जाते थे । उस समय बुद्ध के कारण तेहरान में भारतीय सेना भी काफी संख्या में मौजूद थी, इसलिये कभी कभी भारतीयों से भी मिलने चले जाते । तेहरान में अमेरिकन, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी ही नहीं कुछ हिन्दी फिल्म भी दिखाये जाते थे । हिन्दी फिल्मों में “पिस्तौलवाली” जैसे बहुत नीचे दर्जे के फिल्म ही अधिक थे ।

एक दो सप्ताह तो मुझे यह बहुत बुरा मालूम होता था,— कि मैं क्यों अपने दोस्त पर अपना भार डाल रहा हूँ, किन्तु पीछे उनके स्वभाव से अधिक परिचित होने के बाद वह संकोच जाता रहा । दाइउल्-इस्लाम की ज्येष्ठ कन्या जाहिरा ने एक दिन उस्मानिया विश्वविद्यालय के एम० ए० के अपने निबन्ध को सुनाया । मुलन्टों या पुराने पंडितों जैसी खोज थी—अशोक एकेश्वरवादी था । वह ईरान के अस्सामनी (द्वारा) खानदान में पैदा हुआ था । उसने परसेपोलिस के कारीगरों को बुलाकर भारतवर्ष में इमारतें बनवाई थीं । अशोक का दादा चन्द्रगुप्त ईरान के नगर मूस से भाग कर आया था, जो कि परसेपोलिस (तश्नेज-अशोद) का ही दूसरा नाम था । अशोक बौद्ध नहीं था । अजन्ता की गुफायें बौद्ध विहार नहीं थे, बल्कि पुलकेशी और दूसरे दक्खिनी राजाओं की चित्रशालायें हैं, जिनमें उनकी वास्तविक जीवनी और इतिहास लिखा हुआ है । उनका बुद्ध और बौद्ध भिक्षुओं से कोई सम्बन्ध नहीं, बुद्ध ने तो चित्र और मूर्तियां बनानी मना कर दी थीं, फिर बौद्ध भिक्षु इन्हें कैसे बना सकते थे ? यह शृंगारी मूर्तियां और चित्र बौद्ध भिक्षुओं के बनाये कभी नहीं हो सकते । मैंने बड़े धैर्य से जाहिरा खानम के निबन्ध को सुना । मुझे आश्चर्य होता था, उस्मानिया विश्वविद्यालय के उस प्रोफेसर के ऊपर, जिसकी देखरेख में यह निबन्ध लिखा गया ।

दाइउल्-इस्लाम साहेब अरबी-फारसी ही नहीं, संस्कृत भी काफी जानते थे । वह तेहरान विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ा सकते थे, किन्तु “धोबी बस के फा करे, दीगम्बर के गांव” वाली कहावत थी । उनके पास भी काफी समय था, भेरे पास भी कोई काम नहीं था और महमूद को भी थोड़ा ही काम था ।

इसलिये हर दूसरे-तीसरे हम लोग दाइउल्-इस्लाम के यहां पहुँच जाते थे । अभी भी लोग महमूद से निराश नहीं थे । महमूद की बीवी भर चुकी थी, किन्तु उनके बच्चे कलकत्ते में थे, जिनसे पिता का काफी प्रेम था । वह विवाह करने के लिये पहिले एक परी की आँखों के शिकार हुये । उसने भी कई महीने उन्हें अपने प्रेम-पाश में बाँध रखा, किन्तु उसके मां-बाप राजी नहीं हुये । लम्वार हो उसे उनकी आज्ञा के सामने झुकना पड़ा । अब महमूद के सामने पाँच लड़कियाँ थीं । ताहिरा को वह ज्यादा पसंद करते, किन्तु मेरे आँख पर वह समझने लगे, कि वह स्वतंत्र प्रकृति की नारी है, उससे नहीं निभेगी । जाहिरा को वह कहते थे—यह काठ का कुन्दा है, जिसे नमाज पढ़ने से ही फुर्सत नहीं । हमारी उसके साथ संवेदना थी, क्योंकि वह पैंतीस साल की हो चुकी थी । उसके एक ईरानी चचेरा भाई, जो बड़ई का काम करता था, विवाह करने के लिए तैयार था, किन्तु जाहिरा ने उसे इन्कार कर दिया । मम्बली सिद्धीका (एम. एम. सी.) शुद्ध ईरानी श्वेत रक्त को चाहती थी, और पिता तो “बड़ी लड़की की शादी हुए बिना उसकी शादी कैसे करें” का बहाना कर देते थे । सीतेली माँ की छोटी बहन पट्टी-लिखी नहीं थी, किन्तु अठारह वर्षीया सुन्दरी गोरी थी । महमूद का ख्याल उस पर नहीं जाता था । क्योंकि सीतेली माँ के परिवार पर उनका विश्वास नहीं था, बयालीस तथा अठारह बरस के अंतर का भी ख्याल आता था । मैं बाज बक्त कह देता था— कि आदर्श पत्नी तो जाहिरा ही हो सकती है । किन्तु जब तक दूसरी नवतरुणियाँ हैं, तब तक इस शुष्क चिरतरुणी को कौन पूजेगा ? दाइउल्-इस्लाम के पड़ोस में एक और सुशिक्षित संस्कृत महिला थी जिसे मधुश्रावणी काव्यमयी सुन्दरी कहा जा सकता था, किन्तु उनका सम्बन्ध हुआ था ऐसे आदमी के साथ जिसे देखकर महमूद आश्चर्य करते थे । मैंने कहा—अज्ञामियाँ अपने गदहों के सामने अंगूर फेंकता है, इसमें हमारा तुम्हारा क्या ?

मेरे आने के महीने भर बाद महमूद को सीतेली माँ से मुलाह हो गई । यद्यपि वह चाहते थे, कि साइयों की सहायता करें, किन्तु वह जागदाद के

सम्बन्ध में चाल चल रहे थे । फिर उनकी क्या पट्टी थी, खामखवाह परदेश में आकर भगड़ा भौल लेते ? मुलह का मतलब था— अब शादी इज्जत से होनी । वह मानते थे— कि यह सुन्दर तरुणी है, शिक्षित न होने पर भी और गुण उसमें हो सकते हैं, किन्तु वह शीराज के उसके खानदान पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे । लेकिन उनके पिता आगा हाशिम अस्पहानी भी तो उसी खानदान में शादी कर चुके थे ।

दिसम्बर के अन्त तक मैं आर्थिक तौर से अब निश्चिन्त हो चुका था । मेरे मित्र सरदार पृथ्वीसिंह ने दम्बई से हजार रुपये भेज दिये थे, उधर प्रकाशक से भी ५०० रुपये आ गये थे । जरूरत पड़ने पर और भी रुपये आ सकते थे । जब मुलह हो चुकी, और छोटी ब्रह्म के साथ ब्याह की भी बात तै री हो चुकी, तो सौतेली मां जोर देने लगी— कि यहीं चले आओ, क्यों अलग रह कर अपना खर्च बढ़ाते हो । १६ दिसम्बर को चारों ओर बरफ फैली हुई थी । आठ-नौ बजे तक हिमवर्षा जारी थी । उसी दिन ग्यारह बजे सामान घोड़ामाड़ी पर लदवा कर हम नाजिमरतुज्जार आगा हाशिम अली अस्पहानी के घर पर चले आये । अब से पांच महीने के लिये इस्मत खानम् का यह भवना मेरा भी निवासस्थान बन गया । महमूद अकेले रहते थे, तब तो उनके स्वभाव से परिचित हो जाने के कारण संकोच का कारण नहीं था, किन्तु यहां मेरे सामने फिर समस्या आई—अनिश्चित काल के लिये कैसे मेहमान बनूं । मेरे पास अब पैसा भी था, किन्तु भारतीय शिष्टाचार की तरह पैसा देने वाला मेहमान रखना वहां भी शान के खिलाफ समझा जाता है । भवितव्यता के सामने सिर झुकाना पड़ा । मैं इस्मत खानम् की मेहमानी का प्रतिशोध रुपये पैसे में नहीं कर सकता था । वस्तुतः वह घर छोड़े ही दिनों बाद मेरा घर हो गया । घर के सभी लोगों के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु गृहस्वामिनी का वर्तव्य बहुत ही गम्भीर और मधुर था । इन पांच महीनों में एक ईरानी मध्यमवर्गीय परिवार में चौबीसों घण्टे रहकर मैंने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा । इस्मत खानम् सितार बहुत सुन्दर बजाती थीं, जिससे

प्रायः रोज ही रात के भोजन के बाद हमारा मनोरंजन हुआ करता था । महमूद जब इज्जत के साथ विवाह करने को तैयार हो गये, तो फिर उनकी बड़ी बहन ने सौदा करना शुरू किया । यह कोई लुरी बात नहीं कही जा सकती । जिस देश में पुरुष किसी भी वक्त स्त्री को तलाक दे सकता है, वहाँ यदि आर्थिक सुरक्षा की चिन्ता की जायें, तो क्या आश्चर्य है ? दिसंबर के अन्त में मोहर्रम का पवित्र महीना आ गया । ईरान शीया देश है । वहाँ इमाम हुसैन की शाहादत ( वीरगति ) का बहुत मातम मनाया जाता है । २५ दिसम्बर को उस साल इमाम हुसैन का “रोजेकल्ल” और ईसा का भी जन्म-दिन था । नवीन ईरान में अब मोहर्रम के लिये स्त्रियों का “गिरिया” (रोदन) और पुरुषों की “सीना-जनी” ( छाती पीटना ) अब बन्द कर दिया गया है । खानम् के घर में एक दिन एक मुल्ला १५ मिनट के लिए आया । उसने कुछ गरिया गाये और खानम् ने कपड़े में मुँह छिपा कर रोदन किया ।

अब बेरी दिनचर्या थी । सबेरे सात-साढ़े-सात बजे उठ कर हाथ मुँह धोना, हजामत से निबट, फिर परिवार के साथ पनीर-मक्खन-मोटी और तीन गिलास बिना दूध की मीठी चाय पीना । आठ-नौ बजे के करीब मैं उस कमरे में पहुँच जाता था, जहाँ “कुर्सी” के नीचे परिवार के लोग बैठे रहते थे । सरदाँ के कारण मकान को गरम करने की आवश्यकता होती है, किन्तु मध्य-एशिया, अफगानिस्तान और ईरान में लकड़ी दुर्लभ है, इसलिये लोगों ने “कुर्सी” का तरीका निकाला । गज भर लम्बी गज भर चौड़ी हाथ भर ऊँची चौकी “कुर्सी” है, जिसके ऊपर चौकी से दो दो हाथ बाहर निकली मोटी रजाई रख दी जाती है । चौकी के नीचे अंगीठी में कोयले की आग रहती है, जिससे कुर्सी गरम हो जाती है । लोग उसी चौकी के चारों ओर मसनद के सहारे बैठकर छाता तक शरीर को रजाई के नीचे डूबा देते हैं । बहुत कम खर्च में गरम रखने का यह सुन्दर तरीका है । कुर्सी के नीचे बैठे बैठे पढ़ना या गप्पे मारना यही काम था । मेरे लिये तो इन गप्पों से भी बहुत लाभ था, क्योंकि घात केवल फारसी में ही बात हो सकती थी । एक बजे रसोईदारिन भोजन तैयार करके

जाती थी, जिसमें तंदूर की सौंटी रोटियाँ, चावल या पुलाव, गोश्त या भाजी, कुछ हरी पत्तियाँ, सिरका या सिरकावाली प्याज मुख्य तौर से रहते थे । यदि आहर जानस नहीं होता, तो मध्याह्न भोजन के बाद, फिर वहीं पढ़ना लेटना या धार्त करना; तीन-चार बजे फिर दो-तीन गिलास मीठी चाय पीने को मिलती । शाम को सात-आठ बजे रात्रि-भोजन होता था, जिसमें चावल, मांस, सब्जी, सिरका, रोटी, कलबासा ( सौसेज ) मुख्य होता । भोजन के बाद पोर्तगाल ( मुरंबी ) या कोई दूसरा फल भी रहता । फिर ग्यारह बारह बजे रात तक संगीत या अप छिड़ी रहती । महमूद के साथ मेरा और मेरे साथ महमूद का दिल बहलाव ही नहीं होता था, बल्कि हम एक दूसरे की चिन्ता में सहायक होते थे । ब्याह का सोदा कभी कभी कड़ा रुख ले लेता, उस वक्त महमूद बहुत बबड़ा उठते ।

जनवरी के अन्त में अभी भी सरदी काफी थी । ईरानी वच्चे सूर्य देवी से प्रार्थना करते थे—

खुश्रादखानम् आफताब कुन् । यक्सेर विरंज तूये-आब कुन् ।

( सूर्य देवी धूप कर । एक सेर चावल पानी खे डाल )

मा बच्चहाये-गुर्गं पुम् । अज-सर्माय भ-मुरेम ।

( हम वच्चे मेड़िया के हैं । सरदी से भर रहे हैं )

लेकिन खुश्राद खानम् में अभी इतनी शक्ति नहीं थी, कि बच्चों को आफताब ( धूप ) दे सके । २५ मार्च को भी चिनार, सफेदे, अंगूर आदि में कहीं पत्तों का चिन्ह नहीं था । ६ अप्रैल को सफेदे के पृत्तों में अभी पत्ते कलियों की शकल में फूट रहे थे । हाँ कुछ दूसरे पृत्तों में हरे पत्ते निकल आये थे ।

एक दिन इस्मत खानम् महमूद के नमाज न पढ़ने की शिकायत कर रही थीं—“मुनाह अस्त, बराय हर मुसलमान नमाज लाजिम अस्त” ( पाप है, हर एक मुसलमान के लिए नमाज पढ़ना कर्त्तव्य है ) । मेरे मुँह से निकल गया—“हर कसे कि शराब न सीखुरद, बराय उन नमाज माफ अस्त ।”



( जो कोई शराब नहीं पीता, उसके लिये नमाज माफ है ) । मुझे नहीं मालूम था कि मैंने खानम् के किसी अर्भ-स्थान पर चीठ पहुँचाई । उन्होंने उन्हें उतेजित स्वर में कहा—“तू पैगम्बर हस्ती,” ( तुम पैगम्बर हो ? ) उस वक्त ३४-३५ वर्षीया सुन्दरी का तमतमाता चेहरा देखने लायक था । अर्भी संघेरी की चाय का वक्त था, थोठों पर अधर राग नहीं बढ़ा था, न गालों पर पोंडर और सज ने अपना रंग जमाया था । गरम लोहे से चुंघराले किये बालों में कंबी नहीं फिरी थी और न मोती की दुलईया तथा हीरे की मुच्छेदार सफ़रतोंपिन गींस पर रखी गई थी । चेहरा फीका होना ही था, क्योंकि उसे चमकाने के लिये अपेक्षित बनाव-शृंगार चाय पीने के बाद की चीज थी । खानम् की जलाप्युत बड़ी बड़ी आंखों में सुर्खी उतर आई थी । उनके उतेजित स्वर में कुछ क्रोध का भी भास हो रहा था । उनको कहना चाहिये था, “शुम्भ ( चाप )” । और मैं खुदा नहीं था, क्योंकि नमाज माफ करने का काम खुदा का ही है । फिर वह संभल कर नरमी से कहने लगी—“दुनियाँ में इस्लाम सबसे अच्छा और अन्तिम सज़हब है ।” फिर क्या क्या खुदा और इस्लाम पर उपदेश देने लगी । महमूद और आगा दीमियाद जानते थे, कि मैं बड़ा नास्तिक हूँ, किन्तु खानम् को यह बात मालूम नहीं थी । वह जानती थी, कि मैं शराब नहीं पीता, बुद्ध मजहब का मानने वाला हूँ । बुद्ध मजहब क्या है, इसका भी उन्हें पता नहीं था । मुझे तो अपनी असावधानी पर अफ़सोस हो रहा था । झैलखवीली इस्मतखानम् शराब की बहुत शौकीन थी, किन्तु नमाज प्रायः रोज एक-दो बार पढ़ लेती थी । नमाज पढ़ने वाले के लिये शराब पीना माफ है, यदि यह कहता तो वह पसन्द करती । वैसे वह बड़े कोमल हृदय की महिला थी । इमाध हुसैन के सम्बन्ध में मरिया सुनते बहुत रोया करती थी । जब मैंने अन्त में किसी दूसरी ही जगह जाकर रहने का निश्चय कर लिया—पांच महीने रहने के बाद भी अभी बीजा का कहीं ठौर-ठिकाना नहीं था— तो वह बड़ी चिन्तित हो गई और जरासा उबर आ जाने पर अपनी नौकरानी को सेवा के लिये भेजा ।

## : दो दोस्त :

दो दोस्त से मतलब यह नहीं कि वह आपस में दोस्त थे। शायद भेरे मिलने से पहले दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। दोनों का जन्म बंगाल में हुआ था, एक का कलकत्ता में और दूसरे की तीन-चार पीढ़ियों की कब्रें हुगली में कहीं पर हैं। सोलह-सत्रह साल से फोटो कैमरा मेरा अभिन्न सहचर हो गया था, किन्तु १९४४ के अक्टूबर में जब हिन्दुस्तान की सीमा पार करने लगा, तो कैमरे को बोट में ही छोड़ जाना पड़ा। इस प्रकार मैं तीसरी बार ईरान में उसके बिना कैमरे ही के दाखिल हुआ था। और अपने इन दोनों दोस्तों का चित्र नहीं ले सका।

(१) दीमियाद—दोनों में एक सत्तर के करीब पहुँच रहा था, और दूसरा तीस साल से कुछ ही ऊपर। बूढ़े आभा अभीरअली दीमियाद सौजन्य और सरलता की साक्षात् मूर्ति थे, किन्तु साथ ही क्रुद्ध आदर्शवादी टाहप के आदमी थे, जिसके कारण बुढ़ापे में हिन्दुस्तान को छोड़ कर उन्हें ईरान जाना पड़ा। माना कि वह मूलतः ईरानी थे, यही नहीं अपने ईरानीपन को जाग्रत रखने की उनके स्वावदान में कोशिश की गई थी। कह नहीं सकता, उनके घर में हिन्दुस्तान में या फारसी बोली जाती थी या नहीं। स्वयं दीमियाद शाहब तो फारसी ऐसे बोलते थे, जैसे कि वह उनकी मातृभाषा हो। उनकी फारसी बेगम दीमियाद उम्र में उनसे बीस-बाईस बरस कम मालूम होती थी। हो सकता है दोनों की आयु में इतना अन्तर न हो, और अपनी काटी के कारण खानम दीमियाद कम उम्र की लगती हों। वह भी हिन्दुस्तान ही में पैदा हुई थी। मैं अत्र उनके यहाँ जाता, तो वह कोशिश करती कि, कोई

हिन्दुस्तानी खाना खिलायें। एक दिन हँसी हँसी में कह रही थी—मेरा तो अवध के एक ताल्लुकदार से विवाह होने वाला था। तस्पाई में निश्चय हो वह सुन्दरी होगी। दीमियाद-दम्पती की संतानों एक लड़का और एक लड़की थीं, जिनकी नसों में माता-पिता से अधिक ईरानी खून जोश भार रहा था। जब उन्होंने सुना और पढ़ा कि रजाशाह पहलवी नवीन ईशान का निर्माण कर रहा है, सामानियों और अखामनियों का ईरान फिर से प्रकट हो रहा है, तो उन्हें भारत में रहना पसन्द नहीं आया। संतान के आग्रह के कारण दीमियाद साक्ष्य अपनी संपत्ति को बेच-बाच कर तेहरान चले गये। वह व्यवहार-कुराल थे, इस पर मेरा कम विश्वास है, किन्तु उन्होंने यह अच्छा ही किया, जो तेहरान में अपने लिये एक घर बनवा लिया। अपनी पहिली ईरान-यात्रा (१८३५) में जब मैं उनके मिलता, तो अभी घर पूरा नहीं बन सका था। उस समय घर के आसपास उजाड़ भूमि पड़ी हुई थी। लेकिन नौ वर्ष बाद अब तेहरान बहुत बढ़ चुका था और यहाँ एक अच्छा खासा मोहल्ला आवाद हो गया था। अब इस दुनिया में आगा दीमियाद के होने की आशा नहीं है, और यदि उनका खुदा ठीक है, तो वह उसके बहिर्गत में कहीं अच्छे घर में होंगे, जो उनके तेहरान वाले घर से बुरा तो नहीं होगा। मेरा उनके साथ बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था। आश्चर्य तो यह, कि हम दोनों के विचारों में जमीन-असमान का अन्तर था। उन्हें कट्टर मुसलमान तो नहीं कहना चाहिये, क्योंकि उनमें असहिष्णुता छू नहीं गई थी, लेकिन उनके खुदा के बन्दे थे। बुद्धि में उनके लिये चलना फिरना आसान काम नहीं था, तो भी शायद ही कभी नमाज नागा होती हो। उधर मैं खुदा का सीधे फटकारता था। वह जानते थे कि यदि खुदा मुझे मिल जाता, तो मैं उसके घुँह पर भी चार सनाये बिना नहीं रहता। तब भी वह मुझे अपना सगा सा समझते थे। जब सात महीने की अतीदा के बाद मैं रूस जाने लगा था, तो उन्होंने एक लिफाफा मेरे हाथ में चुपके से रखा दिया, उसमें अंग्रेजी में लिखी एक कविता थी, जिसे दीमियाद साहेब ने स्वयं रचा था, उसमें मेरे बारे में कसीदाखानी की गई थी।

दीमियाद साहेब सुपठित और मुसंस्कृत पुरुष थे। उनके पिता एक अच्छे डाक्टर थे, अच्छी सरकारी नौकरी में थे। पुत्र को विलायत भेजा था कि वहां से बैरिस्टर होकर आयेंगे, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद लड़के को पढ़ाई बीच ही में छोड़ कर चला आना पड़ा। अधिकतर उनका सम्बन्ध कलकत्ता से था, किन्तु अन्त में वह लखनऊ में चले आये थे। फारसी तो उनके घर की भाषा थी। लखनऊ शिया कालेज में रहते ख्याल आया, कि उर्दू में एम. ए. कर लें। लखनऊ या आगरा युनिवर्सिटी से एम० ए० करना मुश्किल था। दीमियाद साहेब कह रहे थे—मैंने सोचा कि कलकत्ता अच्छा रहेगा। पढ़ा तो था तेरह-बाईस ही, लेकिन परीक्षार्थी कम थे, अध्यापक को उनका उत्साह बढ़ाना था, अन्यथा परीक्षार्थियों के अभाव में कहीं उनके अपने सिर पर आफत न आवे। खैर, दीमियाद साहेब पास हो गये और कॉलेज छोड़ने के शायद बीस धरस बाद। एक दिन कह रहे थे—क्रमवस्तू ट्रेन ने धोखा दे दिया, नहीं तो बैरिस्टर न सही, पी० एच्० डी० तो बन ही जाता। जर्मनी या हार्लैंड के किस्सी शहर का नाम बतला रहे थे, जहां पी० एच्० डी० की डिग्री डाकखाने के टिकट की तरह सुलभ थी।

नौ साल पहले मिलने पर दीमियाद साहेब में अभी पूर्ण क्रिया-शक्ति थी। उस वक्त मैं उनके घर से दो मील पर ठहरा हुआ था, और वह वहां मेरे पास संस्कृत पढ़ने आते थे। बंगला बहुत अच्छी बोलते थे, संस्कृत भी कभी स्कूल में थोड़ी सी सीखी थी। तेहरान विश्वविद्यालय को ख्याल हुआ था, कि संस्कृत को भी पाठ्य विषय बनाया जाय, उसी सिलसिले में दीमियाद साहेब को शौक हुआ कि संस्कृत थोड़ी-सी सीख लें। लेकिन अब वह अशक्त हो गये थे। आंखों पर भी बुढ़ापे का असर था, स्मृति भी जवाब देती जा रही थी, दृष्टियां शिथिल थीं; यहां तक कि लघुश्रांका का रोकना भी अपने हाथ में नहीं था। तेहरान युद्ध के दिनों में दुनिया के बहुत भंगेरे स्थानों में था। वहां वह किस तरह गुजर कर रहे थे, यह समझना भी मुश्किल था। बेटे का विवाह हो गया था। अंग्रेजी पढ़ने के कारण उसे एंग्लो-ईरानियन पेट्रोल

कम्पनी में नौकरी मिल गई थी, जिससे वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था, और पिता से दूर कहीं रहता था। लड़की ताहिरा ने लखनऊ विश्व-विद्यालय से बी० ए० कर लिया था, किन्तु तेहरान में जाकर, उसे फिर से पढ़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ सब कुछ फारसी में पढ़ा जाता था। पिता ने यदि नारितक राहुल के लिये कविता की थी, तो पुत्री ने अपने बचपन की सुपरिचिता “रुद्रगोमती” ( गोमती नदी ) पर फारसी में एक कविता की थी, जिसे मेने वहाँ के एक ईरानी पत्र में पढ़ा था। पिता को खींच कर ईरान पहुँचाने में चेटा-बेटी का बहुत हाथ था। खैर, बेटा तो अब वहीं विवाह करके ईरान का बन गया था, किन्तु ताहिरा ईरान में दस बरस के करीब रह कर इसी मिश्रण पर पहुँची थीं—मेरे ईरान में शादी नहीं करूँगी। मेरे रहते समय ही हैदराबाद के एक कप्टेन से उनकी शादी हो गई। रह रह कर मेरा ध्यान आगा दीमियाद की ओर जाता था। उनका जीवन बचपन से श्रौढ़ावस्था तक कितना सुखमय रहा, यद्यपि उसका यह अर्थ नहीं, कि वह विलासमय भी था। आज जीवन की संध्या में वह अपने को निरसहाय पा रहे थे। पत्नी को उपेक्षा करने का दोष नहीं दिया जा सकता, किन्तु जब अमीरी जीवन में पत्नी एक महिला को पीर-बावर्ची मिरती-खर सबका काम करना पड़े, तो कुछ गौरवता तो आ ही जाती है। दीमियाद साहेब के कपड़े कुछ अच्छे नहीं थे, वह जीवन भर बड़े आत्मसम्मान वाले व्यक्ति थे, इस वक्त अब वह ऐसे ही भिचों से मिलना चाहते थे, जो कपड़ों को नहीं बल्कि हृदय को देखें।

(२) अम्बासी—वह हमारे दूसरे दोस्त थे, जिनका परिचय तेहरान पहुँचने के दूसरे ही दिन ( ६ नवम्बर १९४४ ) हो गया था। अंग्रेजी दूतावास में रिजर्वी महाशय ने अम्बासी का परिचय कराया। वहाँ से हम दोनों साथ बाहर निकले। न उनको कोई काम था, न मुझे, इसलिये बात करते कुछ दूर गये और इतने ही में अम्बासी मेरे गहरे दोस्त हो गये। मेरे पहुँचने पर उन्होंने कहा, कि पत्नी अपनी भाँ के साथ रहती है, और आजकल मैं भी वहीं रहता हूँ। यह कमरा खाली पड़ा हुआ है। जिसका किराया तीस रुपया

भासिक है। होटल वाले को रात भर रहने के लिए १३) ६० (उस समय ईरानी तुमान और रुपया एक ही मात्र था) किराया दे टेकसी पर सामान रख शाय्यावान फरिश्ता के उस मकान में चला आया। कमरा बुरा नहीं कहा जा सकता। मैंने इतमीनान की सांस ली। तीसरे दिन से मैंने अपना खर्च घटा दिया, और सूखी रोटी पनीर और थोड़े से मक्खन से काम चलाना चाहा, लेकिन उसी दिन बैंक से भुनाकर आये १२० तुमान में से ५० तुमान उधार और १५ तुमान अपना कर्ज ले लिया। मेरे पास रह गये ६३ तुमान। उस वक्त यह नहीं जानता था, कि जब में ६३ तुमान और सामने ७ महीने खड़े हूँ। एक ही दो दिन बाद मालूम हुआ, अम्बासी ने किराया भी वाकी रखा है। मुझे हँसी भी आने लगी और साथ ही मीठी मीठी टीस भी—रोजा अम्बशवाने गये और नमाज़ गले पड़ी। अम्बासी पर कुछ भुंभलाया, लेकिन कुछ ही, क्योंकि यदि अम्बासी ने ५० तुमान नहीं भी लिया होता, तब भी सामने का अंधेरा उजाला नहीं हो जाता।

अम्बासी का यह रूप उस समय कुछ अच्छा तो नहीं लगा।

अम्बासी का कमी आदमी ईमानदारी से पूरा शौतान कह सकता था। क्योंकि वह अंधेरे में छलांग मारने वाला तरुण था। जिस वक्त छलांग मारने का धुन में रहता, उस वक्त उसकी परवाह नहीं होती, कि उसके अर्क से कोई दूसरा भी अंधेरी खंदक में टकेला जा रहा है। अभी उसकी आयु ३०-३२ से अधिक नहीं होगी, किन्तु इतने ही दिनों की अपनी जीवनी का अगर वह सिखा डाले, तो वह बहुत रोमांचक होगी। हाँ, अम्बासी की बातों में से कितनी सच्ची हैं, कितनी झूठी, इसका पता लगाना किसी आदमी के लिये मुश्किल था, तो भी यदि ६-७ महीने तक संपर्क रहा हो, तो झूठ सब की परख आदमी कर सकता था। उसका शौतान होता तस्वीर का एक ही पहलू था, दूसरे पहलू में वह पूरा देवता भी था। पैसे-कौड़ी का लोभ उसे छू नहीं गया था। यदि वह "परद्वेष्य लोष्टवत्" था, तो अपने धन की भी डले से बढ़कर नहीं समझता था। और तकलीफ या बीमारी में पड़े अपने परिचित या मित्र की सेवा में

वह एक पैर पर खड़ा रह सकता था। अन्वासी यह उसका अपना नाम नहीं था। वह बोंस (बंगाली) था। फौज में भरती होकर अस्पताली सेना के साथ जमादार हो तेहरान चला गया। उस समय लड़ाई के जमाने में माया बही जा रही थी, बस हाथ डालकर बटोरने की युक्ति थानी चाहिये थी। अस्पताली दरारों चोर बाजार में सोने के मोल बिक रही थी, चीजों के खरीदने में वनियों से मोटी रकम मिल सकती थी। अन्वासी ने इस प्रथा को चलाया हो, यह बात नहीं थी। वह तो उस सारी मशीन में व्याप्त हो गई थी, जिसका कि वह पुर्जा था। अन्वासी ने कुछ हजार पैदा किये। उसकी बात पर विश्वास करें, तो वह रकम लाख से कुछ ही कम होगी। किन्तु १०-२० हजार तो जरूर ही उसने पैदा किये और उसको उसी तरह उदारतापूर्वक तेहरान में खर्च किया। उसी समय तेहरान की किसी तरुणी से उसका प्रेम हो गया। अन्वासी ने उसके नाम एक मकान भी खरीदवा दिया, कुछ और रुपये भी दे दिये। लेकिन इस तरह ज्यादा दिन तक चल न सका। खेरियत यही हुई, कि फन्टन से उसका नाम काट दिया गया, और वह खुशी-खुशी कलकत्ता चला आया। कलकत्ता बैठे बैठे फिर सिरदर्द पैदा हुआ, क्योंकि उसको एक लड़की हुई थी, और पत्नी भी प्रेम की सौगन्ध खाती थी। अन्वासी ने ईरान जाकर पत्नी और पुत्री को लाने का निश्चय किया, लेकिन बोंस रहते वह अपने विवाद को वैध मनवा नहीं सकता था। कलकत्ता में वह मुसलमान बना, मुसलमान होने की मूचना गजेद में छपवाई। नाम पड़ा अन्वासी। इसी नाम से उसने फिर पासपोर्ट बनवाया और पांच-सात सौ रुपये, कुछ कपड़े-लत्ते और दूसरे सामान के साथ तेहरान पहुँच गया। ईरानी पत्नी कभी जाने के लिये तैयार चतलाती, और कभी मुकर जाती। इसी धूप-छाँह में उसके तीन-चार महीने गुजर गये थे। पास का पैसा खर्च हो चुका था। कपड़े-लत्ते में से बेच-बेच कर किसी तरह काम चलाता था। बेचारा मकान का किराया कहाँ से देता ? यह समय था, जब मैं भी किरमत का मारा तेहरान में था फँसा।

अब अन्वासी के जीवन को जरा और पीछे देखिये। जैसा कि मैंने

कहा, अब्बासी की बातों में से भूठ से सच को अलग करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य था, इसलिये यह नहीं कह सकता, कि सत्य समझ कर जिसे मैं लिखा, उसमें भूठ का कुछ भी अंश नहीं होगा। बोस मैट्रिक पास कर कलकत्ता के किसी कालेज में पढ़ रहा था, लेकिन उसकी सैलानी तवियत ने पुस्तकों में मन नहीं लगने दिया। खाते-पीते घर का लड़का था। घर से कुछ रुपये उड़ाये और सिंगापुर जा पहुँचा। शारीरिक परिश्रम के काम के लिये तो अब्बासी उतना तैयार नहीं था, किन्तु कोई काम कर लेना उसके लिये कठिन नहीं था। अब्बासी को चुप्पा नहीं कह सकते, किन्तु वह बहुत बातूनी भी नहीं था। उसके चेहरे पर एक सहज भोलापन छाया रहता। उदारता के विराट प्रदर्शन में उसके लिये यदि कोई रुकावट हो सकती थी, तो हाथ का खाली होना। सिंगापुर में कुछ महीने रहने के बाद उसने आगे का रास्ता लिया और सिंदबाद जहाजी की तरह दक्षिण-पूर्वी एशिया में चकर मारने लगा। जावा भी गया, फिलिपाइन भी; हांगकांग भी गया शांघै भी और शायद हिंदूचीन और स्याम भी। कभी किसी दूकान में सेल्समेन रहा, कभी फेरीवाला बना, कभी कहीं क्लर्क कर ली। जब हाथ खुला हो और थब्ड़े-बुरे दोस्तों की संख्या काफी हो, तो खर्च करने के लिये वैध तरीके से ही पैसा कमाने से कैसे काम चल सकता था? सेल्समेन रहते वक्त उसने दो जगह गहरी रकम उड़ाई और कुछ दिनों में उसे खर्च भी कर डाला। लड़ाई से पहिले के पांच-सात सालों में जब वह सिंदबाद जहाजी बना हुआ था, कितनी ही धार हज़ारों उसके हाथ में आये और खर्च होते रहे। दुनिया का कड़वा-मीठा काफी अनुभव उसको हो गया था। लड़ाई शुरू होते प्रायः खाली हाथ वह कलकत्ता लौटा। लेकिन वह एक जगह कहां ठहरने वाला था? फौज में आदमियों की बड़ी मांग थी। वह भरती होकर लखनऊ चला आया, जहां कुछ दिनों तक कवायद-पोड सीखने के बाद तेहरान भेज दिया गया।

मैंने जब अब्बासी का किरसा सुना, तो सोचने लगा—इस मजदूर की लैला कोई साधारण नारी नहीं होगी, वह अवश्य कोई कोहकाफ़ की परी होगी।



लेकिन अब्बासी से परिचय के हफ्ते के भीतर ही एक दिन खानम् अब्बासी सड़क पर मिलीं। अब्बासी ने परिचय कराया। मैं दंग रह गया—ऐसी बदसूरत औरत पर भी मरने वाले मजदूर मिल सकते हैं और ऐसा मजदूर जो पचीसों घाट का पानी पी चुका है। खानम् का मुँह शरीर की अपेक्षा अधिक बड़ा और कुप्पे की तरह फूला हुआ था, ऊपर से नेचक के दाग ने उसे सिल-बट्टा बना दिया था। रंग गोरा था, इसमें कोई संदेह नहीं।

किराया बाकी रहने की बात सुनकर अब्बासी की कृपा द्वारा मिले धर को छोड़ने के लिए मैं उतावला हो गया और सौभाग्य समझिये, जो दो-तीन दिन ही बाद मैं अपने नये मिले अकारण बन्धु महमूद के यहाँ चला गया। अब्बासी से मुझे शिकायत नहीं हुई, वह बराबर जब तब मिलते रहते थे, मुझे यह समझने में कठिनाई होती थी, कि मेरे तेहरान छोड़ने के समय सात महीने बाद भी वह उसी अनिश्चित अवस्था में कैसे गुजारा कर रहे थे? अब भी उनको आशा थी, कि शायद पानी चलने के लिए तैयार हो जाय, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। अब्बासी कलमपेशा बंगाली परिवार के पुत्र थे, इसलिये खरीद-बेच का काम उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं था, नहीं तो तेहरान में भूखे मरने की आवश्यकता नहीं थी। तेहरान-प्रवास के अन्तिम सप्ताहों में मैं अपने मित्र की ससुराल के पास एक होटल में जाकर रहने लगा—यद्यपि भारत से मेरे पास पैसा था चुका था। वहाँ कुछ डर था गया। देखभाल का इन्तिजाम न होने से अब्बासी मुझे अपनी ससुराल में ले गये। एक कमरा था, जिसमें ही उनकी बीबी, सास और एक साली रहती थी। मेरे नहीं नहीं कहने पर भी वह मुझे वहाँ ले ही गये और उस वक्त रोगी सुश्रवा करने में उनका रूप देखने लायक था। मुझे भी एक अत्यन्त गरीब निम्न मध्यमवर्गीय परिवार का नजदीक से देखने का मौका मिला। उनकी एक साली की शादी कुछ ही हफ्ते पहिले हुई थी, जिसमें मैं भी निमन्त्रित हुआ था। अब्बासी ने अपनी सास को बहुत मना किया था, कि ऐसे अफीमची से विवाह मत करो। लेकिन सास बेचारी भी क्या करती? कम से कम एक लड़की का बोझ तो सिर से उतर

रहा था। मेहरी खानम् (अब्बासी की साली) का विवाह हुए दो महीने भी नहीं हुये थे, कि अफीमची पति ने गाली-मार शुरू कर दी। ३ जून १९४५ को, जब मैंने तेहरान छोड़ा, मेहरी खानम् को तलाक देने की नौबत आ चुकी थी। अब्बासी ने ५० तुमान जिस समय मेरी फाकामस्ती की हालत में लिखे थे, उस समय तो कुछ अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं मानता हूँ, अब्बासी का सौहार्द और सेवा भाव उससे कहीं अधिक मूल्य रखता था।

### : ईरानी-ब्याह :

१९४४-४५ के जाड़ों में मुझे सात महीने ईरान की राजधानी तेहरान में रहना पड़ा। वहाँ अपने देशभाई किन्तु ईरानजातीय मिर्जा महमूद अकारगवन्धु में मिल गये, जिनके उपकार को किसी तरह मैं चुका नहीं सकता। इस सारे समय में अधिकतर मैं एक ईरानी मध्यवित्त परिवार में रहता था, जिसकी स्वाभिनी महमूद की सौतेली मां थीं, जिनकी बहन महमूद की भारी पत्नी होने जा रही थी। महमूद के सम्बन्ध से उस परिवार का भी मैं एक व्यक्ति सा बन गया। खानम् तरुणार्ई में तेहरान की सुन्दरियों में रही होंगी। चालीस बरस के पास पहुँचते हुये भी अभी उनका सौंदर्य बहुत धूमिल नहीं हुआ था। उनकी बड़ी इच्छा थी कि छोटी बहन इफ्तजत का ब्याह महमूद से हो जाये। शर्तें बड़ी कड़ी थीं, कभी ब्याह निश्चित हो जाता और फिर कोई शर्त रास्ते में आकर सारे निश्चय को तोड़ देती। ६ मार्च (१९४५) को ब्याह निश्चित हो गया, निमन्त्रण-पत्र भी छपा कर भेज दिये गये, लेकिन ४ बजे शाम को जब मैं घूम कर लौटा, तो

मालूम हुआ, ब्याह टूट गया। शर्तों में दो थीं—इज्जत को दूसरे मुल्क (हिन्दुस्तान) न ले जाया जाय, और छ महीने तक खर्च-बर्च न देने पर स्वतः विवाह-विच्छेद का अधिकार हो। महमूद के पिता अस्पहान के किसी सौदागर-वंश के थे, जो कि कुछ पीढ़ियों से भारत में बस गया था, तो भी उनका संबंध ईरान से बिल्कुल टूटा नहीं था। महमूद भारत में पैदा हुये, भारतीय भाषा की संतान थे, और अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिये तैयार नहीं थे, इसलिये कबाला (विवाह-पत्र) में ऐसी शर्तें लिखने के लिये राजी नहीं थे। अगले दिन महमूद के आग्रह को देखकर खानम को और नीचे उतरना पड़ा, और महमूद ने यह शर्त मंजूर कर ली, कि बिना इज्जत की मर्जा के हिन्दुस्तान नहीं ले जायेंगे। १३ मार्च विवाह का दिन निश्चित हुआ।

भारत के मध्यविच परिवारों की तरह ईरान में भी ब्याह घर फूँक होली का तमाशा है। बड़ी शान-शौकत से ब्याह हो, इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा था। महमूद कंजूस हरगिज नहीं थे, किन्तु साथ ही वह फजूलखर्च होना भी पसन्द नहीं करते थे, लेकिन अब तो ओखल में सिर पड़ चुका था।

शादी का कमरा—इसमें एक और बरबधू के लिए दो मामूली कुर्सीयाँ रखी थीं, एक मेज पर सुगन्धित द्रव्य, ब्रुश, दर्पण तथा डायर में जेवर की पेंटी रखी हुई थी। कुर्सी के सामने मेज पर कुरान की एक पुस्तक, तस्वीह (माला) नमाज पढ़ने की सुहर और बाईं ओर वहीं प्याले में पानी, शमशाद के हरे पत्तों और फूल रखे थे। दाहिनी ओर प्लेट में शीरीनी (निस्क्रुट) थी। यहीं एक काठ की लम्बी कर्ती (तश्तरी) थी, जिसको विशेष तौर से सजाया गया था। इसके चारों कोनों पर मोमबत्ती जलाने के लिये चार फानूसी दीवतें रखी थीं और साथ ही उनके पास में शीशे के गुलदस्तों में शमशाद की हरी पत्तियाँ थीं। ब्याह के वक्त शमशाद की पत्तियों का ईरान में उतना ही महत्व है, जितना कि हमारे यहाँ आम की पत्तियों का। शादी में दर्पण-दान भी बड़ा शुभ माना जाता है। कुर्सी के सामने मेज पर चांदी के चौखटे में सड़ा एक बड़ा शीशा रखा था, जिसकी दोसों ओर मोमबत्ती जैसे दिखाई देने वाले बिजली के

शमादान रखे थे। यहीं दाहिनी ओर मुसलमान होने से पहिले के ईरान की विवाह-प्रथा के अवशेष स्वरूप काठ की नाव में खड़गाकार डेढ़ हाथ लम्बी रोटी रखी थी। रोटी पर अच्छी नक्काशी की हुई थी। बेल-चूटे और अक्षर हरे रंग के थे और जमीन लाल। हरियाली को जीवन का मूल (माया-चिन्दगी) समझा जाता है। रोटी के नीचे और ऊपरी भाग में शमशाद के वृक्ष को अंकित करने की कोशिश की गई थी, जिसके बीच में तीन पंक्तियों में निम्न मंगल शब्द लिखे हुये थे—

शुक ईजद कि चख्त-यार आमद। (धन्य भगवान्, मित्र का भाग्य आया)

मुबारक बाशद (मंगल अस्तु)

जोहा बा-मुशतरी कनार आमद। (शुक देवी वृहरपति के पास आई।)

दूसरा कमरा बरवधू और उनके चुने हुये मित्रों की दावत का था। यहां मंज पर दस आदमियों के लिये चमचे, कांटे, प्लेट आदि के साथ शराब की प्यालियों भी सजा कर रखी हुई थीं। तीसरा कमरा सोहाग-सेज (जलवा) का था। दरवाजों पर सुन्दर रेशमी पर्दे टंगे हुये थे। नई चारपाई को तोशक-तकिये, रेशमी लिहाफ आदि से खूब सजाया गया था।

चौथे कमरे में मेहमानों के स्वागत के लिये कुर्सियां रखी थीं।

२३ मार्च को अमी सर्दी समाप्त नहीं हुई थी। इस साल कई बार हिमवर्षा हुई थी, जिससे ठण्डक काफी थी।

हमारे यहां की तरह ईरान में भी शादी के नाच-गाने कई दिन पहिले से ही शुरु हो जाते हैं। यह अधिकतर स्त्रियों का काम है, यद्यपि अब ईरान में पर्दा न रह जाने से पुरुषों को भी आनन्द लेने में बाधा नहीं है। बाजों में डफ और घड़ों के मूँह जैसी एक और खुली चमड़े-मढ़ी ढोल को इस्तेमाल किया जाता है। ईरानी स्त्रियों का कंठ कोकिल-कंठ नहीं है, यह तो नहीं कहा जा सकता किन्तु उनका संगीत भारतीय कानों के लिये कुछ कर्कश जरूर मालूम होता है। गीतों की तुलना हमारे यहां ऐसी ही सरल थी, जो कभी कभी दो दल होकर

माई जाती थी। एक गाने की पहिली कड़ी थी—

खानम् अरुसे । मग ना मीदूनीं की ए ?  
( थीमती दुल्हन, मै नहीं जानती कौन है ? )

आगे की पंक्तियाँ थीं—

जूजा खरुसे । मग ना मिदूनीं की ए ? ( सुर्गा की वच्ची० )  
आगा दामादे । ” ( श्रीमान वर० )  
शाखे शमशादे । ” ( शमशाद की शाखा )  
आगा सरहंगे । ” ( श्रीमान मेजर० )  
रईसे हंगे । ” ( युद्ध के सरदार० )  
आगा सरगुर्दे । ” ( श्रीमान कर्नल० )  
दिलै-मा बुर्दे । ” ( मेरा मन चुरा ले गये० ।

सरहंग दुल्हन के बहनोई और सरगुर्दे भी सम्बन्धी थे। कहने की आवश्यकता नहीं, कि इसी तरह बरबसू के जितने भी सगे-सम्बन्धी थे, उनको सबको जोड़-जोड़ कर गीत बढ़ती जाती थी। थोड़ी देर गीत होकर, फिर केवल साज बजता और दस-बारह बरस की लड़कियाँ अपना नाच दिखाती थीं, जिसमें बर की छोटी बहन शमशा का नाच काफी अच्छा होता था। गाना समाप्त करते वक्त मुँह पर हाथ मारते स्त्रियाँ तिली-ली-ली की आवाज करती थीं। बंगाल में भी व्याह के वक्त उलू ध्वनि की जाती है। इस ध्वनि का प्रयोजन है शुभअवसर पर भूत-प्रेतों को घर के पास आने न देना।

विवाह के दिन का मुख्य कार्यक्रम स्नान से होता है। दुल्हन के लिये स्नानागार ( हम्माम ) में विशेष तैयारी हुई थी। ईरानी आमतौर से अधिक गारे होते हैं, जिसमें १२ वर्षीया दुल्हन का रंग तो सत्तमूच ही गुलाबी था, जो सद्यःस्नाता का और भी खिल गया था। विवाह के कमरे में ले जाने के लिये आज भी उसे सजाया गया था, किन्तु शय्यागार में ले जाकर सजाने का काम अगले दिन के लिये रख छोड़ा गया था, जब कि बड़ी दावत और विवाह-महोत्सव मनाया जाने वाला था। आज विवाह के समय दुल्हन (अरुस)

ने सफेद रेशमी लम्बा चोगा पहिना था, और सिर पर सफेद फूलों का अर्ध-चन्द्राकार ताज । दामाद (वर) काले सूट में थे, सिर नंगा रखने के कारण गंजेपन को ढांकने का कोई उपाय नहीं था । दोनों को कुर्सी पर लाकर बैठाने के पहिले अस्पन्द (धूप) को वधू के सिर पर नौछावर कर आग में डाल दिया गया । यह भी भूत-प्रेत भगाने के लिये आवश्यक था । दोनों के कुर्सी पर बैठ जाने पर लड़कियों ने नाचना गाना शुरू किया, और औरतें ताली बजाती रहीं । “आगा दामाद” वाले गीत का कई बार दोहराना तो मामूली बात थी । आज कुछ और भी जनगीत सुनने को मिले—

चिरा तु तर्के—आशानार्ई करदी ? बंमन बगो चिरा खुदाई करदी ?  
( क्यों तू ने मित्रता छोड़ दी ? मुझे बता क्यों खुदाई करदी ? )  
नमूदी ख्वारे तु ऐ दिल्दारम् । बरो कि तर्क तू सितमगर करदम् ।  
( तूने बरखाद किया, मेरे प्रिय । चला जा तुम्ह जालिम को मैंने छोड़ दिया )

बरो कि फिके—यारे-दीगर करदम् । बिया कनारम् तु ऐ दिल्दारम् ।  
( चला जा, मैंने दूसरे मित्र का ख्याल कर लिया । आ गोद में ऐ मेरे दिलदार )

चि रोजहा कि मन ब-याद-तू नूदम् । यनीसे मन बूदी न तन्हा वूदम् ।  
( कैसे दिनों तक मैं तेरे याद में रही । तू मेरा मित्र था, मैं अकेली नहीं थी )

अजीजत दारम् तु ऐ दिल्दारम् । बदामे-इश्क-तू आचिनां दरबंदम् ।  
( मेरे प्रेमी, तुझे प्रिय मानती हूँ । तेरे प्रेम के फांसने कितना बाधा है )  
चले अर्जी शिकजे मन खुर्सन्दम् । नमूदी खार अय तु ऐ दिल्दारम् ।  
( लेकिन इस बन्धन से मैं खुश हूँ । तूने तवाह कर दिया, किन्तु मैं प्रेम करती हूँ )

बादा बादा बादा । इन्शा अल्ला मुबारकबादा ।

( होने होंगे होंगे । भगवान चाहे मंगल होंगे )

विया बेस्वीम् अजी वलायत मन् व तु । तु दस्ते मरा अगीर व मन्  
दामने त् ।

(आ, इस देश से मैं और तुम चलें । तू मेरा हाथ पकड़ और मैं तेरा  
अंचल )

विया बखुरीम् शराबे-अंगूरे-सियाह । ऐ यार मुबारकवादा । वादा इंशा...

(आ, काले अंगूरों की शराब पियें । हे भिन्न, मंगल होवे, होवे  
भगवान् चाहे... )

इन् हयातो उन हयात् । वे पाचीम् तुक्लो नवात् ।

(यह जीवन और वह जीवन । आनन्द लें... )

वरसरे अरुसो दूमाद । ऐ यार...

(दुल्हा-दुल्हन के सिर पर, ऐ भिन्न मंगल ही... )

गुल दर्र-आमद अज् हमाम । सुंबुल दर्र-आमद अज हमूम ।

(फूल स्नानागार से आया । सुंबुल उन सबसे आया )

शाहे दामादरा वेबीं अरुसदर आमद अज हमाम । ऐ यार...

(दुल्हा राजा को देख, दुल्हन हमाम से आई । ऐ भिन्न, मंगल ही... )

अरुसेमा बच्चा-साले सरेशब ख्वावश मियायद । ऐ यार...

(मेरी दुल्हन अल्पवयस्का है, रात को उसे नींद आती है । ऐ भिन्न  
मंगल ही )

गानों में एक था—

दुखतरे शीराजी जानम्, जानम्, शीराजी । अन्नू-नु बमा बेनुमा ताशधम्  
राजी ।

(शीराज की लड़की, मेरी प्यारी शीराजी, अपने भौहों को दिखाला, कि  
मैं खुश होऊँ )

अन्नूम् मीख्वाही, चि कुनी बेहया पिसर । कमां दर्र-वाजार न दीदी ।

(मेरी भौहों को क्यों चाहता है, निर्लज्ज लड़के ? धलुष बाजार में नहीं  
देखा क्या ? )

इन्हम् मिश्ल-उं ऐ, बलेकिन् निस्वोश गिरान् ऐ ।

( यह भी वैसा ही है, लेकिन इसका मूल्य अधिक है )

शब्द ग्रथा नेस्तम् खाना रोज ग्रथा तूय-बालाखाना ।

( रात आवे, मैं घर में नहीं, दिन में आवे अटारी पर )

दुख्तरे शीराजी जानम् जानम् शीराजी । चश्मन् वमा बेनुमा ताशवम् राजी ।

( शीराज की लड़कौ मेरी प्यारी शीराजी, अपनी आंखों को दिखला, कि मैं खुश होऊँ )

चश्मम् मीख्वाही, चि कुनी बेहया पिसर । नर्गिस दरवाजार स दीदी ।

( मेरी आंखों को क्यों चाहता है, निर्वाञ्ज लड़के ? नर्गिस को बाजार में नहीं देखा क्या ? )

इसी तरह इस दोगाने में आगे वाक्य जोड़े गये हैं—

दुख्तर शीराजी ० मस्तव् वमा बेनुमा ० मस्तमल दरवाजार ० ।

० मूयव्, वमा बेनुमा ० । हल्का दरवाजार ०,

० दमव् ० । कलम दरवाजार ० ।

० लवव् ० । गुंचा दरवाजार ० । ( चौक तेरो ०, बाजार में कली ० )

० दनदानव् ० । सदफ दरवाजार ० । ( दांत तेरे ०, मोती बाजार में ० )

आगे सात नखशिस्र इसी तरह उपभक्त देकर गमया गया है ।

व्याह-विधि—साढ़े चार बजे रायकाल पुरोहित ( अखुन ) अपने सहायक के साथ पधारें । यद्यपि ईरान के नर-नारी अब यूरोपीय पोशाक पहनते हैं, किन्तु मुह्ला-पुरोहित पुरानी पोशाक को कायम रखे हुये हैं । अखुन के शरीर पर काला चोगा और काली पगड़ी थी । दाढ़ी मुंडी तो नहीं थी, किन्तु तराश कर काफी छोटी कर दी गई थी । कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने पहिले वरवधू के पासपोर्ट ( जावाज ) को देखा, फिर छपे हुये दो व्याह रजिस्टरों में लिखना शुरु किया । अखुन ने विवाह की शर्तों को पढ़ा—“एक सौ



चालीस हजार रियाल मेहर हैं, जिसमें तीस हजार रियाल (तीन हजार रुपया) का गर्दन-बन्द (हार) और दस हजार रियाल शीशे के शमादान का दाम और पचास रियाल कलाभूमजीद (कुरान को पुस्तक) का है। ईरान से बाहर बराबर रहना बधू की मर्जी से हो सकेगा।” ज़िया इमामी, तकी एजदी और सरहंग अली अकबर जहांगीरी गवाह बने। वर की स्वीकृति हो जाने पर पुरोहित ने दरवाजे से बाहर रहते ही तीन बार बधू से पूछा—“अरुसखानम्, कवूल दारी” (दुल्हन देवी, कवूल करती है) बधू ने धीमे से “बाले” (हां) कह दिया। हाफिज़ की जन्म भूमि शीराज़ में यदि व्याह हुआ होता, तो मुल्ला पुछता—“अरुसखानम्, कवूल केरी” (दुल्हनदेवी, कवूल करती हो)

मुल्ला अपनी दक्षिणा ले मुँह मीठा करके चला गया, और ब्रिदियों ने फिर टोल और डफ लेकर “मुबारकबादा” और “मगनासिदूनी” गाना शुरु किया। कुर्सी पर बरबधू बैठे। लालपीले कागज़ की कटो गोल-गोल पत्तियों की वर्षा बरबधू पर की गई। बरबधू दोनों ने एक दूसरे को भिटाई खिलाई, इस प्रकार विवाहविधि समाप्त हुई।

फिर एक कमरे में महफिल गरम हुई। दो ब्रिदियाँ—बधू की भाँखानम्-बुजुर्ग (बड़ी महिला) और खानम् जमशेदी का हुका चलने लगा। तीनों जमशेदी कुमारियाँ फैशन में बिल्कुल अपटूडेट थीं, और साथ ही गाने नाचने में भी। उनके कारण महफिल चमक उठी। तेहरान के प्रसिद्ध गायक अलीरज़ा का गाना और तारची शाहबाजी का सितार बज्ज गया। उस्तादी मंगीत में आलाप का होना अनिवार्य है। एक तो ईरानी कर्कश आलाप और उस पर से प्रश्न कंठ से निकला, मेरे लिये तो वह अस्हय मालूम होता था। लेकिन हाफिज़ और खैय्याम के गीत बड़ी अच्छी तरह गाये जा रहे थे। कमरे में जितने आदमी बैठ सकते थे, उससे तिगुने बैठे थे, ऊपर से अस्पन्द की धूप बराबर दी जा रही थी, जिससे दम घुटने लगा था। गाने के बाद वहीं खानपान हुआ और अब का नाच में बरबधू भी शामिल हुये।

आज ईरानी वर्ष का अन्तिम बुधवार था। शाम के बक्क लड़के

प्राचीन ईरान की होली बना रहे थे। आग जला कर उस पर से फांदते हुये बच्चे कह रहे थे—

“जर्दिये मन् अज तू। सुखिये तू अजमन् । ( मेरी पीतिमा तुझसे ।  
तेरी लाखिमा मुझसे )

विवाह की अन्तिम रस्म थी “दस्त-बदस्त” ( पाणिग्रहण )। रात को सोहाग-कक्ष में ले जाकर सरहंग साहू ने बरबधू का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया। हमारे देश की तरह ईरान में भी नई रोशनी वालों ने बहुत से रीति-स्वाजों को छोड़ दिया। पहिले हनावन्दी ( मेहंदी ) आदि कितनी ही और भी रस्में अदा की जाती थीं।

अगले दिन ( १४ मार्च ) बड़ी दावत हुई। काज़ार-राजवंश का पुराना बर्गोचा, जिसे वर के पिता हाशिम अस्पहानी ने खरीद लिया था, और जिसने कितनी ही रंगीन महफिलें देखी थीं, बरसा की उदासी के बाद आज फिर जगमगा उठा था। चित्रों, फूलों के गमले, बिजली के भ्नाइफानूस और सुन्दर ईरानी कालीन से सजावट की गई थी। आज साज-संगीत का विशेष प्रबन्ध था। तेहरान रेडियो की मशहूर गायिका रुहंगीज़ विशेष तौर से बुलाई गई थी। एक प्रसिद्ध नर्तकी भी मौजूद थी। निमन्त्रित सौ मेहमान स्त्री-पुरुष दावत में शामिल हुये थे। यद्यपि तीन बजे से मजलिस शुरू हो गई, किन्तु बरबधू को सिंगारहाट से लौटने में साढ़े छ बज गये। खाना-पीना और नाच-रंग सात बजे तक रहा। बधू ( इज्जत खानम् ) सभी स्त्रियों में अधिक खूबसूरत मालूम होती थीं, जिसमें सजावट का भी काफी हाथ था। बधू का नाचना लोगों ने बहुत पसन्द किया। बरबधू को भेंट सौगात देकर लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। इन पंक्तियों का लेखक तो वर का नर्म-सचिव था, जिसकी सम्मति की कदर दोनों घरों में थी।



## ३-रूस में प्रवेश

तीसरी बार रूस जाने का निश्चय मैंने १९४३ में ही कर लिया

था, किन्तु अंग्रेज सरकार ने पासपोर्ट देने में हीला-हवाला करके एक साल बिता दिया। उसके बाद फिर ईरान के बीजा मिलने में कई महीने लगे। अन्त में किसी तरह भारत छोड़कर ८ नवम्बर १९४४ को मैं ईरान की राजधानी तेहरान पहुँचा था। तेहरान पहुँचते पहुँचते पास का पैसा करीब करीब खतम हो चुका था। युद्ध के समय में चीजों का दाम ऐसे ही बहुत महंगा था और मैं ईरान की राजधानी में एक तरह खाली हाथ पहुँचा, यह बतला चुका हूँ। लेकिन मानवता हर जगह आदमी की सहायता देने के लिये तैयार देखी जाती है। मिर्जा महमूद अस्पहानी से वहाँ पश्चिम होगया और फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं रही। कुछ ही समय बाद भारत से जैसे भी आगये, लेकिन तो भी जो अकारण बन्धुता मिर्जा महमूद ने दिखलायी थीर जिस तरह का सद्व्यवहार उनकी सौतेली साँ खानम इस्मत नाजिमा ने किया, वह सदा स्मरणीय रहेगा। एक घुमक्कड़ अपने ऊपर किये गये उपकार का प्रतिशोध कैसे कर सकता है? किन्तु कृतज्ञता की मधुर स्मृति तो जीवन भर रख सकता है। ८ नवम्बर

१९४४ में ३ जून १९४५ ई० तक सात महीने मुझे जिस स्थिति में रहकर काटने पड़े, उसे असह्य प्रतीक्षा ही कह सकते हैं। कभी कभी भागत लौट आने का मन करता था, तो हमारे भारतीय मित्र अपनी चिट्ठियों में और टहरान को कहते। और वहाँ सोवियत-दूतावास की चौखट अगोरेते अगोरेते मन उकता गया था। यह भी पता नहीं लगता था, कि बीजा मिलेगा भी। लड़ाई के दिनों में चिट्ठियों का यह हालत था कि मेरे मित्र सरदार पृथ्वीसिंह की २२ फरवरी १९४५ की चिट्ठी मुझे २४ मई को मिली अर्थात्—बम्बई से तेहरान ३ महीने के रास्ते पर था। हाँ, तार आसानी से मिल जाते थे, लेकिन तार में अधिक बातें नहीं लिखी जा सकती थीं।

३ मई (१९४५) को हिटलर और गोंयबल की आत्महत्या की भी खबर आ गई। ८ मई को जर्मनी ने बिना शर्त हथियार डालने के कागज पर हस्ताक्षर भी कर दिया, किन्तु मैं अभी अनिश्चित अवस्था में ही था। हाँ, इसके बाद दूतावास के लोगों के बहने के अनुसार आशा कुछ ज्यादा बलवती हुई। तेहरान में भी रहना आसान नहीं था। खर्च के अलावा वहाँ सरकार से अनुमति लेते रहना पड़ता था। २६ मई को सोवियत कोंसलत में गया। पता लगा बीजा आगया। आज ही मेरे पासपोर्ट पर मुहर भी लग गई। इन्तूरिस्त (सोवियत यात्रा एजन्सी) से पूछा तो उसने बताया कि मार्को तक हवाई जहाज का किराया ६६० तुमान (१ रु०=१ तुमान था) लगेगा और १६ किलोग्राम (२० सेर) के बाद हर किलोग्राम पर ६ तुमान सामान का लगेगा। अन्दाज से मालूम हुआ कि नौ सौ तुमान खर्च आयेगा। हम तो अब समझते थे, कि मैदान मार लिया। अब २९ मई को ईरानी दफ्तर में निर्यात का बीजा लेने गये, तो कहा गया—माल-विभाग का प्रमाण-पत्र लाइये कि आपने यहां इतने दिनों रह कर जो कुछ कमाया, उसका टैक्स अदा कर दिया। माल-विभाग में जाने पर कहा गया—दरखवास्त दीजिये, जांच की जायेगी। मैं तो सोवियत यात्रा एजन्सी (इन्तूरिस्त) से टिकट भी खरीद चुका था, ३१ मई को यहां से जाने के लिये तैयार था। जैसे सब जगह नौकरशाही को सराीन बहुत धीमी गति से चलती

है, जिसमें ईरानी मशीन तो अपना सानी नहीं रखती। उधर मेरे रहने के बीजे की मियाद केवल तेरह दिन और रह गई थी। यदि उसके बाद रहना पड़ा तो, फिर बीजा लेने की दिक्कत उठानी पड़ती। ब्रिटिश दूतावास में जाने पर रिजवा साहब ने कोन्सल की ओर से प्रमाण पत्र दे दिया, कि मैंने यहां कोई कारबार नहीं किया। लेकिन, अभी तो उसे फारसी में तर्जुमा कर के देना था। अगले दिन अनुवाद लेकर फिर ईरानी दफ्तर में गया। बहुत दौड़ धूप करनी पड़ी और अकेले ही। सात महीने तेहरान में रहने से भावा की दिक्कत खतम हो गई थी। तीन-तीन ऑफिसों में चक्कर लगाना पड़ा और जब १ बजे दिन की सही-सलामत कागज पर हस्ताक्षर हो गये, तो ऑफिस वालों ने कहा—

“कोन्सल की मुहर काफी नहीं है। इस पर हस्ताक्षर भी करवा लाइये।” खैर, उस दिन चार बजे तक सभी आफतों से छुट्टी पा जाने पर बड़ा संतोष हुआ। किराये से बचे हुए पैसे को रूस ले जाना बेकार था। रूस में खर्च करने के लिये सौ पौंड का चैक अलग था ही, इसलिये बाकी बचे रुपयों में नमड़े का आवरकोट और दूसरी चीजें खरीदीं। अगले दिन (३१ मई) फिर कुछ और भी दफ्तरों की खाक छाननी पड़ी, जिनका काम दोपहर तक खतम हो गया।

हवाई जहाज अतवार (३ जून) को जानेवाला था, लेकिन सामान तुलवाना और दूसरे कामों को दो दिन पहले (१ जून को) ही खतम करवाना था। १६ किलोग्राम छोड़कर ५१ किलोग्राम सामान और मेरे पास था, जिसका ३२१ तुमान देना पड़ा। सामान में आधी ऐसी चीजें थीं, जिनको यदि मैं जानता होता, तो साथ न लिये होता। विमान दो जून को ही जाने वाला था, लेकिन पहली जून को चार बजे घतलाया गया कि मौसम खराब होने से कल विमान नहीं जा सकेगा। पचास-पचपन तुमान अब पास में रह गये थे, और एक दिन रहने का मतलब था उसमें से और खर्च करना, लेकिन मैंने तो घटा देख कर घड़ा फोड़ लिया था। २ तारीख को पूछने पर मालूम हुआ कि कल का जाना नक्की (पक्का) है। भारतीय संगीत के परिचय के लिये मैं अपने साथ कुछ

रिकार्ड लेकर चला था, लेकिन उसे कब्रों में रोक दिया गया। तेहरान में युद्ध के समय बहुत से भारतीय थे, जिनमें कुछ का मुँह से परिचय हो गया था, इसलिये दो रिकार्ड भी मिल गये।

प्रयाण— ३ जून का भिन्नसार आया। अभी अंधेरा ही था कि पौने-चार बजे इंटरिस्त की मोटर मेरे पास आयी। घरसे सामान उठा कर अन्वामी मन्दाशाय ने मोटर तक पहुँचाया। अन्वामी से सात महीने का परिचय था, और बोस उपनाम अन्वामी नामक साहसी तरुण के गुण और अवगुण सभी मुझे मालूम हो गये थे। मुझे अवगुणों से अधिक उनमें गुण दिखायी पड़े, इसलिये बिछुड़ते वक्त दोनों को अफसोस हुआ। वैमानिक अड्डा शहर से दूर था, जहाँ हम चार-साढ़े चार बजे पहुँचे। एजेन्सी की ओर से चाय पीने को मिली। फिर सामान विमान पर रखा गया। वह यात्रा का विमान नहीं था। फौजी विमान ऐसे बनाये जाते हैं, जिसमें वह आदमी और सामान दोनों को आसानी से टो सके। यह मेरी पहली विमान-यात्रा थी, जिसके बारे में बहुतसी अच्छी बुरी बातें सुन रखी थीं। विमान में दोनों ओर दीवार के सहारे लकड़ी के बेंच रखे हुए थे, जिन पर हम पन्द्रह मुसाफिर जा बैठे। घरघराहट का क्या बात है? कान फटा जा रहा था। हमारी बगल में शीशे लगी खिड़की थी, जिससे भूतल को देखा जा सकता था। यद्यपि विमान में तीस आदमियों की जगह थी, लेकिन जब यात्री को इतनी तपस्या के बाद बीजा मिले, तो जगह कैसे भरती? अधिकतर मुसाफिर मारको के विदेशी दूतावासों के कर्मचारी थे। उनके पास सामान भी काफी था, इसलिये मैं समझता हूँ विमान ने अपना पूरा बोझ ले लिया था। गोलाकार छत बीच में मेरे सिर से एक हाथ ऊँची थी। मुझे तो विमान सोवियत की सादगी का प्रतीक मालूम हुआ, सीटों और पैरों के नीचे बिछी कालीन भी न होती तो कोई बात नहीं। लेकिन जो विदेशी यात्री चल रहे थे, वह इस बेसरोसामानी पर नाक भी सिकोड़ रहे थे। चढ़ाने से पहले इंटरिस्त के आदमी ने हमारा पासपोर्ट देख लिया—कहाँ कोई उसे भूल न आया हो। सबेरे पाँच बज कर दस मिनट पर विमान अपने तीनों पहियों पर खिसकते

गनगनाहट के साथ धरती छोड़ने लगा । पहिले तो वैसे ही मालूम हुआ, जैसे तरंगित समुद्र पर जहाज का चढ़ना-उतरना । हिमालय से जैसे नीचे दूर के खेत दीखते हैं, वैसे ही यहां भी नीचे कहीं कहीं खेत थे । लेकिन हिमालय तो हरा-भरा है, ईरानी पहाड़ नंगे हैं, भूमि भी नंगी है । मनुष्यों ने कहीं कहीं परिश्रम से नहर लाकर खेतों को हरा भरा किया है । उन्हीं के पास घरीदों जैसे छोटे छोटे गांव दिखाई पड़ते थे । शायद यह विमान अमेरिका का बना था, क्योंकि इसमें सारे संकेत अंग्रेजी में थे । लड़ाई के वक्त सामान और सैनिकों की ढलाई करता रहा होगा ।

विमान उड़ रहा था । अब वह काकेशस की पर्वत-शृंखला की ओर अग्रसर हो रहा था, इसलिये ऊपर चढ़ने लगा, यद्यपि रुक-रुक कर ही । कहीं कहीं नदियां मिलीं, जो छोटी छोटी नालियां सी मालूम होती थीं । पर्वत तो तालाबों के भिंड़े जैसे दिखायी देते थे । कानों में इंजन की घोर घनघनाहट सुनायी दे रही थी । और कोई दिक्कत नहीं थी । हमारी सह-यात्रिणी एक महिला के कानों से खून भी निकला, दूसरी के पेट में दर्द हुआ । पता लगा समुद्र रोग को मांति आकाश रोग नाम की भी कोई चीज है, किन्तु अधिकांश यात्री ऊंच रहे थे । उसी तरह एक-दूसरे के कंधे और शरीर की परवाह किये बिना, जैसे भारत की रेलों के तीसरे दरजे के यात्री । मौत का ख्याल क्यों आने लगा ? विमान से मौत तो योनियों की मौत होती है—मौत के बारे में सोचने भर का भी तो समय नहीं मिलता ।

विमान बहुत ऊपर उठ चुका था । जमीन से सटे कहीं कहीं घरोंदों के गांव आ जाते थे । हम से काफी नीचे उलटी गति से कुछ बादल तैर रहे थे । विमान की पूंछ की ओर मूवस्थान बनाया गया था । यात्रियों में अंग्रेज, अमेरिकन और रूसी ही अधिक थे, एशिया या भारत का प्रतिनिधित्व मैं अकेला कर रहा था ।

बादल कम थे । कहीं कहीं तो वह हिमश्लेथ से मालूम होते थे । मैं मानव की शक्ति पर कभी आश्चर्य करता और कभी शीशे की ओर से बाहर

देखने की कोशिश करता। जब विमान ऊपर नीचे की ओर अधिक गति में चढ़ता-उतरता, तो पेट ही नहीं कलोजा भी हिलता सा मालूम होता। जून का आरम्भ उत्तरी गोलार्द्ध में सरदी का समय तो नहीं है, लेकिन हम दस हजार फुट की ऊँचाई पर उड़ रहे थे, इसलिये सरदी क्यों न जोर करती। वैसे हमने गरम कपड़े पहन रखे थे। कहीं कहीं बादलों के भीतर से पहाड़ों का दृश्य बहुत ही सुन्दर मालूम होता था। वही स्थान देर तक हमारे सामने रहता था, जिससे मालूम होता था, कि विमान बहुत धीमी गति से चल रहा या ठहरा हुआ है।

६ बज रहा था, जबकि हम कास्पियन समुद्र के ऊपर पहुँचे। कार्स्पियन ओक ऐतिहासिकों के काल से इसी नाम से मशहूर है, यद्यपि वह इस्लामिक देशों में इसे खिज़्र समुद्र कहा जाता है। ईसाकी सातवीं-आठवीं शताब्दी में इसके पश्चिमी तट के स्वामी हूणवंशी खान्ज़ार (काज़ार) लोग थे, जिन्होंने कारण अरबों ने इस समुद्र का नाम बहरे-खाज़ार रखा, जिसको तालकुम्भवकों ने खान्ज़ार जाति से हटा कर खिज़्र देवदूत के साथ जोड़ दिया। समुद्र के नोले जल पर हमारे नीचे जहाँ तहाँ बादल की फुटकियाँ दिखायी पड़ीं। बायीं ओर हिमाच्छादित काकेशस पर्वत-माला दूर तक चली गयी थी। दाहिनी ओर दूर तक समुद्र ही समुद्र दिखलायी पड़ रहा था। विमान तट के पास से चल रहा था। समुद्रतल समतल सा था, जिस पर लहरें गज-चर्भ की रेखा जैसी दीख पड़ रही थीं। पौने आठ बजे बाकुनगर और उसके पास मीलों तक तेलकूपों के ढाँचों का जंगल दिखलायी पड़ रहा था। आठ बजे में दस मिनट रह गया था, जब हम धाकू के बाहर विमान-भूमि में पहुँचे। विमान-भूमि बिलकुल कच्ची थी। सोवियत वाले जानते हैं कि जब तक बिना थप और पैसे के खर्च किये काम चल सकता है, तब तक, विशेषकर लड़ाई के समय अड़्डे पर लाखों मन सीमेन्ट डालने से क्या फायदा? विमान जमीन पर उतरा। यहाँ विमान बदलने वाला था। हमारा सब सामान कस्टम कार्यालय में गया। सामान की बहुत छानबीन नहीं की गई। फिर चार रुबल में एक प्याला चाय और दो ड्रिंक



रोटी के खाने को मिले ।

दस बज कर पांच मिनट पर हम फिर जहाज से उड़े । बाकू के घाँदों और तेलकूप की भ्माड़ियों को पीछे छोड़ा । पहिले कितनी ही दूर तक कार्स्पियन के पश्चिमी किनारे पर ही उड़ते रहे, फिर वोल्गा के दाहिने तट पर आगये । यहां भी भूमि बहुत जगह गैर-आबाद थी । यह वही भूमि थी, जिसने जर्मन सेनाओं की विनाश-लीला को थोड़े ही समय पहिले देखा था । अब कहीं कहीं हरे हरे पंचायती खेत और उनके सुविशाल चक दिखायी पड़ने लगे । ढाई बजे हम स्तालिनग्राद पहुँचे ।

स्तालिनग्राद— स्तालिनग्राद सारे विश्व के लिये एक पुनीत ऐतिहासिक स्थान है । सारे विश्व पर जर्मन जाति के विजयी भंडे के साथ दासता के भंडे को भी गाड़ने के लिये आगे बढ़े अपराजेय समझे जाने वाले जर्मन फासिस्तों को यहीं पर सब से पहिले करारी हार खानी पड़ी थी । ऐसी जबरदस्त हार कि उसके बाद फिर जो वह पीछे की ओर भागने लगे, तो कहीं भी मुस्ताने के लिये उन्हें मौका नहीं मिला । स्तालिनग्राद में देखने को क्या था ? उसकी तो ईंट से ईंट बज गयी थी । जर्मनों को पराजित हुए एक महीना भी नहीं बीता था । अस्सी वस्तुतः नगर के आबाद करने का काम नहीं हो रहा था, हाँ, नगर-निर्माताओं के आबाद करने की तैयारी हो चुकी थी । अधिकांश घर धराशायी थे, किसी किसी के कंकाल कुछ कुछ दिखाई पड़ते थे । दूर तक हजारों ध्वस्त मोटरों और विमानों का ढेर लगा हुआ था । प्रायः सभी जर्मन विमान थे । एक विमान की दुम कट कर अलग पड़ी हुई थी, जिसे देख कर वह दृश्य सामने आ खड़ा हुआ, जब कि यह विमान अपने और बहुत से साथियों के साथ स्तालिनग्राद पर मृत्यु वर्षा कर रहा था । उसी वक्त किसी साहसी सोवियत वैमानिक ने उनमें से एक की दुम तराश कर उसे नीचे गिरने के लिये मजबूर किया । स्तालिनग्राद में भी हमारे विमान के उतरने की भूमि कच्ची थी । आस पास खूब चास क्री हरियाली अतः भूमि सरस थी, यह उसका वानस्पतिक वैभव बतला रहा था । यहां कहीं पर्वत नहीं थे । कहीं कहीं एकाध कारखाने आहत

और सुप्त से पड़े थे, उनकी चिमनियां मृत थीं। केवल एक बड़ी फैंकटरी की चिमनी धुवां दे रही थी, जो आंशिक तौर से चालू हो गई थी। पास में दूसरा बड़ा कारखाना निष्क्रिय पड़ा था। नगर बसाने वालों ने छोटे घरों में धोड़ीसी सरम्मत कर के आश्रय ग्रहण किया था। हम यात्रियों ने भोजन किया, कुछ इधर-उधर घूम-फिर कर देख भी आये। अभी सैलानियों के सैर करने का वाक्यादा इति-जाम कहां हो सकता था ? लेकिन स्तालिनवाद की अजेय भूमि पर पैर रख के यह कैसे हो सकता था, कि मैं कल्पना जगत में न चला जाऊँ। सोवियतभूमि एक ऐसी भूमि है, जिसके बारे में दुनियां में दो ही पक्ष हैं—या तो उसके समर्थक या प्रशंसक हों, या उसके कट्टर शत्रु। मध्यका रास्ता कोई अत्यन्त मूढ़ ही पकड़ सकता है। मैं सदा सोवियत का प्रशंसक रहा हूँ, बल्कि कह सकता हूँ, कि जिस वक्त घोर निद्रा के बाद अभी मुझे जरा ही जरा अपनी राजनैतिक आँख खोलने का अवसर मिला, उसी समय मुझे विरोधियों के घनघोर प्रचार के भीतर से रूसी क्रांति की खबरें सुनायी पड़ीं, जिन्होंने मेरे दिल में नये प्रकाश को देकर इस भूमि के प्रति इतना आकर्षण पैदा कर दिया, या कहिये दिल को इतना खीन लिया, कि मुझे इस जबर्दस्ती का कभी अफसोस नहीं हुआ। मैं वर्षों उस भूमि में रहा हूँ, वहाँ के लोगों और सरकार को बहुत नजदीक से देखा है। कड़वे-मीठे सभी तरह के अनुभव लिये हैं। गुणों को जानता हूँ, साथ साथ उनके दोषों से भी अपरिचित नहीं हूँ। लेकिन मैं उन दोषों का पाया कभी इतना भारी नहीं पाया। सोवियतभूमि के प्रति जो अनुराग या आशायें मानवता के लिये मैंने बोधीं, उसमें किसी तरह की बाधा नहीं हुई। इतिहास मानता है और सदा माना जायगा, कि मानवता की प्रगति में एक सब से बड़ी बाधक शक्ति हिटलरी फासिज़्म के रूप में पैदा हुई थी, उसको नष्ट करने का सब से अधिक श्रेय सोवियत की जनता को है। आज ( १९५१ ) छ वर्ष बाद भी मानवता की प्रगति के रास्ते में फिर जबर्दस्त बाधाएँ डाली जा रही हैं, लेकिन साथ ही मानवता बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत सबल हो चुकी है। उस समय जर्मन पराजय के बाद स्तालिनवाद में घूमते हुए मेरे मन में तरह-

तरह की कल्पनायें आई थीं। इस महान् विजय के बाद साम्यवाद के क्षेत्र के बढ़ने की पूरी संभावना थी। आज हम स्वतंत्र चीन का नवनिर्माण देख रहे हैं। और उसकी प्रगति के वेग को देख कर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। लेकिन त्रया स्तालिनवाद ने अगर अपने कृतित्व को न दिखलाया होता, तो ऐसा हो सकता था ?

मास्को को— पन्द्रह बज कर बीस मिनट पर हम फिर उड़े। कास्पियन के किनारे से यहाँ तक प्रायः बील्गा को हम अपना मार्ग प्रदर्शक बना कर आये थे, लेकिन अब हमारा पुष्पक विमान बायीं ओर मुड़ा। नीचे गाँवों के विशाल खेत शतरंज जैसे फैले हुये थे। कहीं कहीं रास्ते में बादल आजाते, तो विमान उसके ऊपर से होकर चलने की कोशिश करता और कुछ समय के लिये भूमि का सुन्दर दृश्य आँखों से ओझल हो जाता। पाँच बजे के बाद अब हम ऐसी भूमि में आये, जहाँ देवदार के जंगल दिखायी पड़ते थे। मालूम होता था, धान के हरे हरे खेत हैं। काकेशस की बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ यदि छोटे भिंडों जैसी मालूम होती थीं, तो यहाँ की छोटी छोटी पहाड़ियों के बारे में तो कहना ही क्या है। गाँवों के घर अब लम्बे राजपथ के किनारे पाती से बसे दिखायी पड़ रहे थे। राजपथ काफी चौड़े भी होंगे, किन्तु हमें ऊपर से सरल रेखा जैसे ही मालूम होते थे। बड़े-बड़े जलाशय छोटे-छोटे डबों जैसे दीख पड़ रहे थे। हाल ही में जुते और फसल वाले खेत रंग, से साफ मालूम होते थे। नदियाँ सर्पाकार दीख पड़ रही थीं। नीचे रेल की चलती ट्रेन मालूम होती थी, कोई बड़ा सांप जारहा है। एक जगह कुछ दूर तक बादल में चलना पड़ा। हमारे विमान के पंख पर कुछ छीटें भी पड़ीं। जगह जगह बड़े-बड़े कसबे आये। देवदार के जंगल और घने हुए। सात बज कर पाँच मिनट पर शाम के वक्त हम मास्को के विमान अड्डे पर पहुँच गये। शहर पार होते भी पाँच-सात मिनट लगे थे। मास्को के विशाल प्रासाद भी पहिले घरोदे जैसे ही मालूम हुए, किन्तु जैसे जैसे विमान नीचे उतरा वैसे वैसे उनकी सुन्दरता और विशालता बढ़ती गई।

आज की उड़ान तेहरान से बाकू २-४० घंटे, बाकू से स्तालिनग्राद ४-५५ घंटे, स्तालिनग्राद से मास्को ३-४५ घंटे अर्थात् कुल १०-५० घंटे हुई। विमान बाकू में २-१५ घंटा और स्तालिनग्राद में ५० मिनट ठहरा।

विमान के अड्डे पर उतरने वक्त आशा थी, कि तेहरान से इन्तूरस्त ने लिख दिया होगा, इसलिये मास्को में उसका आदमी लेने के लिये आया रहेगा, किन्तु यहाँ किसी का कोई पता नहीं था। भाषा की दिक्कत थी, क्योंकि दूसरी यात्रा में जो कुछ सीखा था, वह भी करीब करीब भूला जा चुका था। तेहरान के निवास का उपयोग रूसी सीखने के लिये कर सकते थे, किन्तु वहाँ दुविधा में पड़े थे। किसी तरह सामान विश्रामगृह में पहुँचाया। इन्तूरस्त के पास फोन करना चाहा, तो किसी को उसका पता नहीं था। वस्तुतः युद्ध के कारण सैलानियों के लिये यात्रा की व्यवस्था करने का काम रह नहीं गया था, इसलिये पिछलाई दो यात्राओं में इन्तूरस्त के जिस चुस्त प्रबन्ध को हमने देखा था, उसको इस वक्त नहीं पाया। बहुत पूछ-ताछ करने पर वहाँ किसी आदमी की प्राइवेट कार मिल गई, जिसके ड्राइवर ने दो सौ रुबल (प्रायः सवा सौ रुपये में) होटल तक पहुँचा देने का जिम्मा लिया। दो एक जगह पूछ-ताछ करने पर अन्त में इन्तूरस्त के होटल में पहुँच गये। कमरा खाली नहीं है—अंग्रेजी दूतावास में चले जाइये—कहा गया। उस समय भारतीय दूतावास नहीं था, अंग्रेजी दूतावास में किस परिचय के बल पर मैं जा सकता था। खैर, जरा ठहरने पर एक कमरा मिल गया। चीजें बहुत मंहगी थीं, किन्तु वही जो राशन में नहीं थीं। मैंने सोचा था, राजधानी के नर-नारियों पर युद्ध का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन सड़कों पर भीड़ में मैंने किसी के शरीर पर फटे कपड़े नहीं देखे, और नहीं चेहरों पर चिन्ता की छाप थी। अपने बारे में सोचने लगा—सौ पौंड का चैक लेकर मैं आया हूँ, जिसमें आठ पौंड तो मोटर के ही निकल गये। चीजें जितनी मंहगी थीं, अगर अपने पौंडों के भरोसे रहना होता, तो उनका क्या बनता? रात को रहने के लिये जो कमरा मिला, वह बहुत साफ-सुथरा था। उसमें तीन बच्चियाँ थीं, शीशेदार अलमारी, दो

चारपाइयां, तीन कुर्सियां, दो मेज, नीचे अच्छी कालीन बिछी हुई थीं। हां, एक लिहाफ कुछ पुराना जरूर था। दीवार पर एक सुन्दर तस्वीर भी टंगी हुई थी। संक्षेप में स्वच्छता और आराम की कोई कमी नहीं थी। मैं अगले दिन (४ जून) स्त्रेला (शर) डाक से जाने का निश्चय कर के आराम से सो गया।



## ३-लेनिनग्राद में

मास्को से लेनिनग्राद की एक बहुत सीधी रेलवे है, जिसके ऊपर चलने वाली तेज डाकगाड़ी का नाम स्वेला है। यह ट्रेन ६५१ किलोमीटर की यात्रा १७ घंटे में पूरी करती है। ३०१ रूबल (प्रायः २०० रु०) में दूसरे दर्जे का टिकट मिला था। तब हमने लेनिनग्राद नहीं दिया, किन्तु इंग्लैण्ड वालों ने विश्वास दिलाया, कि वह अपने आफिस को फोन कर देंगे। पिछली यात्रा में मैं जाड़े के दिनों में इस रास्ते से गुजरा था। उस समय सब जगह बरफ ही बरफ थी और केवल देवदारों के दरख्त हरे दिखाई पड़ते थे। अब हम गरमी में चल रहे थे, लेकिन इस गरमी का हमारी गरमी से कोई वास्ता नहीं। यह गरमी हिमालय के बदरीनाथ केदारनाथ जैसे स्थानों की गरमी थी। बरफ कहीं नहीं थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती थी। बिना देखे विश्वास करना मुश्किल होता कि उत्तरी रूस इतना हरा-भरा देश है। ग्यारह बजे रात तक रात का कहीं पता नहीं था। लेनिनग्राद में तीन महीने वाली सफेद रात आजकल चल रही थी। मास्को पर जर्मनों ने बम वर्षा की थी, किन्तु वह उनके अधिकार में नहीं जा सका। मास्को से कुछ ही मील दूर चलने

पर सुद की ध्वंस लीला दिखाई पड़ने लगी। कालिन्निन (त्वेर) नगर के मकान ध्वस्त और कारखाने पस्त पड़े हुए थे। उनके निर्माण का काम अभी तक तो नहीं हो रहा था। त्वेर का नाम आते ही मुझे यहां का प्राचीन नागरिक निकितिन याद आया, जो कि पहिला युरोपीय था, जिसने भारत को देखा, वहाँ छ साल (१४६६-६२ ई०) रहा और उस पर एक पुस्तक लिखी। सोवियत की रेल— विशेषकर दूर जाने वाली ट्रेनें बड़े आराम की होती हैं। यहां की सभी रेलवे लाइनें बहुत चौड़ी हैं और डब्बे कुछ अधिक ऊँचे। श्रेणियां—प्रथम, द्वितीय, तृतीय नरम, तृतीय कड़ा। प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाले बहुत ही कम होते हैं। तृतीय श्रेणी का नरम हमारे यहां के ड्योडे की जगह है, किन्तु आराम देने में वह हमारे यहां की द्वितीय श्रेणी से भी अच्छा है। वैसे तो कठोर तृतीय श्रेणी हमारे यहां के ड्योडे दर्जे से अच्छी है, उसमें गद्दा बाहर से मिलता है, रात के लिये तकिया और ओढ़ना भी मिल जाता है। सब से बड़ी बात यह है, कि यात्री को लम्बी यात्रा में झीड़ के मारे परेशान होना नहीं पड़ता। हर कम्पार्टमेंट में दो नीचे और दो ऊपर सीटें होती हैं। एक सीट एक आदमी के लिये टिकट लेते ही रिजर्व हो जाती है, क्योंकि रेलवे टिकटों में ट्रेन नम्बर, गाड़ी नम्बर, कम्पार्टमेंट नम्बर और सीट नंबर दर्ज रहता है। आपने जिस सीट का टिकट ले लिया, उस पर कोई और नहीं आ सकता। हरेक डब्बे में एक एक कंडक्टर होता है, जो टिकट लेकर आपकी जगह ही नहीं घतला देता, बल्कि डब्बे की सफाई और चाय बनाकर भी पिला देता है। हमारे कम्पार्ट में मुझे लेकर चार आदमी थे, जिसमें एक साइबेरिया की रुसी लड़की ह्युटियों में अपनी सखी से मिलने लेनिनग्राद जा रही थी। वह मेडिकल कालेज की छात्रा थी। अभी भाषा के कुछ दर्जन शब्द ही मालूम थे, इसलिये साधियों से अधिक बात क्या कर सकता था? वैसे रूसी लोग बहुत मिलनसार होते हैं, वह अंग्रेजों की तरह अपरिचित के साथ मुँह फुला कर यात्रा नहीं करते। अभी बाजार-दर का भाव नहीं मालूम हुआ था; न यही पता था कि राशन-कार्ड और बिना कार्ड से मिलने वाली बीजों के भाव में अन्तर है। एक लेमीनाद की बोतल के लिये जय

मोलह रूबल ( दस रुपया ) देना पड़ा, तो न जाने कैसा सा मालूम हुआ ।

रात को सो गये । सबेरे चार बजे उठे, तो मालूम हुआ न जाने कब से सबेरा हुआ है । अब लेनिनवाद ६ घंटे का रास्ता और रह गया था । युद्ध का भीषण दृश्य वर्षों बाद भी दिखाई पड़ रहा था । गांव उजड़े हुये थे । जहाँ जहाँ मोर्चे-बंदियाँ अब भी खड़ी थीं । जहाँ कभी देवदार के जंगल रहे होंगे, वहाँ आज छिन्न-मस्तक कितने ही टूट दिखाई पड़ रहे थे । इन देवदार बनो को अपने स्वाभाविक रूप में थाने में वर्षों लुथेंगे । ट्रेन लेनिनवाद के उपनगर में पहुँची । युद्ध के पहिले लेनिनवाद तीस लाख से अधिक आबादी का एक विशाल नगर था, उसका उपनगर दूर तक फैला हुआ था । लेनिनवाद पर भीषण बम-वर्षा हुई थी । प्रायः नौ सौ दिन तक जर्मन सेनाओं ने इस नगर को घेरे रखा और ऐसी बमबारी तथा नाकेबन्दी कर रखी थी, कि यदि दूसरा नगर होता, तो उसने कब का आत्मसमर्पण कर दिया होता । उपनगर में सचमुच ही ईंट से ईंट बज गई थी । दीवारें भी शायद ही कोई कुछ हाथ खड़ी थीं । अगर कीवारे कहीं दिखाई भी पड़ती, तो उन पर छतों का पत्ता नहीं था । अधिकांश घर तो भूमिशाव हो गये थे । रेलवे लाइन के आस-पास उल्टी मालगाड़ियाँ, या उनके डब्बे पड़े हुए थे । जगह-जगह कितने ही झियारों के लोहे भी मौजूद थे ।

आखिर दस बजे ट्रेन लेनिनवाद नगर में पहुँची । उस समय आस्मान में बादल धिरा हुआ था, कुछ हलकी सी बूँदें भी पड़ रही थीं । मुझे डर लग रहा था, कि कहीं यहाँ भी इंतूरिस्त का आदमी नहीं आया, तो परेशान होना पड़ेगा । किन्तु ट्रेन के प्लेटफार्म पर खड़े होने के साथ ही इंतूरिस्त का आदमी हमारे डब्बे के पास मौजूद था । उसने अपनी टैक्सी में हमारा सामान रखवाया और सीधे अस्तोरिया होटल के ११० नं० वाले कमरे में पहुँच दिया । जारशाही के जमाने में यह बहुत ऊँचे दरजे का होटल था, जहाँ सामन्त और शाही मेहमान ठहरा करते थे । अब भी साज-सजावट का सामान काफी था । पिछली बार जब मैं लेनिनवाद आया था, तो इंतूरिस्त का दफ्तर युरोपा होटल



में था। शारीरिक और मानसिक श्रम की आमदनी को छोड़ कर और किसी भी आय की वैध नहीं मानने से यह कहने कि आवश्यकता नहीं, कि यहाँ की दुकानें ही नहीं होटल भी किसी व्यक्ति या व्यापारिक कम्पनी की संपत्ति नहीं हैं। इन्तुरिस्त एक बहुत भालदार सरकारी एजेन्सी है, जिसके पास शहरों में बड़े-बड़े होटल, सैकड़ों बसें और कारें तथा हजारों कर्मचारी मौजूद हैं। होटल में अपने कमरे में पहुँच कर अब अनिश्चित अवस्था से निश्चित अवस्था में तो मैं पहुँच गया था। लोला मौजूद थी। लेकिन मैंने इतनी भर खबर तेहरान से दी थी, कि मैं अब आसकता हूँ। तारीख जब निश्चित मालूम हुई, तो तार नहीं दे सका। होटल में लेनिनग्राद विश्वविद्यालय के रेक्टर (चांसलर) के पास अपने जाने की सूचना फोन से दिलवा दी। फिर सोचा, प्रतीक्षा करने से अच्छा यही है, कि लोला के घर ही हो आये। भोजनोपरान्त इन्तुरिस्त की कार ली और त्काचेई मुहल्ले में दूँदते दूँदते उस घर में पहुँच गये। यह डर था कि मंगल का दिन होने से लोला विश्वविद्यालय में काम करने गयी होगी। उसके गृह-नियंत्रण कार्यालय में पता लगाया। मालूम हुआ, ईगर बालोधान में है। इन्तुरिस्त की दुभाषिया महिला ने पूछा—तुम ईगर को पहचानती हो ? उसने हँसते हुए मजाक के स्वर में कहा—उसे कौन नहीं पहचानेगा, ऐसा ही काफ़ा जैसा वाप। सचमुच ही हमारे भारत में जिनको गोर्रा कहते हैं, वे भी गोर्रा के समुद्र में जाकर काले मालूम होते हैं। हमने बालोधान देखने की जरूरत नहीं समझी और तीन बजे होटल लौट आये। तब तक लोला की पता लग गया था और वह होटल में आकर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। हमने अपना सामान वहीं छोड़ दिया और ताम्बाय पकड़ कर त्काचेई का रास्ता लिया। धंटे भर का रास्ता था। तामों के अलग अलग नंबर रहते हैं, यदि अपनी ताम न पकड़ते, तो कई जगह बदलना पड़ता। पहिले हम दोनों बालोधान गये। ईगर अपने समयस्क लड़कों में खेल रहा था। रूस में लड़के हों या सयाने उनमें वर्ण-भेद की भावना नहीं पाई जाती। एक एंग्लोइंडियन महिला एक दिन बतला रही थी— एक युरोपियन स्कूल में शिक्षिका रहते समय उनको कैसे कड़वे अलुमब

हुए। लड़के काली औरत कह के भजाक करते थे। एक छोटा सा बच्चा समझ नहीं पाता था कि हमारी शिक्षिका जब हमारी तरह थ्रंजेजी बोलती हैं, तो इनका रंग दूसरा कैसे है। वह उनके हाथ पर उंगली रगड़ कर देख रहा था, कि कहीं रंग ऊपर से पोता तो नहीं है। यही नहीं थ्रंजेज पच्चे उसे काली कह कर आपस में परिहास करते थे। सोवियत में इस तरह की हीन भावना की गुंजाइश न बहों में है न छोटों में। ईगर के बालोद्यान के सौ-सवा-सौ लड़कों में वही एक था, जिसके बाल काले थे, जिसका रंग दूसरों के रंग से फरक रखता था। रोमनी ( जिप्सी ) लोग शताब्दियों पहिले भारत से गये, तो भी उनके बाल काले और रंग प्रायः हमारे यहां के गोरे रंग के आदमियों जैसा होता है। लड़के ईगर को सिगान ( रोमनी ) कहते, तो वह इन्कार करते हुए अपने को “ इंदुस ” ( हिन्दू ) कहता। ईगर अपने समवयस्क लड़कों में सबसे अधिक लम्बा था, यद्यपि उतना भोटा-ताजा नहीं था। हम बात क्या कर सकते थे, अभी तो भाषा की पूंजी बहुत कम थी, किन्तु स्नेह प्रकट करने के लिये भाषा की आवश्यकता नहीं होती।

लोला अथ वही लोला नहीं थी, जिते रात बरस पहिले हमने देखा था। लेनिनवाद के नौ सौ दिनों के घिरावे का प्रभाव पुराने परिचित प्रायः सभी नेहरों पर दिखायी पड़ता था। लोला बूढ़ी मालूम होती थी। सौंदर्य और स्वारथ में फूल की जैसी खिली दत्तमाई की धीवी ल्यूवा की भी यही हालत थी। नगर का दीर्घकाल-व्यापी घिरावा क्या होता है, इसका अनुमान दूसरा आदमी मुश्किल से कर सकता था। १९४१-४२ के जाड़ों में घिरावे ने बड़ा भीषण रूप लिया था, उस समय का राशनकार्ड चार्ट बतला रहा था, कि सितम्बर में प्रति व्यक्ति २०० सौ ग्राम रोटी मिली, अक्टूबर में २०० ग्राम, नवम्बर में १५० और फिर १२५ ग्राम। जहाँ आदमी के लिये और अन्नों के साथ हजार बारह सौ ग्राम रोटी की आवश्यकता होती है, वहाँ सवा सौ ग्राम में कैसे गुजारा हो सकता है ? लेकिन किसी तरह जीवन-रक्षा करनी थी। लोला बतला रही थी—राशन में मिले रोटी के खंड की लाकर गैने भेज पर चाकू से काटा। बड़ा टुकड़ा ईगर को दिया और छोटा भी रख छोड़ा। काटते

वक्त रौंटी के कुछ कनके भोज पर गिर गये । ईशर ने जीभ से अंगुली तर कर के उसको भी चुन-चुन कर खालिया । लोग जूतों के तल्लों को उवाल कर खाते थे । सरस भी नहीं बचता था । एक महिला ने कितने ही दिनों तक वार्निश उवाल कर खाया, जिसके कारण उसकी अंतड़ी हमेशा के लिये खराब हो गई । लेनिनग्राद का कोई घर नहीं था, जिसके अनेक आदमी उस समय न मरे हों । लोला की बहन भूखों मर गई । उसका बहनोई भी भूखों मर गया ।

यद्यपि उपनगर में जितनी प्रलयलीला देखी थी, उतनी नगर के भीतर नहीं थी, किन्तु तो भी घने बसे गृहखलों में भी कितने ही मकान गिरे, जले या छतों के बिना खड़े थे । त्काचेई की आट्टाईसवीं गृहश्रेणी में हम रहते थे । हमारे पीछे कई एकड़ जमीन खाली पड़ी थी, जहाँ किसी वक्त दुर्मजिले लकड़ी की दीवारों वाले घर खड़े थे । बम-वर्षा में सब जल गये । लंदन में होता, तो यह भूमि खाली पड़ी रहती । लेकिन रूस में यह संभव नहीं है । सारी जमीन को क्यारी-क्यारी बना के लोगों ने बाँट लिया था । कहने को त्काचेई अपने नाम से जुलाहों (त्काच) का गृहलक्ष जान पड़ता है, लेकिन यहाँ केवल जुलाहे ही नहीं रहते । मजदूर काफी संख्या में रहते हैं, लेकिन उन्हीं के पड़ोस में प्रांफेसर, डाक्टर, इंजीनियर, क्लर्क सभी तरह के लोग रहते हैं । जो पहिले नगर में पहुँचे, उन्होंने एक एक टुकड़ा जमीन का ले लिया । लोला के पास भी एक छोटी सी क्यारी थी, जिसमें कुछ प्याज और गाजर लगा था । डेढ़ मन् आलू की आशा विफल नहीं हुई । रोज घंटा भर अपने खेत में दे देना किसी के लिये मुश्किल नहीं था ।

मुझे अब भाषा सीखने की भिन्ता थी । युनिवर्सिटी तथा दूसरे शिक्षण-लय अब बन्द हो चुके या हों रहे थे । सभी शिक्षण-संस्थाएँ एक सितम्बर को खुलने वाली थीं । तीन महीने का समय मेरे पास था, जिसमें मैं रूसी भाषा का ज्ञान बढ़ा लेना चाहता था, क्योंकि मालूम था, छात्रों को पढ़ाने के लिये रूसी छोड़ दूसरा कोई माध्यम नहीं है । १ जून को युनिवर्सिटी के रेक्टर के पास आवेदनपत्र दे दिया । सब अच्छा था, लेकिन युनिवर्सिटी हमारे रहने की जगह

से पांच-छ मील से कम दूर नहीं थी। रोज आर्न-जार्न में ढाई तीन घंटे वाम-वाय में लगने जा रहे थे, सबेरे और शाम को उसमें इतनी भांड होती थी, कि भीतर घुस जाने पर भी बैटने की जगह मुश्किल से मिलती। बीस घंटे की रात और चार घंटे का दिन तो हम अपनी पिछली यात्रा में भी देख गये थे, लेकिन इस वक्त तो बीस घंटे का दिन और चार घंटे की रात भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि चार घंटे की रात को भी गोधूलि और उषा ने आपस में बांठ लिया था। लम्बा दिन होने पर भी गरमी और पसीने का पता नहीं था। इतना लम्बा दिन होने पर भी मुझे तो वह छोटा ही भालूम होता था। अधिकतर समय मेरा घर पर ही बीतता था, और कभी कभी बाहर निकलता था। युद्ध का प्रभाव घरों पर ही नहीं दिखायी पड़ता था, बल्कि उसी के कारण पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक थी। मुनिवर्षिंदी अभी बन्द नहीं हुई थी। वहां तो इस समय बीस सेकड़ा भी लड़के नहीं थे। ट्राम चलाने वाली स्त्रियां थीं। टिकट वांटने-वाली स्त्रियां थीं। दुकान और दफतर का काम स्त्रियां कर रही थीं। यहां तक कि चौरस्तों पर रास्ता दिखाने वाली पुलिस में भी मुश्किल से ही कहीं पुरुष दिखायी पड़ता। काले चमड़े नहीं काले बालों का भी अब पता मुश्किल से मिलता था। रूसी लोगों के बाल पीले, या भूरे होते हैं। उनके चेहरे का रूप-रंग भी अपना होता है—नाक छोटी और नाक पर कुछ उन्नी, चेहरा चौड़ा और गोल।

लेनिनप्राद विश्वविद्यालय ने ही मुझे पढ़ाने के लिये बुलाया था, लेकिन नियुक्ति के लिये कितनी ही कागजी कार्यवाही करनी थी, जिसमें स्वस्थ होने के लिये डाक्टरों की सर्तीफिकेट भी देना पड़ा—छूत की बीमारी कहीं न हो।

२७ जून को लेनिनप्राद पहुँचे मुझे २३ दिन हो गये थे। अब मैं उसे अपना नगर सा मानने लगा था। एक दिन पता लगा, कि डाक्टर मेघनाथ साहा आये हुए हैं और मुझे ढूँढ़ रहे हैं। मुझे चार बजे यह भी पता लगा कि वह पांच बजे ही लेनिनप्राद छोड़ने वाले हैं। दौड़ा-दौड़ा अस्तोरियां होटल पहुँचा, जहाँ उनसे भेंट हुई। बहुत लम्बी बात करने का अवसर नहीं

था। डा० साहा दो सप्ताह के लिये रूस आये थे, और देखने के लिये इतना समय अर्पण था। सोवियत साइंस अकादमी की २२० वीं जयन्ती थी, इसी महोत्सव के लिये साहा दुनिया के और बड़े-बड़े साइंस-बेत्ताओं की तरह सोवियत द्वारा निर्मंत्रित होकर आये थे।

मेरे पास अभी रेडियो नहीं था, भारत की खबरों के पाने का कोई साधन नहीं था, रूसी पत्रों में शायद ही कभी दो चार पंक्तियां देखने में आतीं। वैसे चौबीस घंटे में २०-२१ घंटे बराबर बोलते रहने वाला रेडियो लेनिनग्राद के हजारों घरों की तरह हमारे घर में भी लगा था, लेकिन भारत की खबर जानने की उत्सुकता पूरी नहीं होती थी। डा० साहा ने बतलाया—“कि कांग्रेस नेता जेलों से छोड़ दिये गये हैं। जिस वक्त मैं भारत से चला, उस वक्त कांग्रेसी नेता शिमला में ग्राइसराय से बातचीत करने में व्यस्त थे।” अंग्रेजों ने जिस चाल के साथ समझौता करने के लिए बातचीत शुरू की थी, और जो शर्तें रखी थीं, उनको बतलाते हुए डा० साहा ने कहा—“पूँजीवादी टांचे में इससे और अधिक क्या उम्मीद की जा सकती है।” भिन्न-भिन्न देशों के जो विद्वान् अकादमी की जुबली में शरीक होने के लिये आये थे, वह अपना संदेश लाये थे। डा० साहा को पहिले ख्याल नहीं आया। यहां आने पर जब उन्हें संदेश देने के लिये कहा गया, तो उन्होंने एक संदेश तैयार किया। भारत की उन खूबसूरत खोपड़ियों में डा० मेघनाथ साहा नहीं हैं, जो दूसरे देशों में जाकर अंग्रेजी को सर्वे-सर्वा मानने में जातीय अपमान का ख्याल नहीं करते। उन्होंने अपने संदेश की अंग्रेजी कापी मुझे देकर कहा—मैं नहीं चाहता, कि मेरा संदेश अंग्रेजी में जाय। इसे हमारी भारतीय भाषा में होना चाहिये—चाहे हिन्दी में हो या बंगला में, किन्तु मैं पसन्द करूँगा कि यह संस्कृत में हो। उन्होंने कहा, कि इसे संस्कृत में अनुवादित कर यहाँ अन्धवीं तरह छपवा कर दे दें। मैंने अनुवाद तो कर दिया, किन्तु नागरी अक्षरों की उतनी सुन्दर छपाई का वहाँ प्रबन्ध नहीं हो सकता था, इसलिये उसे डाक्टर साहा के पास भेज दिया। उनका संदेश निम्न प्रकार था—

## भारत का अभिनन्दन

“ भारत की जनता, एक सौ इकसठ बरस पहिले स्थापित बंगाल-रायल-एजियाटिक सोसायटी और भारतीय वैज्ञानिक परिषदों और सभाओं के संघ के रूप में स्थित राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान की ओर से सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की विज्ञान अकदमी का अपने अस्तित्व के दो सौ बीस बरस पूरा करने के उपलक्ष्य में अभिनन्दन करता हूँ । क्रान्ति के पहिले भी विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अकदमी ने जो सफलताएँ प्राप्त की थीं, उन्हें विज्ञान के इतिहास में सुनहले अक्षरों में लिखा गया है । भारतीय विद्या के क्षेत्र में रूसी प्रतिभाओं की अद्वितीय देन, राध और बोधलिंग के महान् वैदिक कोश को—जो कि लेनिनवाद में करीब सत्तर बरस पहिले प्रकाशित हुआ—भारत बड़ी कृतज्ञता पूर्वक याद करता है । बौद्ध शास्त्र के महान् विद्वान् अकदमिक श्रैवास्की—जिन्होंने दो साल पूर्व निर्वाण प्राप्त किया—की गंभीर देनों को भी भारत बड़ी कृतज्ञता-पूर्वक याद करता है ।

“ क्रान्ति के बाद अकदमी को जो बल और उत्तरदायित्व प्रदान किया गया, उससे उसने रूस में महान् टेक्नोलॉजिकल क्रान्ति लाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा लिया । पिछले पच्चीस बरसों में सोवियत रूस ने जो महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त की हैं, वह भारत के लिये एक महती प्रेरणा का काम देती हैं । हमारे हृदयों में वह इस बात की नई आशा और प्रेरणा देती हैं, कि हम अपने भिन्न-भिन्न शत्रुओं—दरिद्रता, रोग और निरन्तर खायाभाव के संयुक्त बल से लड़ें । भारत सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की गौरवशाली और सफलता-पूर्ण सिद्धियों तथा राजनीतिक, आर्थिक, टेक्नोलॉजिकल और धार्मिक इन चार प्रकार की क्रान्तियों में सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की गौरवशाली साधनाओं के लिये साधुवाद देने में दुनिया के दूसरे देशों के साथ है । ”

अपने सात महीने की तपस्या के बाद लेनिनवाद में पहुँच कर पुराने भिन्न कलियानीक, विस्त्रोच्नी, सुलेकिन आदि से मिल कर खुशी होगी ही चाहिए थी, किन्तु इस बात का खेद होता था, कि अकदमिक श्रैवास्की

का वह प्रसन्न मुख और वह गंभीर संलाप अब प्राप्त नहीं होगा। अपनी सोवियत-भूमि की द्वितीय यात्रा मैंने उन्हीं के निमंत्रण पर की थी। उस समय मैं कुछ ही महीनों रह सका था, लेकिन उतने ही में हमारी घनिष्टता इतनी बढ़ गई थी, कि मालूम होता था, हम युगों से एक दूसरे के साथ अत्यंत घनिष्ट संबंध रखने आये थे। मेरे भारत लौटने के बाद भी उनका बार-बार आग्रह था, कि मैं अबकी दीर्घकाल के लिये लेनिनग्राद आऊँ। वह इसकी कोशिश भी कर रहे थे, कि इसी में महापुद्ग छिड़ गया। रूस पर भी द्विदल ने आक्रमण कर दिया। लेनिनग्राद धिर गया। उस समय सोवियत सरकार ने अपनी दूसरी बहुत सी कला तथा विद्या संबंधी निधियों के साथ डाक्टर श्रोवात्स्की जैसी प्रतिभा-निधियों को भी हवाई जहाज से दूर हटाया और साल ही भर बाद उत्तरी कजाकस्तान के रम्य स्थान बरोवा में उन्होंने अपनी जीवन-लीला समाप्त की।

मैं युनिवर्सिटी का प्रोफेसर नियुक्त हो गया था। अब पहिली सितम्बर तक के समय को मुझे भाषा की तैयारी तथा दूसरे कामों में बिताना था। प्रोफेसर मे आशा की जाती है, कि वह अपने अनुसंधान का काम भी करेगा, जिसके लिए उसको समय मिलना चाहिये, इसीलिये समय देने में इसका ख्याल रखा जाता है। मुझे हफ्ते में बारह घंटे पढ़ाना था। जिसकी भी इस तरह से ख्याल रखा गया था, कि तीन दिन ही युनिवर्सिटी जाने की जरूरत पड़े। रविवार का दिन तो साधारण छुट्टी का था ही।

डा० श्रोवात्स्की में मेरा जो संबंध था, उसके कारण डाक्टर बराधिकोफ का भाव मेरे प्रति पहिले कुछ अच्छा नहीं था। उनका और डा० श्रोवात्स्की की कुछ खटपट सी थी। उनको यह मालूम नहीं था, कि मैं उनके काम को बड़े महत्त्व की दृष्टि से देखता हूँ। बराधिकोफ यद्यपि संस्कृत और पश्चिम की दूसरी पुरानी भाषाओं के भी अच्छे पंडित हैं, लेकिन उन्होंने अपने अनुसंधान का काम अधिकतर आधुनिक भारतीय भाषाओं—रोमनी, हिन्दी आदि के बारे में किया है। पश्चिमी देशों में संस्कृत जैसी प्राचीन और मृत भाषाओं के अनुसंधान को ही उच्चश्रेणी का समझा जाता है। इसलिये डा० बराधिकोफ के अनुसंधानों को पुराने ढंग के विद्वान् उतना महत्त्व नहीं

देते थे। किन्तु यह ठीक नहीं था, आजकल जाँचित भाषाओं का भी भाषातत्व, इतिहास और समाजशास्त्र के अनुसंधानों में बहुत महत्व है। मैं स्वयं हिन्दी साहित्य का एक लेखक ठहरा, फिर कैसे हो सकता था, कि मैं डा० बराचिकोफ के काम को महत्व न देता। लेकिन वह समझते थे, कि डा० श्वेर्वोत्सकी की तरह दोस्त, संस्कृत का पंडित और संस्कृत-संबंधी अनुसंधान से संबंध रखनेवाले तिब्बती और पाली साहित्य का विशेषज्ञ होने में मेरे भाव भी उनके काम के प्रति वैसे ही होंगे। डा० बराचिकोफ बड़े प्रतिभाशाली विद्वान् हैं और साथ ही बड़े परिश्रमी भी। तरुणार्थ में जब उन्हें रोमनी भाषा के अध्ययन का शौक हुआ, तो कितने ही दिन रोमनियों के डेरों में बिताये। लेकिन वह बड़े लज्जालू प्रकृति के हैं। बाज वक्त तो मालूम होता, कि उनके मुँह में जवान ही नहीं है। मैं पहिले भी उनकी कुछ कृतियों को पढ़ चुका था और अब की तो और पढ़ने तथा साथ काम करने का मौका मिला था, इसलिये मैं उनका प्रशंसक रहा।

पौने तीन महीने की इस छुट्टी में रूसी भाषा और दूसरी पुस्तकों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ इधर-उधर घूमना, लेनिनग्राद के भिन्न-भिन्न स्थानों को देखना तथा मित्रों से मिलना यही काम था। जुलाई-अगस्त में यद्यपि विश्वविद्यालय बन्द हो गया था, किन्तु अध्यापकों और विद्यार्थियों को पुस्तकों की आवश्यकता छुट्टी के दिनों में भी हो सकती है, इसलिये युनिवर्सिटी के प्राच्य और दूसरे विभागों के पुस्तकालय बराबर खुले रहते थे। इससे पुस्तकों का बड़ा सुभीता था। युनिवर्सिटी का एक केन्द्रीय पुस्तकालय था, फिर उसके विभागों के अलग अलग पुस्तकालय भी थे। जिनमें से हमारे प्राच्य विभाग के पुस्तकालय में चार लाख से भी ऊपर पुस्तकें थीं। तुलना कीजिये इससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से, जिसमें पुस्तकों की संख्या मुश्किल से आठे लाख है। पुस्तकों के सिलसिले में मैं अक्सर प्राच्य पुस्तकालय में जाता था। सारे विश्वविद्यालय में खी-राख था। जब छात्रों में लड़कों की संख्या पंद्रह और बीस सैकड़ा हो, तो पुस्तकालय के बारे में क्या कहना है— पुस्तकालय तो खास तौर से क्रिया का विभाग समझा जाता है। ३० जुलाई



को मैं पुस्तकालय में था, वहाँ की महिलायें पत्र में छपी एक कहानी को बड़े गौर से पढ़ रही थीं। उन्होंने आग्रह-पूर्वक लोला को भी उसे पढ़ने को कहा। मैं भी दो महीने में कुछ कुछ टो-टा कर पढ़ने लगा था और कुछ दूसरों ने भी सहायता की, इसलिये कहानी का सरांश मालूम हो गया। कहानी का नायक एक सैनिक अफसर युद्ध-क्षेत्र में था। वहाँ किसी तरुणी से उसका प्रेम होगया। लड़ाई के समय तक तो दोनों प्रेमी मिलते रहे। लड़ाई खतम हो गई, सैनिक घर लौटने लगे। अफसर घर आया। तरुणी आशा करती थी कि उसका प्रेमी अवश्य उसके पास आयेगा, किन्तु देर तक प्रतीक्षा करने पर भी जब नहीं आया, तो तरुणी अपने प्रेमी के घर पहुँची। देखती है, वहाँ एक ४५ वर्षीया प्रौढ़ा अफसर की पत्नी मौजूद है। वह बहुत निराश हुई और अपने प्रेम का स्मरण दिलाते हुए अननय विनय करने लगी, मगर अफसर अपनी प्रौढ़ा पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसकी एक लड़की बच गयी थी, दो बच्चे लेनिनग्राद के घेरे के समय मर चुके थे। अफसर अपनी पत्नी को छोड़ कर उसे असहाय बनाने के लिये तैयार नहीं था। तरुणी को सावधान रहने की शिक्षा मिली और पुरुषों की निष्ठुरता के लिये गाली देते वह घर लौट गयी।

सारी महिलायें इतने चाव से उस कहानी को क्यों पढ़ रही थीं ? चार साल के खूनी युद्ध में ली कहीं और पुरुष कहीं बिखर गये थे। बहुतसे सैनिकों के परिवार गांव छोड़ कर दूसरी जगह चले गये थे, जहाँ से सेंट-मुत्लाकात की तो बात ही क्या चिट्ठी-पत्री भी मुश्किल से आती थी। कितनी ही स्त्रियों ने समझ लिया, कि हमारा घरवाला अब जीवित नहीं होगा। उक्त कहानी जैसी घटनायें हर जगह पायी जाती थीं। बेर्था के सैनिक पति ने लाम पर जा दूसरी तरुणी से प्रेम कर लिया और बेचारी मुँह टाकती रह गई। जेनिया का पति भी नये प्रेम में फँसकर न जाने कहां भला गया। अन्ना का पति महीनों से पत्र नहीं भेज रहा था, इसलिये वह भी चिन्तित थी। इस कहानी में ऐसी अभागी पत्नियों के पक्ष का समर्थन किया गया था, इसीलिये कहानी इतने ध्यान से पढ़ी जा रही थी।

अगरस्तु के पहिले हफ्ते में हमारे मकान के पीछे की क्यारियाँ बड़ी हरी

भरी थीं। यद्यपि खेतिहरों में से कुछ ने परिश्रम ही नहीं अधिक किया था बल्कि अच्छी खाद के साथ दिमाग भी लगाया था। किन्तु लोला ने तो किसी तरह से फावड़े से जमीन को खुरोच कर उसी तरह थालू काट कर ढांक दिये थे, जैसे बाढ़ के हटने पर बढ़ैया टाल (मुंगेर-जिला) के किसान साल में एक ही बार हल बैल लेजा कर बीज डाल आते हैं और फिर काटने के ही समय उसका ध्यान रखते हैं। यद्यपि मकानों के सीमेन्ट के चूरन तथा दूसरी चीजें भी हमारी क्यारियों में पड़ी थीं, लेकिन जमीन स्वभावतः उर्वर थी, इसलिये थालू अभी ही दो-दो तीन तीन तोले के हो गये थे।

८ अगस्त को शाम के वक्त ११ बजे रेडियो ने कहा—अभी हम मास्को से एक महत्वपूर्ण खबर देने वाले हैं। लोला ने पूछा—क्या महत्वपूर्ण खबर होगी? मैंने जरा भी विलम्ब किये कह दिया—जापान के साथ युद्ध-घोषणा। दो मिनट बाद ही मास्को रेडियो को युद्ध-घोषणा करते सन कर लोला को बहुत आश्चर्य हुआ। पूछा—कैसे तुमने बतलाया? मैंने कहा—“इंडुस् (हिन्दू) होने का फायदा क्या, यदि मैं इतना भी न बतला सकूँ?”

—नहीं नहीं, सच बताओ।

मैंने कहा—यह कोई जोतिस का चमत्कार नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी ही है, बलिन में मित्र-शक्तियों के प्रतिनिधियों ने स्तालिन की मांगों का समर्थन किया है। इंग्लैंड की अन्तर्राष्ट्रीय नीति में भी परिवर्तन हुआ है। चीन के प्रधान मंत्री और विदेश-मंत्री दो-दो बार मास्को पधार चुके हैं। मंगोलिया के प्रधान-मंत्री का अभी अभी मास्को में आगमन हुआ। हिटलर के पराजय के बाद जापान की पराजय निश्चय है। पूर्वी यूरुप में जिस तरह रूस ने अपना प्रभाव बढ़ाया, यदि पूर्वी एशिया में भी वह अपना प्रभाव उसी तरह बढ़ाना चाहता है, तो चीन से भगाकर जापान से धुटना टिकवाने के लिये रूस को उसके विरुद्ध युद्ध-घोषणा करनी आवश्यक है।

बाहरी दुनिया की खबर जानने का साधन इस वक्त मेरे पास केवल स्थानीय रेडियो और रूसी दैनिक थे। भाषा की कठिनाई के कारण बहुत माथापच्ची करने पर भी पचास प्रतिशत से अधिक मैं नहीं समझ पाता था।

## ४-नून-तेल-लकड़ी

नून-तेल-लकड़ी मानव की सबसे बड़ी समस्या है। देवता इसीलिये मनुष्य से बड़े हैं, कि उनकी नून-तेल-लकड़ी की चिन्ता नहीं है। भारत में तो आज (१९५१ के अन्त में) युद्ध के छ वर्षों बाद भी यह सबसे बड़ी समस्या है। राशन में पर्याप्त चीजें नहीं मिलतीं, जान पड़ता है अब अतिथि सेवा धर्म इस देश से उठ जायेगा। चीजें सभी मिल सकती हैं, यदि आप दुगना-तिगुना दाम देने के लिये तैयार हो। खाने-पीने की चीजों में शुद्धता का सवाल ही नहीं है। मैं अपनी दूसरी रूस यात्रा से लौटते समय अफगानिस्तान और रूस की सीमा पर अवस्थित बलु नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित तेरमिज नगर में ठहरा हुआ था। व्यापार के शिलसिले में कुछ अफगानी भी उसी सराय में ठहरे थे। वेचारे हलाल-हराम का विचार कर के मांस तथा बहुतसी खाने की चीजें अपने साथ लाये थे, क्योंकि वह जानते थे कि सोवियत मध्यएशिया में यद्यपि अब भी अब्दुल्ला, रहीम और करीम जैसे ही नाम सुनने में आते हैं, किन्तु वहां अब हलाल किये हुये जानवर का गोشت मिलना मुश्किल है। लेकिन घरका लाया गोश्त कितने दिन ठहरता। जब वह खतम होगया, तो उन्हें चिन्ता पड़ी।

वह ऐसे देशके रहनेवाले थे, जहाँ आदमी अभी पूरा तौरसे धासखोर नहीं बना है। सरायके चौकीदार से भिन्न करने पर उसने बड़े तपाक से कहा— हो, हम कलखोज से ताजा गोश्त ल्या देते हैं। मैंने चौकीदार से हंसकर पूछा— दोस्त, तुम कलखोज से हलाल गोश्त ल्या दोगे ?

उसने हंसते हुए कहा— बेवकूफ हैं, जानवर को तकलीफ दे देकर मार के जो गोश्त तैयार हो, उसको हलाल कहते हैं। अब ऐसे मारनेवाले हमारे देशमें शायद कोई मल्लाह ही हो। इसी तरह हमारे यहाँ भी अभी शहरों के कुछ लोग शुद्ध-घी की बात करते हैं और शुद्ध घी के नामपर उनको मिलता है अशुद्ध बनस्पति। हिमालय के जौनसार और जौनपुर जैसे सीधे-सादे पहाड़ी भी जब टिन के टिन दलदा इस अभिप्राय से ढोये लिये जाते हैं, कि दूध में इसे मिलाकर मक्खन निकाल के घी बना लेंगे और शुद्ध घी के नाम पर दुग्धने दाम पर बाबू लोगों को बेच देंगे; तो हमारे नीचे के अधिक होशियार नागरिकों और ग्रामीणों की बात ही क्या करनी है। मैं तो मानता हूँ— यदि दलदा ही खाना है, तो बेवकूफ बनकर घी के नाम से क्यों ख़ाया जाय।

मैं रूसमें, जर्मनी की लड़ाई के समाप्त होने के थोड़ी ही देर बाद पहुंचा था। रूस की अन्नदायिका भूमि का बहुत बड़ा भाग जर्मनों के हाथ में चला गया था। अब उनके हाथ से मुक्त हो जाने के बाद भी वह युद्ध की ध्वंसलीला के कारण अभी इस अवस्था में नहीं थी, कि पहिले का आधा भी अन्न दे। लेकिन रूसियों ने “अधिक अन्न उपजाओ” का मज़ाक करके प्रोपेर्मंडा पर करोड़ों रुपया बेकार खर्च नहीं किया, बल्कि उन्होंने अन्न उपजाने के लिये नहरों के पानी और खादकी आवश्यकता होती है, इसे रामभू कर, उस और पूरा ध्यान दिया। नाबर की जन्मभूमि फरमाना के इलाके के किसानों ने कहा— हम अपना जांगर (शारीरिक परिश्रम) देने के लिये तैयार हैं, हमें इंजिनियर, और सिमेन्ट-लोहा आदि सामग्री सरकार दे, तो हम यहाँ एक बड़ी नहर खोद डालें। सरकार ने इंजिनियर और सिमेन्ट-लोहा-लकड़ी का ही इंतजाम नहीं कर दिया, बल्कि देश के जन्म और मृत्यु के बीच में लटकते रहने के समय भी अपनी आंखों के सामने से विद्या और

कला के महत्त्व को हटने नहीं दिया। उन्होंने कुछ इतिहासज्ञ और पुरातत्वज्ञ भी वहाँ भेज दिये, किसानों को सम्भलने के लिये उनकी मातृभाषाओं में छोटे छोटे पर्फ्लेट छापकर बाँटे, जिसमें कहा गया था— साथियो, ध्यान रखना यह नहर उस भूमि पर से जा रही है, जहाँ से कि चीन से यूरोप जानेवाला रेशम-पथ उधे हजार वर्षों तक चलता रहा। उस समय यहाँ अच्छे-अच्छे नगर थे, जो पीछे की लड़ाइयों में ध्वस्त हो गये। यहाँ पर ऐसी ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्व की चीजें मिलेंगी, जिनसे हमारे इतिहास के ऊपर नया प्रकाश पड़ेगा, इसलिये खुदाई करते समय ध्यान रखना, जिसमें यहाँ से निकली कोई ईंट, मृत्पात्र, मूर्ति या और कोई चीज फावड़े कुदाल से टूटने न पाये। इतना ही नहीं बल्कि सरकार ने पुरातात्विक सामग्री इकट्ठा करने के लिये वहाँ बाईस लोरियां रखवाई, जो सामग्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाती थीं। फर्गाना जैसी और भी कितनी नहरें लड़ाई के समय में सोवियत राष्ट्र में बनाई गईं, जिनके कारण वहाँ शत्रु की उपजा बढाने में श्रुव सफलता मिली। राशन का प्रबंध इतना अच्छा था, कि आदमी के लिये आवश्यक चीजें सरतें दामों में मिल जाती थीं। जुलाई का जो राशनकार्ड हमें मिला था, उसमें यहीं भर के लिये निम्न परिमाण में चीजें मिलती थीं—

चीनी १०० ग्राम : ५० (ग्राम के १८ टुकड़े :)

कृपा (खिचड़ी के लिये गेहूँ या चना) ११६० ग्राम :

मांस-मछली १८०० ग्राम

मक्खन ८०० ग्राम

रोटी (काली) १२४०० (४०० ग्राम के इकतीस टुकड़े)

रोटी (सफेद) ६२०० ग्राम।

यह हमारे जैसे बयस्कों के लिये थे। ईगार जैसे पाँच-छ सालके बच्चों के लिये चीजें निम्न प्रकार मिलती थीं—

कृपा १२०० ग्राम

मक्खन ४०० ग्राम

गेटी ( काली ) ६२००

रोटी ( सफेद ) ६२००

चीनी ५०० ग्राम ।

बड़ों का प्रतिमास २२-२ किलोग्राम रोटी मिलती थी, और बच्चों को १४ किलोग्राम—किलोग्राम हजार ग्राम या प्रायः सवा सैर के बराबर होता है ।

चौर बजारी का वहां नाम-निशान नहीं था, क्योंकि अपनी उपजाई चीजों के अतिरिक्त दूसरे की चीजों को खरीदकर अधिक नफे के साथ बेचनेवाला (बनिया) अपराधी समझा जाता था । राशन से चीजें सस्ती मिलती थीं, लेकिन यदि कोई राशन से अतिरिक्त खरीदना चाहता था, तो उसके लिये सरकार ने राशनवाली दूकानों के अतिरिक्त बहुत सी विना राशन की दूकानें भी खोल रखी थीं, जहां आदमी दस-गुनी बीस-गुनी कीमत पर चाहे जितनी मात्रा में चीजों को ले सकता था । इसी तरह अगर कोई अपने राशन की चीज को बेचकर बदले में दूसरी चीज खरीदना चाहता, तो उसमें कोई रुकवट नहीं थी । आप सिगरेट के शौकीन हैं और दूसरा चीनी का शौकीन है । आप अपनी सिगरेट को हाट में जाकर किसी आदमी को बीस गुने दाम पर दे दीजिये, और स्वयं भी चीनी की इच्छा न रखनेवाले आदमी से बीस-पच्चीस गुने दाम पर चीनी खरीद लीजिये । चीजों में मिलावट करना वहां संभव नहीं था, क्योंकि जवता के खाद्य में मिलावट करना भारी अपराध समझा जाता था, जिसके दंड से आदमी अपने को किसी तरह भी बचा नहीं सकता था । राशन की दूकानों और हाट की (रीनक) अथवा कलखोज (पंचायती खेती) वाली चीजों के दामों में कितना अन्तर था यह मैं अपनी बीस जुलाई १९४५ की डायरी से देता हूँ— ( दाम रुबल में हैं )

चीज		राशन	रीनक या कलखोज
मांस	१ किलो	१२	२५०
मछली	"	१२	...
सकसन	"	२७	४००

पर्नार ( अमेरिकन )	”	३५	...
( देशी )	”	३२	...
चीनी	”	५	२००
अंडा ( दर्जन )		६. ५०	६६
रोटी ( सफेद )	१ किलो	२. १२	५०
रोटी ( काली )	”	१. १०	२५
कृपण	”	२	.
चावल	”	६. ५०	१००
आलू	”	२	६०
कपुस्ता ( खट्टी गोभी )	”	१. ५०	३०
बबीन ( सौया )	”	४. ६०	५०
मक्का ( जौ-चूर्ण )	”	४. ४०	५०

इसी प्रकार वल भी राशन और बेराशन का था—

छी-पोशाक ( रेशम )	३००	१०००
छी-पोशाक ( सूती )	६०	
गोलोस ( बूट )	२५	१००
मोजा ( रेशमी )	१०	१५०
मोजा ( सूती )	५	५०

वहाँ कम से कम धतन वाला ढाई-तीन सौ रूबल महीने में पाता था, और प्रत्येक घरमें कम से कम दो कमानेवाले तथा साथ ही तीसरी या चौथी संतान के बाद का खर्च सरकार बर्दाश्त करती थी । लड़ाई के समय की असाधारण अवस्था में राशन के कार्ड को देखने से मालूम होगा, कि मनुष्य की अत्यावश्यक खाने-कपड़े जैसी चीजों को बहुत सस्ता रक्खा गया था । वहाँ के शासक अर्द्धी तरह जानते थे, कि राशन में जो चीजें मिलती हैं, उतने ही से कितने ही लोग संतुष्ट नहीं हो सकते । जिनके पास अधिक पैसा है, वह और भी चीजें खरीदना चाहेंगे । यदि सरकार उनकी अतिरिक्त इच्छा और अतिरिक्त पैसे

का कोई ठीक प्रबन्ध नहीं करती है, तो चोर बाजारी का रास्ता खुल जायेगा, इसलिए सरकार ने अपनी बिन राशन की दूकानों भी खोल दी थीं। यदि आप अतिरिक्त पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो आइये इन बिना राशन की दूकानों में दस-बीस पना दाम चुकाइये और अपनी भनचाही चीज ले जाइये। शायद कुछ लोग इन बिना राशनवाली दूकानों की बात सुनकर भ्रष्ट कह उठेंगे— यह तो सरकार स्वयं चोर-बाजारी करने लगी। लेकिन सरकार न आपको पैसा खर्च करने के लिये मजबूर करती है और न दस-छता बीस-गुना दाम किसी चोर बाजारी सेठ के पाकेट में जता है। यह अरबों रुपया जमा हो कर सरकार की बड़ी बड़ी आर्थिक योजनाओं में खर्च होता है, जिससे सारे देशकी सम्पत्ति बढ़ेगी, उपज की वृद्धि से चीजों का दाम घटेगा, और पूरा लाभ उठाने का आपको भीका मिलेगा।

भोजन का प्रबन्ध लोग अपने घर में करते हैं। विश्वविद्यालय की वाइस-चांसलर महिला को भी आप रोज अपने पाकशास्त्र का परिचय देते पायेंगे। तो भी ऐसा प्रबन्ध है, यदि आप किसी दिन या बराबर घरमें खाना न बनाया चाहें, तो आपको अपना कार्ड देकर सस्ता और प्रष्टिकरक भोजन मिल सकता है। इसके लिये हरेक मुहल्ले में सामूहिक भोजनशाला हैं। कारखानों और विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं में भी अपनी अपनी सामूहिक भोजनशालाएँ तथा क्वेट (उपाहारगृह) हैं। जून (१९४५) को हमने विश्वविद्यालय के भोजनशाला के खतरस को चखने का विचार किया। सवा रुबल (घरह आना) में खूप और कासा (मक्खन सहित चीना की खिचड़ी) तृप्त होनेपर के लिये मिली। जहाँ एक और हम राशन टिकट पर बारह आने में पेटभर भोजन कर सकते थे, वहाँ राशन बिना सवा सेर मांस के लिए २५० रुबल, सवा सेर मक्खन के लिये ४०० रुबल, सवा सेर चर्बी लिये ३०० रुबल, सवा सेर चीनी के लिये २०० रुबल देना पड़ता। इन दोनों तरह के भावों को देखकर मेरी भी अकल पहिले चकराई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि राशनकार्ड पर आदमी ढाई रुबल में दो वृत्त पेटभर खा सकता है अर्थात् ३८-४० रुपये में महीने भर भोजन कर सकता है,



तो सारा संदेह दूर हो गया। वहाँ कोई बेकार नहीं था, यही नहीं बल्कि काम के लिये जितने आदमियों की आवश्यकता थी, उतने मिलते नहीं थे।

१९४६ की बात है। पूर्व पच्छिम दोनों तरफ की लड़ाइयां खतम हो चुकी थीं और सोवियत जनता अपने पुनर्निर्माण के कार्य में बड़े जोर से लगी हुई थी। हिसाब लगाने से मालूम हुआ, कि कई लाख ऐसी बियां हैं, जो स्वयं काम न कर अपने पति या दूसरों की कमाई पर जीती हैं। यदि उन चालीस पचास लाख कामचोर औरतों को काम में लगाया जा सके, तो हलके कामों में हटाकर चालीस पचास लाख पुरुषों को अधिक मेहनत के कामों पर लगाया जा सकता है। यह सोच सरकार ने नियम बना दिया कि अब मैं उन्हीं लोगों को राशन कार्ड मिलेगा, जो कि किसी राष्ट्रनिर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, अथवा स्वास्थ्य, वार्थिक्य आदि के कारण काम नहीं कर सकते। मेरे पदोस में एक जारशाही युग के मध्यवित्त कुल की प्रौढ़ा स्त्री थी। पुराना संस्कार था, इसलिये काम करने की जगह सिंगार-पटार करके उपन्यास पढ़ना उन्हें अधिक पसंद था। इस नियम के लागू होते ही उन्हें काम करने के लिये मजबूर होना पड़ा, क्यों कि अब पति की कमाई से पन्द्रह बीस गुना दाम देकर सेटी-मकखन खरीदना बस की बात नहीं थी। हजार गाली देते हुए बेकारी को काम करने के लिये जाना पड़ा। काम भी कोई भारी नहीं था। किसी दफ्तर में लिखने-पढ़ने अथवा किसी राशन या बेराशन की दुकान में बेगने के लिये कुछ घंटे दे देना काफी था।



## ५-प्रोफेसरी

उर्फकी बार लेनिनग्राद विश्वविद्यालय में मुझे संस्कृत पढ़ाने के लिये निर्मात्रित किया गया था । पहली बार मैं १९३५ में जापान से लौटने तक योंही रुस की यात्रा बड़े खड़े कर आया था । उस समय मेरा वहाँ के विद्वानों से कोई संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि मास्को में एक-दो-दिन से अधिक मैं ठहर नहीं सका था । फ्रांस में रहते समय ( १९३२ में ) प्रो० सेल्वन लेवी ने डा० सर्ज थ्रोल्डनबुर्ग के नाम एक परिचयपत्र दे दिया था, किन्तु मैं उस समय रुस नहीं जा सका । डा० श्चेर्वात्स्की को पुस्तकों से मैं परिचित था और मेरे ग्रन्थों तथा तिव्वत की खोजों से वह भी परिचित थे, इसलिये हम लोगों का पत्र-व्यवहार द्वारा परिचय ही नहीं घनिष्ठता स्थापित हो चुकी थी । जब १९३५ में मैं मास्को से लेनिनग्राद नहीं जा सका, तो उनको बहुत अफसोस हुआ था । उन्होंने १९३७ में विशेष ध्याग्रह से अकदमी की ओर से निर्मात्रित करके मुझे बुलवाया था, किन्तु कई कारणों से मैं वहाँ कुछ ही महीने ठहर सका । अब युद्ध के समय तीसरी बार फिर मेरा जाने का इरादा हुआ और डाक्टर श्चेर्वात्स्की के पूर्व प्रयत्नों के कारण लेनिनग्राद युनिवर्सिटी ने मुझे संस्कृत पढ़ाने के लिये बुलाया था ।

अध्यापन का काम मैंने थोड़ा ही किया था। भारत में जहाँ-तहाँ एक-दो साल संस्कृत के पढ़ाने के सिवाय लंका में अवश्य डेढ़ वर्ष से ऊपर संस्कृत पढ़ाता रहा। लेकिन यहाँ मैं यूरोप की एक बहुत प्रतिष्ठित युनिवर्सिटी में आधुनिक ढंग से संस्कृत पढ़ानेवाले छात्रों का अध्यापक बना था। उसमें भी माध्यम न मैं संस्कृत को बना सकता था, क्योंकि विद्यार्थी अभी संस्कृत द्वारा पढ़ाने पर समझ नहीं सकते थे और न अंग्रेजी ही को। यद्यपि अंग्रेजी सभी कुछ कुछ पढ़ें थे, किन्तु उनका ज्ञान अत्यंत अल्प था। मैं साधारण विद्यार्थियों के अतिरिक्त वहाँ के अध्यापकों को भी दर्शन या काव्य के ऊँचे ग्रन्थों को पढ़ाता था, जिसमें संस्कृत अवश्य सहायक होती थी। माध्यम की कठिनाई पहिले साल अवश्य रही, किन्तु वह ऐसी नहीं थी, जिसके कारण छात्रों को त्रुकसान होना। मेरी भाषा शुद्ध नहीं थी, कहीं कहीं वह खिचड़ी भी होती थी, जिसमें कुछ अंग्रेजी या साधारण संस्कृत के शब्दों को डालकर बोलता, किन्तु जहाँतक छात्रों के समझने का सवाल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। पहिले साल मेरे प्रायः प्रथम वर्ष को नहीं लिया। अगले साल उन छात्रों को भी पढ़ाने लगा। छात्र कहना शकत होगा, क्योंकि सारी युनिवर्सिटी में दो सैकड़ा लड़के होने का उल्लेख मेरी डायरी में है, संभव है २० को एक बिन्दी छूट गई हो, तो भी पाँच छात्रों में चार का लड़की होना बतलाता है, कि लड़कियों की बजह से विद्यालय के छात्रों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। पहिले साल तो पंचम वर्ष में कोई छात्र नहीं था। अतुर्थ वर्ष में दो लड़कियाँ थीं। तृतीय में भी लड़कियों की संख्या अधिक थी।

सोवियत शिक्षाप्रणाली में सात वर्ष की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में सोवियत के हरेक लड़के और लड़की के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य शिक्षा चौदहवें वर्ष के साथ समाप्त होती है। फिर तीन वर्ष की शिक्षा के बाद हाई स्कूल की पढ़ाई समाप्त होती है। यद्यपि हमारे यहाँ की तरह दस साल में वहाँ भी माध्यमिक शिक्षा समाप्त होती है, किन्तु दोनों के ज्ञान में बहुत अन्तर है। सोवियत के सात सालों की पढ़ाई में विद्यार्थी का विषय-ज्ञान हमारे यहाँ के हाई-स्कूल के बराबर होता है और हाईस्कूल की दस साल की पढ़ाई तो हमारे यहाँ

के कालेज के तृतीय चतुर्थ वर्ष के करीब । इसका कारण यही है कि वहां सारी शिक्षा अपनी मातृभाषा में होती है । अपनी मातृभाषा अर्थात् जिस भाषा को लड़का बचपन से बोलता चला आया है । इसलिये विदेशी भाषा के माध्यम से पढ़ने में विद्यार्थी का जो समय उस भाषा पर अधिकार प्राप्त करने में लगता है, वह बच जाता है । इसका यह मतलब नहीं, कि विदेशी भाषा वहां पढ़ाई नहीं जाती । हरेक रूसी बालक को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त यूरोप की आधुनिक तीन भाषाओं ( जर्मन, फ्रेंच, और इंगलिश ) में से एक को लेना पड़ता है । सोवियत शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अर्थ बोलना नहीं है । वहां बोलने या रटने की ओर परीक्षा में अधिक ध्यान नहीं दिया जाता । हमारे यहां की तरह वहां परीक्षा संभ्रात क्षेत्र का रूप नहीं लेती, जिसमें आवे और दो तिहाई विद्यार्थी कतल किये जाते हों । वहां परीक्षा के लिये न प्रश्नपत्र छपते हैं, और न हजारों मन उत्तर की कापियां खर्च होती हैं । चाहे प्रारम्भिक कक्षाओं हों, हाईस्कूल हो या विश्वविद्यालय, सभी की परीक्षाएँ अपने ही अध्यापक लेते हैं, प्रश्न भी जवानी होते हैं । उत्तर देने के लिये विद्यार्थी अपनी सारी पुस्तकें अपने साथ रख सकते हैं । असल में जो विद्यार्थी बहुत ज्यादा अनुपस्थित नहीं रहा है, उसका फेल होना वहां संभव ही नहीं है ।

हाईस्कूल ( दशम कक्षा ) पास करने के बाद विद्यार्थी युनिवर्सिटी में या मेडिकल, इंजिनियरी या टेक्नीकल कालेजों में जा सकता है । हर जगह पांच साल का कोर्स है । हमारी कक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ने के लिये आये थे, वह सब हाई-स्कूल पास करके आये थे । संस्कृत किसी हाईस्कूल में द्वितीय भाषा नहीं है, लेकिन आजकी जीवित भाषाओं में व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत से सबसे नजदीक रूसी भाषा है, इसलिये रूसी व्याकरण-व्याख्याओं को संस्कृत पढ़ने में कुछ सुभीता जरूर होता है । जब व्याकरण पहिले पहल देखते, कि उनकी भाषा के वरा (प्याला) ब्रात ( भ्राता ), मात ( माता ) आदि शब्द संस्कृत में भी हैं, तो उनको आश्चर्य और कौतूहल होता था । लेकिन हाईस्कूल पास करने के बाद किसी व्याकरण की पढ़ाई के लिये कौनसा विषय लेना चाहिये, यह उसकी इच्छा पर

निर्मर करता है। हमारे यहाँ हाईस्कूल तक गरीबों के लड़कों का पहुँचना पश्चिम है, आगे तो असंभव है, लेकिन वहाँ के छात्र को इसको कोई चिन्ता ही नहीं है। युनिवर्सिटी या कालेज के छात्रों में नव्ये प्रतिशत सरकारी छात्रवृत्ति से पढ़ते हैं। दस प्रतिशत वहाँ लड़के हैं, जिनके मां-बाप अच्छा वेतन पाते हैं। इस प्रकार जिसकी इच्छा आगे पढ़ने की है, उसके रास्ते में कोई आर्थिक कठिनाई नहीं है। इसका परिणाम यह भी होता है, कि न चल सकनेवाले लड़के भी आकर विश्वविद्यालय में दाखिल हो जाते हैं। मैंने पहिली मितम्बर (१९४६) को विश्वविद्यालय खुलते समय प्रथम वर्ष में बाईस-तेईश लड़के-लड़कियों को देखा, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। किन्तु थोड़े ही दिनों बाद मालूम हुआ, कि उनमें से कितने ही व्यर्थ पढ़ने आये हैं। उनकी संस्कृत जैसे रूखे विषय की तरफ कोई रुचि नहीं थी, न भाषा सीखने का कोई शौक था। पहिले की कोई तैयारी तो थी ही नहीं। मैं सोचता था—सरकार क्यों इतने पैसों इन छात्रों के ऊपर बर्बाद कर रही है। मैं अपने साथी अध्यापकों से बलिक पूछता भी था। लेकिन, कुछ महीनों बाद मैंने देखा, कि कला के साल-आठ छात्र वहाँ से छोड़कर दूसरे विषय में चले गये। यद्यपि कुछ रूपों का अपव्यय जरूर होता है, लेकिन अनुभव द्वारा परीक्षा किये बिना, पता ही कैसे लगेगा, कि कौन छात्र भारतीय विद्या या भाषातत्व की ओर आगे बढ़ सकता है।

भिन्न-भिन्न विषयों के अनुसार रूसी विश्वविद्यालय में भी अलग अलग विभाग (फाकल्टी, फेकल्टी) हैं। जिनमें एक फेकल्टी प्राच्य विद्याओं की है। इस फेकल्टी में मिथ से जापान तक की भाषाओं, उनके साहित्य, इतिहास आदि के पढ़ने का प्रबन्ध है। रूसी विद्वान् पहिले पहल तिब्बती साहित्य द्वारा भारत से परिचित हुए। सोलहवीं सदी में ही रूसी राज्य बढ़ते हुए साइबेरिया के भीतर पहुँच गया था। सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दियों में रूसियों का बौद्धधर्मी मंगोलों से परिचय हुआ, जिनकी धार्मिक पुस्तकें प्रायः तिब्बती भाषा में होती हैं। इस प्रकार तिब्बती भाषा से रूसी विद्वानों का परिचय हुआ और पीछे उन्हें मालूम हुआ, कि तिब्बती भाषा के विशाल साहित्य का बहुत बड़ा भाग संस्कृत से

अनुवाद होकर आया है । फिर उनका ध्यान संस्कृत की तरफ गया । अठारहवीं शताब्दी के अन्त में पश्चिमी यूरोप के विद्वानों को पता लगा, कि भारत की एक प्राचीन भाषा संस्कृत है, जो उसी वंशकी भाषा है, जिसके वंशज आजकल के यूरोपीय लोग हैं । पाँच और दूसरे भाषातत्व-वेत्ताओं ने अपनी खोजों में असांदिग्ध रूप में इस बात का निश्चय करा दिया, कि संस्कृत और भारत की और भी संस्कृत-वंशी आधुनिक भाषाओं का मूल स्रोत वही है, जो कि ग्रीक, लातिन और आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का । इस आविष्कार के कारण यूरोप में एक भारी हलचल सी मच गयी और वहाँ के विश्वविद्यालय अपने अपने यहाँ संस्कृत पढ़ाने का प्रबन्ध करने लगे । यह बात जब रूसियों को मालूम हुई, तो उन्होंने भी अपने विश्वविद्यालयों में संस्कृत के पठन-पाठन का प्रबन्ध करना चाहा । उस समय लेनिनग्राद का नाम पितरबुर्ग था और यही रूस की राजधानी थी । तिब्बती और मंगोल भाषाओं का परिचय रूसियों को बहुत पहले से था और उन्हीं के साहित्यों द्वारा बौद्धधर्म से परिचय करके उन्होंने बौद्धधर्म पर पुस्तकें भी लिखीं । यह भी उन्हें मालूम ही चुका था, कि बौद्धधर्म भारत से आया है और वहाँ का पुराना साहित्य संस्कृत में है । पहिले पहिले त्वेर ( आधुनिक कलिन-निन ) नगर निवासी अथानिउन निकितिन ईरान हो समुद्री मार्ग से दिक्क ( काठियावाड़ ) में उतर कर १४६६ ई० में बिदर ( बहमनी राजधानी ) में पहुँचा और वहाँ छ साल तक रहा । निकितिन ने यद्यपि अपनी यात्रा के संबंध में एक पुस्तक भी लिखी, किन्तु वह कोई भाषा-तत्वज्ञ नहीं था, इसलिये उसने भाषा के बारे में अधिक परिचय कराने में सफलता नहीं पाई । लेकिन गेरासीम लेवेदोफ नामक एक रूसी गायक अठारहवीं सदी के अन्त में लंदन के रूसी दूतावास में नौकर होकर आया था । उसे अंग्रेजों से पता लगा, कि हिन्दुस्तान में पगोडा का वृक्ष होता है, जिसको जरा सा हिला देनेपर सोने की अशक्तियाँ भर पड़ती हैं । कितने ही और अंग्रेज तरुणों की तरह गेरासीम भी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क बन १७८५ ई० में फोर्ट विलियम ( कलकत्ता ) पहुँचा । पगोडा वृक्ष उसे कहां मिलता, लेकिन उसने अपना जीविका के लिये कलाकत्ता में एक नाट्यशास्त्र

स्थापित की। वहाँ नाट्यशाला में शायद अंग्रेजों के मनोरंजन के लिए अंग्रेजी नाटक भी खेले जाते हों, जिनमें निकिता भाग लेता था, किन्तु उसने इतने से संतोष नहीं किया। कलकत्ता में रहकर उसने बंगला भाषा और संस्कृत भी पढ़ी, विदेशी नाटकों को बंगला में अनुवाद करके खेलने की कोशिश की। निकिता पन्द्रह-सोलह वर्ष भारत में रहा। वह अपने साथ अशर्कियां तो नहीं लेकिन बंगला और संस्कृत का ज्ञान अवश्य ले गया। लंदन में लौटकर १८०१ ई० में उसने भारतीय भाषा का एक व्याकरण लिख कर छपवाया। अब पीतरबुर्ग में उसकी मांग थी, इसलिये वह अपनी जन्मभूमि को लौट गया। आजसे १४६ वर्ष पहले उसने जार अलेक्सान्द्र की आज्ञासे १८०५ ई० में नागरी का टाइप टाला। आज भी गेरासीम के बनाये वही टाइप रूस में इस्तेमाल किये जाते हैं, यद्यपि वह आज के टाइपों की दृष्टि से भद्दे मालूम होते हैं। गेरासीम ने हिन्दूधर्म पर भी रूसी में पुस्तकें लिखकर प्रकाशित कीं।

रूसी सरकार संस्कृत की महिमा को मनुकर इतने से संतोष करने के लिए तैयार नहीं थी। यूरोप के विश्वविद्यालय धडाधड़ संस्कृत की गदियां स्थापित करते जा रहे थे, फिर पितरबुर्ग कैसे पीछे रह सकता था? रूसी सरकार ने भी रावर्त लेंज (१८०८-३६ ई०) को संस्कृत पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देकर बाहर भेजा, उसने प्रसिद्ध भाषातत्त्वज्ञ बोप से बर्लिन में संस्कृत पढ़ी। स्वदेश लौटने पर पितरबुर्ग (लेनिनग्राद) विश्वविद्यालय में संस्कृत की गद्दी उसे तैयार मिली। १८३५ में वह संस्कृत का प्रथम प्रोफेसर नियुक्त हुआ। यद्यपि तत्काल लेंज २८ वर्ष की उमर में ही मर गया, लेकिन उसकी परम्परा टूटी नहीं। पेचीफ (मृत्यु १८७६ ई०), कोलोवित्स्क (१८७२), शिफ्नर (१८७७-७९ ई०), बोबलिक (१८१५-१९०५ ई०), मिनियेफ (१८४०-६०) ओल्देनबुर्ग (१८६३-१९३४), अर्वात्स्की (१८६६-१९४३) से लेकर आज बरचिकोफ तक संस्कृत प्रोफेसरों की परम्परा चली आती है। प्रथम संस्कृत प्रोफेसर लेंज के ११० वर्ष बाद मैं वहाँ एक भारतीय संस्कृत प्रोफेसर नियुक्त हुआ था। लेंज मेरी अपेक्षा अपने छात्रों को अच्छी तरह समझा सकता था, किन्तु मेरे

छात्र-छात्रायें अपने प्रोफेसर की बातों को कम ध्यान और रूचि से सुनते थे ।

आजकल भारत में सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों के अध्यापक विद्यार्थियों से तंग आये हुए हैं । उसदिन एक तरुण विद्वान् से बात हो रही थी । अध्यापकी करने की बात कहने पर उन्होंने कान पकड़ कर कहा— नहीं, छात्रों के सामने टिकना मेरे लिये मुश्किल है । वस्तुतः हमारे छात्रों की बुद्धि मारी गई है, या वह स्वभावतः उच्छृंखल हैं, यह बात मैं नहीं मानता । दस साल तक हाईस्कूल में पढ़कर आया छात्र अपने को निरा बुद्धू नहीं समझ सकता । हमारे यहां छ वर्ष में ही पढ़ाई शुरू कर दी जाती है, इसलिये शायद ही कोई छात्र सोलह वर्ष से कम का कालेज में पढ़ने जाता है । ऐसे छात्रों को दृष्टपूर्वहा बच्चा समझ कर उनके साथ व्यवहार करना वस्तुतः इस सारे भगड़े की जड़ है । पुराने भारतीय इस तथ्य को समझते थे, तभी तो उन्होंने कहा— “ प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्रे भित्तवभाचरेत् । ” अपने छात्रों को यदि अध्यापक बच्चा न समझ अपना भित्र मानें, तो बहुत सी बातें दूर हो सकती हैं । लेकिन रूसी विश्वविद्यालयों में तो अनुशासन कायम करने के लिये सबसे बड़ा साधन है, छात्रों की अपनी संस्था छात्र संघ ( तरुण कम्युनिस्ट संघ ), जो अपने सदस्यों पर भीतर से नियंत्रण रखती है । छात्र अपने स्वतंत्र विचारों को प्रगट करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते । हर वार्षिक या त्रैमासिक परीक्षा के समाप्त होने के बाद अध्यापकों और छात्र-प्रतिनिधियों की बैठक होती है, जिसमें पण्डली तिमाही या वार्षिक पढ़ाई के गुण-दोषों पर खुली आलोचना होती है । उस वक्त छात्रों के प्रतिनिधि भी अपने अध्यापकों की कमियों को खोलकर कहते हैं ।

प्राच्य-विभाग ( फेकल्टी ) में देश और भाषा के अनुसार अलग-अलग उपविभाग थे । अरबी उपविभाग था, जापानी और चीनी उपविभाग भी था । इसी तरह का एक उपविभाग ( काफेद्रत ) इंदो-तिब्बती भी था, जिसमें संस्कृत, भारत की आधुनिक भाषाओं तथा तिब्बती भाषा के पठन-पाठन का प्रबन्ध था । तिब्बती भाषा और बौद्धधर्म के द्वारा रूसियों को भारत का ज्ञान हुआ था, इसलिये अलग अलग वंशकी होने पर भी संस्कृत और तिब्बती की एक साथ जोड़



दिया गया । विद्यार्थियों को एक उप-विभाग में दाखिल होकर केवल भाषा ही पढ़ना नहीं पड़ता, बल्कि साथ ही उस देशकी पूरी जानकारी के लिए और भी आवश्यक विषयों का अच्छा परिचय प्राप्त करना पड़ता है । उदाहरणार्थ हमारे उपविभाग के छात्रों को जहाँ पाँच वर्षों तक संस्कृत हिन्दी पढ़ना अनिवार्य था, वहाँ साथ ही तथा भिन्न-भिन्न वर्षों में एक-दो भारत की प्रादेशिक भाषाओं को भी पढ़ना पड़ता है । भारतीय इतिहास, भारतीय साहित्य, भारतीय धर्मों का ही नहीं बल्कि भारतीय नृत्य एवं भारतीय अर्थशास्त्र भी अनिवार्य था । विश्वविद्यालय के यही स्नातक सांख्यिक रूस और भारत के बीच राजनीतिक, सामाजिक सांस्कृतिक, व्यापारिक आदि संबंध स्थापित करने में मुख्य तौरसे भाग लेंगे, इसलिये उनकेलिये भारत और भारतीयों का पूरा ज्ञान आवश्यक समझ कर वैसी ही शिक्षा दी जाती है ।

प्रोफेसर होन के कारण मुझे हफ्ते में बारह घंटे पढ़ाना पड़ता । मैं मंगल, बृहस्पति और शनैश्वर को पढ़ाने जाता । पहिले साल मुझे संस्कृत और हिन्दी पढ़ाना पड़ता था, दूसरे साल तिब्बती भी । हमारे विभाग में १९४७ के आरम्भ में चालीस के करीब छात्र-छात्रायें थे और अध्यापिकाओं की संख्या सात-आठ । अकदमिक वराधिकोफ् उपविभाग के अध्यक्ष और मैं प्रोफेसर, बाकी लेक्चरर ( दोसेन्त ) थे— श्री कलियानोफ् संस्कृत के, श्री बिस्कोवनी और श्रीमती दीना गोल्दमान हिन्दी के अध्यापक थे । इनके अतिरिक्त बंगला भाषा के भी अध्यापक थे । श्री मुलेकिन राजनीति और अर्थशास्त्र पढ़ाते थे ।

सितम्बर-अक्टूबर तक कुछ नयापन अवश्य मालूम हुआ, उसके बाद तो जीवन सरल रहा । मेरी उच्च कक्षा ( चतुर्थ वर्ष ) में दो लड़कियाँ थीं, जिनमें से एक ( बेर्था ) साधारण शिक्षिता मध्यम-वर्ग की यहूदी लड़की थी और दूसरी ( तान्या ) पुराने सामान्त कुल की । छात्र-छात्रायों से निरसंकोच बातचीत करने और मिलने-जुलने से रूसके नागरिक जीवन की बहुतसी बातें मालूम होती थीं । उस वक्त लड़ाई के कारण बहुत से मकान गिर गये थे । यद्यपि मकानों के पुननिर्माण में बड़ी तत्परता थी, लेकिन झूंसतर में तो मकान

सब नहीं हो सकते थे । लोगों की मकानों का कष्ट अग्रव्य था । कष्ट इस अर्थ में, कि सबको यथेच्छ कमरे नहीं मिल सकते थे । मैं प्रोफेसर था । मुझे कमसे-कम तान कमरे तो मिलने ही चाहिये थे, लेकिन मेरे पास केवल दो थे । रक्तुर और दूसरे कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह कठिनाई इतनी जल्दी दूर थोड़े ही हो सकती थी । मैं तो दो में भी संतुष्ट था । एकदिन मकानों की कठिनाई के बारे में बातचीत होने लगी । मैंने कहा— एक कमरा दो व्यक्तियों के परिवार के लिये काफी है । साधारण वर्ग की लड़की ने भी इसमें कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन दूसरी तरुणी कहने लगी— मुझे तो पांच कमरे चाहिये । मैंने कहा— पांच कमरे लेकर तो उनको साफ-सुथरा रखने में ही तुम भर जावोगी । उसने कहा— इसकी परवाह नहीं, मैं साफ कर लूंगी ।

रूस साम्यवादी देश है । साम्यवादी अर्थनीति पर वहाँ चलना पड़ता है, और बराबर में भी समानता दिखलाना शिष्टाचार माना जाता है । जाइों में युनिवर्सिटी के कमरों को गरम करने के लिये आग जलाना पड़ता था । युनिवर्सिटी के हमारे विभाग की इमारत आजसे सौ-डेढ़-सौ वर्ष पहले बनी थी । उस वक्त केन्द्रीय तापन का आविष्कार नहीं हुआ था, और लकड़ी जलाकर मकान गरम किया जाता था । हमारे कमरों को लकड़ी डालकर गरम करनेवाली स्त्री, हमारे देश की मजूरिन जैसी थी । किन्तु उसके साथ भी प्रोफेसर हो चाहे अकदमिक बराधिकोफ, बराबर का बर्ताव करते हुए उससे हाथ मिलाना, उसके सामने टोप हटाकर शिष्टाचार प्रदर्शित करना कर्तव्य मानते थे । यही नहीं मंत्री के बराबर वेतन पानेवाले प्रोफेसर के लिये भी घरमें ईंधन के लिये लकड़ी फाड़ना, बर्तन मलना, भ्नाड़-बुहार कर घरको साफ करना, तथा कितने ही कपड़ों को भी धोना करणीय था । लकड़ी चीरने का काम तो मुझे नहीं करना पड़ा, उसमें लोला निष्णात थी, मुझे डर लगता था, कि कहीं कुल्हाड़ा पैर पर न चल जाय । लेकिन बर्तन मलना तो मेरी झूयूटी थी । जाइों में इससे बहुत तकलीफ होती थी, जबकि चालीस पचास डिग्री ( फार्न ) के तापमान के हाथ ठिठ्ठरा देनेवाले पानी में बर्तनों को धोना पड़ता । लोला गरम पानी फरके रख देती थी, लेकिन मुझे नलके के बहते पानी में बर्तन धोने में


समय की वधत मालूम होती थी, इसलिये सुई की तरह चुभते पानी में बर्तन धोना चाहता था। घरके लिये नौकर रख सकते थे, और नौकर मिल भी जाते; लेकिन जिनको दूसरी जगह तीन सौ रूबल मिलता, वह छ सौ मांगता। पोद्ध हमने एक साल नौकर रखा भी, लेकिन राशन की चीजें पर्याप्त नहीं थीं, कि नौकर का भी गुजारा हो, और मेहमानों का भी, इसलिये उसे हटा देना पड़ा। यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि वहां के नौकर और किसी भी प्रजावादी देश के नौकर में बहुत अन्तर है। वैसे इंग्लैंड में भी घर के नौकर समय के अनुसार आते और काम करते हैं। हमारी नौकरानी मान्या समय के अनुसार आती थी। बड़ी भलीमानुस थी, आवश्यकता पड़नेपर और समय भी दे देती थी। अन्वार को नौकर को छुट्टी रहती और मालिक-मालकिन को बरका सारा काम अपने ही हाथों करना पड़ता। जहांतक खाने-पीने उठने-बैठने का सवाल था, प्रोफेसर और उसके नौकर में कोई अन्तर नहीं था।

वर्तन, भांडे ही क्यों, राशन की दूकान से बीस-पच्चीस सेर सामान पीठपर ढो कर लाना भी प्रोफेसर के लिये कोई हतक-इञ्जत नहीं थी। असल में वहां बहुत कम ही घरों में नौकर थे। किसी आदमी से अगर अस्थायी तौरसे काम लें, तो मजूरी बहुत देनी पड़ती। डेढ़-दो-मन लकड़ी चोर देने के लिये जब पच्चीस-तीस रुपया देना हो, तो आप अपने हाथसे लकड़ी चीरना परांद करेंगे। इसीतरह बोझा ढोनेवाले को अगर दो घंटे के लिये पच्चीस-तीस रुपया देना पड़े, तो आप शारीरिक मेहनत का मूल्य समझने लगेंगे और खुद काम करना पसंद करेंगे।

इस यात्रा में रूस के अपने देखे हुए जीवनों के बारे में और भी बातें आगे आयेंगी। यहां यह कहकर समाप्त करना चाहता हूं, कि रूसी विश्वविद्यालयों का वातावरण हमारे यहां के वातावरण से बिल्कुल दूसरा ही होता है। वहां प्रथम श्रेणी के दिमागों को अधिक वेतन के लालच से दूसरी सरकारी नौकरियों की ओर दौड़ना नहीं पड़ता। जहां प्रोफेसर और मिनिस्टर की तनख्वाह एक हो, प्रोफेसर मिनिस्टर के बड़े बड़े अफसरों से भी ज्यादा वेतन और सम्मान के साथ रह



लेनिनग्राद युनिवर्सिटी के भारत-रत्न विभाग के अध्यापक और अध्यापिकाएं  
बैठे—बायीं ओर से दूसरे और तीसरे : राहुल और वराचिकोफ ।



अकदमिक आचार्य अलेक्सी पेत्रोविच् वरान्निकोफ्,  
लोनिनग्राद

सकता हा, तो प्रतिभाशाली विद्वान् क्यों इधर उधर भटकेंगा ?

मेरे निवास-स्थान से विश्वविद्यालय जाने आने में ट्रामपर तीन घंटे लगते थे। युनिवर्सिटीवाले मोटर देना चाहते थे, किन्तु लड़ाई के प्रभाव के कारण जीप ही मिल सकती थी। एक दो-दिन जीप लेने आया भी, किन्तु मैं समय पर क्लास में पहुँचना चाहता था और ड्राइवर को उसकी परवाह नहीं थी, इसलिये ट्राम द्वारा जाना ही मैंने पसंद किया। कभी कभी मैं किताबों की खोजमें कबाड़ी दूकानों की भूल फाँकता सारी यात्रा पैदल भी करता था। सोवियत में पुस्तकों का अकाल, तो जान पड़ता है, अभी सालों दूर नहीं होगा। सभी लोगों के शिक्षित तथा हाथ खाली न होने के कारण पुस्तकों के खरीददार वहाँ बहुत हैं। ५० हजार और १ लाख का संस्करण भी हाथोंहाथ बिक जाता है। महत्वपूर्ण नयी पुस्तकों की सूचना पहिले ही निकल जाती है। लेनिनग्रद जैसे बड़े बड़े शहरों में नाम रजिस्टर्ड कराने के आफिस हैं। यदि आपने नाम दर्ज करा लिया—जिसमें बहुत जल्दी करनी पड़ती है, नहीं तो सूची बन्द हो जाती है—तो पुस्तक मिल जायगी, लेकिन बरस छ महीने बाद और उसमें मध्य-एशिया के इतिहास से संबंध रखनेवाली पुस्तकों के मिलने की संभावना नहीं। लेनिनग्रद की सबसे बड़ी सड़क नेवस्की के पथ पर आधी दर्जन ऐसी दूकानें थीं, जिनमें पुरानी पुस्तकें बिक करती थीं। यह दूकानें किसी कबाड़ी की नहीं, बल्कि सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थानों की थीं। दो चार बार जानेपर जब काम की कुछ पुस्तकें मिल गयीं, तो उनके देखने का मुझे चस्का लग गया। “मध्य-एशिया का इतिहास” के लिये मैं अविवांश पुस्तकें इन्हीं दूकानों से जमा कर मैं भारत लाया।

१० सितम्बर को मैं पढ़ाने के लिये युनिवर्सिटी गया। एक बजे से पांच बजे तक दो कक्षाओं को हिन्दी और उर्दू पढ़ाना पड़ा। पहले दो घंटे द्वितीय वर्ष के एक छात्र और पांच छात्राओं के लिये देने पड़े। फिर दो घंटे चतुर्थ वर्ष की दो छात्राओं बेर्था और तान्या के लिये। कायदा था—पचास मिनट पढ़ाई फिर दस मिनट विश्राम, फिर (समय से) दस मिनट पहिले ही छुट्टी।

स्कूल की पढ़ाई दस साल में खत्म होती है, तब तक उम्र १७ साल या ऊपर हो जाती है। फिर पांच साल युनिवर्सिटी को प्रेपैरेट होने के लिये देने पड़ते हैं। फिर तीन साल एस्पेरान्त (के लिये)। इन दोनों परीक्षाओं में प्रमाण-पत्र मिलता है, डिग्री नहीं। एस्पेरान्त के बाद तीन या अधिक वर्षों में डाक्टर होने के लिए निबन्ध लिखना पड़ता है, तब डाक्टर की उपाधि (मिलती है)। २० साल से पहले (कोई) डाक्टर नहीं हो सकता। स्कूल की पढ़ाई में एक विदेशी भाषा जर्मन, फ्रेंच या अंग्रेजी लेनी पड़ती है, जिसे बहुतेरे लड़के आगे भूल जाते हैं।..... युनिवर्सिटी में प्राच्य-विभाग की पढ़ाई के विषय हैं— पहिला साल संस्कृत, हिन्दी-उर्दू, फिर आगे के बरसों में उनके साथ ही बंगला, मराठी, फारसी आदि भी लेनी पड़ती है। मुझे भाषाओं की इतनी अधिक भरमार पसंद नहीं आती थी। लेकिन युनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम बहुत वर्षों से ऐसा ही चला आया है। द्वितीय वर्ष के छात्रों को देखने से मुझे मालूम हुआ, कि सालभर में उन्होंने हिन्दी उर्दू का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

२० सितम्बर (१९४५ ई०) को मैंने अपनी डायरी में लिखा— “आज ग्यारह से तीन बजे तक पढ़ाई प्रथम और चतुर्थ वर्ष की रही। प्रथम वर्ष में (१९ लड़कियां ३ लड़के कुल २२) छात्र हैं, जिनमें सिर्फ ३ लड़के हैं। अधिकतर छात्र लेनिनग्राद के हैं, किन्तु एक छात्र बाकु से और तीन छात्राएँ अल्माअता, बोरोनेज और रस्तोक की हैं। सभी रूसी हैं। आज क-स पढ़ाया? सब रूसी भाषा में बोलना पड़ता। एक बजे से तीन बजे तक चतुर्थ वर्ष का “अभिज्ञानशाकुन्तल” पढ़ाना पड़ा।”

उस दिन ६ से ८ बजे रात तक अध्यापकों की बैठक हुई, जिसमें विश्वविद्यालय के रेक्टर ने भाषण दिया। उस समय विश्वविद्यालय में ५ हजार छात्र थे। साढ़े तीन हजार अध्यापकों में चालीस से ऊपर अकदमिक या अर्ध-अकदमिक थे। पांच हजार छात्रों के लिये साढ़े तीन हजार अध्यापक अधिक हैं, इसमें शक नहीं, किन्तु छात्रों की संख्या लड़ाई के कारण घटी थी और अब वह सालों साल बढ़ रही थी। तो भी इसमें शक नहीं कि सात आठ हजार छात्रों पर

भी साढ़े तीन हजार अध्यापक बहुत होते हैं। लेकिन सोवियत की शिक्षा-प्रणाली में इसबात का ध्यान रखा जाता है, कि अध्यापक छात्रों के अधिक संपर्क में आवें और उनकी वैयक्तिक जिज्ञासाओं को पूर्ण कर सकें। इस सेमिनार-प्रणाली में अध्यापकों का अधिक होना आवश्यक है। शिक्षण-संस्थाओं के लिये बजट में पैसे की कमी नहीं होती, हमारे यहां अभी सेमिनार-प्रथा को स्वीकार करना आसान नहीं है।





## ६-मध्यमवर्ग की मनोवृत्ति

पूँजीवादी पत्रों और लेखकों ने इतना जोरका प्रचार कर रखा है, कि कितने ही ईमानदार लोग भी बाज़ बक्त इस भ्रम में पड़ जाते हैं, कि सोवियत रूस में सचमुच ही विचार-स्वातंत्र्य नहीं है। वह समझते हैं कि वहाँ के लोगों का गला घोट दिया गया है। विचार-स्वातंत्र्य का मतलब बोलने, लिखने की स्वतंत्रता मानी जाती है। इसमें संदेह नहीं कि पुराने स्वार्थों के प्रतिनिधियों के लिये समाचारपत्रों का दरवाजा बैसे ही खुला नहीं है, जैसे कि बिड़ला आदि के पत्रों में हमारे जैसे स्वतंत्र चेता लेखकों के लिये। इतना अन्तर जरूर है, कि जहाँ यहाँ के पत्रों को दस पाँच करोड़पति-अरबपति अपने हाथ में करके स्वतंत्र विचारों का गला घोटें हुए हैं, वहाँ रूस में विरोधी प्रोपगंडा के लिये यदि स्थान नहीं दिया जाता, तो किसी करोड़पति मालिक के कारण नहीं। वहाँ के दैनिक, मासिक या साप्ताहिक पत्र, या तो “इज्विस्तिया” की तरह सरकार के मुखपत्र हैं, या “प्राव्दा” की तरह कम्युनिस्त पार्टी के, अथवा वह किसी गंगरपालिका, युनिवर्सिटी, मजदूर-संगठन, सैनिक-संगठन, छात्र-संगठन की और से निकलते हैं। पत्रों की तो इतनी भरमार है, कि कितने ही कल-खोज

( पंचायती खेती वाले गांव ) भी चार पन्ने की शीट निकालते हैं । यह निश्चय ही है, कि जिन संगठनों ने यह पत्र निकाले हैं, वह अपने विरुद्ध प्रचार करने में सहायता नहीं दे सकते । यही बात भाषण-मंचों की भी है । सभी भाषण-मंच किसी न किसी, ऐसी संस्था से संबंधित हैं, जो कि पूंजीवाद के विरोधी हैं । लेकिन इसका यह मतलब नहीं, कि लोग अपने विचारों को यदि सैकड़ों और हजारों के बीच प्रकट नहीं कर सकते, तो दस-बीस तक भी उन्हें नहीं पहुँचा सकते । यह समझ लेना चाहिये, कि सोवियत-शासन को आर्थिक, और शिक्षा-संबंधी क्षेत्रों में जो सफलताएं मिली हैं, वह केवल अभूतपूर्व ही नहीं हैं, बल्कि मात्रा में इतनी अधिक हैं, कि उनसे जनता के भ्रमों को दूर करने में लाभ उठाया है । उन्होंने अपनी आंखों के सामने उन लाभों को दिन पर दिन बढ़ते देखा है । द्वितीय विश्व-युद्ध में विजय प्राप्त करके सोवियत शासन ने लोगों के हृदयों में अपने गौरव को और भी अधिक बैठा दिया है । इसीलिये सोवियत जनता में १९ फी सदी लोग सोवियत शासन के अंधसक्त हैं । स्तालिन तो उनके लिये सजीव भगवान् है, जिसके विरुद्ध वह एक शब्द भी सुनने के लिये तैयार नहीं है । ऐसी अवस्था में भाषण-मंच पर खड़े होकर सोवियत-शासन या स्तालिन को गाली देने की हिम्मत ही किसकी हो सकती है ? लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि विरोधी भाष रखनेवाले लोग वहाँ नहीं हैं, और वह अपने मतभेदों को प्रकट नहीं करते । अपनी मित्र-मंडली में सभी अपने विचारों को खुलकर प्रकट करते हैं । मतभेद रखनेवाले भी सोवियत-विरोधी होने तक बहुत कम जाते हैं । बहुतेरे तो केवल असांतोष तक प्रकट कर देना चाहते हैं । इस तरह के असांतोष रखनेवाले नर-नारी पुराने उच्च या मध्यम वर्ग में मिलते हैं, जिनको स्वयं नहीं तो अपने भाता-पिता के मुँह से सुनकर धक्का खाया जाता रहता है—“ते हि नो दिवसा यताः” । ऐसा उदाहरण मैं अपने अज्ञमव से देता हूँ । एक पुराने मध्यमवर्गकी शिक्षिता महिला अपने लड़के को इसलिये बाहर किसी स्कूल में भेजने का विरोध करती थी, कि उनके क्याल में वहाँ सब गुण्डे लड़के भरे हुए हैं । मैंने कहा—तब तो घर में ही रख-

करके शिवा देनी चाहिये । दबी जबान में उत्तर मिला “हाँ ।” एक और महिला कह रही थी— “कम्युनिस्ट भूटे और निम्न श्रेणी के मनुष्य होते हैं । सोवियत ने लोगों को भिखारी बना दिया । पहिले सभी मौज में रहते थे ।” इसमें शक नहीं कि उक्त महिला का “सभी” शब्दका अर्थ था— अमीर और उच्च-वर्ग, नहीं तो सोवियत शासन में अब कहीं गरीब भिखारी देखने में नहीं आता । उच्च और मध्यमवर्ग की महिलायें पहिले कोई भी काम करना वाप समझती थीं । अब उन्हें मशवकत करके रोटी कमानी पड़ती है, फिर वह इस जीवन को कैसे पसन्द करेंगी ।

शिक्षा के नये ढंग को वहाँ बड़े व्यापकरूप में अपनाया गया है । स्कूल भेजने से पहिले के सात वर्षों के लिये शिशुशाला और आलोचान इतने अधिक स्थापित हैं, कि उनमें राष्ट्र के सभी लड़के-लड़कियों को रक्खा जासकता है । यह भी माना जाता है, कि बच्चों को शारीरिक दंड देना अच्छा नहीं है । २४ जून को मैं बाबुशिकन नामक विशाल उद्यान में गया था । लड़कियों के चार सालों में उपेक्षित रहने के कारण वहाँ कुछ उदासी जरूर थी, फिर भी बाग बहुत सुन्दर था और पूर्ण अवस्था में लाने के लिये उसमें मरम्मत का काम भी लगा हुआ था । हमारे मुहल्ले से यह उद्यान बहुत दूर नहीं था, इसलिए हम अक्सर चले जाया करते थे । हम लौट रहे थे । रास्ते में देखा कि एक माँ अपने पाँच वर्ष के लड़के को जोर-जोर से पीट रही है । आनाज जोर की आरही थी और लड़का भी चिन्ना रहा था, किन्तु कोट लगाने का वहाँ कोई सवाल नहीं था, क्योंकि लड़के ने रूईदार कोट पहन रखा था और माँ के हाथ में एक रास्ते से उखाड़ी नरम सी हरी टहनी थी । कसूर यह था कि लड़का अपनी तीन बस्तु की बहन को भी लेकर सैर-सपट्टे पर चल पड़ा था और माँ खोजते-खोजते हैरान हो गई थी । वह जानती थी, कि यह जोड़ी साद-बाबुशिकन की ओर ही गयी होगी, तो भी हँदने में उसे कभी तकलीफ उठानी पड़ी । भाई का चेहरा बड़ा दयनीय मालूम होता था, किन्तु वह रोने को ही रहा था । दोनों के गुलाबी गाल स्वास्थ्य के परिचायक थे, हाँ वह कुछ मैले

जबर थे। एक मध्यवर्गीय महिला ने भट टिप्पणी जड़ दी— बौद्धिक टोक पीटकर गधे को घोड़ा घोड़े ही बना सकते हैं। दोनों बच्चे और उनकी मां मजदूर वर्ग की थीं। उनकी पोशाक में भी मजदूर वर्ग की सुरूचिका पतर नहीं था, इसीलिये यह टिप्पणी जड़ी गयी।

घर में पाखाने का पलश भिगड़ गया था। बहुत फहने पर पाखानों की देखभाल करने वाली महिला अपनी सखी के साथ आयी। उसने गृहिणी से जवाब तलाब किया— पाखाना खराब हो गया, तो उसे क्यों इस्तेमाल किया ?

—इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या सड़क पर जाते।

—खुद क्यों नहीं सुधार लिया ?

—श्रीजार कहाँ था, और फिर क्या तुम वारिन (मजदूर) होकर बैठने के लिये हो, बेकाम ही रहना चाहती हो ?

सुधारनेवाली ने बड़े अभिमान के साथ ज़ोर से कहा— मैं वारिन नहीं हूँ, मैं मजदूर-वर्गीय हूँ।

दोनों वर्गों की महिलाओं के मनोभाव को यह वार्तालाप अच्छी तरह प्रकट करता है। पुराना मध्यवर्ग या उच्चवर्ग यद्यपि अब उत्पीड़ित अभिमानित नहीं है, किन्तु वह जानता है, कि रूस में अब सारी शक्ति मजदूरवर्ग के हाथ में केन्द्रित है, तब भी कभी कभी उसके भीतरी भाव प्रकट हो उठते हैं।

वह मनोभाव यद्यपि अब भी पाया जाता है, लेकिन वह मूर्खतापूर्ण पुरानी आदत के सिवा और कोई महत्व नहीं रखता। इस मनोभाव का दिग्दर्शन एक सोवियत नाटक “क्रेमलिन की घड़ी” में अच्छी तरह किया गया था, जिसे मैने : १५ जुलाई १९४५ : मास्को के गोर्की कला थियेटर में देखा था। नाटक १९४२ में लिखा गया था ; किन्तु उसमें १९२० के वर्गभेद का चित्र था। सारे दृश्य अत्यंत सामाजिक थे। परदों का खुलकर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उनसे भी अधिक पहियों के ऊपर रखे बड़े बड़े प्राकृतिक तथा दूसरे दृश्योंवाले फलकों का उपयोग किया गया था, जिन्हें आसानी से हटाकर दृश्य-परिवर्तन किया जा सकता था। पहिले दृश्य में नागरिक स्त्री-पुरुष अपनी

अपनी चीजें बेंच रहे थे, भिखमर्गे भीख मांग रहे थे। इसी समय एक बेकार इंजिनियर किसी से कह रहा था— “क्रैमल की घड़ी बंद होगई।” जिसका अर्थ था— सोवियत-शासन की भाड़ी रुक गई, या सोवियत-शासन समाप्त होना ही चाहता है। उस समय के श्रमिक और शिक्षित वर्ग का नये शासन के प्रति यही भाव था। दूसरे सैन में एक नौ-सैनिक रिवाकोफ और उसकी प्रेमिका मशिनका का प्रेमाभिनय था। मशिनका इंजिनियर की पुत्री थी। नौ-सैनिक रिवाकोफ नये शासन का पक्षपाती था। मशिनका मध्यवर्गीय इंजिनियर की पुत्री दो नावों पर थी। अगले दृश्य में लेनिन को दिखाया गया था, जिसके लिए बड़ी श्रद्धा से शिकारी पहरा दे रहे थे। लेनिन और उन शिकारियों की वेश-भूषा का मेल-जोल में उनमें कोई भेद नहीं महसूस होता था। लेनिन एक शिकारी के घरमें जाता है और लड़कों से छेड़खानी करके उनमें विवृलत हिलमिल जाता है। लड़की गौर से लेनिन की ओर देखती है। लड़का कुछ सयाना है। वह आंगनतुक शिकारी को एक फोटी से भिलाता है। तो भी संदेह में पड़ा रहता है। इस पर लेनिन अपने नंदुले रिशको नंगा कर देता है। लड़कों को विश्वास हो जाता है, कि उसके साथ खेलनेवाला शिकारी महान् लेनिन है।

एक दृश्य में दिखाया गया था— इंजिनियर के घरमें आफ (काउन्ट) अफ्रीना और दूसरे उच्चवर्गीय भद्र पुरुष और महिलायें सोवियत-शासन पर कड़ी टिप्पणियां करते जा रहे हैं और साथ ही भयभीत भी हैं। इसी समय मतरोश (दामाद) रिवाकोफ नौ-सैनिक भैंस में भीतर आता है। सभी भद्र-पुरुष और भद्र महिलायें आचमगत में होड़ करने लगती हैं। उनको डर होता है— यह सोवियत सरकार का सैनिक है, यदि नाराज हो गया तो हमारा सर्वनाश हो जायगा। यहां यह भी बतला दूँ, कि इस नाटक में मशिनका का पार्ट जिस स्त्री ने लिखा था, वह उसी होटल की परिचारिका थी, जिसमें मैं ठहरा हुआ था। इसी समय सरकार की ओर से इंजिनियर की बुलाहट आती है। इंजिनियर एक छोटी सी पीटली बांध कर जीवन से निराश हो घर से निकलता है। उसकी बीबी रोती है, समझती है—बोव्योविक उसे जेल भेज रहे हैं, अब वह जीता नहीं

सौटने का ।

ईजीनियर क्रैमलिन के भीतर पहुँचाया जाता है । लेनिन, स्तालिन और जॉरजिन्स्की उससे बात करते हैं । ईजीनियर बोलशेविकों के सोशलिअम से धृणा प्रकट करता है । लेनिन उसे अनसुनी करके देश के विद्युतीकरण की बात आरम्भ करता है और उसके सामने योजना का एक नकशा रखता है । ईजीनियर अपनी सारी धृणा को भूल जाता है । एक बार खतः उसको अंगुलियाँ नकशे पर चली जाती हैं, लेकिन वह फिर उन्हें समेट लेता है । स्तालिन पूछता है— तुम्हें राजनीति से क्या मतलब ? तुम तो ईजीनियर हो, अपनी करामत दिखलाओ ।

वृद्ध ईजीनियर की तरुणार्ई की उमंग उमड़ आती है । वह भी विजकी का बड़ा ईजीनियर है । एकवार उसने बड़े बड़े पन-विजकी कारखानों को बनाने का स्वप्न देखा था, लेकिन जार की सरकार में उसकी बात को सुननेवाला कौन था ? उसकी सारी उच्चाकांक्षाएँ मनमर्मे ही दबी रह गयीं और अब वृद्धापे में राज्य का हर्ताकर्ता खुद उसे बुलाकर उस स्वप्न को जागृत कर रहा है । ईजीनियर को विचार करके जथाब देन के लिये छुट्टी मिलती है और उसे कार पर उसके घर पहुँचा दिया जाता है । परिवार इस तरह ईजीनियर को देखकर हर्षाशु बहाता है । ईजीनियर की आंखें खुल जाती हैं । वह लेनिन की तारीफ करता है । फिर निकल कर तरुणार्ई में लिखी अपनी पुस्तक को दिखलाता है । वह मशिनका को ऊपरी मन से रोब दिखलाते हुए प्यार के शब्दों में कहता है— भैवकृष्ण लड़की, तूने किसी कप्तान से क्यों नहीं शादी की ?

मशिनका— जारशाही कप्तान से, तब तो तुम इसवक्त पेरिस में होते !

इसी तरह एक मशहूर बड़ीसाज भी क्रैमलिन पहुँचाया जाता है । जॉरजिन्स्की का नाम सुनते ही वह डर के मारे कांपने लगता है । जॉरजिन्स्की क्रांति के दिनों में सोवियत के गृह-रक्षा विभाग का भंत्री था । कोई भी सोवियत के विरुद्ध षड्यंत्र करनेवाला उसकी पकड़ से बच नहीं पाता था । लेनिन ने बात करके बड़ीसाज का भी दिल खोल दिया, और उसके हुनर की प्रशंसा करने

पर घड़ीसाज ने कहा— मैं इस घड़ी को मरम्मत कर सकता हूँ । लेनिन ने कहा— केवल मरम्मत काफी नहीं है । क्रेमलिन की घड़ी को इस तरह बनादो कि वह घंटा बजाते वक्त अंतर्राष्ट्रीय गान गाये । इसी बीच में चाय आती है । लेनिन के साथ चाय पीते घड़ीसाज खुल पड़ता है, और तुरन्त घड़ी देखने के लिये उतावला हो जाता है ।

एक और दृश्य में रिवाकोफ के युद्धक्षेत्र में जाने को दिखलाया गया था । रिवाकोफ कमीसर (राजनीति परामर्शदाता) के रूप में कोलचक के विरुद्ध लड़ने वाली सेना के साथ जा रहा है । युद्ध पर जाते पति की पत्नी से विदाई का बहुत करुण दृश्य उपस्थित किया गया था । मशिनका पहिले रोकना चाहती है, फिर चूमकर उसे विदा करती है । पति बाहर जाता है । मशिनका की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं । इसी समय सैनिक बिमग से टेलीफोन आता है । मशिनका आंखों में आंसू लिये स्वर गंभीर करके कहती है— कमीसर ऊयेखाल (कमीसर चला गया) । इंजीनियर अपनी योजना लिखकर लेनिन के सामने पेश करता है । लेनिन उसे स्वीकार करके कहता है— पैसे और सामान की परवाह मत करो, तुम अपने काम में लग जाओ । इंजीनियर फूला नहीं समाता । घड़ीसाज क्रेमलिन की घड़ी को चालू कर देता है और उसमें इंटरनेशनल सुनाई देता है । इस नाटक में मध्यवर्ग के पुराने मनोभावको बदलने का प्रयत्न किया गया है । सोवियत के नेता नाटक और सिनेमा के महत्व को अच्छी तरह जानते हैं, वह समझते हैं, कि वह बड़ी शक्ति है, जिसके द्वारा करोड़ों आदमियों के मनोभाव थोड़े समय में बदले जा सकते हैं ।

मनोभाव बदले अवश्य हैं, लेकिन आनुवंशिक मनोभावों के बदलने में भी काफी देर होती है । मेरे परिचितों में जारशाही जनरल की लड़की एक प्रौढ़ा महिला थी । उच्चवर्ग की सभ्यता और संस्कृति में पूर्णतया दीक्षित थी । बाप जनरल के जमाने में नौकरानियों के हाथों में खेला करती थीं, काम करने की आदत नहीं थी । रूसी के अतिरिक्त और भी यूरोप की भाषायें जानती थीं । उनका काम था दिनभर सिंगार बदलते रहना, नाच-नियेटर की और दौड़ना या

उपन्यास पढ़ना। पहिले चार व्याह हो चुके थे, लड़ाई के दिनों में एक मोटर मेकेनिक से व्याह किया। बर्गों और श्रेणियों का भेद आर्थिक ढाँचे के बदलने से इतना जल्दी बदला है, कि भद्र महिला को मोटर ड्राइवर से व्याह करने में आनाकानी नहीं हुई। इस समय वह पति की नहीं अपनी कमाई खा रही थीं। किसी कारखाने में लिखने पढ़ने जैसा कोई काम करती थीं और महीने में चार सौ रुबल (२५० रुपया) पाती थीं। उन्होंने अपने तीन कमरों को कम करना नहीं पसंद किया, इसलिये सौ रुबल मासिक तो तीनों कमरों के चले जाते थे। बाकी तीन सौ में अपने और लड़के का खर्च चलाती थीं। जनरल-पुत्री भला इस जीवन से कैसे सन्तुष्ट रह सकती थीं, जहाँ बहुत संकोच के साथ खर्च करना पड़ता था और घर का सारा काम पहिले के भवखन जैसे मुलायम हाथों से।

एक और भद्रमहिला चाँदी का चम्मच दिखलाकर कह रही थीं— देखिये न, इसका दाम चार सौ रुबल है, कहां से कोई खरीदेगा ?

मैंने कहा—यदि चार रुबल कर दिया जाय, तो सोवियत के पाँच करोड़ परिवारों में से कितने हैं, जो दस चम्मच से कम खरीदना चाहेंगे ? फिर इतनी चाँदी खरीदने के लिये क्या तुम पसंद करोगी, कि यहाँ का गेहूँ, मांस, पोस्तीन अमेरिका और मेक्सिको भेजा जाय।

महिला ने कहा— क्या हमारे यहाँ चाँदी नहीं होती।

मैंने कहा—नहीं, उसके लिये जो सोना तुम्हारे पास है उसे भेजना पड़ेगा। जर्मनी से हरजाने में सोना मिल रहा था, किन्तु सोवियत सरकार ने उसे लेने से इन्कार कर दिया।

—लेना चाहिये था।

मैंने कहा— जर्मनी से सोना लेने की जगह सोवियत सरकार वहाँ से मशीनें और दूसरे सामान लेगी, जिनकी खरीदने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड को दुगना-तिगुना दाम चुकाना पड़ता। तुम्हें तो पसंद आता, यदि जर्मनी का सारा सोना चला आता और लेना की खानों का सोना भी जेवर बनकर तुम्हारे



फंठ-कानों में लटकता ।

पुराने सामन्त और उच्च मध्यवर्ग की मनोवृत्ति में पहिले का असर अब भी देखने में आता है । जो १९१७ की क्रान्ति के समय होश सम्भाल चुके थे, उनकी तो बात ही क्या, जो क्रान्ति के बाद उस वर्ग में पैदा हुए, उनमें से भी कितने ही “ते हि नो दिवसा गताः” कहते अफसोस करते हैं । एक जारशाही जनरल की लड़की में सर्गियेवा (आधुनिक चेकोस्वकी) सड़क पर एक तिमंजिला भव्य मकान दिखाकर कदा— हमारे पिता इसी में रहते थे, उनके लिये ११ कमरे थे । सर्गियेवा पहिले सामंतों और उच्च मध्यवर्ग का गृहला था । इसकी सड़क बहुत सुन्दर है, जिसके दोनों तरफ वृक्ष और हरियाली लगी हुई है । पहिले इस सारे गृहल्ले में देवतायों का वास था, और अब सब धान बाईस पैसेरी । जनरलों, आफी तथा राजकुमारों के महलों में अब धूल-पूसरित भङ्गे ढंग से कपड़े पहिने कितने ही मजदूर परिवार रहते हैं ।

एक दिन (९ सितम्बर १९४५) हमारी परिचितता की लुग्या की बहू अपने पुत्र के साथ ब्रूस्ने आयी थीं । पुत्र १५ वर्ष का था, और था शरीर तथा भस्तिष्क दोनों से दुर्बल । माँ कम मन्ती थीं । पुत्रको द्वावृत्ति भिलती है, वह फोटोपाफी सीख रहा था । माँ को भी काम भिल्ला था, जिससे खाने-पाने का तकलीफ नहीं थी । ऐसी सुविधाजनक स्थिति देखकर आदमी को संतोष होना चाहिये । यदि उच्च मध्यवर्ग के किसी परिवार का दिवाला निकल गया होता, फजूल खर्चों में उसकी जायदाद बिक गई होती, तो उसके परिवार को यह सुविधा जारशाही युग में नहीं भिल सकती थी । लेकिन क्या उक्त महिला इसके लिये वर्तमान शासन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिये तैयार थीं ? उनको तो याद आते थे, वह दिन जबकि उनके पिता के परिवार में आधे दर्जन बौकर हरेक काम को इशास पाते ही करने के लिये तैयार थे और अब बेचारी को अपने आप सब काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, घर का वर्तन और भाँडू अपने हाथ से करना होता है, पैसा बनाने के लिये कपड़ा धोना और राशन की दुकान से सामान भी उठा के लाना पड़ता है । उक्त महिला क्रान्ति के

समय गयानी थीं, इसलिये अपने उन दिनोंको भूल नहीं सकती थीं ।

इस पुरानी मनोवृत्ति का एक और उदाहरण है । हमारे विद्यार्थियों में यद्यपि अधिकांश मजदूर और किसान वर्ग के थे, क्योंकि देश में उनकी संख्या अधिक है, लेकिन पहिले के उच्चवर्ग की संतानों शिक्षण-संस्थाओं से कम लाभ नहीं उठातीं । किसी समय उनके प्रति भेद-भाव भले ही रखा जाता हो, लेकिन अब वह वर्षों की पुरानी बात हो गयी । पढ़ने की इच्छा होनी चाहिये, सभी के लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं । हमारे द्वितीय वर्ष की कक्षा में ३ छात्र थे, जिनमें से एक मजदूर का पुत्र था । सोवियत के युद्धोपरान्त काल में जो चीजों का अभाव था, उसके लिये कभी कभी लोग कुछ टिप्पणी कर बैठते, इस पर वह हरेक अभाव की व्याख्या करना चाहता था । वह कहता था— सोवियत सरकार बहुत कर रही है । लड़ाई से अभी अभी देश बाहर निकला है । इसलिये सब चीजें एक ही दिन नहीं तैयार हो सकतीं । वह समझदार लड़का सली प्रकार जानता था, कि अगर सोवियत-शासन न होता, तो आज वह युनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर न पाता । इसीलिये कुछ कमियों को देखकर वह दूसरे ग्रुपों को भूलने के लिये तैयार नहीं था । हमारी एक क्लास में २ छात्रायें थीं जो कि मजदूर या किसान वर्ग की नहीं थीं । उनमें से एक मध्यवर्ग की लड़की थी और दूसरी किसी सामन्त की । पहिली लड़की— जिसका पति भी विश्वविद्यालय का छात्र था— इस बात की शिकायत करती थी, कि उसके रहने के लिये सिर्फ एक कमरा मिला है, वह प्रयास नहीं है । वह कह रही थी— मुझे दो कमरे चाहिये । उसकी मांग अनुचित नहीं थी, लेकिन लेनिनग्राद नगर के मकान बहुत भारी संख्या में ध्वस्त हो गये थे, उन्हें फिर से बनाया या मरम्मत किया जा रहा था । लोग दूसरी जगहों से अपने परिवारों को जल्दी जल्दी बुला रहे थे । ऐसी स्थिति में दो कमरे देना कहाँ संभव था ? दूसरी लड़की को दो कमरे मिले थे । उसका पति एक सैनिक अफसर था । वह कह रही थी— मुझे तो पांच कमरे चाहिये । मैंने कहा— तब तो पांचों कमरों को साफ मुथरा रखने में तुम भर जाओगी ।

—नौकर भी चाहिये ।

लड़ाई के पहिले उसके घरमें नौकर थे। सोवियत के विरुद्ध दुनिया में जो प्रचार हुआ है, उससे कुछ लोग समझते हैं, कि क्रान्ति के दूसरे ही दिन पहिले के उच्च वर्ग के सभी परिवारों के हाथ में भाड़, टोकरी या फावड़ा दे दिया गया। वस्तुतः यह बात मूर्ख ही कर सकता था। क्योंकि सोवियत भूमि का नवनिर्माण इंजीनियरों, शिक्षा-शास्त्रियों, वैज्ञानिकों, डाक्टरों आदि की सहायता के बिना नहीं हो सकता था। उन्हें यदि भाड़ और फावड़ा दे दिया जाता, तो देश के नवनिर्माण के लिये विशेषज्ञ कहां से मिलते? इसीलिये किसानों और मजदूरों को अधिक अवसर देने का यह मतलब नहीं था, कि पहिले के शिक्षितों और उनकी सन्तानों को पीछे ढकेल दिया जाय। एक भद्र महिला का कहना था—कुछ आदमी भाड़ बुहारू छोड़ और कामों के अयोग्य हैं, उन्हें परिवारों में नोकरी करने देना चाहिये। मुझे यह बात सुनते बक्त उस बहरी भद्र महिला की याद आ रही थी, जिसका पुत्र वस्तुतः शरीर और मनसे इतना अयोग्य था, कि वह फोटोग्राफी नहीं भाड़-बुहारू का काम ही अच्छी तरह से कर सकता था, लेकिन क्या यह कुल-पुत्री यह सुनकर उसे भाड़ बुहारू करने देना चाहती?

मध्य वर्ग में अभी भी पुरानी मनोवृत्ति के लोगों का अभाव नहीं हुआ है और शायद उसमें और भी समय लगेगा। लोग अपने भावों को प्रकट नहीं करते, यह बात नहीं है। यह सच है कि पत्र-पत्रिकायें व्यक्तियों की नहीं संस्थाओं की हैं, जिनकी नीति, के विरुद्ध लोग उनमें छप नहीं सकते। लेकिन अपनी निजी गांधियों (मित्र-मंडली) में अपने विचारों को प्रकट करने में कोई नहीं हिचकता। अपरिचित आदमी के सामने भी भावों को खोलने में कितनी ही बार अवसर मिल जाता है। सोवियत का रंगमंच (तियात्र) जारशाही समय में भी बहुत उन्नत था, उसके बँले (मूक) नाट्य पहिले भी दुनिया में अद्वितीय माने जाते थे। जार की सरकार और उस समय का सामन्तवर्ग जितना पैसा अपनी नाट्यशालाओं पर खर्च कर सकता था, उतना दुनिया का कोई देश खर्च नहीं कर सकता था, इसलिये आज से सौ-सवा सौ वर्ष पहिले ही से रूस का रंगमंच बहुत उन्नत हो

चुका था। सोवियत काल में वह उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचा। पिछली डेढ़ शताब्दियों से प्रतिभाशाली नटों और नाट्यकारों ने जो जो नाटक मास्को और पितरबुर्ग के रंगमंचों पर खेले, उन्हें आज भी बड़े सुन्दर रूप में खेला जाता है। पहिले की कमियों को दूर कर दिया गया है। यथार्थवाद हरेक क्षेत्र में वहाँ का मूल मंत्र है, इसलिये किसी नाटक के रंगमंच पर लाने के समय उसके देश, काल और पात्र का पूरा ध्यान रक्खा जाता है। जब किसी राजा या सम्राट् के दरबार, उसके विलासिता-पूर्ण जीवन का चित्र खींचना होता है, तो उसमें महार्थ वस्त्र, हीरा-मोती और सोने चाँदी की चीजों को बड़ी उदारता से काम में लाया जाता है। एक दिन मैं नाटक देख रहा था। पुराने राजशाही दृश्य के सामने आते ही अपरिचिता भद्र महिला बोल् उठी—सौंदर्य इसे कहते हैं। उनका अभिप्राय यह था, कि बोल्लोविकों ने जीवन से सौंदर्य को निकाल फेंका है, क्योंकि अब सौंदर्य के सर्वोच्च प्रतीक जार, जाराना, और उनके दरवारी सदा के लिये लुप्त कर दिये गये हैं।



## ७-मास्को में एक परवकारा

---

मुझे लेनिनग्राद आये अभी एक ही महीना हुआ था। इसी समय

मास्को जाने का अवसर मिला। मैं आते वक्त जल्दी जल्दी में था, इसलिये मास्को को ठीक से देख नहीं सका था, इसलिये इस अवसर से फायदा उठाना चाहता था, और ४ जुलाई (१९४५) को पाँच बजे शाम की खोला ट्रेन द्वारा रवाना हुआ। जुलाई का आरम्भ था। अभी पढ़ाने का काम दो महीने बाद शुरू होनेवाला था, और इस बीच में मुझे भाषा में कुछ और प्रगति करने की आवश्यकता थी। उसमें कोई बाधा नहीं हो सकती थी। भाषा सीखने का सबसे अच्छा अवसर तभी मिलता है, जब कि आदमी अपनी पूर्ण परिचित भाषाओं में किसी का उपयोग न कर सके। यहाँ रूसी छोड़ दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं होता था। होटलों में भी यदि इन्तूरिस्तका न हो, तो यह जरूरी नहीं है कि कोई अंग्रेजी या दूसरी यूरोपीय भाषा जाननेवाला मिल जाये।

लेनिनग्राद से रवाना होते समय बूदावादी थी, लेकिन नगर से आगे बढ़ने पर मौसिम अच्छा हो गया। चारों ओर हरियाली थी। युद्ध की धंसलीला के अवशेषों पर भी हरियाली छाई हुई थी। रात को अँधेरा रहा, जब कि हम

बोल्गा के सम्मने से गुजरे। बोल्गा का उदगम यहाँ आस-पास है, इसलिये वह यहाँ महानद नहीं दिखलाई पड़ती।

अगले दिन १० बजे हमारी ट्रेन मास्को पहुँची। मरे साथ एक और भद्र जन भी थे, इसलिये कैले जाना है, कहाँ ठहरना है, इसके लिये कोई कठिनाई नहीं हुई। रेलवे स्टेशन से उतर कर पास में ही भूगर्भा (मैत्रो) रेलवे का स्टेशन था, जहाँ गाड़ी पर सवार हो चौथे स्टेशन पर उतर गये। मास्को होटल लगा हुआ था। यह होटल केवल मास्को का ही नहीं बल्कि सारे सोवियत देश का सबसे बड़ा होटल है—तेरह मंजिला है, जिनमें सात मंजिले तोपारे होटल में हैं, और कुछ भाग में ६ मंजिलें और भी हैं। इमारत के निचले भाग में लाल रंगमस्तर जैसा चमकीला पत्थर लगा हुआ है। सोवियत-समय की इमारत होने से और वह भी पंचवार्षिक योजनाओं की सफलता के वक्त बनने से मास्को होटल को बहुत ही सुन्दर, स्वच्छ और भव्य बनाया गया है। इसमें हजारों कमरे हैं। लेकिन कमरा पाने में हमें ढाई घंटे की प्रतीक्षा करनी पड़ी। हमारे कमरे में दो मेजें, सप्त कुर्सियाँ, एक सोफा, एक टेलीफोन और एक रेडियो था। शयनकक्ष अलग था, जिसमें जोड़ी पलंग, दो कुर्सियाँ, एक मेज और दो कपबोर्ड रखे हुए थे। एक राशेवाली बर्फी अल्मारी के अतिरिक्त दीवारों में भी दो अलमारियाँ थीं। स्नानकोष्ठक भी साथ में लगा हुआ था। कई लम्प थे। मास्को होटल के अधिकांश कमरे इसी ढंग के थे। मेरा कमरा सातवें मंजिल पर था, जिसके पीछे खुली विशाल छत थी। यहाँ शाम के वक्त रेस्तरां (सोजनशाला) लगती, जिसमें चाय भी रहता—खाते-पीते हुए नर-नारी एक बजे रात तक मन बहलाव करते। उस समय होटल बहुत खर्चाला था, यदि राशनकार्ड न हो तो, एक दिनके भोजन आदि पर १५० रुबल खर्च आता, अर्थात् प्रायः ८० रुपये।

मित्रों के कहने से मालूम हुआ, कि मैं एक पखवारा यहाँ रह सकता हूँ और १७ जुलाई की ही शाम को मैं फिर लेनिनग्राद के लिये लौट सका। यहाँ रहते हुए मैंने भास्को के अधिक से अधिक दर्शनीय स्थानों, को देखना चाहा। भाषा की दिकत अर्थात् दूर नहीं हुई थी, यद्यपि पिछले एक महीने में मैंने रूसी सीखने

में कम प्रगति नहीं की। विदेशों से सांस्कृतिक संबंध कायम करनेवाली सोवियत संस्था-बोक्स ने एक पय-प्रदर्शिका का इंतजाम कर दिया था, लेकिन वह कुछ समय के ही लिये साथ रहती थी, बाकी पर्यटन स्वावलम्बी होकर ही मुझे करना था।

६ जुलाई को मैं लेनिन-म्यूजियम देखने गया। लेनिन की जीवनी और व्यक्तित्व को समझने के लिये यहाँ सारे साधन एकत्रित किये हुए हैं। हर अवस्था के समय समय पर खींचे हुए फोटो तथा कलाकारों द्वारा बनाये चित्रों से लेनिन के जीवन को साकार रूप दिया गया है। लेनिन की पुस्तकों और भिन्न-भिन्न भाषाओं में उनके अनुवादों का भी यहाँ सुन्दर संग्रह है। मैं हँसने लगा— देखूँ भारतीय भाषा में लेनिन-संबंधी साहित्य की कौन कौन-सी पुस्तकें हैं। उर्दू और गुरुमुखी की कुछ छोटी छोटी किताबें रक्खी मिलीं, जो कि मारकों में छपी थीं। भारत का रूस से कूटनीतिक संबंध टूट जाने के कारण हमारे यहाँ की चीजों के संग्रह करने में सोवियतवालों की दिक्कत रही तो भी कुछ और पुस्तकें भारत में मिल सकती थीं। लेनिन का पालन-पोषण, शिवा-दीक्षा और क्रान्तिकारी जीवन कैसे गुजरा, इसको चित्रों ही द्वारा नहीं बल्कि घरों और घरोंदों द्वारा भी अंकित किया गया था। जिस घरमें लेनिन का जन्म हुआ था, उसका नमूना, सामान के साथ यहाँ मौजूद था। कारागृह के जीवन को भी इसी तरह साकार दिखाया गया था। फर्ररी क्रान्ति (१९१७) के बाद लेनिन पेत्रोग्राद पहुँचने में सफल हुए। बोल्शेविकों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर करेन्की की सरकार को डर लगने लगा। वह लेनिन की गुप्त हत्या कराने के लिये तुली हुई थी। उस समय लेनिन को अज्ञातवास के लिये जंगल में भेज दिया गया। जंगल में जैसी कुटिया में लेनिन रहते थे, उसका भी नमूना यहाँ मौजूद था। पूंजीवादी देशों ने लेनिन को अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा समझा था। उन्हें मालूम होने लगा, कि यदि साम्यवादी क्रान्ति स्थिर हो गई, तो उनके देश में भी खैरियत नहीं। उन्होंने काफ़्लान नामक एक छी को हत्या के लिये नियुक्त किया। आज स्तालिन के बराबर पदों में रहने का आरोप पूंजीवादी देशों में सुना जाता है,

लेकिन क्या स्तालिन यदि इतनी सावधानी के साथ नहीं रखे जाते, तो उनके देशी और विदेशी शत्रु अभी तक उन्हें जिन्दा रहने देते ? काप्लान ने जिस पिस्तौल से लेनिन की छाती पर गोली चलाई थी, वह पिस्तौल भी यहाँ म्यूजियम में रक्खी हुई है। गोली खाते वक्त जिस ओवर कोट को लेनिन पहिने हुए थे, जो कि उनके मृत से सन गया था, वह भी यहाँ रखा हुआ है। लेनिन का व्यक्तिः शोषित वर्ग के उत्थान और मानवता की प्रगति के लिये कितना महत्त्व रखता है, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। यह म्यूजियम लेनिन को समझने में बड़ा सहायक है। हरवक्त यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। लेनिन समाधि में दर्शन के निश्चित वंटे हैं, और काफी दिक्कत होती है, लेकिन लेनिन म्यूजियम में सब चीजें आसानी से देखी जा सकती हैं। वस्तुतः दर्शक के लिये यह अच्छा है, कि पहिले वह लेनिन-म्यूजियम देखे, तब लेनिन-समाधि के भीतर जाकर उस महापुरुष के शवको देखे। लेनिन म्यूजियम के पास ही लाल मैदान है, जो आस पास की ऊंची इमारतों के कारण छोटा मालूम देता है, लेकिन महोत्सव के दिनों में उसमें लाखों आदमी खड़े हो सकते हैं। लेनिन-समाधि के पीछे क्रैमल (क्रैमलिन-दुर्ग) की दीवार है। अब वहाँ देवदार लगाये गये हैं, जो कुछ वर्षों बाद अपनी घनी छाया से इस मृत्यु-रचित वास्तु को अपना सौंदर्य प्रदान करेंगे। क्रैमलिन की दीवार में देश के सम्माननीय पुरुषों की अस्थियाँ छोटे-छोटे छिद्रों में रक्खी जाती हैं। यद्यपि कब का रवाज अभी हटा नहीं है, तो भी मुर्दों के जलाने का प्रचार काफी बढ़ चला है, इसलिये चिन्तावशेष अस्थियों का कुछ भाग थोड़ी-सी जगह में रखा जा सकता है।

ताहस्त्रा की अमरकृति “अन्ना करेनिना” को २५ बरस पहिले मैने पढ़ा था। ७ जुलाई को उसे रंगमंच पर देखने का मौका मिला। नाटक साढ़े सात से ग्यारह बजे रात तक होता रहा। वार्तालाप समझने भरकी शब्द-शक्ति नहीं थी, किन्तु हमने उसे बैले मान लिया। अभिनय बड़ा सुन्दर था, विशेष कर अन्ना, करेनिन और अन्ना के प्रेमी का, पार्ट बड़े ही निर्दोष रूप में अदा किया गया था। दृश्य साधारण पर्दों द्वारा ही नहीं दिखलाये गये थे, बल्कि वहाँ सभी चीजों



को वास्तविक रूप में दिखाने की कोशिश की गई थी। जब अन्धा रेल के नीचे दबकर आत्महत्या करने गयी, तो उस वक्त इंजिन, लालटेन, आवाज़ सभी चीजों से पता लगता था, कि एक रेलवे ट्रेन आ रही है। वोक्स की कृपा से नाटक का टिकट आसानी से मिल गया था, और रंगमंच से चौथी पंक्ति में बैठ रहने के कारण मैं सभी चीजों को अच्छी तरह देख-सुन सकता था। शाला में भीड़ तो नहीं कह सकते, क्योंकि टिकट उतने ही काटे जाते हैं, जितनों की सीटें हैं। कोई जगह खाली रहने का सवाल ही नहीं था। सोवियत की नाट्यशालाओं के टिकट का बन्दोबस्त दो तीन हफ्ते पहिले यदि न करें, तो वह मिलते ही नहीं— विदेशी महमानों के लिये कुछ सीटें रख छोड़ी जाती हैं। अभिनय के बीच-बीच में विश्राम का समय था, जबकि दर्शक और दर्शिकायें बाहर के हाल में टहलने या नाट्यशाला की प्रदर्शनी देखने में लगे रहते थे। नाटक देखने के लिये नर-नारी अपने सबसे सुंदर बेश-भूषा में आते हैं। महिलायें उस दिन केश-सज्जा (कीयपुर) कराना नहीं भूलतीं। नाट्यागार की प्रदर्शनी में पुराने और नये नाट्यकारों और अभिनेताओं के सैकड़ों फोटो रखे हुए थे।

दूसरी यात्रा में भाई प्रमथनाथ दत्त, (या दाऊदअली दत्त) स्लैनिनग्राद में ही रहते थे, अब वह लड़ाई के बाद मास्को चले आये थे। उनके साहसमय जीवन के बारे में आगे लिखूंगा। न बुलाई को साढ़े दस बजे में होटल से उनसे मिलने के लिये निकला। पता-टिकाना, मोटर बस, और दूसरे यानों के बारे में नोट कर लिया था। अपनी महीने भर की जमा की हुई रूसी पूंजी के साथ चल पड़ा। एक मैदान के कोने पर बस का पता लगा, मगर वहां जाने पर बस नहीं, २५ नम्बर की त्रामवाय मिली, जो रोस्तोकिम्स्की पोयेज़्द की ओर जा रही थी। आध घंटा जानि के बाद पूछा, तो मालूम हुआ, अभी स्थान बहुत दूर है। घंटे भर की यात्रा के बाद उपनगर के उस स्थान में पहुँचे, जहां किसान स्त्री और मजदूर पुरुष की दो संयुक्त विशाल मूर्तियां स्थापित हैं। पूछते-पाछते उपनगर से भी बाहर आलू के खेतों में चले गये। इधर से उधर भटकते, चढ़ाव-उतार जमीन को लाघते, एक रेल की लाइन को पार करते

मील दो मील चले गये। जुलाई का महीना था। निरभ्र आकाश में मध्याह्न के सूर्य की किरणों पड़ कर अपना प्रभाव डाल रही थीं। मैं प्यास के मारे बहुत परेशान था। खैर किसी तरह मास्को के प्राच्य-प्रतिष्ठान में पहुँचा। पाठकों को इससे यह तो मालूम होगा, कि रूसवाले हरेक विदेशी के पीछे अपना जानस नहीं भेजते, अगर भेजते होते तो मुझे तो इस यात्रा में कृतज्ञ होना पड़ता। फाटक खोलते ही एक छोटा-सा लड़का खड़ा मिला। उसके भूरे बाल, पतले-दुबले शरीर को देख कर यह कैसे पता लग सकता था, कि यह दत्त भाई का पुत्र है। मैंने तवारिश दत्ता के बारे में पूछा। ईगर ने साथ आने के लिये कहा, और मुझे तितल्ले पर दत्त भाई के पास ले गया। इस वक्त हिन्दुस्तानी कच्चा की परीवा हो रही थी। रूस में हिन्दी और उर्दू दोनों के लिये सम्मिलित शब्द “हिन्दुस्तानी” का प्रयोग किया जाता है, और विद्यार्थियों को दोनों भाषाएँ दोनों लिपियों में पढ़ाई जाती हैं। दत्त भाई अपनी हिन्दुस्तानी कच्चा की परीवा में लगे हुए थे। १५-१६ में दो तीन ही तरुण थे, बाकी सभी तरुणियाँ थीं। यहाँवालों को भी यह भ्रान्ति है, कि उर्दू ही भारत की बहु-प्रचलित भाषा है। द्वितीय यात्रा के मेरे परिचित और डा० रिश्चेर्वात्स्की के शिष्य संस्कृत प्रोफेसर सिरायेंक भी आज कल यहीं उर्दू पढ़ाते थे। परीवा-स्थान में कुछ मिनट बैठने तथा विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ शिष्टाचार प्रदर्शन करने के बाद दत्तभाई मुझे अपने कमरे में ले गये। एक टाँग बेकार होने से वह अपनी काँच की लकड़ी के सहारे चल रहे थे। सात ही वर्ष पहिले मैंने भार्मी दत्ता को तरुण मुन्दरी के रूप में देखा था और अब वह बूढ़ी मालूम हो रही थीं, चेहरे पर कुछ भुर्रियाँ भी आगयीं थीं। दत्तभाई बात में लगे और भार्मी चाय तैयार करने में। वह भारत के बारे में पूछते रहे, मैं अपने पूर्व-परिचितों के बारे में। उन्होंने कहा—भारत में ही क्यों न चले आयेँ, यहाँ भी पढ़ाने का काम मिल सकता है।

सहदे सात बजे अभी शाम आने में बहुत देर थी, लेकिन हमें सो न जाने कितने मील अपरिचित ट्राम के रास्तों से होते अपने होटल में पहुँचना था। भा.मी ट्राम के अन्धे तक पहुँचाने आयीं। उन्होंने बतलाया कि यहाँ से

४ नम्बर की ट्राम वहां जाती है। लेनिनग्राद या मास्को में वामवाय का टिकट १५ कोपैक (प्रत्यः पांच पैसा) है। टिकट लेकर बैठ जाइये, जहां तक वह गाड़ी जायगी, वहाँ तक उसी टिकट से काम चल जायेगा। पांच ठहरावों के बाद हम मेत्रो (भूमि) स्टेशन पर पहुँचे। रास्ते में देवदारों के उपवनों और रोवों का बड़ा सुन्दर नजारा था। आजकल घास की हरियाली चारों ओर दिखलायी पड़ती थी। रविवार होने के कारण छुट्टी मनाने के लिये लोग बड़ी भारी संख्या में इन उपवनों और सरोवरों का आनंद लेने आये थे। ट्राम से उतर कर स्कोवनकी मेत्रो स्टेशन पर अखोलिनीक्रीयाद का टिकट लिया। मेत्रो यहीं से शुरू होती थी, इसलिये जगह मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आगे बढ़ी भीड़ थी—लोग सैर करके शाम को लौट रहे थे। ५ बड़े स्टेशनों को छोड़ते अखोलिनीक्रीयाद के छोटे स्टेशन पर उतरे, जो कि मास्को होटल के नीचे है। यह पहिले नहीं मालूम था, नहीं तो बहुत आराम से चला गया होता। अब रास्ता आसान मालूम होता था। होटल में पहुँचते समय मुझे थालू के खेतों में मिली बुद्धिया याद आ रही थी। उसके कपड़े बिलकुल मामूली थे। मैंने जब रास्ता पूछा तो वह फर-फर फ्रेंच बोलने लगी। कुलीनवर्ग की लड़की होगी, जिसके लिये जाशहाही जमाने में संस्कृत-शिक्षित, और संज्ञान्त साबित करने के लिये फ्रेंच पर अधिकार प्राप्त करना आवश्यक था। इनकी संख्या शायद इतनी अधिक थी कि सबको विदेशी भाषा सिखाने का काम नहीं मिल सकता था।

६ जुलाई को सूर्यग्रहण था। आकाश में कहीं कहीं बादल थे, इसलिये सूर्य कितनी ही बार बादल में छिप जाता था। हमारे यहां होता, तो पुराने दंग के लोग स्नान की तैयारी में रहते, बनारस के लिये ट्रेनों पर ट्रेनों छूटतीं। आज से आठ शताब्दी पहिले रूसी लोगों के पूर्वज सूर्य-पूजक थे—सूर्य ही उनका सबसे बड़ा देवता था। ईसाई धर्म ने इन्हें उस देवता के पंजे से लुढ़ाया। न मालूम उस समय सूर्यग्रहण के समय लोग क्या करते रहे होंगे। कोई धार्मिक अनुष्ठान तो जरूर करते होंगे। लेकिन आज के रूसी भी सूर्य-ग्रहण को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखते। चार बजे शामको हाथ में काले किये शीशे या कोई और

देखने के साधन के सहारे सूर्य को देख रहे थे ।

देश छोड़े अब १० महीने हो रहे थे । ईरान में रहते अंग्रेजी पत्र मिल जाने, और कभी कभी सैनिकों या व्यापारियों के यहाँ से भारत के समाचार-पत्र भी देखने को मिलते, लेकिन यहाँ समाचार जानने का कोई साधन नहीं था । कुछ अंग्रेजी पत्र अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विचार व्यक्त करने के लिये निकलते जरूर हैं, यद्यपि उनमें भारत के बारे में शायद ही कभी कुछ होता । पत्रों और पुस्तकों का मिलना उतना आसान नहीं था । “न्यू टाइम्स” के तीन अंक जब मिले, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ।

सूर्यग्रहण समाप्त होने के बाद उस दिन खूब वर्षा हुई । बिजली भी खूब कड़की । वर्षा का यह दृश्य देखते हुए मुझे भारत का वर्षाकाल याद आ रहा था—वहाँ का जुलाई अगस्त, घनघोर वर्षा का समय । जिस कमरे में मैंने आकर डेरा लगाया था, वह ऐसी जगह था, जहाँ धूप ज्यादा आती थी, जिससे वह गरम होजाया करता था, इसलिये आज मैंने ७२६ नं० के कमरे को ले लिया । यह कमरा अच्छा था । यहाँ नहाने का टब नहीं था, उसकी जगह “नर्वास्तान” का प्रबन्ध था । कमरा कुछ अधिक बड़ा, तथा सोफा आदि सब एक ही कमरे में थे । टेलीफोन काम कर रहा था, लेकिन रेडियो बिगड़ा हुआ था । उसकी मुझे जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अभी भाषा का ज्ञान अपर्याप्त था । भास्को के रेडियो से हिन्दी प्रोग्राम प्रसारित करनेवाले सज्जन भी आये । उनके पूछने पर मैंने बताया, कि हिन्दुस्तान में वह अच्छी तरह सुनाई नहीं देता, यद्यपि भास्को के और प्रोग्राम स्पष्ट सुनने में आते हैं । उन्होंने कहा—ताशकन्द से जोड़ने से शायद साफ हो जाय । फिर मैंने बतलाया कि जिस हिन्दी या हिन्दुस्तानी में भास्को से खबरें प्रसारित की जाती हैं, उसकी भाषा बोलनेवाले नहीं बल्कि भाषा-तत्त्वज्ञ ही समझ सकते हैं । उन विचारों की एक दिक्कत यह भी थी, कि कोई हिन्दी या उर्दू भाषा भाषी वहाँ मौजूद नहीं था । दस्त भाई बड़ी अच्छी हिन्दी-उर्दू-बंगला बोल सकते थे, लेकिन शायद पेर से मजबूर होने के कारण उनसे वह काम नहीं लिया जाता था । बोलनेवाले रूसी होते थे, जिनका उच्चारण गलत

होता था और लिखनेवाले भी हिन्दुस्तानी भाषा के जानकार नहीं थे, जिससे उनकी भाषा कहीं कहीं तो डिक्शनरी से लेकर बनाई मालूम होती थी। आज कल १९५१ में सी मास्को के हिन्दुस्तानी प्रोग्राम की करीब करीब वही हालत है। हाँ, अब रूसी मुँह की जगह भारतीय (बंगाली) मुँह इस्तेमाल किये जाते हैं, जिनको कि बंगला के रूप में ही हिन्दुस्तानी बोलने का अभ्यास है। भाषा लिखनेवाले शायद कोई उसी देशके हैं, जिसके कारण वह बड़ी बेटींगी सी मालूम होती है। भाषा भी हिन्दी और उर्दूवालों के लिये एक ही इस्तेमाल की जाती है, जिसमें ब्रूट उच्चारण के साथ अरबी-फारसी की भरमार होती है। चाहे कोई समझे या न समझे, ब्राडकास्ट कर देना यही ध्येय मालूम होता है। (हाल में बिहार के एक बड़े कर्मठ कम्युनिस्ट नेताने, मास्को के हिन्दुस्तानी ब्राडकास्ट की भाषा को सुनकर बड़ा असन्तोष प्रकट किया था)। मैंने उनसे कहा, कि भारत के श्रोताओं की दिलचस्पी ज्यादा होगी यदि आप मध्यएशिया के लोगों के जीवन के बारे में अधिक बातें कहा करें।

विदेशी क्रान्तिकारियों को रूस में छिपकर रहने के समय नाम बदलना होता था, इसलिये बाज वक्त परिचित आदमी का भी पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मास्को की एक तरुणी अपने भारतीय पिता के बारे में जानने के लिये बहुत उत्सुक थीं, लेकिन वह जो नाम बता रही थीं वह मलावारी था। पीछे मुझे मालूम हुआ कि वह हमारे परिचित चक्रवर्ती महाशय की कन्या थीं। मैं साथी चक्रवर्ती को अच्छी तरह जानता था, लेकिन नाम बदला होने के कारण मैं उनकी कन्या को कोई हर्षप्रद समाचार नहीं दे सका। इसी तरह एक जावा के क्रान्तिकारी बीसों वर्षों से नाम बदल सोवियत में रह रहे थे। उनसे मेरा परिचय तेहरान में हुआ था, जहाँ मैं उन्हें आदिलखा के नाम से जानता था। पीछे समजन नाम मालूम हुआ, यद्यपि यह भी उनका जावाका नाम नहीं था। आदिलखा और मैं कुछ दिनों तेहरान में एक ही होटल में रहे थे। मालूम है, कि मैं अधिकतर मिर्जा महमूद के साथ रहा। आदिलखा से पहिले भी बराबर मुलाकात हो जाया करती थी, और जावा और मागत के बारे में दिल खोलकर

बातें होती थीं। वह बड़े ही बहुज्ञ तथा दृढ़ क्रान्तिकारी पुरुष थे। वह छटपटाते थे, कि किसी तरह उनको जावा जाने दिया जाता। लेकिन कोई रास्ता हाथ नहीं आया और मेरे तेहरान से खाना होने के कुछ समय पहिले ही वह मास्को लौट गये। उनकी एक चिट्ठी मिली थी, इसलिये १२ जुलाई को मैं सवा तीन बजे उनसे मिलने मास्को के पास के एक गांव उदेलूनया के लिये खाना हो गया। यह गांव ३० मील से कम नहीं होगा। पहिले चार स्टेशन मेजो से गया, फिर कजान्स्की स्टेशन में बिजली-ट्रेन पकड़ी। पूरे एक घंटे की यात्रा थी। मैं अकेला था, और टूटी-फूटी रूसी भाषा एक मात्र सहारा थी। यह यात्रा भी इस बात को झूठ बतलानेवाली थी, कि रूस में हरेक आदमी के पीछे खुफिया लगा दिया जाता है। ट्रेन मास्को से बिल्कुल बाहर चली आयी। अब यहां प्राणीय दृश्य थे, लेकिन बस्तियां कस्बों जैसी थीं। यहां के ज्यादातर लोग मास्को में काम करते हैं। मैंने समझा था, रास्ते में देवदार के घने जंगल आएंगे, किन्तु वह नाम मात्र के ही कहीं कहीं दिखायायी पड़े। सड़क की दोनों तरफ के खेतों में आलू और सब्जी लगी हुई थी। मास्को में इन चीजों की बड़ी खपत थी। कहीं कहीं जर्मन बमबारी के चिन्ह थे, लेकिन बहुत कम। आखिर उदेलूनया स्टेशन आ गया। छोटा सा स्टेशन बस्ती भी बहुत बड़ी नहीं, घर अलग अलग थे। मैं ढूँढ़ते ढूँढ़ते लकड़ी की कुटिया में पहुँचा। मेरे काले रंग— हमारे यहां के साफ रंगवालों भी उस सफेद-सागर में काले ही दिखाई पड़ते हैं— को देखते ही एक स्त्री ने कहा— मैं जानती हूँ। आदिलखां जावी होने के कारण मंगोली मुखमुद्रा रखते थे, किन्तु रंग उनका भी मेरे ही जैसा था। स्त्री ने अपने घर तक ले जाकर फिर अपनी कन्या मेरे साथ कर दी। कुटिया तो मिल गयी, लेकिन आदिल-दम्पती में से कोई घरपर नहीं था। घर की एक महिला ने पूछने पर कहा— न मालूम कब तक लौटेंगे। गर्भियों के दिनों में मास्को के लोग अक्सर नगर के पास के गांव-खेड़ों में चले जाते हैं। बिजली की रेल है ही, इसलिये आने जाने में घंटे-डेढ़-घंटे को कोई दिक्कत की बात नहीं समझा जाता। अधिक पत्नीदान करके काई लोड़-

कर लौट पड़ा। यहाँ के मकान हाते की भीतर थे, जिनमें देवदार और दूसरे वृक्ष लगे हुये थे। इन्हीं उपवनों में काठ के पुकतल्ले-दुतल्ले मकान बने हुए थे, जिनमें नागरिक लोग कुटीर का आनन्द लेने आते थे। घरों के दूर दूर बराने से उदेलूनया की बस्ती दूर तक बसी हुई थी। लौटकर स्टेशन आया, थोड़ी देर की प्रतीक्षा के बाद गाड़ी मिली और साढ़े सात बजे मास्को पहुँच गया।

मेरा कार्ड मिल गया था, इसलिये साथी आदिल मिलने आये। बड़े प्रेम से बहुत देर तक बातचीत होती रही। वह भी चाहते थे, कि अगर मैं मास्को में रहता, तो अच्छा होता। मुझे कोई विशेषता नहीं मालूम होती थी।

१४ जुलाई को मास्को के महान् बाग गोर्गा-संस्कृति-उद्यान को देखने गया। पहिली यात्राओं में भी दो-बार इसको देख चुका था; लेकिन इस समय तो यहाँ का एक और जबरदस्त आकर्षण था युद्ध की सौगातों का प्रदर्शनी। जर्मनी से युद्धके समय जितने अस्त्र-शस्त्र मिले थे, उनके नमूने यहाँ रखे हुये थे। दूर तक नाना प्रकार की तोपें रखी हुई थीं। जिनमें कुछ दूर-मारक तोपें थीं, कुछ हल्की तोपें, मार्टर और फिर टंक-विध्वंसक तोपें। फ्रांस, बेल्जियम, चेकोस्लावाकिया, हंगरी, रूमानिया, इताली सभी देशों की बनी तोपें जर्मनों ने काम में लायी थीं। तरह तरह के टंक भी रखे हुए थे। दो इंच मोटे पत्तरवाले “चीता” टंक थे, व्याघ्र, और राजव्याघ्र टंक भी रखे थे, जो पानी में भी चल सकते थे। दो इंच मोटे फौलाद के पत्तर को तोप के गोलेने ऐसे तोड़ दिया था, जैसे कि किसी ने गोली मिट्टी के बर्तन को लकड़ी से बाँध दिया हो। सोवियत तोपों की ऐसी करामत थी। रूस ने हमेशा से तोपों में कीर्ति हासिल की थी, जिसे सोवियत शासन ने विलुप्त नहीं होने दिया। हैकल, मैसर्सिमथ, मुन्कर, फोकउल्क जैसे नाना प्रकार के बम-वर्षकों को भी देखा। एक जगह नाना प्रकार के योधक विमानों की पांती थी। बड़े बड़े युद्ध-यंत्र बाहर आसमान के नीचे रखे हुए थे। कितनी ही चीजें घरके भीतर भी सजाई हुई थीं। एक जगह तरह तरह की दवाइयों के नमूने थे। दूसरी जगह छोटे-छोटे हथियार थे। एक जगह प्रेषक-रेडियों का प्रदर्शन था। प्रदर्शनागारों में तरह तरह की जर्मन

सैनिक पोशाकें भी थीं । एक जगह जर्मन तमगों का ढेर था । हिटलर ने समझा था, कि मास्को के विजय करने पर हजार नहीं लाखों की संख्या में तमगे जरूरी होंगे । तमगे हिटलर के सिपाहियों के भाग्य में नहीं बदे थे, क्योंकि विजय हिटलर को नहीं उसके प्रतिद्वन्द्वियों को मिली । कपड़ों की कमी के कारण जर्मनी ने नकली कपड़े और दूसरी चीजें तैयार की थीं, जिन्हें जर्मन भाषा में “ एसांत्ज ” कहते थे । यहाँ एसांत्ज की पोशाक और एसांत्ज के वृट बहुत तरह के मौजूद थे । रूस में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी, और न यहाँकी सर्दियों में वह काम दे सकते थे । राइफलों, मशीनगनों, और सब मशीनों का भी बहुत अच्छा संग्रह था ।

आज हमारे साथ वोक्स की महिला पथ-प्रदर्शिका थीं । वहाँ से निकलते ही हम लोग पास ही में “ दोम सुयूज ” में मिश्रित संगीत देखने चले गये । वहाँ जन-नृत्य और जन-संगीत का सबसे अच्छा नमूना देखने में आया । मास्को से दक्षिण-पूर्व में अवस्थित रेज़ान जिले के दो जन-गीत गाये गये, जिन्हें लोगों ने आग्रह करके फिर-फिर सुना । मुझे आश्चर्य ही रहा था, कि हमारे पूर्वा उत्तरप्रदेश के अहीरों का विरहा कैसे यहाँ मास्को में आगया । भाषा रूसी अवश्य थी, लेकिन राग विल्कुल विरहा जैसा । अहीर भी तो शकों का ही एक कवीला था, जिन्हीं शकों की औलाद आजके रूसी हैं, इसलिये रेज़ान के जन-संगीत में विरहा का आना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी । लेकिन अहीरों को भारत गये दो हजार वर्ष हो गये । क्या जन-गीतों के घुर इतने चिरस्थायी होते हैं ? अवश्य जन-गीतों का स्वर भाषा से अधिक चिरजीवी होता है । इस नाट्य मंडली में सौ से कम कलाकर नहीं थे । सभी जनता की चीजें दिखलायी और सुनायी जा रही थीं । हाल खचाखच भरा था । बीच में पन्द्रह मिनट का विश्राम देकर = से १० बजे तक प्रोग्राम जारी रहा । मुझे जहाँ नृत्य और संगीत का आनन्द आ रहा था, वहाँ यह भी सोच रहा था, कि यह वहीं संभव है, जहाँपर काम करनेवालों के हाथ में राजशक्ति चली गयी हो । कलाकारों के सम्मान को देखकर ईर्ष्या होती थी । वह किसी वैज्ञानिक या प्रोफेसर से कम



सम्मानित नहीं माने जाते थे । मुझे वहीं ख्याल आया, मेरे अपने जिलेके विश्राम ने भी विरहे बनाये थे । कठ्ठण-रस से सराबोर जन-कविता का उसने निर्माण किया था और जवानी में ही वह वियोगी मर गया । वह कविता करने के लिये कविता नहीं करता था, न उसके हृदय में उनके चिरस्वायी होने की अकांक्षा थी । जब मनमें कोई व्यथा मालूम होती, भाव पैदा होते, तो वह एक विरहा बना लेता और उसे गुन गुनाता रहता । कागज पर उतारने का सवाल ही नहीं था । विश्राम एक बिल्कुल ग्रामीण जन-कवि था । मैंने उसके कुछ विरहों को पढ़ा था । मैं समझता था, कि विश्राम के विरहों को कुछ लीग बड़े प्रेमके साथ जमा कर रहे होंगे । लौटने पर मालूम हुआ कि विश्राम अब इस दुनियाँ में नहीं है और उसके पन्द्रह-सोलह विरहों से अधिक उतारे नहीं जा सके हैं । सोवियत में किसी विश्राम को इस तरह विलीन होने की संभावना नहीं है ।

चित्रशाला—लेनिनग्राद में एक से अधिक चित्र संग्रहालय हैं । मास्को की चेत्याकोफ चित्रशाला विश्व की चित्रशालाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है । १६ जुलाई को मैं उसे देखने गया । मास्को के एक धनी-मानी नागरिक चेत्याकोफ को चित्रों के संग्रह करने का शौक था । उसने काफी संग्रह के बाद चित्रशाला के घर के साथ उन्हें नगर-सभा को अर्पण कर दिया । यह चारशाही युग की बात है । नगर सभा के हाथ में आने पर चेत्याकोफ चित्रशाला की उतनी उन्नति नहीं हुई, जितनी की सोवियत शासन के समय । यद्यपि चेत्याकोफ शोषक वर्ग का था, लेकिन उसके सत्यजन को देखकर बोलशेविकों ने भी इस चित्रशाला का नाम चेत्याकोफ ही रहने दिया । चेत्याकोफ के समय सारे चित्रों का संग्रह पाँच-छ कमरों में रहा होगा, लेकिन आज पचास से भी अधिक कमरे हैं । एक दिन में कोई उसे देख नहीं सकता । चित्र ग्यारहवीं सदी से २० वीं सदी तक के हैं, अर्थात् यहाँ रूसी चित्रकला के एक हजार वर्षों का इतिहास सामने रक्खा हुआ है । तेरहवीं सदी तक चित्रों में धार्मिक भावों की प्रधानता थी, उनपर अधिकतर विजंतीय और हल्का सा मध्यएशियाई चीनी प्रभाव था । सत्रहवीं सदीसे युरोपीय प्रभाव शुरू हो जाता है, जो कि १८ वीं १९ वां

सदी में पूर्णता को प्राप्त होता है। युरोपीय प्रभाव के साथ ही व्यक्ति (पोर्ट्रेट)-चित्रण शुरू होता है। पोर्तरेत-चित्रण का हमारे देश में भी सदा अभाव रहा है। ग्रीक चित्रकला द्वारा प्रेरित पश्चिमी यूरोप ने इस महान् कला का विकास किया। पुराने रूस में क्रियेफ, स्वेर (कालनिन), नवोग्रोद आदि कला-केन्द्र थे। इवानोफ का एक विशाल चित्रफलक यहां रक्खा हुआ था, जो कि दुनिया के अद्भुत चित्रों में है। इवानोफ ने यह चित्र ईसा के जीवन के संबंध में बनाया है। इस अद्भुत चित्रको बनाने की सामग्री छुटाने के लिये इवानोफ ने कई साल ईसा की जन्मभूमि में बिताये थे, और वहां के नर-नारियों भूमि-पहाड़ों, पशु-वनस्पतियों के बहुत से चित्र उतारे, जिनके आधार पर फिर इस चित्र को बनाया। चित्रशाला में कुछ चित्र त्रिपाश्चीय हैं, जिनमें खंसे, कुर्सी-आदमी तथा दूसरी चीजें एक दूसरे से अलग खड़ी मालूम होती हैं। सौधियत-काल में उतने महान् चित्रकार नहीं पैदा हुए, जितने की १६ वीं सदी में थे। लेकिन पुश्किन और कालिदास प्रति-अर्धशताब्दी नहीं पैदा हुआ करते।

१७ जुलाई को पांच बजे फिर ट्रेन पकड़ी और लेनिनग्राद के लिये रवाना होगया। रास्ते के स्टेशनों में जंगली स्ट्रावरी बिक रही थी। पांच रूबल (तीन रुपये) में एक दोना स्ट्रावरी !

दत्तभाई—अप्रैल १९४६ में मास्को दुबारा जाने का मौका मिला। अबकी बार दत्त भाई से मिलने पर उनकी जीवनी के बारे में कुछ जानना चाहता था। २६ अप्रैल को जब मैं उनके यहाँ गया, तो वह अपने नगरवाले घरमें थे, इसलिये आलू के खेतों में खाक छानने की जहरत नहीं पड़ी। दत्तभाई का नाम प्रमथनाथ दत्त था। उनके पिता मन्मथ नाथ दत्त दरर मॉरिसन कम्पनी के मुत्सुद्दी थे। उनकी माँ का नाम स्वर्णकुमारी था। वह अपने माता-पिता के कनिष्ठ पुत्र थे। दो बड़े भाई नरेन्द्रनाथ और सुरेन्द्रनाथ थे। सुकिया स्ट्रीट (कलकत्ता) में इनका पैतृक घर था। जन्म संवत् उन्हें अच्छी तरह मालूम नहीं, लेकिन वह १८८८ के आस-पास रहा होगा। आरम्भिक स्कूल की पढ़ाई

समाप्त करके ट्रेनिंग एकडमी से १९०६ के आस पास इन्होंने इंटरैन्स पास किया फिर वह जनरल एसम्बर्ली में आई. ए. में पढ़ने लगे। बंग-भंग का जमाना था। बंगाल के दो टुकड़े करने के कारण बंगालियों में उग्र भावनाएं जाग उठी थीं। प्रमथनाथ उससे प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकते थे ! फिर केवल अस-तोष करके दिल मसोस लेने से तो काम नहीं चलता। देशको गुलाम बनाने वालों, और प्रदेश को दो टुकड़ों में बांटनेवालों को कुछ सबक भी तो सिखाना चाहिये था। बंगाल में क्रान्तिकारियों के उस समय अनुशीलन और युगान्तर दो दल थे। दोनों का ध्येय था राष्ट्र-बल से अंग्रेजों को भगा देश को स्वतंत्र करना। तरुण-प्रमथनाथ युगान्तर-दल में शामिल हो गये। आगे सिटी कालेज में वह आई. ए. के द्वितीय वर्ष में पढ़ते थे। तीन साल तक वह पार्टी में रहे। इसी समय मिर्जा अब्बास ( हैदराबादी ) और एक दास-कानूनगो ने पेरिस में सीखकर पहिले पहल बम बनाया। प्रमथनाथ की भी इच्छा हुई कि बम बनायें और सैनिक शिक्षायें प्राप्त करें। देश में वैसा सुभोता न देख उन्होंने विदेश जानेका निश्चय किया। डा० कार्तिक बोस के भाई श्री चारुचन्द्र बोस ने रूपयों से सहायता की। उस समय अभी पासपोर्ट की दिक्कत नहीं थी— प्रथम विश्वयुद्ध के बाद अंग्रेजों ने पासपोर्ट की कड़ाई करदी, अब कोई सरकार से पासपोर्ट लिये बिना भारत की सीमा से बाहर नहीं जा सकता था। १९०८ ई० में प्रमथनाथ लंदन पहुँचे। उनकी उमर २० साल के आस पास रही होगी। प्रसिद्ध देश-भक्त श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारतीय क्रान्तिकारी तरुणों के लिये लंदन में “इंडिया हौस” खोल रखा था। प्रमथनाथ उसमें शामिल हो वहां से द्वात्रवृत्ति पाकर बैरिस्टरी पढ़ने के लिये दाखिल हो गये। लेकिन यह तो लंदन में ठहरने का बहाना मात्र था। इस समय सावरकर मदनलाल धींगड़ा, गौरीशंकर (अजमेरी) आदि से उनकी मित्रता हुई। प्रमथ महीने से अधिक वहां टिक नहीं पाये। यह मालूम ही है, कि मदनलाल धींगड़ा ने एक साम्राज्यवादी अंग्रेज ( कर्जन बायली ) को गोली का निशाना बनाया था, जिससे सारे इंग्लैंड में सनसनी फैल गयी थी। प्रमथनाथ लंदन से भाग कर न्यूयार्क पहुँचे। न्यूयार्क

में उनकी जान पहिचान बर्कतुल्ला और जोशी (बड़ौदा) जैसे क्रान्तिकारियों से हुई और उन्होंने मिलकर वहां हिन्दुस्तानी एशोसियेशन स्थापित किया। अब प्रमथनाथ किसी कारखाने में मजदूरी करते और आयरलैंड की स्वतंत्रता की हमी आयरिश लीग के साथ मिलकर काम करते। अंग्रेजों से लड़े एक बोयर (दक्षिण अफ्रीकीय) ने उन्हें बम बनाना सिखलाया। उसी की सहायता से प्रमथनाथ का फ्रीमान से परिचय हुआ। फ्रीमान अपने पत्र "गैलिक अमेरिकन" में भारत की स्वतंत्रता के बारे में भी लिखा करता था।

प्रायः सालभर रहकर प्रमथनाथ पेरिस चले आये। उनको अब वाकान्युदा सेना में भरती होकर सैनिक शिक्षा प्राप्त करनी थी। बिना सैनिक शिक्षा के अंग्रेजों के साथ लड़ाई कैसे की जा सकती थी? फ्रान्स में वह फ्रेंच विदेशी सेना (फारेन लिजियन) में भरती हो गये। इस सेनामें जर्मन, अंग्रेज आदि सभी जातियों के लोग थे। मॉसेइ में छ महीना रखकर उन्हें सैनिक शिक्षा दी गई, फिर वह फ्रान्स के अधीन देश अल्जीयर के ओरान नगर में भेज दिये गये, जहां दो साल के करीब रहे। लेकिन भारत से दूर अफ्रीका में रहते हुए वह समय पढ़ने पर देश में जल्दी कैसे पहुँच सकते थे, इसलिये भारत के नजदीक होने के लिये उनका ख्याल इंदो-चीनको और गया और लिजियन के एक छोटे अफसर बनकर हनोई चले आये। थोड़े ही दिनों बाद उन्हें फिर वापिस चला जाना पड़ा, जब यह मालूम हुआ कि फ्रान्सीसियों के अधीन रहकर वह कोई काम नहीं कर सकते। फ्रान्स लौटकर वहाँ मदाम कामा के पत्र "वन्देमातरम्" में काम करते रहे। यहाँ उन्हें एक दूसरे भारतीय स्वतंत्रता-प्रेमी राना के सम्पर्क में आने का मौका मिला। प्रथम विरवयुद्ध के आनेके संकेत यूरोप में प्रकट होने लगे थे। प्रमथ भाई को फिर ख्याल हुआ कि भारत के नजदीक कहीं चलो, इसलिये १९१३ ई० में वह तुर्की की राजधानी कस्तुन्तुनिया में आये। नौजवान तुर्क दलने तुर्की में काफी सफलता प्राप्त की थी, उसके नेता अनवर पाशा अब सुल्तान के बागी नहीं बल्कि रईसुल्वजारा (प्रधान-मंत्री) थे। प्रमथनाथ ने सेना में भरती होने की इच्छा प्रकट की। उनके भारतीयपने को दांकने के लिये नाम

दाऊदअली पड़ गया। किन्तु जब भती कराने का मौका आया, तो अंग्रेजों का जासूस होने के संदेह में उन्हें भरपी नहीं किया गया। हैदराबाद से अब्दुल कयूम बेग फ़ैज (तुर्की) टोपी बनाने का काम सीखने गये हुए थे। हिन्दुस्तान में लम्बे फुंदने वाली खाल तुर्की टोपियों का काफी राज हो गया था। मूल स्थान फ़ैज के नामपर उन्हें फ़ैज कहा जाता था। दाऊदअली ने भी बेग के सम्पर्क में आकर फ़ैज बनाना सीखना शुरू किया। अयूसईदका “जहाने इस्लाम” (इस्लाम संसार) अखबार निकलता था। दाऊदअली उसके लिये अंग्रेजी से उर्दू में लेख अनुवाद कर देते थे। यह पत्र अरबी, फारसी और थोड़ा सा उर्दू में रहता था। इसी समय दाऊदअली मुहम्मद अली के “कामरेड” पत्र के विशेष संवाददाता थे।

१९१४ ई० में युद्ध आरम्भ होने के समय दाऊदअली अभी कस्तुन्तुनिया में ही थे। अब नौजवान तुर्क उन पर विश्वास करने लगे थे। धीरे धीरे दाऊदअली भारत की ओर खिसकने लगे। बगदाद में आकर छ मास रहे। फिर अफगानिस्तान की ओर बढ़ने के ख्याल से ईरानिया के भीतर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार करने के लिये नौजवानतुर्कों ने उन्हें १९१६ में ईरान भेजा। बुराहर और शीराज होते यत्र में पहुँचे। विदेशी भाषाओं में फ़ैज और इंगलिश के बाद तुर्की का उनको अच्छा ज्ञान हो गया था और अब फारसी के क्षेत्र में चले आये थे। वहाँ खानखोजे और मुहम्मद कोकनी मिले। प्रसिद्ध देशभक्त सूफी अम्बा प्रसाद उस वक्त शीराज में उटे हुए थे। उन्होंने एक मदरसा खोल रखा था, जिसमें बृहत्तर-इस्लाम पर लेक्चर देते थे। जनताधिक दल के प्रचारक लूला से भी प्रमथनाथ का परिचय हुआ। यह सारे भारतीय वहाँ इसलिये जमा हुए थे, कि ईरानियों को अंग्रेजों के विरुद्ध उभाड़ें और सीका पाते ही भारत में स्वतंत्रता का झण्डा गाड़ने के लिये पहुँच जायें। १९१७ के मध्य में अंग्रेज कूटनीतिज्ञ साइक्स वहाँ पहुँच गया। ईरान का बजीर-आजम कवामुस्सलतनत (पिता) अंग्रेजों का पक्षपाती था। उसने हिन्दुस्तानियों को पकड़वाना शुरू किया। सूफी अम्बाप्रसाद को डर लगा, कि अगर मुझे पकड़ के

अंग्रेजों के हाथ में दे दिया गया तो वह बुरी मौत मारेंगे, इसलिए उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या करली। दाऊदखली, मुहम्मद खली, खालखोजे आम कर कशाकई कबीले में शरणार्थी हुए। किसी ने कब्रों के आदर से इन लोगों का परिचय करा दिया था। यह लोग तंबू में रहते और समाज पढ़ते। आदर ने कह दिया था—ये थपड़ लोग हैं, संदेह न हो, इसके लिये तूम अपने को पबका मुसलमान दिखलायो। सात मर के करीब वह कशाकईयों के पास रहे। युद्ध के बाद अंग्रेजों सेना १६१६ में लड़ी, तो दाऊदखली नेहगन पहुंच गये। वहाँ दारुलफतून नामक संस्था में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, तुर्की, फारसी अच्छी तरह जानते थे। जब दाऊदखली से बदलकर वह अम्बुल रहमान हो गये थे।

१६०२ ई० में तार पाकर दाऊदखली मास्को पहुंचे। उस समय आम्बुल से भारतीय कर्तिकारियों का बड़ा या जमा हुआ था। चट्टोपाध्याय, आनाथी, अन्नमामुक्जी आदि कितने ही भारतीय कर्तिकारी मौजूद थे। इनमें से कोई कम्पुनिस्ट शिक्षा-दीक्षा से होकर नहीं निकला था, इसलिए सब की मनोवृत्ति मध्यम की थी, और सभी अपने अपने नेतृत्व के लिए आपरा में लड़ते रहते थे। भारत से डिजरेत करके आये कितने ही लोग यहाँ मिले। पुराने परिचित बर्कनुल्ला भी अब यहीं थे। दाऊदखली को इच्छा हिन्दुस्तान के पास रहने के लिए इंदोलीन जाने की थी, लेकिन दूसरे ईरान भेजना चाहते थे। इधर भारतीयों का खीतरा कलह को देखकर दाऊदखली को दुःख होने लगा था। इसी समय प्रसिद्ध इंदोलीजिस्त डाक्टर ओलदेनबुर्ग से उनकी भेंट हुई। उन्होंने कहा—छोड़ो इस भगड़े को, चलो शिक्षा का काम करो। ओलदेनबुर्ग ने १६२२ में उन्हें लोनिग्राद बुला लिया और प्राच्य प्रतिष्ठान में फारसी और बंगला पॉन्डे उर्दू के भी पढ़ाने का काम दिया। दो साल तक उनका शरीर स्वस्थ रहा। अब वे ३६ के करीब थे, इसी समय १६२४ में गिर जाने से पैर में कड़ी चोट आयी। डाक्टर ने बांध दिया, जिसके कारण उनका दाहिना पैर हमेशा के लिए अकार हो गया। सेनीटोरियम में रहने पर शायद कुछ फायदा

हो, इसलिये १९२७-१९२८ में वह कालासागर के तट पर गये । वहीं उनका तुवोव अलेकसेन्द्रोवना से परिचय और प्रेम हुआ । दोनों की शादी हो गयी । जिस समय ( अप्रैल १९४६ ) उनसे मैं बात चीत कर रहा था, उस समय उन्हें शिक्षक का काम करते हुए २३ बरस हो गये थे । १९४१ में युद्ध आरम्भ हुआ । कितने ही और महत्वपूर्ण यादमियों की तरह प्रमथनाथ दत्त को हवाई ब्रह्माज से कवान भेज दिया गया, जहां वह छ मास रहे । फिर अगस्त १९३६ में मध्यएशिया में फरगाना की उपत्यका में चले गये । वहाँ मलेरिया ने पकड़ा । अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, तभी नवम्बर १९४३ में वह मास्को प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में पढ़ाने के लिये चले आये, और तब से वहीं रह रहे हैं ।



## ८-पहिले तीन मास

जून जुलाई अगस्त रूस के गर्मी और बरसात के दिन है। इसे गर्मी

तो शिष्टाचार ही के लिए कह सकते हैं. क्योंकि जहाँ तक लेनिनग्राद का संबंध है, इस समय कोई ही हफता ऐसा होता, जिसमें अहोरात्र में किसी न किसी समय तापमान हिमविन्दु से नीचे न जाता हो। तो भी इस वक्त हरियाली देखने में आती है। मास्को में तो पत्तों की भी नौबत आई थी, किन्तु लेनिनग्राद में वर्षा होते समय, हवा तेज होने पर सर्दी बढ़ जाती। हमारे पिछवाड़े जर्मन हमारे आक्रमण के कारण गिर गये मकानों की जगह कई एकड़े खाली जमीन निकल आई थी, जिसको, जैसा कि मैंने पहिले कहा, लोगों ने क्यारी क्यारी से बांट लिया था। जुलाई के अन्तिम सप्ताह में वहाँ खूब हरियाली दिखाई पड़ती थी, आलू बढ़ गया था सलाद और प्याज को खाया जाने लगा था। हमारी दिनचर्या अगस्त के अन्त तक अधिकतर घर में रहकर पुस्तकों को पढ़ना, कभी कभी सिनेमा या नाटक देखने जाना। युनिवर्सिटी के प्राच्य-पुस्तकालय से काम की पुस्तकें यथेच्छ मिल जाती थीं। यहाँ आते ही यह निश्चय हो



गया था, कि सोवियत मध्यएशिया के बारे में एक ऐसा ग्रंथ लिखें, जिसमें उसके अतीत और वर्तमान का अच्छी तरह परिचय हो सके। वर्तमान के लिए बहुत दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके सम्बन्ध की सम्पत्ति सुलभ थी। भारत लौटने पर पहिले ( १९४७ ) के अन्त में ही मैंने सोवियत मध्यएशिया के नाम से उसे लिख भी डाला, किन्तु मध्यएशिया का इतिहास उतना आसान नहीं था। जब मैं उनके बारे में पुस्तकें पढ़ने लगा, तो मालूम हुआ कि यूरोप की सम्बन्धित भाषाओं— इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और रूसी—में भी कोई सुसंबद्ध इतिहास नहीं लिखा गया है।

डाक्टर बरनिकोफ संस्कृत और भारतीय भाषाओं के ही पंडित नहीं हैं बल्कि रोमनी ( सिगान ) भाषा का भी उन्होंने विशेषतौर से अध्ययन किया है। मैंने उनकी पुस्तकें देखीं तथा रोमनियों के उद्गम के बारे में उन से जानकारी की। इसमें तो संदेह नहीं, कि रोम वस्तुतः हमारे डोम शब्द का ही परिवर्तित रूप है। यह धुमन्तू डोम किसी समय भारत से पश्चिम की ओर चले गये। लोली के नाम से प्रसिद्ध यह लोग ईरान और मध्यएशिया में मिलते हैं, किन्तु यूरोप में उन्होंने अब तक अपने पृथक् अस्तित्व को कायम रखा है। इनका भाषा में भोजपुरी, बुन्देलखण्डी, ब्रज और अवधी की विशेषतायें मिलती हैं। मेरा ख्याल था कि अधिकांश रोम ( डोम ) लोगों का सम्बन्ध मुसलिम सन् की सातवीं या आठवीं शताब्दियों ( ईसा की तेहरवीं-चौहदवीं सदी ) में भारत में विद्विध हुआ। धुमन्तू होने से उनकी विचरणा भूमि बहुत विस्तृत थी। वर्तमान काल में भारत में इतने निर्वन्ध हॉन के बाद भी हम पेशावर से रंगून और हरिद्वार से मद्रास तक इन्हें अपनी सिरकी खिये हुए धूमते देखते हैं। जब राजनीतिक निर्वन्ध उतना नहीं था, उस समय तो यह भारत से मध्यएशिया, ईरान तक का चक्कर काटते रहते होंगे। किसी समय राजनीतिक उबल-पुथल के कारण उनका भारत लौटने का रास्ता बंद गया, जिसके कारण वह भारत से फिर संबन्ध जौड़ नहीं सके और पश्चिम में और पश्चिम की ओर बढ़ने लगे। बन्दर, सांडू, नवाना, ज्ञाय देखना आदि के साथ पश्चिम में जाकर उन्होंने घोड़ा पालने

लेनने का मैं पेशा स्वीकार कर लिया। पश्चिम में यह मैदान, गदहों या स्टूट्यों पर घस लादे फिरले की जगह गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे।

शुआध्याय और घरू काम के सम्बन्धने में विरोध है, इसका २४ जुलाई (१९३५) को पता लगा। विजली की केंतली में पानी गरम करने के लिये रसकर मैं लिखने पहने के लिये चला गया। दो घंटे बाद होश थाया, तो देखा पानी साहा सूख गया है, बर्तन का गंगा गल गया है, और तार भी जलने लगा है। केंतली चोपट हुई, २०० सौ रुबल का चपत लगा।

लेनिनवाद दो शताब्दियों तक रूस की राजधानी रहा—उस वक्त उसका नाम पितरबुर्ग था। इसलिए वहां राजधानी के अलुरूप बहुत सी संस्थाओं कायम हुईं, जिन्हें मास्को के राजधानी बनने के बाद भी हटाया नहीं जा सका। लेकिन अंधर कुद्ध संस्थाओं तो लड़ाई के कारण इतनी उजड़ गईं, कि उनके फिर से जमान में डेर लगेगी। २५ जुलाई को हम प्रागि-उद्यान (जूसद) देखने गये। किसी समय यहाँ पर हर तरह के जानवर रहे होंगे, लेकिन अब दो-तीन भालू, दो खानर, कुछ लोमटियों, उलू, बाज, गिद्ध, खरगोश, नीलगाय अदि रह गये है। जूसद के बहुत से भवन बस-बर्षा में लष्ट हो गये, लेकिन तब भी लड़कों की भीड़ इतबार भी जमा हो जाया करती है। वहां से हम पार्क-कुल्तुर (संस्कृति उद्यान) में गये। भीतर प्रवेश के लिये दो रुबल देना पड़ता है। यह बहुत विशाल उपवन है, जिसमें देवदार और दूसरे वृक्षों की हरियाली है। घास के अक्षमर्ली फर्श के साथ साथ ऐड़ी सेढी जलधारार्यों में नौका-बिहार का आनन्द मिलता है। उद्यान में जहां तहां सिनेमा, नाट्यगृह, नृत्यथखाड़े भी जूद है। एक जगह बहुत से नर-नारी नाच रहे थे। उद्यान का बौड बज रहा था। नदी में नौका धर चार कुमारियां जोर में दौड़ लगा रही थीं। एक बड़ी नदी भी उद्यान के किनारे से जवती है, जिसके धालुकामय पुलिन पर तो लोगों का स्वाभा सेला खगा हुआ था—नरुण तरुगी, बच्चे बूढ़े स्नान कर रहे थे। जुलाई के मध्यरुह्न में पानी अब इतना गर्द नहीं रह गया था। मैं भी उतरा और चाहा कि नदी पार कर जाऊँ, लोका को डर लगा कि मैं कहीं बीच में ही न रह जाऊँ, तो मैं

आधीसे अधिक नदी में तैर गया था, जहाँ से लौटने का मतलब था पूरी नदीपार कर जाना। खानि-पोने की चीजें जगह-जगह मिल रही थीं। यदि आप राशन-टिकट दे सकें, तो दो रुपये का भाल आने डेढ़ आने में मिलता, नहीं तो बिना राशन के मात्र लेना पड़ता। एक गुल्ला आइसकीम का दाम ६ रुबल ( प्रायः पोने चार रुपया ) था। बिना राशन चीजें बहुत महँगी थीं। मशहर नौ पीतर-पाल दुर्ग सामने दिखाई पड़ रहा था, यहाँ के सैनिकों का बोलशेविक क्रांति में बहुत हाथ था। जोड़ते वक्त हम उद्यान के बाहर किन्तु पास में ही अवस्थित बौद्ध मंदिर होते गये। यह पत्थर की बहुत मजबूत और सुन्दर इमारत तिब्बती मंदिरों के ढंग की बनी हुई है। अब कोई यहाँ पूजारी नहीं रह गया था, इसलिये मूल्यवान् मूर्तियाँ और चित्रपट किसी संग्रहालय में रख दिये गये हैं। मन्दिर की कोठरियों का इस्तेमाल यदि श्वेत नगर के नागरिक अपने रहने के लिये करते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं। मेरे सामने ही मंगोलीय जन प्रजातंत्र के प्रधान मन्त्री खोय-बलसान् कुछ और मन्त्रियों के साथ मास्को होते लेनिन-ग्राद भी आये थे और मंदिर को देखने गये थे। यह तो केवल पूँजीवादी देशों का प्रोपेगंडा है, कि कम्युनिस्तों ने धर्म को अपने यहाँ से उठा दिया। रूस में रविवार को गिरजे और धर्म-स्थान जितने भरे रहते हैं, उनके चुतर्थांश भी भगत पश्चिमी यूरोप के गिरजों में नहीं देखे जाते। वस्तुतः संस्कृति, साहित्य और कला के क्षेत्र में किसी धर्म ने देश की जितनी सेवा की है, उसकी जड़ भी उस देश में उतनी ही मजबूत होती है। इसी कारण मंगोल लोग बौद्ध धर्म को वैसा ही अपना राष्ट्रीय धर्म समझते हैं, जैसे रूसी लोग ग्रीक चर्च को। मंगोल प्रधान-मन्त्री ने इस मंदिर को देवकर इच्छा प्रकट की थी, कि फिर यहाँ कुछ भिन्न रखकर इसे आबाद किया जाये।

३० जुलाई को बूँदा-बाँदो होने लगी, जिसके कारण सर्दी भी बढ़ गयी। लोग कह रहे थे, अब शरद (पतझड़) शुरू हो गया, अब बराबर इसी तरह बर्षा-बूँदी और सर्दी रहेगी, और सूर्य के दर्शन कभी कभी हुआ करेंगे। सितम्बर में वर्षा बन्द होती है, किन्तु साथ ही सर्दी बढ़ जाती है। लेनिनग्राद शहर

में जैसे लगाने की योजना काम में लाई जा रही थी। पास के इलाके के पीट फोयले के बनावट जैसे लाकर शहर में लगा देने पर ईंधन की बहुत बचत होती, इसलिये गैस योजना बननी थी। एक मध्यम-वर्गीय महिला कह रही थी—यह योजना दस वर्ष में पूरी होगी। लेकिन अपने रहते रहते ही मैंने कई झुहल्लों में म्युनिस्पैलिटी की ओर से गैस के चूल्हे भी खरीदे देख लिये। म्युनिस्पैलिटी को केवल गैस का पाइप ही नहीं बल्कि हर एक घर में चूल्हा भी लगा देना था, जिसके लिये थोड़ा-सा किराया जरूर देना पड़ता। लेकिन १० लाख की आबादी के शहर के लिये यह कितना बड़ा काम था, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। बाहर के बहुत से लोग समझते हैं, कि सोवियत के नाभरिक तो अब होटल में खाना खाते हैं, उनके घरों में अब चूल्हे की आवश्यकता नहीं है। इसमें शक नहीं कि इर मुहल्ले में सामूहिक रसोईखाने भी हैं, लेकिन उनका उपयोग लोग समय-क़समय पर करते हैं। मैं २५ महीने लेनिनग्राद में रहा; लेकिन मैंने अपने मुहल्ले के सामूहिक रसोई घर का मुँह केवल बाहर सड़क से ही देखा।

जितना सबय बीतता गया, उतना ही मुझे भारत के समन्चार के जानने की उत्सुकता भी बढ़ती गई। चिट्ठियाँ प्रेषित होतीं, और वह भी बहुत दिनों बाद मिलतीं। हमारे कमरे में रेडियो खरा हुआ था, लेकिन वह स्थानीय रेडियो था। सोवियत के प्रायः छोटे छोटे नगरों में भी बड़े रेडियो स्टेशनों के प्रोग्राम को सुनकर टेलीफोन की तरह से पुनः प्रसारित किया जाता है। इनके यंत्र दो चार रूपमें मिल जाते हैं। ऐसे यंत्रों से शायद ही कोई घर खाली मिलेगा। किराया भी कम लगता है और अहोरात्र में बीस एककीस घंटे वह बोलता रहता है। जापान में पांच भिन्न-द अंग्रेजी के लिपु भी देते थे, किन्तु यहाँ वह भी नहीं था। संगीत की भरमार यद्यपि सोवियत के फिल्मों और नाटकों में नहीं होती, किन्तु इस रेडियो में उनके लिये काफी समय दिया जाता था। क्लासिकल (उस्तादी) संगीत सारी दुनियाँ में जान पड़ता है, एक ही साँचे में ढाला गया है। जैसे भारत के उस्तादों के संगीत को सुनने के लिये बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है, वही बात यहाँ के बारे में भी है। गला

फाइना ही उच्च संगीत है, यह मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूँ । संस्कृत में कहते हैं “गर्वं कवीनां निकषं वदन्ति” उसी तरह पश्चिम के लोग ओपेरा अर्थात् पद्यमय नाटक को नाट्यकला की चरम शीमा बतलाते हैं । लेकिन उस्तादी संगीत की तरह ही ओपेरा को सुनने वक्त भी मेरा कान पकने लगता था । परम्परा किस तरह आदमी को बेवकूफ बनाती है, यह दोनों उदाहरण उरती के प्रमाण थे । पुरुषों को संगीत दिशा में दाय नहीं बनाना चाहिये, यह तो मैं नहीं कहता लेकिन यह जरूर कहूँगा, कि पुरुष संगीत के शिकार और संगीत-शास्त्री ही हो सकते हैं । उनके पास मधुर स्वर पैदा करनेवाला कंठ नहीं है अकिंकाश पुरुष गायक के वस्तुतः स्त्रियों के क्षेत्र में आनधिकार चोखा करते हैं । लेकिन उस्तादी संगीत में स्त्रियाँ भी पुरुषों का कम कान नहीं काटती, विशेषकर जब वह बेमूस कन्दन शुरू करती, अथवा कोयल या किरिया दूसरे पक्षी के स्वरको अपने कंठ में निकालना चाहती है । मैं जबरदस्ती कभी कभी स्वान्तीय शोभाए सुनने के लिये मजबूर होता था, क्योंकि घर में गणप्राहक मौजूद थे । उस समय इस तरह के ख्याल भेरे दिमाग में दौड़ा करते थे । मेरी सबसे ज्यादा बेकरारी थी भारत का समाचार जानने की । धीरे-धीरे मुझे निश्चय करना पड़ा कि विदेशी समाचारों को सुनानेवाला एक रेडियो लेना जरूरी है । अर्थात् यह यंत्र कम ही तैयार किये जाते थे, इसलिए उनका दाम बहुत ज्यादा था । मेरे शार्पी बतला रहे थे, कुछ सहाने और ठहर जाने पर वह सरते मिलने लगेंगे ।

२ अगस्त को रविवार होने से छुट्टी का दिन था । मेरे लिये तो पहिली सितम्बर को ही काम का दिन शुरू होनेवाला था । आज धूप थी । शामको थोड़ा थोड़ा बूँदा बाँदी भी हुई । लोला की पदरमा ( मक्की ) सोफी वासिलि-थेवना ( वासिलीथेफ-पुत्री सोफी ) हमारे ही महल्ले में पास ही रहती थी । वह जारशाही जमाने के एक जेकर जनरल की पुत्री, अतएव संस्कृत मन्थनकर्मी की संतान थी । उनके कई विवाह हो चुके थे, जिनमें सबसे पिछला लड़ाई के दिनों में एक शोफर से हुआ था । लेकिन शोफर ( मोटर ड्राइवर ) का यह मतलब नहीं, कि वह हमारे यहाँ के ड्राइवर जैसा था । वह साथ ही मोटर-इंजीनियर

भी था, और बहुत सुसंस्कृत भी। शायद उसके माता-पिता उस में बड़े हुए जर्मन थे। सोफी को आजकल अपनी कमाई पर भरोसा करना पड़ता था, जिसके लिये वह एक कारखाने में काम करने जाती, और चार मां रुबल मासिक पातीं। उन्होंने तीन कमरे ले रखे थे, जिनके किराये में सौ रुबल चले जाते। तीनसौ रुबल में वह कैसे अपने दोनों लड़कों और अपना खर्च चला लेती थीं, यह समझना कुछ मुश्किल जरूर था, किन्तु उनके पास तीन तीन राशन कार्ड भी थे। सोफी का हमारे घर के साथ बड़ा बनिष्ट संबंध था, इसलिये किसी भी उसका या पर्वदिन में परस्पर बुलौया जरूर होता। कभी कभी जय पर्व के उपलक्ष में शराब का दौर चलता, तो मुझे बड़ी कठिनाई होती, लेकिन पीछे लोगों ने जाल लिया था, कि शराब न पीने का मैं कड़ा नियम रखता हूं। उनको इसका अर्थ नहीं मालूम होता था, क्योंकि उनके देश में शराब को पानी से अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता, हां दाम के भेंहगे होने का शिकायत जरूर की जाती थी। मैं किसी को शराब पीने देखकर घृणा नहीं करता, किन्तु जीवन में एक चीज को जय कभी नहीं छुट्या, तो उस रिकार्ड को कायम रखने का लोभ जरूर रहता है।

६ अगस्तको हम यहां का एक रॉनक ( हाट ) देखने गये। लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे स्टालों की यह हटिया हमारे यहां की हटिया का कुछ विकसित रूप थी। फरक इतना ही था, कि यहांपर पेशेवर दूकानदार नहीं थे, आसपास के गांवों के लोग अपने घरों में पैदा की हुई चीजें—सारा-सब्जी, फल, अंडे आदि लाते, उसी तरह जिसको अपनी कोई अधिक प्रिय चीज लेने का इच्छा होती, वह भी आता। राशनकार्ड की यहां मांग नहीं थी, इसलिये हर एक चीज दस-गुने बीस-गुने दामपर मिलती थी। कोई अपना मकलन इसलिये बेचता था, कि उस की जगह सिगरेट ले, कोई सिगरेट भी किसी दूसरी चीज के लिये बेचना चाहता था— सीधा बदला-बदला नहीं होता था। जूते भी मिल रहे थे, कांटा और कपड़े भी। मैं तो इस ख्याल से गया था, कि अगर कोई पुराना रेडियो मिल जाता, तो ले आता, लेकिन वहां उसका कोई पता नहीं था। लाला

की एक गिन्तेदार पहिना के यहाँ रेडियो था, लेकिन वह दीर्घ तरंग का था, जिसपर भारत या इंग्लैंड का सुना नहीं जा सकता था।

मान अग्रस्त को खाते वक्त बड़ा आनन्द आया, जबकि अपने हाथके उगाये आलू को सूप में पड़े देखा। अभी वह दौ-तीन तोले के थे; मालूम हुआ कि यहाँ की भूमि आलू के लिये बहुत अनुकूल है।

६ अग्रस्त को जापान के त्रिसद्व सोवियत का युद्ध आरंभ होगया था, अब व.। खबरें भी में समझने लगा था, लेकिन भारत की एक भी खबर न सोवियत के रेडियो पर सुनने पाता न यहाँ के अखबारों में ही।

१३ अग्रस्त को सोमवार का दिन था। आज विश्राम दिन का टिकट मिला था। संस्कृति-उद्यान तथा दूसरे विश्राम-स्थानों के लिये ऐसे टिकट सभी कार्यालयों में मिला करते हैं। युनिवर्सिटी, कॉलेज, क्लब, कारखाने, ऑफिस सभी जगह काम करनेवाले इससे फायदा उठाते हैं। टिकट का दाम २० रूबल ( प्रायः २० रु० ) था, जिसमें ६ रूबल ही अपने देना पड़ता, बाकी मजदूर-संघ देता। यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि प्रोफेसर हो या चपरासी, दुकान पर बैठनेवाला हो या कारखाने का मैनेजर, सभी दिमागी या शारीरिक काम करने, वाले स्त्री-पुरुष मजदूर-संघ के सदस्य होते हैं, और उनके वेतन से संघ का शुल्क कटता जाता है। संघ इस पैसे से अपने सदस्यों के मनोविनोद, स्वास्थ्य, धेकारों आदि के लिये प्रबन्ध करता है। यह एक दिन की छुट्टी का प्रबन्ध हमारे मजदूर संघ की ओर से था। हम उसे बिताने के लिये किरोफ-पार्क-कुल्नूर में गये, जिसके बारे में हम पहिले भी कह चुके हैं। नाट्यशाला की आज छुट्टी थी, नहीं तो उसका भी टिकट हमारे टिकट में शामिल था। सिनेमा देर से शुरू होनेवाला था, और उद्यान से हमारा सकान डेढ़ घंटे के तामवाय के रास्तेपर था, इसलिये दोनों का ख्याल छोड़ना पड़ा। ६ बजे सबेरे ही हम खाना हुए और साढ़े दस बजे उद्यान में पहुँचे। विश्राम लेनेवालों के लिये एक अलग कार्यालय है, जिसे “बाजा अदना दिनेवनी अतुदिखा” ( एक दिन विश्राम केन्द्र ) कहते हैं। कार्यालय में टिकट का आधा लेकर हमारा नाम लिख लिया गया। कितने ही

और भी स्त्री-पुरुष आये थे, जिनमें स्त्रियों की संख्या अधिक थी। आज इतवार नहीं था, इसलिये पहिले जितनी भीड़ नहीं दिखाई पड़ी। नीचे ऊपर दृमंजिले मकान में आठ कमरे थे, जिनमें नाचने, गाने, पढ़ने, अंटा खेलने के घरों में मनोविनोद का प्रबन्ध था। लेकिन विश्राम लेनेवाले आदमी घरों में बैठने के लिये यहाँ नहीं आते, वह तो प्रकृति की सुन्दर गोद का आनन्द लेना चाहते हैं। ११ बजे नाश्ता तैयार हुआ। रोटी अपने राशन-टिकट में लेनी पड़ी, नहीं तो बाकी नीजे विश्राम टिकट में सम्मिलित थीं। खाने की चीजों में लप्सा भी था, जिसका नाम हमारी लप्सी से मिलता जुलता है, किन्तु श्री वह नमकीन सेवैयाँ। मखली, और साथमें सीठी चायका एक ग्लास—बस यही प्रातराश था। स्कूला लोग मांठी चाय, सो भी प्याले में नहीं शीशे के गिलास में पीते हैं। उसमें दूध डालना बेकार समझते हैं; हाँ यदि मिल सके तो कागजी नीबू का रूपये बराबर का टुकड़ा डालना बहुत पसन्द करते हैं। मध्याह्न भोजन १ बजे के करीब हुआ। इसमें लोबिया और किसी साग का सूप (रसा) पहिले आया, इसके बाद दिन का मांस, उबली हुई बड़ी लोबिया के साथ, और अन्त में कम्बोत परोसा गया, जिसमें पतले मीठे शरबत में पड़ी हुई खूबानी थी। चीजें बहुत स्वादिष्ट नहीं थीं, किन्तु पुष्टिकारक अवश्य थीं। शामके भोजन में रेजका (मूला के पतले टुकड़े), चावल भरी कचौड़ी, (पेरुगमूरीसभ) और सीठी चाय का गिलास था। यह शाम का भोजन नहीं बल्कि शामकी चाय थी।

“सर्वे सत्त्वा आहारस्थितिकाः” इस बुद्ध-वचन के अनुसार प्राणी मात्र की सबसे जबरदस्त और अनिवार्य आवश्यकता है आहार, जिसके बारे में पहिले कहना आवश्यक था। लेकिन १०-११ बजे जी हमने उद्यान में बिताये, वह केवल खाने-पीने में ही नहीं बीते। प्रातराश के बाद हम स्नान के लिये नदी तट पर गये। वहाँ एक अच्छा खासा मेला लगा हुआ था, जिसमें स्त्रियों की संख्या अधिक होना हमारे देश के लिये कोई नई बात नहीं थी। स्कूलों के छोटे लड़के लड़कियाँ भी अपनी अध्यापिकाओं के साथ काफी संख्या में आये थे।



पुरुष जाधिया या स्नान-परिधान पहिने स्नान कर रहे थे, स्त्रियों स्नानपरिधान स्नानबन्ध और जाधिया में ज्यादा थी। छोटे लड़के लड़कियां नंग नहा रहे थे। नहाना, तैरना, फिर बालू में आकर लेटे लेटे भूप लेना, उसके बाद फिर नहाना और तैरना। दो बार मैं भी आधी नदी तक तैरने गया। भूप लेना यहां के लोग बहुत पसन्द करते हैं, और हफ्तों भूप लेते लेते जब इनका रंग कृष्ण कृष्ण नाभ्रवर्ण ही जाता है, तो इसे बहुत पसन्द करते हैं, स्वस्थ शरीर का चिन्ह मानते हैं। स्त्री-पुरुषों के मिलने जुलने में कोई भेदभाव न होने के कारण अर्थनग्न-सौंदर्य की धोर भी लोग विलकुल साधारण भी दृष्टि डालते हैं। नहा-ओकर वृमते घामते १ बजे हम फिर भोजनालय लौट आये। २ बजे मथ्यान्ह-भोजन हुआ। वहां कपड़े-बास्ती आराम कुर्सियां मिल गयीं, जिनको लेकर हम नदी के तट पर वृत्तों के नीचे जा बैठे। हमारे पैरों के नीचे भी हरी हरी घास थी। कितने ही लोग यहां के पुस्तकालय से कोई उपन्यास या दूसरी पुस्तक भी लाकर पढ़ रहे थे। कुछ लोग कुर्सी पर पड़े पड़े भी रहे थे, और कुछ नहर के नौका विहार को देख रहे थे। नौका-बिहार को देखकर मुझे कश्मीर याद आ रहा था। जार-शाही जमाने में यह उद्यान राजप्रासाद से संबद्ध था, और राजवंशियों तथा उनके अनुचरों के सिवाय कोई दूसरा भीतर आने नहीं पाता था। लेकिन, आज मजदूर अपने पैरों से इसे रोद रहे थे। सहल अब भी मौजूद है, जिसमें युद्ध के समय घाम-अर्थशास्त्रियों का स्कूल खुला था। थोड़ी देर हम भी चानी अंश खेल खेलते रहे, फिर गाना सुना, फिर टहलते रहे। लेनिनप्राद महानगर है, वहां दिन-मित्र सगे-संबंधी एक दूसरे से दूर रहते हैं, जिसमें मिलना जुलना आसान काम नहीं है। यहां कभी कभी उनसे भी मुलाकात हो जाती है। लोला की भ्रात्री बलनिना अपनी भां के साथ आया हुई थी। वह किसी पुस्तकालय में काम करती थी। लोला के कथनानुसार वह बड़ी अच्छी गायिका है। सुन्दरी भी थी। मैंने कहा— फिर नाट्यमंच पर क्यों नहीं गई? वहां हमें गाना सुनने का मौका नहीं था।

दाम के अड्डे पर आये। भीड़ इतनी थी, कि यात्र घण्टे तक दामों में

जगह ही नहीं मिल सकी। फिर किसी तरह चढ़कर साढ़े तीनों बजे घर पहुँचे। लेकिन अग्रस्त के साढ़े तीनों बजे क्या साढ़े ग्यारह बजे तक गोधूली ही रहती है।

बाहर ही मनोरंजन और मनोविनोद की चीजें नहीं मिलती थीं, बल्कि घरके भीतर भी उसका काफी सामान एकत्रित था। लोला का अपने इकलौते पुत्र पर असाधारण प्रेम होना स्वाभाविक था, जिस पुत्रको उसने लेनिननप्राद के हजार दिनों के घिरावे में अपना प्राण देकर पाला था। जब राशन छटाक डेढ़-छटाक रह गया था, तब वह अपना खाना उसे दे देती और स्वयं भूखी रह जाती। एक बार वह इतनी निर्बल हो गई, कि खड़ी होते समय गिर पड़ी और सिर फूटने में उसके सूखे शरीर में से बहुत सा खून निकला। तो भी कितनी ही बार मुझे उसके प्रेम में अन्धापन ज्यादा मालूम होता था। लड़का जानता था कि उसकी माँ किसी बातसे इन्कार नहीं कर सकती, इसलिये जिद्द करना उसका स्वभाव हो गया था। सुबह उठते ही लोला अपने ईंगर को बुलाती—“कपड़ा पहिन, ईंगरका, मोई किशिन्का” (कपड़ा पहिन ईंगरका मेरे ललुवा) चाहे दो घंटा भी दिन चढ़ गया हो, लेकिन ईंगर पड़ा सोता रहता। फिर थोड़ी देर में माँ का ध्यान उधर जाता, तो चिल्लाकर उसी बातको दुहराती। ईंगर को उसकी परवाह नहीं थी। वह अपने मन की करना जानता था। यद्यपि बालोद्यान में जाते ही अच्छा प्रातराश मिलता, फिर भोजन आदि का भी प्रबन्ध था। लेकिन लोला अपने किशिन्का को बिना कुछ खिलाये कैसे जाने देती? एक गिलास दूध पीने में किशिन्का १५ मिनिट लगा देता। बात न मानने पर बीच-बीच में लोला का चीखना-चिल्लाना जारी रहता। इस साल पहिली अक्टूबर को ईंगर स्कूल में जाने लायक हो गया था, क्योंकि उसके सात वर्ष में केवल चार दिन ही बाकी रहते थे, लेकिन लोला नहीं चाहती थी कि स्कूल में जाकर मजदूरों के लड़कों के साथ वह बिगड़ जाय। आखिर बालोद्यान में भी तो अधिकांश मजदूरों के ही लड़के-लड़कियाँ थे। लेकिन वहाँ बुद्धिवाद से क्या प्रयोजन था! कह रही थीं एक बच्चे स्कूल से छुट्टी हो जायगी, हम घरपर नहीं रहेंगे, फिर सारे मुहल्ले के सारे लड़कों में पड़ कर गुंडा बन जायगा। इसीलिये तीन वर्ष में चार दिन कम

होने का बहाना लेकर उसे सालभर और स्कूल नहीं भेजा ।

१७ अगस्त को हम “घिरे लेनिनघ्राद की वीरता” नामक संग्रहालय देखने गये । यह नया संग्रहालय रीनेचना सड़क पर एक बड़े मकान में था । यह मुहल्ला पहिले रूसी अमीरों का था । इस संग्रहालय में १९४१-१९४४ तक के घेरावे का प्रदर्शन था । युद्ध में पहिले सोवियत के सारे औद्योगिक उत्पादन का १०५ प्रतिशत लेनिनघ्राद में पैदा होता था, इसमें राजधानी न रहने पर भी लेनिनघ्राद का महत्व मालूम होगा । इसी मुहल्ले में पुष्किन, चैकोव्स्की जैंग कलाकार रहे थे । वहां रखी हुई चीजों में एक जगह एक छोटी लड़की की पेंसिल से लिखी डायरी के कुछ पन्ने रखे हुए थे । एक दिन लिखा था—पिता मर गये, .....माता.....फिर पन्ना खाली । लिखने वाला अब निर्जीव था !

२० अगस्त को कई दिनों की धूप के बाद सबेरे थोड़ी सी वर्षा हुई । खटमलों और पिस्सुओं के मारे हम पहिले से ही परेशान थे, अब मन्ध्रों (कमारोफ) ने भी धावा बोल दिया । हमारा मुहल्ला शहर के एक छोरपर होने के कारण उसपर सबसे पीछे प्रबन्धकों की नज़र पहुंचती, इसीलिये लड़ाई के दिनों में पैदा हो गये खटमल और पिस्सू अब भी यहां से नहीं हटाये गये थे । हम चाहते थे, अगर कहीं युनिवर्सिटी के नजदीक मकान मिलता, तो अच्छा, लेकिन मकानों की इतनी इफरात तो नहीं थी । प्रोफेसर होने के कारण हमें चार पांच कमरे मिलने चाहिये थे, लेकिन हमें वहां यदि दो कमरे भी मिल जाते, तो हम उससे संतुष्ट थे । युनिवर्सिटी के रेक्टर (चांसलर) ने मकानों के प्रबन्धक को खास तौरसे चिट्ठी दी, लेकिन मकान की समस्या तो तभी हल होनेवाली थी जब कि मकान बनाने की योजना पूर हो । उसदिन ६ रूबल (चार रुपया) किलो (सवा सेर) खीरे बिना राशन-कार्ड के मिल रहे थे । लोला दस किलो खीरे खरीद लायी । कहा-सलाद बनेगा, अचार बनेगा । खीरे के अचार का रूस में बड़ा शौक है । पानी में खीरे को नमक डालकर रख देते हैं, और पन्द्रह बीस दिनों के बाद उसमें कुछ खट्टापस आजाता है, अचार तैयार होगया ।

२० अगस्त को मेरा एक दांत दर्द करने लगा, २१ को वह पीड़ा और बढ़ती गयी । सोवियत शासन ने जो बड़े बड़े काम किये हैं, उनमें मुफ्त चिकित्सा का प्रबन्ध भी एक है । हमारा ही उदाहरण ले लीजिये । हम अपने मुद्गले के चिकित्सा-केन्द्र से मुफ्त चिकित्सा करा सकते थे, डाक्टरों को कुछ नहीं देना पड़ता था । हां, यदि बीमार रहने पर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते तो दवाई का दाम देना पड़ता । तिरयोकी में युनिवर्सिटी का सैनीटोरियम था, वहां पर भी मुफ्त चिकित्सा का प्रबन्ध था । इन दो जगहों के अतिरिक्त युनिवर्सिटी के भीतर एक बहुत भारी चिकित्सालय था, जिसमें दर्जनों डाक्टर काम करते थे । मैं दांत की पीड़ा से मजबूर हो युनिवर्सिटी के डाक्टर के पास गया । डाक्टर, एक महिला थी । उन्होंने देखकर बतलाया कि दांत में छेद हो गया है, स्नायु सड़ गयी है । दांत को उन्होंने छील दिया, घाव को साफ कर दिया । बिजली से चलने वाले दांत सम्बन्धी सभी आयुनिक यंत्र वहां पर मौजूद थे । मुझे दर्द इतना मालूम हो रहा था, कि चाहता था दांत ही उखड़ जाय तो अच्छा । महिला डाक्टर ने कहा— नहीं आपके दांत बहुत अच्छे हैं । बनावटी दांत उतने अच्छे नहीं होंगे, और एक दांत निकालने से दूसरे दांत कमजोर पड़ने लगेंगे । उन्होंने फिर कहा— “मैं प्रोसलिन भरकर ठीक कर दूंगी, किन्तु पहले भीतर का घाव अच्छा हो जाना चाहिये ।” उन्होंने दांत को अच्छी तरह साफ करके अस्थायी तौर से प्रोसलिन भर दिया । २२ अगस्त को दिन-भर दांत अच्छा रहा, किन्तु रात को फिर दर्द बढ़ना शुरू हुआ । मैं बिल्कुल नहीं सो सका । ख्याल आता था, कि हनुमानबाहुक की पुस्तक होती, तो मैं भी तुलसीदास के शब्दों में बाहुपीड़ की जगह दांत-पीड़ बदल कर बजरंग बली की दुहाई देता । जान पड़ा, दांत के भीतर अभी भी भवाद है । २३ अगस्त को १२ बजे फिर डाक्टर के पास गया । रास्ते भर मार्मिक वेदना हो रही थी, दांत के छिद्र को खोलने पर वह कुछ कम हुई । डाक्टर ने भीतर साफ करके दवा भर दी । मैंने कहा छिद्र का मुँह न बन्द करें, क्योंकि उसमें पीड़ा बढ़ जाती है । उस दिन शाम को बुखार भी आ गया । बीच बीच में अब मुझे डाक्टर

की सेवा में जाना जम्ही हो पड़ा। डक्टर कुछ पेट भी गड़बड़ हो गया था, दूसरे डाक्टर ने पेट की बीमारी के बारे में देखभाल की। खून का दबाव नार्मल मानस हुआ।

पहली सितम्बर को युनिवर्सिटी खुली मने। पहले डाक्टर को दांत दिखताया, तो उन्होंने उसको अस्थियां तौर में भरने में पहिले रोन्तेगिन (एक्सरे) फोटो और परीक्षा करने के लिये विशेषज्ञ के पास भेज दिया। इन्दुस ( भारतीय ) जानकर सभी की जिज्ञासायें बढ़ जाती थीं। एक्सरे विशेषज्ञ ने दांत का फोटो लिया, और उसे डाक्टर के पास भेज देने का वादा किया।

जापान पर विजय— ३ सितम्बर ( सोमवार ) को जापान विजय के उपलक्ष्य में छुट्टी हुई। २ सितम्बर को तोकियो के बन्दरगाह में अवस्थित अमेरिकन नौसैनिक जहाज मिसौरी पर मेकार्थर के सामने जापानी सैनिकों के प्रतिनिधि विदेश-मंत्री और सेना-पति ने अपनी हार पर हस्ताक्षर कर दिये। तोकियो रेडियो भी अमेरिकन हाथों में चला गया। मने तीन सितम्बर को अपनी डायरी में लिखा— इस समय दुनिया में अमेरिका का पब्ला भारी है। सिर्फ सामग्री-संपन्नता के कारण ही नहीं, बल्कि सैनिक साईंस की शक्ति के कारण भी— अणु-बम का आविष्कार अमेरिका ने किया। अमेरिका पूंजीवादी जगत का प्रभुत्व अगुथा है। वह जर्मनी की भांति जाति-सिद्धान्त को सामने नहीं ला सकता, मगर पूंजीवादी गुलाबी को सारे संसार पर लादने के लिये वह वैसा ही प्रयत्न करेगा, जैसा जर्मनी ने कबीली सामन्तशाही को लादने के लिये ( किया ) ..... बात से काम न चलने पर सैनिक शक्ति का प्रयोग ( भी करेगा )। दुनिया के सभी प्रतिगामी स्वार्थ का समर्थन पूंजीवादी दृष्टि से अमेरिका करेगा। यूनान में कर रहा है। बुल्गारिया में पासो खिलाफ पड़ने की आशंका से (उसने) पार्लियामेंट चुनाव रूकवा दिया। हालैण्ड और बेल्जियम में ( उसके लिये ) निष्काटक क्षेत्र है। फ्रान्स और इटाली की जनता के रास्ते में अमेरिका भारी रुकावट साबित होगा, तो क्या तीसरा युद्ध आणवीय धर्मों और नाम पहियों का होगा ?

सितम्बर को युनिवर्सिटी में लौटते वक्त मैं बालोद्यान में गया । पैदा होने से तीन बरस तक के लिये यह यसली ( शिशु भवन ) बन हुआ है, चौथे से सातवें वर्ष के लिये अचाक ( बालोद्यान ) है । कमरों में बच्चों के लिये सोने के वास्ते चारपाइयाँ कतार से लगी हुई थीं, विस्तरण साफ़ धिन्ना हुआ था । तीन वर्ष से सात ही वर्ष तक के बच्चे थे, किन्तु उनका पाखाना साफ़ था । हाथ मुँह धोने के लिये छोटे-छोटे नल लगे हुए थे और कुत्ता, बिल्लों आदि पशुओं की तसबीरोंवाली उनकी टावलों अलग अलग खूंटियों से लटक रही थीं । चीजों को रखने के लिये छोटी-छोटी आलमारियाँ भी उन्हें मिली थीं, जिन पर उनके जानवर की तस्वीर बनी हुई थी । कहानी सुनने, खेलने, खिलौने रखने के कमरे अलग अलग थे । एक हाल भी था । घर से बाहर खेलने और मनोविनोद के लिए उद्यान था । मेरे आने से पहिले ईगर के लिये सत्तर रूबल मासिक देना पड़ता था, किन्तु मेरे आने के बाद वह १४० हो गया । सभी लड़कों का खाना, रहना एक तरह का था, लेकिन फीस में इसका ध्यान रखा जाता था, कि कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है । कम वेतन वाली माता-पिता को कम पैसा देना पड़ता, अधिक लड़के होने पर फीस माफ़ हो जाती थी । लड़के नौ बजे बालोद्यान जाते, और पांच बजे घर लौट आते थे । इस बीच में खाने का सारा इंतजाम बालोद्यान की ओर से होता था । बालोद्यान में लड़के लड़कियाँ दोनों इकट्ठा ही रहती थीं । आयु के अनुसार उनके चार वर्ग थे । यहां पुस्तक की पढ़ाई नहीं होती थी, न अक्षर सिखाया जाता । उन्हें स्वावलम्बी बनने की शिक्षा दी जाती । वह स्वयं अपना विस्तरा ठीक करते । यद्यपि रसोई में भवद देना लड़कों का काम नहीं है, किन्तु बालोद्यान की बहनों ( चाचियों ) के साथ उनका इतना प्रेम हो जाता, कि वह बिना बुलाये भी सहायता करने के लिए चले जाते । ईगर खास तौर से अपनी चाची की रसोई में सहायता करने जाता था । बालोद्यान की चाचियों के साथ लड़कों का कितना मधुर सम्बन्ध हो जाता है इसका इसी से पता लगेगा, कि ईगर जब बालोद्यान से निकलकर स्कूल में भरती हो गया था, तब भी वह अपनी चाचियों से मिलने जाता था, और वहाँ

खाने और चाय का समय होने पर खा पीकर ही लौटता था। हम बहुत डायकर कहते कि अगर खाना खाके आयेगा तो फिर नहीं जाने देंगे, लेकिन वह कहां होने वाला था। आकर कहता— क्या करूं, चाची तान्या ने नहीं माना। बच्चों की शिक्षा और सेवामश्रुषा पर सोवियत सरकार का सबसे अधिक ध्यान है, इस कहने की आवश्यकता नहीं है। बालोद्यान का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में एक सोवियत शिक्षा शास्त्री के निम्न वाक्य पठनीय हैं—“बालोद्यान तीन से सात वर्ष तक की चार श्रेणियों के बालक-बालिकाओं के लिये है। यहां बच्चे १०-१२ घंटे रहते हैं। कुछ बालोद्यान में इतवार को छोड़कर बाकी हफ्ते भर बच्चे रह सकते हैं। बालोद्यान स्थापित करने का उद्देश्य है बच्चों का अच्छी तरह लालन-पालन, और मां को काम करने की छुट्टी। बालक की शारीरिक और मानसिक शक्तियों के विकास के लिये यहां खेल के मुख्य साधन रखे गये हैं। बालक अपने जीवन के चारों ओर की परिस्थितियों में सक्रिय भाग लेता है और इस प्रकार अपने शारीरिक विकास को बढ़ाता है। बच्चों से जो खेल खेलाये जाते हैं, जो सीधे सादे भौतिक पाठ कराये जाते हैं, वह एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार होते हैं, लेकिन उसमें सैद्धांतिक शुष्कता का पता नहीं, जो कि फ्रेबेल और मोंटेसरी प्रणाली में पाई जाती है। सोवियत शिक्षा क्रम लड़के की भिन्न-भिन्न आयु की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है— कि बच्चों की दिलचस्पी खेलने में जल्दी पैदा होती है, और वह हर एक चीज को साकार रूप में समझने की कोशिश करता है। ... खेलों के छुनने में लड़कों को स्वतंत्रता रहती है। सोवियत बालोद्यान शिक्षा-प्रणाली में बच्चों में निम्न भावों को पैदा किया जाता है— स्वतंत्रता-प्रेम, स्वास्थ्यकर आदत, परिश्रमशीलता, तथा चीजों को अच्छी तरह उपयोग में लाना, उनकी रक्षा करना, बड़ों के प्रति सम्मान, और मुन्दर वर्तव। यह बालोद्यान के काम का मुख्य आधार है। हर २५ बालक पर एक शिक्षिका होती है, जो इससे कम पर भी हो सकती है।” वह बालक की चाची है, जिसके प्रेम को बालोद्यान छोड़ने के बाद भी लड़के नहीं भूलते। सोवियत

शिक्षा-प्रणाली ही नहीं, दूसरे भी इस तरह के आयोजनों में केवल प्रापेण्डा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा करने के लिये दस-बीस बालोद्यान और शिशु भवन काफी होते लेकिन ऐसे दिखावे से माताओं के लिये काम का समय नहीं मिल सकता था। लड़ाई के खतम हुए अभी एक महीना नहीं हुआ था। कि १ जून १९४२ को १८ हजार बालोद्यान थे, जिन में २० लाख रूसी प्रजातंत्र के बच्चे परवरिश पा रहे थे। १९४५ में रूसी संघ प्रजातंत्र के १४,३३५ बालोद्यानों में ७२, ३०, ००० बच्चे रहते थे। इन के अतिरिक्त प्रोन्पावासों में २० लाख बच्चे अलग रखे गये थे।

भारत-ध्यान मध्य-एशिया की तरफ विशेष तौर से था। मैं समझता था, भारत की स्थिति वही है, जो कि बोलशेविक क्रांति से पहिले मध्य-एशिया की थी। इसलिए वहां साम्यवादी तजुबों ने कितनी सफलता पाई, क्या परिवर्तन किये, इसको सावधानी से देखना बहुत लाभदायक होगा। मैं अब की बार मध्य-एशिया नहीं जा सका, तो भी पुस्तकों से मैंने जितना भी ज्ञान प्राप्त हो सकता था, उतना प्राप्त किया और मध्यएशिया के विद्यार्थियों और दूसरों से भी मिलकर सूचना प्राप्त की। मुझे थोड़े ही अध्ययन के बाद पता लग गया, कि उपन्यासकार सदरुद्दीन ऐनी के ग्रन्थ मेरे काम में बड़े सहायक होंगे। ऐनी का पुत्र कमाल हमारे ही विश्वविद्यालय में पढ़ता था, यद्यपि वह हमारे विभाग से सम्बन्ध नहीं रखता था। ऐनी के “दाखुन्दा”, “गुलामन”, “अब्दीना”, “यतीम” और “सुद-खोर की मौत” का मैं हिन्दी में अनुवाद भी कर चुका हूँ। उनके दो बड़े उपन्यासों का अनुवाद तो वहाँ उर्दू में कर डाला था। ऐनी अपनी भाषा का प्रथम उपन्यासकार हैं। ऐनी से पहिले ताजिक भाषा में कोई पुस्तक नहीं थी। ताजिक भाषा फारसी की एक बोली थी। लेकिन क्रांति ने उसे शिक्षा का माध्यम बनाकर साहित्यिक भाषा के रूप में परिणत कर दिया। किसी भाषा के पहले मौलिक लेख के रास्ते में जो कठिनाइयाँ होती हैं और जिनके कारण जो दोष दिखाई पड़ते हैं, वह ऐनी में मिलते हैं। उसके दोष हैं, विश्व-खलता, योजनाहीनता, पात्रों के अयोग्य संवाद। लेकिन गुण कहीं अधिक हैं। ऐनी दृश्यों का चित्रण बड़े



ही सुन्दर और स्वाभाविक ढंग से करना जानता है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में भी वह सिद्धहस्त है। वर्ग-प्रतिक्रिया का वर्णन करनेवाले तो वैसे लेखक बिल्ले ही मिलेंगे। तुनी के अतिरिक्त गर्नी अशदुला, जलाश इकरामी, लाहूती जैसे कितने ही दूसरे ताजिक ग्रन्थकारों की पुस्तकों को भी मैं पढ़ता था। मुझे अफसोस इसी बात का था, कि लेनिनवाद के पुस्तकालयों में सभी पुस्तकें प्राप्त नहीं थीं। मैंने उनके लिये मुनिवर्सिटी पुस्तकालय, प्राच्य-प्रतिष्ठान पुस्तकालय, शोक पुस्तकालय जैसे कई पुस्तकालयों की खाक छानी।

२२ सितम्बर को लोला का भेड़जा सेरगी आया। लेनिनवाद के विचारों के दिनों में सेरगी के माता-पिता दोनों भूख से मर गये। वह जिस घर में रहता करते थे, उस पर बम गिर उसकी चारों छतों को वेधता नीचे तक चला गया। इस वक्त वह मकान खंडहर जैसा खड़ा था। सेरगी, जिसे रूसी प्रियालाप के अनुसार सियोजा बना दिया जाता है, फौज में रेडियो-ग्रामोफोन का काम करता था। अब सेनार्यो विघटित हो रही थीं, इसीलिये वह वहाँ से छुट्टी पा गया था। वह बड़ा फक्कड़ सा मौजवान था। उसे न काम की चिन्ता थी, न खाने की। पैसा हाथ में आया, ती दो दिन में पी-पिलाकर खत्म कर दिया और फिर कभी मौसी के यहाँ, और कभी दूसरे मित्र के यहाँ। किसी काम पर स्थिर हो कर रहना भी उसे पसन्द नहीं था। अगले साल उसने साइबेरिया की एक रेलवे लाइन में काम लिया था। लेकिन जाड़ा आरम्भ होते ही वहाँ से काम छोड़कर खाली हाथ लेनिनवाद चला आया। आदमी वैसे बहुत अंधा था। कोई भी काम होने पर बैठा नहीं रहना चाहता था। अगले साल उसने फिनलैंड की पुरानी भूमि में कोई काम स्वीकार कर लिया और जाड़े के आरम्भ होते होते वहाँ से भी चला आया। साथ ही एक कारेलियन तरुणी को भी लौटा आया।

बेचारी अगर अपने गाँव में रहती, तो वहाँ खेती-बारी करती; यहाँ लेनिनवाद नगर में उसके करने लायक कोई काम नहीं था; और सियोजा फिर सोवियत के किसी दूसरे कौने में अकेले ही जाने की तैयारी कर रहा था। वह एक तरह का सोवियत बुमबंकड़ था। सियोजा के उदाहरण से मालूम होगा, कि यह

प्रोपेगेंडा कितना झूठा है कि इस में हरेक आदमी से जबरदस्ती काम लिया जाता है। जहां तक सरकार का संबंध है, वह कोई जबरदस्ती नहीं करती। अपनी इच्छानुसार आदमी एक काम छोड़कर दूसरा काम पकड़ सकता है। हां, एक-दो महीने पहिले अवश्य काम छोड़ने की सूचना देनी पड़ेगी, ताकि प्रबन्धक दूसरे को निशुक्त कर सके। सियोजा के उदाहरण से यह भी पता लगेगा, कि इस में अभी परिचामी यूरोप की तरह बाप के खाने का बिल देना तो दूर के सम्बन्धी को भी लोग समेटकर रखना चाहते हैं, और एक दूसरे की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं।

२२ सितम्बर को अब थोड़ी थोड़ी जाड़े की सर्दी आरम्भ हो गई थी। जाड़े की टोपियों के सिवा लोग अब जाड़े के ओवरकोट और पोसाक पहनकर मड़कों पर दिखाई पड़ने लगे। जाड़ों की टोपी बदसर वहाँ चमड़े की होती है।

रूसी नाट्यमंच अपने बैले (मूक नाट्य) के लिए विश्वविख्यात है। प्रभे ओपेरा पसन्द नहीं आता था, किन्तु नाटक बहुत पसन्द था, और सबसे अधिक पसन्द भी बैले। २६ सितम्बर को किरोव (पुराना मारिन्सकी) तियात्र में प्रसिद्ध नाट्यकार चेकोव्स्की की बैले "सुप्ता सुन्दरी" (स्पेश्चया कसाविसा) देखने गया। नृत्य सुन्दर, दृश्य मनोहर थे। शाला के पांचों तल और सामने की सीटें खचाखच भरी हुई थीं। सौ के करीब अभिनेता और अभिनेत्री इस बैले में आग ले रहे थे। कर्चों की कहानी (पेरोकी) को आधार बनाकर चेकोव्स्की ने इस बैले को विछली शताब्दी में तैयार किया था। दो शताब्दी पहिले के समाज को लिया गया था, इसलिये बेश-भूषा और दृश्यों में इसका पूरा ध्यान रखा गया था। नाच में भलुओं, बिलियों और कव्वों के भी नाच थे। सोवियत नाट्यमंच बहुत पुराना है, उसी तरह उसके दर्शकों की परम्परा भी पुरानी है। जारशाही जमाने में स्त्रियां अपने बढ़िया से बढ़िया आभूषण, वस्त्र और सज्जा के साथ आती थीं, आज भी नाटक देखने के समय सोवियत नारी अपने को अत्यन्त सुन्दर रूप में सजावजाकर वहां पहुँचती है। विश्राम के समय जब नर-नारी हाथ मिलाये बड़े हाल में मन्द गति से एक दूसरे के पीछे टहलते

है, उस वक्त नये से नया फ़ेशन और बढिया से बढिया बन सौंदर्य-गासि को आप देख सकते हैं। वहाँ दर्शकों से दर्शिकाओं की संख्या अधिक थी और दर्शकों में भी अधिकतर सैनिक थे। अभी अभी लड़ाई से वह वाहर हुए थे, इसलिये सैनिक वेप का अधिक दिखाई देना स्वाभाविक था। दूसरे देशों में अपने सैनिक वेप या सैनिक तमगों को दिखाने का उतना शौक नहीं है। और जगह तो तमगों की जगह पर केवल उनके फीतो को कोट पर टांग लेना पर्याप्त समझते हैं, लेकिन सोवियत सैनिक १५-२० तमगों को भी छाती पर लटकाना आवश्यक समझते हैं। कुछ इसके अपवाद भी हैं। लोला विसवे के दिनों में लेनिनग्राम में रहकर काम करती रही, उसने अपने पुस्तकालय की बमों से रचा करने में काफी सावधानी से काम लिया, इस कारण उसे भी दो तमगे मिले हुए थे, लेकिन वेने उसे कभी उन्हें लटकाने नहीं देखा।

२७ सितम्बर से सर्दी काफी बढ़ गयी। तापमान हिमलिगद के पास पहुँच रहा था। घर के भीतर भी सर्दी थी। मकान गरम होने की आशा भी कम ही मालूम होती थी। युद्ध के बाद नई व्यवस्था करने में समय लगता ही है, फिर घर अगर एकध महीना गरम नहीं हुआ, तो उसके चीजों के उत्पादन में तो कमी नहीं हो सकती। लोग थोड़ी सी तकलीफ महसूस करेंगे, लेकिन उसके तो वह लड़ाई के दिनों से आदी हो चुके थे, जबकि सारे जाड़े घर मकान को गरम नहीं किया जा सकता था। घर के कार्यालय से मालूम हुआ, कि इस माल शायद नवम्बर में मकान गरम किया जाये, क्योंकि कोषले के खर्च के लिये महिला कारखानों को देखना पड़ता है। युनिवर्सिटी में भी लकड़ी तो काफी खी हुई थी, लेकिन मकान गरम करने के लिये नौकर नहीं मिल रहा था। मजूरों की बहुत जगहों में माँग थी, फिर वह वहीं जाना चाहते थे, जहाँ वेतन अच्छा हो। युनिवर्सिटी के अधिकांश मकान सौ-दो-सौ बरस पुराने थे, जिस वक्त केन्द्रीय-तापन का अविष्कार नहीं हुआ था और लकड़ी जलाकर मकान को गरम किया जाता था। केन्द्रीय तापन में बहुत मुश्किल होती है। सैकड़ों

कमरों के लिए एक जगह पानी गरम होता और उस के द्वारा हरेक कमरे में पहुँचा कर चिपटे-चोड़े नल पुंजों द्वारा कमरे की हवा गरम करदी जाती है। उसमें इतने आदमियों की आवश्यकता भी नहीं होती, न लकड़ी चीरकर तल्ले पर पहुँचाना पड़ता। हमारे पढ़ाने के कमरे न विषय के अनुकूल बने थे, और न क्लास के अनुसार ही। एक दर्जन से अधिक कमरों को तो मैंने देखा न होगा अगर अध्यापक या क्लास के ख्याल से कमरे बाँट दिये जाते, तो भकान गरम रखने में सुभीता होता। छात्रों में लड़कियाँ अधिक थीं। सोवियत के नर-नारी शारीरिक श्रम को डुरी दृष्टि से नहीं देखते। वह लीचे जमा किये हुए टाल से लकड़ियाँ उठा लाते और कमरा गरम करने की कोशिश करते। कुछ समय बाद देखा, कि थायन में एक लकड़ी चीरनेवाली बिजली की मशीन भी लग गयी है, जिससे लकड़ी चीरने या टुकड़े करने का सुभीता हो गया था। तो भी जब विद्यार्थी एक कमरे को गरम करके दूसरे कमरे में चले जाते, तो वहाँ फिर से गरम करने की जरूरत पड़ती। २५० सौ रूबल में काम करने वाला कहाँ से मिलता? हमारे विभाग में एक या दो स्त्रियाँ काम करने को मिली थीं, जो किसी किसी कमरे को गरम रखतीं। सोवियत में मानव की समानता का उदाहरण यहाँ देखने को मिलता। साधारण अशिक्षित सी स्त्री लकड़ी जलाने का काम कर रही है। उसे महीने में दो-ढाई सौ रूबल मिलते हैं। उसी जगह कोई अकदमिक प्रोफेसर पढ़ाने आता है। अकदमिक होने से उसको ६ हजार रूबल मासिक पेंशन सम्मानार्थ मिलती है, प्रोफेसर होने के कारण ऊपर से साढ़े चार हजार रूबल मासिक और वेतन मिलता है। दूसरे कामों की आय को मिलाने पर उसे महीने में चौदह पन्द्रह या अधिक हजार रूबल मिल रहे हैं। लेकिन लकड़ी भोंकनेवाली स्त्री के सामने जाने पर अकदमिक प्रोफेसर अपनी टोपी उतारकर उसके सामने अभिवादन करता है, यदि उसका हाथ कालिख में सजा नहीं है, तो उससे हाथ मिलता है, यदि वह उसे अपने घर पर निमंत्रित करता है, तो एक साथ बैठ कर भोजन पर मौन पीता है। इस प्रकार स्त्री अपनी शिवा और योग्यता की कमी को ही अपने वेतन की कमी का कारण समझती है, लेकिन

जहाँ तक मनुष्य का मनुष्य के साथ सम्बन्ध है, वह भी अपने को अकदमिक के बराबर समझती है। यही नहीं बल्कि यदि उस स्त्री के लड़के या लड़कियाँ हैं, तो उन्हें युनिवर्सिटी तक अपनी पढ़ाई करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई भाँ की जेब पर निर्भर नहीं है, बल्कि लड़के लड़की की इच्छा पर। जहाँ १० फी सदी विद्यार्थी सस्कारी द्वाववृति पा रहे हों, वहाँ गरीबी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होने की किसी को संभावना नहीं है।

मैं अक्सर ११ बजे अपने यहाँ से युनिवर्सिटी जाता, और तीन बजे ही वहाँ से चल देने की कोशिश करता, यदि पढ़ाई के लिये रहने की मजदूरी न होती। सबैरी नौ बजे और शाम के ५ बजे के समय ट्रामों में बड़ी भीड़ होती। वाज बक्त तो चढ़ना मुश्किल हो जाता। मैंने पीछे एक युक्ति निकाली। मैंने देखा कि नगर के केन्द्रीय स्थान की ओर जानेवाली ट्रामें जिस बक्त भरी रहती हैं, उसी बक्त दूसरी तरफ की जानेवाली ट्रामों में अधिकतर खाली रहती हैं। चार-पाँच पैस ( पाँच कोपैक ) और कुछ सिगटों का सवाल था। मैं खाली ट्राम से उल्टी ओर चला जाता, आगे, केन्द्र की ओर जानेवाली बक्त भरी ट्रामों पर सवार होकर केन्द्र में पहुँचने पर भीड़ तो होती, लेकिन बैठने की जगह थहिले मिल गयी रहती। वस्तुतः लड़ाई के कारण लेनिनवाद के लिये जितने ट्राम-डब्बों की आवश्यकता थी, उतने नहीं मौजूद थे, इसीलिये इतनी भीड़ रहती थी।

११ अक्टूबर की सर्दी अब अपने मौकन की ओर जा रही थी। रातकी पानी जमने लग था। बाहर जाने पर मेरे कान ठंडे होने लगते थे। अब वृद्ध कितने ही नंगे हो गये थे, और कितनों ही की पतियाँ पीली फड़ चुकी थीं। देवदार के झाड़ों को कभी पतभड़ का मुकामिला नहीं करना था, और उन्हीं की तरह के कुछ और हिम-जीवी पेड़ थे, जिनके पत्ते अब भी हरे रह गये थे।

स्नानगृह— अभी तक स्नान अपने घर में ही कर लेता था, किन्तु अब जाइँ के आगमन से गरम स्नानगृह की आवश्यकता थी। लेनिनवाद के मुहल्ले

मुहल्ले में ऐसे स्नानगृह हैं । १२ अक्टूबर को मैं पहिले पहल सार्वजनिक स्नान-गृह में गया । १ रुबल देकर टिकट खरीदना पड़ा । स्नानगृह के भीतर दो प्रबन्धिक स्त्रियां थीं । जिसको टिकट मिल गया था, वह उसे ले जाकर प्रबन्धिका को देता, जो उसे एक धातु का टुकड़ा देकर आत्मारी का ताला खोल देती । आदमी अपने सारे कपड़ों को उस आत्मारी में बन्द कर देता । हां, सारे कपड़ों का एक भी मूत उसके शरीर पर नहीं रह जाता । वहां सभी पुरुष ही पुरुष थे, स्त्रियां वही दो परिचारिकार्यें थीं । लोग निःसंकोच नंगे भादर-जाद थे, मुझे पछतावा हो रहा था, कि क्यों यहां फंसा, घर में ही गरम पानी करके नहा लेता, लेकिन अब तो आ चुका था । देखादेखी कोट-पेन्ट निकाल भी चुका था । सब निकालने पर भी जांघिया निकालने की हिम्मत नहीं हुई । परिचारिकार्यें वावा आदम के खास पुत्रों के बीच में बड़ी बेतकल्लुफी से इधर से उधर घूम रही थीं और मैं था जो लाज के मारे धरती में गड़ा जा रहा था । आखिर जांघिया पहिने ही मैं आत्मारियोंवाले कमरे से नहाने के कमरे में गया । वहां कई पांतिर्यों में बेंचे रखी हुई थीं, ठंडे और गरम पानी के कई नल जगह जगह पर लगे हुए थे । बहुत से लोहे के गोल बर्तन ( एक वाली पानी आने लायक ) रखे हुए थे । लोग दो बर्तनों में अपनी इच्छानुसार गरम पानी भरकर बेंचों पर बैठ कर नहाते । कितने ही शरीर मलने में एक दूसरे की सहायता करते थे । मैं अपनी नैया अकेले ही खे रहा था । जब मैंने वहां आध घंटा स्नान करते, पेर मल मल कर धोते, आसपास के दूसरे आदमपुत्रों को देखा, तो मुझे अपनी बेवकूफी पर आश्चर्य होने लगा । मैंने सोचा शायद यह लोग समझें, कि इस आदमी को कोई बीमारी है, इसलिये यह जांघिया पहिने हुए हैं । मैंने उसी वक्त कान पकड़ा और निश्चय कर लिया, कि अगली बार से फिर ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा । अब तो हर हफ्ते नहाने आना था । तब से देख लिया, कि सनीचर के रोज बड़ी भीड़ रहती है । इतवार के दिन उससे कम और सबसे कम सोमवार को होती है, इसलिये मैंने सोमवार को अपने नहाने का दिन निश्चित कर लिया । स्नानागार में वर्षा-स्नान ( डूब ) का भी प्रबन्ध था । लेकिन उसकी कल बिगड़ी

हुई थी, जो कि मेरे पच्चीस मास के रहने तक न बनी। शायद नया स्नानागार बनने जा रहा था, जिसके कारण मरम्मत करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। स्नानगृह में स्नान करके लोग बैसे ही पानी चूने आल्मारियों के पास आते, और फिर अपने तौलिया से शरीर पोंछते। अगर कोई चाहता, तो उतने समय में अपने कपड़ों को परिचारिकाओं को देकर स्त्री भी करवा सकता था। एक दो रुबल दे देने से काम चल जाता। बिना राशन के लेने पर हमारे यहाँ की चार-पांच आने की साबुन की टिकिया का दाम पचास-साठ रुबल था। पामोखिथ जैसे साबुन की टिकिया का दाम सो रुबल (पैसेठ रुपये) होता, साबुन का डब्बा भी यहाँ साठ रुबल से कम का नहीं था। मैं अपना पैसेठ रुपये का साबुन और बीस रुपये का डब्बा वहीं भूल आया, वह फिर कहीं मिलनेवाला था। मुझे यह संतोष हुआ कि डब्बा और साबुन मैं ईरान और हिन्दुस्तान में लाया था, जहाँ उसका दाम एक-सवा-रुपये से अधिक नहीं था।

१३ अक्टूबर को असली जाड़े की ऋतु के आगमन का मुझे पता लगा, जबकि सवेरे ८ बजे जरा-जरा बरफ पड़ती देखी। अब वर्षा का मय नहीं था। पत्ते बहुत कम हरे रह गये थे। अगली दिन तो बरफ रूस के चड़े चड़े फाहों की तरह गिर रही थी। अभी सभी भूमि उससे टकी नहीं थी। देवदारों के ऊपर-नीचे पड़ी ताजा बरफ किलनी सुन्दर मालूम होती है। दोपहर के बाद ताजा गिरी बरफ पिघल गयी, और फिर कच्ची जगहों पर काँचड़ उछलने लगी। लोगों ने बतलाया, अभी तीन चार सप्ताह तक कीचड़ की दुनिया में रहना होगा, फिर जमीन रूपहली फर्श बन जायगी। यह समय सन्तुष्ट ही बहुत अच्छा नहीं मालूम होता था। ऊपर नरम बरफ पड़ी हुई है, लेकिन हाँ सकता है नीचे पानी-कीचड़ हो। मुझे तो अब सर्दी मालूम हो रही थी। अमड़े के कनटोप को पहिने बिना बाहर नहीं निकलता था, लेकिन अभी लोग नंग हाथों काम कर रहे थे और बहुतेरे लोग तो सारे जाड़े भर कान ढाँकने की आवश्यकता नहीं समझते थे, वह इतने सहिष्णु हो गये थे।

१५ अक्टूबर को सवेरे धूप निकली थी। जहाँ साग-सब्जी के खेत

लहरा रहे थे, वहाँ अब सफ़ेद बरफ की चादर पड़ी हुई थी। सरदी खूब थी और भकन भी खूब मंडा था। कपड़े मुखाने के लिये बाहर डाले थे। शाम तक कुछ सूख गये और जो गीले थे वह बरफ के रूप में परिणत हो गये। एक दिन रस्सी पर कपड़े को टांगा गया था, रस्सी इतनी बरफ बन गई थी, कि हम हाथ से उसे खोल नहीं सके। हाथों को नंगा करके खोलने पर वह खुद जवाब देने लगते, अन्त में खोलने की जगह रस्सी को काट लेना ही अच्छा समझा।

२१ अक्टूबर को दो बजे दिन से धड़े जोर को बरफ पड़ने लगी। रूई के फाये अकाश से नाचते हुए जर्मन की ओर आ रहे थे। अब सारी खुली जगहें बरफ से ढँक गयी थीं। पांच महीने तक शायद अब वह स्थान नहीं छोड़ेगी। लड़के बरफ से खेल खेलने लगे थे। कोई पैंतों में बांधने वाली स्की पर दौड़ रहा था, कोई स्केटिंग के खेल में लगे हुए थे। छोटे छोटे लड़के बिना पहिये की अपनी गाड़ियों (सानी) को लिये किसी साथी को ढूँढ़ने में लगे हुए थे, वह कोई ऊँची जगह देखकर सानी में लड़के को बैठा छोड़ देते, और सानी फिसलती हुई नीचे चली जाती।

२४ अक्टूबर को घर के भीतर भी तापमान ५° सेन्टीग्रेड था। २५ को वह ७° हो गया— त्रिमिन्दु शून्य विन्दुपर होता है। अभी तक कई दिनों तापमान शून्य विन्दु पर था, तभी तो बरफ जमकर बैठी हुई थी। सात डिग्री पर तापमान के जाते ही सारी बरफ गल गयी, जहाँ-तहाँ पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा। २६ अक्टूबर को सवेरे बरफ का चादर सर्वा जगह पड़ी हुई थी, लेकिन सर्दो उतनी अधिक नहीं मालूम होती थी। बरफ जब अच्छी तरह पड़ती रहत है, और हवा न चलती हो, तो सर्दो सचसुच ही कम हो जाती है। २७ अक्टूबर को फिर बरफ पिघलती दिखाई पड़ी। अब मालूम हो गया कि बरफ और जल की आंश-भिन्नता शायद एकदम हफता इसी तरह रहे।

मुझे यह आंशभिन्नता पसन्द नहीं थी, क्योंकि कीचड़ से बचना मुश्किल था। जैसे बरफ से ढँकी हुई पृथ्वी और देवदारों से भरे हुए वन दुनिया



के सबसे सुन्दर प्राकृतिक दृश्य है। वह भी समय आ ही जायगा, यह विश्वास था, लेकिन जब बड़ी सावधानी के बाद भी जाइों में दो तीन बार खिन्नताकर भरती पकड़ना पड़ा, तो अच्छा नहीं लगा। यहाँ नहीं कि लोगों के हंसने का क्याल आता था, बल्कि अचानक गिरने से कुछ चोट भी लग जाती थी। उस वक्त मुझे मालूम हुआ, कि सर्द मुल्कों के लोगों के लिये स्केटिंग करना किनना जरूरी है।

३० अक्टूबर को फिर मैंने बैले देखने का टिकट लिया था। सारे लेनिन-आद के लोगों को टिकट मिलने की दिक्कत हो सकती है, किन्तु मैं रोज ले सकता था। इन्ट्रिस्त (सोवियत की यात्रा एजेन्स) का काम विदेशी मेहमानों को हर तरह से सहायता पहुँचाना है। मैं विदेशी प्रोफेसर था, और पिछले तीन चार महीनों से ऑफिस में मेरा काफी परिचय हो गया था। तो भी मैं नाटक बहुत ज्यादा देखने नहीं जाता था। उस दिन चेकोस्की का मूक नाट्य “हंस पारोवर” (लेबेदनीये ब्रोजेरो) था, चेकोस्की की मुझ पर भी धाक थी, यद्यपि उसके उस्तादी संगीत को समझने की मेरे में शक्ति नहीं थी, लेकिन बैले को मैं बहुत पसन्द करता था। उसी मारिन्स्की-तियात्र में जाना था। नाटक साढ़े सात से ग्यारह बजे तक हुआ। दो टिकटों के लिये हमें छापन रुबल (प्रायः ३६ रुपये) देने पड़े। इसे सरता ही कहना चाहिये। तियात्र की एक भी राईट खाली नहीं थी और लोगों ने दो-दो हफते पहिले से टिकट लेने के लिये मार की होगी। अभिनेत्रियों में ग० न० किरिल्लोवा रूसी-संघ-प्रजातंत्र की जन-कलाकार की पदवी से विभूषित थी, दूसरी अभिनेत्री व.क. इवानोवा भी उसी पदवी से विभूषित थीं। अभिनेता अ० न० सोल्यान्निक्के भी प्रसिद्ध कलाकार थे। राजकुमार जिदफिद का पार्ट कलाकार उखोफ ने किया था। पहिले दृश्य में एक बड़े भोज को दिखलाया गया था। राजकुमार ने दावत दी थी, जिसमें बहुत से नर-नारी शामिल हुए थे। बैले का मतलब ही है, जिसमें वाणी का पूर्णतया वायकाट हो, इसलिये गूँगे संकेतों से सारे काम चल रहे थे। गोया जिस भाषा में यहाँ अभिनय हो रहा था वह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा थी। बैले की सफलता का

एक ही प्रमाण है, कि आदर्सी का बिन बाणी के प्रयोग के सारी बातें साफ-साफ मालूम हो । बिले अपने नृत्य के कौशल के लिये भी प्रसिद्ध मानी जाती है । राजकुमार जिदफिद ने बाण से उड़ते हुए हंस को मारा । उस वक्त सामने सरोवर का दृश्य जिस तरह का था, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता, कि हम नाटक देख रहे हैं । सचमुच वहाँ सुन्दर पहाड़ों से घिरा एक विशाल सरोवर था, जिसमें पानी की लहरें भी उठ रही थीं, और लहरों का क्षीण स्वर भी सुनाई दे रहा था । उसी सरोवर पर से हंस उड़ता जा रहा था, जिसे राजकुमार ने बाण से बंध दिया था । आगे २४ बलेरिना (नर्तकियाँ) और उतने ही नर्तकों ने बद्धा सुन्दर नृत्य किया । द्वितीय दृश्य में सरोवर तरंगित था, जिसके ऊपर हंस-पंक्तियाँ धीरे धीरे तैर रही थीं । राजकुमार का पाठ लेने वाले उखोफ ने अपने नृत्य से लोगों को मुग्ध कर दिया । तृतीय दृश्य में राजा का दरवार था । राजा-रानी सिंहासन पर आसीन थे । यह राजकुमार के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हो रहा था । राजकुमार वहीं एक नदी के ऊपर मुग्ध हो गया । फिर अपनी प्रियतमा के हूँदने के लिये राजकुमार को कितने ही देशों में भटकना पड़ा । जिन देशों की विशेषता वहाँ के नृत्यों द्वारा प्रकट की गई थी । इस में स्पेन के भी नृत्य थे पोलैंड के भी । चौथे दृश्य में भी कई सुन्दर नृत्य थे । मारीन्सकी तियात्र के दरवाजे पर ट्राम का अड्डा है । नाट्यशाला के भीतर से नर-नारियों की भीड़ जो निकली तो, ट्रामों में जगह पाने में काफी समय लगा । खैरियत वही थी, कि सभी लोग एक तरफ नहीं जा रहे थे । सब अपने अपने नम्बर की ट्राम की खोज में थे । हम १२ बजे रातको उस दिन घर लौटे । चमड़े के ओवरकोट को पहनने से अब सरदी नहीं मालूम देती थी । वस्तुतः लेनिनग्राद की सरदी में मोटे से मोटा ऊनी कोट भी बहुत सहायक नहीं होता, यदि उसको चमड़े की सहायता न प्राप्त हो ।

क्रान्ति महोत्सव—बोल्शेविक क्रान्तिकी अब भी रूस में अक्षुब्ध-क्रान्ति कहा जाता है । पुराने पंचांग के अनुसार क्रान्ति अक्षुब्ध में हुई थी, यद्यपि आज-कल महोत्सव प्रतिवर्ष ७ नवम्बर को मनाया जाता है । रूसका यह सबसे बड़ा

महोत्सव दिन ( दिना प्रादैनिक ) है । हफ्ता भर पहिले से ही नगरों और गांवों में तैयारियां होने लगती हैं । युनिवर्सिटी में ४ नवम्बर को ही देखने से मालूम होता था, कि महोत्सव नजदीक है । ७ नवम्बर के दिन को जलूसों का जन-महा-सागर उमड़ता, उसमें छोटी संस्थाओं को कौन पृष्ठता, इसलिये वह अपने प्रोग्राम को पहिले ही से रखने लगती हैं । ५ नवम्बर को हमारे पास के बालोद्यान ने अपना महोत्सव मनाया था । जिनके बच्चे इस बालोद्यान में रहते थे, उनके माता-पिता निर्मंत्रित थे, और प्रायः सभी सम्मिलित भी हुए थे । लड़कों ने बाहर भी तैयारी की थी, लेकिन अधिकतर कार्यवाही बालोद्यान के शाल ( हाल ) में सम्पन्न हुई । बच्चे, मालूम ही है चार और सात बरस के बालोद्यान में रहते हैं । माता-पिता ने आज अच्छे अच्छे कपड़े पहिनाकर अपने लड़कों को भेजा था । लाल भंडिया लिये हुये दो पांती में जलूस निकालते, बालोद्यान के सभी लड़के-लड़कियां शाल में फिर, फिर बाजे के साथ कुछ गाने हुए । गाने की समाप्ति के बाद "उरा" ( हुरी ) नाद भी आवश्यक था, फिर नाच । इस प्रकार आज प्रायः १० बजे से शाम के ४-५ बजे तक उनका कोई न कोई प्रोग्राम चलता रहा ।

७ नवम्बर के दिन सड़कों पर चलना आसान नहीं था । त्रामवाय नगर के केन्द्र ( पुराने इमन्त-प्रामाद के मैदान ) तक नहीं जाती थी । नगर की मुख्य सड़क चेव्स्की से चलना भी मुश्किल था । रास्ते में न जाने कितने जलूस अपने भंडों, पताकों और नेताओं की तसवीरों के साथ चले जा रहे थे । हम साढ़े आठ बजे वरसे निकले थे । इस समय भी वहां भीड़ दिखाई पड़ती थी । होटल-युरोपा के चौरस्ते तक ही जाया जा सकता था, दूसरे रास्ते में भी इसीतरह रोक थी । आगे वही लोग जा सकते थे, जिनके पास पास थे । हमें मालूम नहीं था, नहीं तो पास मिलना कोई कठिन नहीं था, इसलिये चक्कर काटने के लिये मजबूर हुये । प्रासाद के ऊपर की ओर दूसरे पुल से नेवा नदी को पार किया । सारा नगर जलूसमय मालूम होता था । जहां तहां सैनिकों के भी जलूस थे । तुषारकण बरफ के नाम पर जब तब ही पड़ते थे, किन्तु आसमान बादलों से ढँका

हुया था, जिसके कारण सरदी भी कुछ बढ़ गयी थी। महोत्सव का दिन था फिर शराब पिये बिना कैसे गुजारा हो सकता था ? कितनों ने सोचा—शाम की जगह सवेरे से ही शुरू करदो—“शुभस्य शीघ्रम्”। तो भी मीलों के सफर से एकाध ही शराबो मिले, यद्यपि वह मोरियों में लुटके नहीं थे। हम जलूस की समाप्ति के समय तक सड़क पर नहीं रह सके, तो भी साढ़े आठ से चार बजे तक पूरे साढ़े सात घंटे चलते ही रहे। जहां तहां मिठाइयों और खाद्य-वस्तुओं की सजी हुई लारियां चलती फिरती दुकान का काम दे रहीं थीं। सबके ऊपर अपनी अपनी फैक्टरियों का नाम था। लड़कों के लिये खिलौनों और मिठाईयों का पूरा हाट लगा हुआ था। चीजों का दाम साधारण राशन-विहीन दुकानों से कुछ कम अवश्य था, लेकिन तो भी इतना नहीं था, कि लोग टोकरी की टोकरी चीजें खरीद लाते। सारे शहर में बरफ का कहीं नाम नहीं था। प्रकृति ने अपना ऐसा नियम बना रखा है, कि जहां निश्चित बिन्दु पर तापमान पहुंचे कि बिना पहिले से तैयारी किये एकवयक पानी भाप बन जाता है, उसी तरह एक निश्चित बिन्दु तक तापमान के गिरने पर वह हिम बन जाता है। नवम्बर के आगे भी कभी कभी इस तरह तापमान की आंखमिचौनी देखी जाती थी। उस वक्त बरफ के पिघलने से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता था। हां, वृक्षों की या मकानों की छ्वाया में सूर्य की किरणों के बहुत कम पहुंचने से बरफ नहीं गलती थी। इस साल बरफ कम पड़ने की बड़ी शिकायत थी।

६ नवम्बर को अभी भी मकान गरम नहीं हो रहा था। सरदी बहुत थी, जिसमें लिखना बहुत मुश्किल था। बिजली का चूल्हा जलाया, मगर उसमें कोई काम नहीं बना। बारह नवम्बर से जब मकान केंद्रीय, तापन द्वारा गरम किया जाने लगा, तो मकान के भीतर का तापमान १०° या १२° सेन्टीग्रेड हो गया और घर के भीतर आराम से काम किया जा सकता था। लेकिन अब एक दूसरी अड़चन आई। तपानेवाली मशीन दिन-रात घर-घर करती हुई चलती रहती, जो कानों को बुरा मालूम होता।

१३ नवम्बर को जर्ष ११ बजे पढ़ाने के लिये मैं विश्वविद्यालय

गया, तो नेवा में सवेर बरफ बहुत थी, मगर शामको सब पिबल गयी थी । युनिवर्सिटी के अधिकांश मकान नेवा के दाहिने तट पर हैं । जहां से दुनिया के दो सबसे विशाल गिरजों में से एक ईसाइकी-सन्तोर सामने दिखाई पड़ता था । हम निश्चित थे, कि अब बराबर के लिये मकान अदोरात्र गरम रहा करेगा । किन्तु १६ नवम्बर को मशीन खराब होगई, और मकान फिर ठंडे पड़ गये । मशीनों के विरोधी कह सकते हैं, कि मशीन-युगका अर्थ ही तकलीफें और तरद्दुद है । लेकिन क्या किया जाय, मशीन-युगसे बाहर जाया नहीं जा सकता । उस समय घर तपाना बहुत खर्चीला होगा, जिससे उसका उपयोग थोड़े ही आदमी ले सकेंगे । यह ठीक था, कि अमी सरकार और नागरिक संस्थाओं का सबसे अधिक ध्यान मकानों के बनवाने या मरम्मत कराने की ओर था । बहुत जगह तो उन्होंने जल्दी करने के ख्याल से, जिन दुतल्ले-तितल्ले मकानों को इंजीनियरों की सम्मति अनुसार मजबूत देखा, उन्हीं के ऊपर पुद दो मंजिलें और खड़ा करना शुरू किया था । नींव से मकान बनाने और मकान के ऊपर एकाध मंजिल बढ़ाने में श्रम और सामग्री की बड़ी बचत थी, इसीलिये ऐसा किया जा रहा था । बहुत से ऐसे मकान थे, जिनका लकड़ी का सारा सामान जल गया था, और तीन तीन चार-चार मंजिला दीवारें मजबूत खड़ी थीं, ऐसे मकानों को पहिले हाथमें लिया गया था, क्योंकि उनके बनने में जल्दी हो सकती थी । मकानों की मरम्मत और बनाने का काम बड़ी तेजी से हो रहा था, क्योंकि नगरपालिका लोगों के कष्ट को जानती थी । सबसे ज्यादा आदमियों को उधर खींचा गया था । इसका एक प्रभाव मास्को, लेनिनग्राद जैसे नगरों की प्रवृत्ति पर पड़ा था । अब वहां सौ में नब्बे सिपाही स्त्रियां थीं । चौरस्तों पर रास्तों की स्त्रियों के ही हाथ दिखा रहे थे । वामवाय के कंडक्टरों में तो शायद पहिले से ही स्त्रियां अधिक थीं; लेकिन अब झूह्वरों में भी पुरुषों का पता नहीं था । दूकानों, आफिसों में तो पहिले से ही स्त्री-राज्य था । सोवियतवाले सोचते थे कि पुरुषों को भारी कामों में भेजना चाहिए, हल्के कामों को तो स्त्रियां कर सकती हैं । पीछे तो मकान बनाने का विभाग चौबीसों घंटे अखरख काम करता था ।

हर आठ-आठ घंटे पर नये कमकर काम पर आ जाते थे। रात के खंघरे को दूर करने के लिये रायानर पिजली दे रही थी, लेकिन दिन-बिन्दु से नीचे के तापमान में बोली हुई सीपेन्ट सेकेन्डों में बरफ बन जाती, इसका तल उन्होंने पार्इषों में भरी भाग द्वारा कर लिया।

२४ नवम्बर को सरन की खबर मुजने से आयी। पता लगा, विद्यार्थियों और जनता के प्रदर्शन पर कलकत्ता में पुलिस ने गोली चला दी। २१-२२ नवम्बर दोनों दिन हड़ताल रही। २५ को कलकत्ता की हड़ताल का खबर वही पत्रों में छपी। मालूम हुआ, दो दिन गोलियों चलीं। हड़ताल में दूकानदारों ने भी साह दिया। ऐसी बड़ी खबर को भी जब दो तीन दिन बाद पढ़ने का मौका मिला, इससे आसानी से अन्दाजा लगाया जा सकता है, कि भारत की खबरें वहाँ कितनी दुर्लभ थीं, असल में खबरें तो पाठकों के लिये छापी जाती हैं। वही पाठकों में कितने होंगे, जो भारत की खबरों में दिलचस्पी रखते होंगे, इसलिये हमें कुढ़ने की आवश्यकता नहीं थी।

२७ नवम्बर को हमारे एक बनिष्ठ दोस्त तथा असहयोग के जमाने के साहकारी के पुत्र की चिट्ठी भारत से आयी। जब हम दोनों साथ काम करते थे, तो मित्र का यह छोटा सा बच्चा था। बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन उपाधि में कुमार लिखने से कुछ संदेह की गंध घाने लगी, तो भी डाक्टर की उपाधि से विभूषित देखकर संतोष हुआ। बहुत सालों बाद पता लगा, कि वह प्रेच्युएट तो होगये हैं, लेकिन घरफूँक बिगड़े तरुण हैं। मैंने हाल ही में “धरती की ओर” एक कन्नड उपन्यास के हिन्दी अनुवाद का संशोधन किया, उसमें एक पात्र इसी तरह का मिला। वह भी प्रेच्युएट था, और उसने अपनी सारी सम्पत्ति और इज्जत को बेच खाया था। कभी कभी औपन्यासिक कल्पनाओं का अस्तित्व एक व्यक्ति में भी बहुत आश्चर्यजनक रूप से देखा जाता है। हमारे “कुमार” साहब पिता के मरने के बाद अकेले पुत्र होने से अकेला घर के अकेला मालिक बने। यादत पहिले ही बिगड़ चुकी थी। अधिक लाइ प्यार और धुरी संगत से आदमियों के बिगड़ने की बहुत संभावना जरूर है, लेकिन कुछ के भीतर तो यह

सर्ज आनुवंशिक सा मालूम होता है, जिसका यह अर्थ नहीं कि आनुवंशिकता पिता माता से ही आये, उनकी तो बड़ी लम्बी बांह होती है। जो केवल संगत के कारण बिगड़ता है, उसके सुधरने की संभावना है, किसी समय भी वह पचटा खा सकता है। मैं नहीं जानता कि “कुमार साहब” किस तरह के मरीज हैं। उन्होंने अपने पिता की सम्पत्ति उड़ा डाली, पिता के सगे चचा भी निःसन्तान थे, उनके जीवन रहते तक तो “कुमार साहब” कुछ संकोच में रहे, लेकिन उनके आन्ध्र मुँदते दो वर्ष भी नहीं हुए, कि वह भी सम्पत्ति हवा होगई। गांव के किसी आदमी ने मंदिर में अपनी सम्पत्ति लगाकर दूस्ट बना दिया था, जिसमें दादा के घरने पर “कुमार साहब” मान-न-साह में तेरा मेहमान बन गये, और उसमें से भी जो कुछ निकल सका, उसे फ्रैंक-फ्रैंक दिया। “धरती की और” के नायक या उपनायक लच्चा ने अपनी सम्पत्ति समाप्त करने से पहिले ही गांव छोड़ दिया था, इसलिये उनका बोझ बड़े बड़े नगरों के ऊपर पड़ा। हमारे “कुमार साहब” गांव में ही डटे हुए हैं, और भले मानुषों की नाक में दम है। लोगों का लड़ना ही एक मात्र उनकी जीविका का साधन रह गया है। जिस वक्त मुझे उनकी चिट्ठी मिली थी, उस वक्त यह सारे गुण मालूम नहीं हुए थे, वह घरमें असन्तुष्ट थे, इसलिये रूस चला आना चाहते थे, लेकिन रूसवाले अगर इस तरह लोगों के आने की सुविधा करदें, तब तो लाखों आदमी हिन्दुस्तान छोड़कर वहां जाने के लिये तैयार हो जायेंगे। असन्तुष्ट शक्तियों की भारत में रूस बुलाने में साम्यवाद को उतना फायदा शोड़े ही हो सकता है, जितना कि उनके हिन्दुस्तान में रहने पर।

२ दिसम्बर का दिन आया। तापन-मशीन अब भी बिगड़ी पड़ी थी। चरके सीतार तापमान हिमविन्दु ने भी १२ सेन्टीग्रेड नीचे आ।

३ दिसम्बर को आदल घिरा हुआ था, सर्दी भी काफ़ी थी, जबकि मैं रेनिविर्सिटी गया। सभी छात्र-छात्रायें, अभ्युक्त-अध्यापिकायें और नागरिक जाइों की पूरी पोशाक में थे। स्त्रियों को अपनी पिंडली के सौन्दर्य को दिखाने के लिये रेशमी साजा पहिने देखकर बड़ा आश्चर्य होता था। कैसे वह इतनी सर्दी उस पतले सजि से बदीर्त कर लेती थी। किसी ने यह बतलाकर समाधान

कर दिया—खास मुंहपर कौन चमड़े की पोस्तीन पहिनता है ? आज युनि-  
वर्सिटी में पढ़ाई नहीं थी, हमारे भारतीय-विभाग की मासिक बैठक थी। विभा-  
गाध्यक्ष क्रासिकोफ और दूसरे अध्यापकों के साथ विद्यार्थियों के भी कुछ  
प्रतिनिधि उपस्थित थे। विद्यार्थियों की पढ़ाई की आलोचना हुई—जहां कुछ  
ब्रातों के लिये प्रशंसा हुई, वहां कुछ बेपग्वारी को शिकायत भी की गई। लेकिन  
प्रशंसा और निन्दा का अधिकार केवल अध्यापकों को ही नहीं था, विद्यार्थी भी  
अपने अध्यापकों की त्रुटियां बतला रहे थे। वस्तुतः लेनिनवाद या सोवियत के  
दूसरे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की कोई समस्या ही नहीं है। हमारे यहां  
विद्यार्थियों की उच्छ्वेखलता और अनुशासन-हीनता की शिकायत करते हुए  
अध्यापक बचते नहीं। पूछते हैं—कैसे इनको ठीक रखा जाय ? मेरा युनिवर्सिटी से  
संबन्ध था, इसीलिये उसी के बारे में मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। छोटी  
बड़ी दूसरी शिक्षण-संस्थाओं में भी वहां छात्र-छात्राओं की कोई समस्या नहीं है,  
इसका कारण वहां की सामाजिक व्यवस्था और शिक्षण-संस्थाओं का संगठन है।  
युनिवर्सिटी का प्रायः हर एक छात्र और छात्रा तरुण कम्प्युनिस्ट पक्षा का सदस्य  
होता है, जिसका अनुशासन सबसे कड़ा है। उसके अनुशासन का उल्लंघन  
छात्र किसी भी हालत में करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यह आत्मानुशा-  
सन है—अनुशासन को बाहर से लादा नहीं गया है, बल्कि भीतर से प्रकट किया  
गया है। कोई छात्र या छात्रा ऐसे काम को करने की हिम्मत कैसे कर सकती  
है, जिसे अपने देश, अपने समाज और संगठन की दृष्टि से बुरा समझा जाय।  
साथ ही अध्यापक और उनके छात्रों का संबन्ध स्वामी और दास, बड़े और  
बामन का नहीं है। १७ वर्ष पूरा करके छात्र-छात्रायें युनिवर्सिटी के चौखट के  
भीतर प्रविष्ट होते हैं, जिनके संबन्ध में वहां के अध्यापक हमारे पूर्वजों की नीति  
“प्राप्ते तु पोडेशे वर्षे पुत्रे भित्तवमाचरेन् ” का पालन करते हैं। यही वजह है  
कि न छात्रों को वहां तरुदुद उठाना पड़ता न अध्यापकों को।

जहां जून-जुलाई-अगस्त में दिन का पता ही नहीं था, भीधुलि और  
उषा में ही गिमरी हुई दो-तीन घंटों की रात सनम हो जाती थी, वहां क



दिसम्बर को देखा ४ वजे से पहिले ही अंधेरा हो गया था । ताजी बरफ अच्छी होती है, जरासी कड़ा होने पर उम पर चलने में चुर-चुर की आवाज के साथ मानों अपने कोमल हाथों से वह पैरों को दबाती है । पुरानी हो जाने पर भी जगतक कि वह अच्छी और सफेद दानेदार रहती है, तबतक कोई चिन्ता नहीं, लेकिन जब वह पत्थर होकर कुछ कुछ स्फटिक जैसी बन जाती है, तो हमारे जैसों को आफत था जानी है । ६ दिसम्बर को जड़े इतमीनान के साथ पैर बढ़ाते हेमन्त प्रासाद के पास वाली सड़क से जा रहे थे, यकायक पैर फिसला और बड़बड़ से ईजानिब ने जमीन पकड़ ली । इधर-उधर भाँकने की आवश्यकता नहीं थी । वहाँ आदमियों की कमी नहीं थी, लेकिन उस देश के लिये यह नई बात नहीं थी, इसलिये किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया, अथवा लोगों का सांस्कृतिक तत्व इतना ऊँचा हो गया है, कि किसी को गिरता देखकर हँसना पसन्द नहीं करते । मुझे शिका मिली, लेकिन कितना ही सावधानी रखने पर भी पाँच महीने के जाड़ा में दो-तीन बार गिरना जरूरी था । ऐसी श्रोत्रेवाज बरफ से जहाँ मैं संभल संभल कर चलता था, दूसरी तरफ देखता था तरफ-तरफियाँ फिसलने का आनन्द लेने के लिये अच्छी खासी बरफ को भी फिसलाऊ बनाते चलते थे । बचपन से उन्हें स्केटिंग का अभ्यास है, इसलिये वह अपने शरीर को तौल लेते हैं । मैं इस अवस्था में उसे साँबने की हिम्मत नहीं कर सकता था । ८ दिसम्बर को नेवा का धारा बीच में थोड़ी सी बढ़ रही थी, बाकी सारी जम चुकी थी । ९ दिसम्बर को तोपन-मशीन के मरम्मत का अब भी बात नहीं हो रही थी । खैर, हमारे बारे में एक बिजली की अंगीठी था गई, जिसके कमरे के भीतर का तापमान २२ सेंटीग्रेट रहने लगा, उसने एक कमरे का मुखद बना दिया ।

१० दिसम्बर को हमें विश्वविद्यालय नहीं जाना था । सोमवार होने के कारण वह स्नान का दिन था । लोला काम पर गई थी । हम हंगर का घरमें छोड़ स्नान ग्रह गये । लॉटकर आये तो दरवाजा भीतर से बन्द था । बहुत खटखटायी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था । हार गये, तो खिड़की की ओर से जाकर आवाज दी । तब भी कोई मंगबुगाहट नहीं हुई । घंटेभर करते रहे । फिर तरह तरह की

चिन्ता मग के शाने धागा । हरेक घर की एक कन्वेल ( नियामक ) कार्यालय रहता है । हमारा कन्वेल सीढ़ीपर खुलनेवाले हमारे दरवाजे की दूसरी तरफ था, जाकर हमने वहां की कुदिया से कहा । उसने आकर जोर जोर से धक्का लगाया, तब दरजरत की नींद खुली और आकर उन्होंने दरवाजा खोला । मैंने कहा— तुम्हारी भां से कहता हूँ, यह वन्दर बहुत खराब है, इसे हाट में बेंचकर दो छोटे-छोटे बन्दर लावेंगे, जो हतकी सकलीफ नहीं देंगे । फिर क्या था, हाथ पर पड़ने लगे । मैंने यह मधस्थाने का कौशिश की थी, कि तुम्हारी भां छुटपन में हाट से एक बन्दरिया के पास से तुम्हें खरीब लायी थी । अब वह कदना— नहीं मैं तो आमा कद पुन हूँ । तो मैं करता— तुम्हें याद नहीं है । तुम्हारे भी पूछ थी । अम्मा से उसे चक् से फाट दिया, फिर दवाई लगाकर के बहुत दिनों तक जोर जोर से चलती रही, तुम्हारे शरीर के बाल भी उड़ गये, फिर तुम आदमी के बच्चे की तरह होने लगे, अब तुम्हास सारा शरीर आदमी के बच्चे जैसा है, लेकिन कान अब भी उसी तरह के हैं । ईशर का कान गांवीनुमा है । लाड-ग्यार का लड़का था । तीन-तीन धार-दार बंस के लड़के बरफ में निघड़क फिसलते थे, किन्तु ईशर को जरा भी हिम्मत नहीं होती थी । किसी भी हिम्मत के खेल को खेलने के लिये वह तैयार नहीं था । मैंने नेवा के घाटपर देखा— एक सां ने अपने चार-पांच बरस के बच्चे को सानी ( वेपहिये की गाड़ी ) में बैठा कर ऊपर से ३० गज नीचे की और खिसका दिया और वह वहीं तेजी से सरकता हुआ नीचे चला गया । हिम्मत यजवृत करने का रास्ता यह है, लेकिन कांगरू भां क्या कमी अपने बच्चे के साथ ऐसी कर सकती है ?

दिसम्बर आधा बीतते बीतते अब नेवा पूरी तरह जम गई थी, ऊपर दानादार सीनी से सफेद हिमकी तह पड़ी थी । अब एक सुभीता हो गया था । पहिले हमें हेमन्त आसाद के अजदीक के पक्ष से नेवा को पार करने के लिये काफी चक्कर फाटना पड़ता था और अब हम अपने प्राण्यविभाग के दरवाजे से निकलते ही नेवामें घुस जाते और नाक की सीध चलकर ईसाइकोसबोर पहुंचते । वहीं ट्रास की टिकान थी । चौखस्ते और केन्द्रीय राजपथ से अलग होने के कारण

यहां ट्राम खाली मिल जाती थी। हम भर्जों में इसपर चढ़कर घर को खाना हो जाती। यदि इन्तुरिस्त से काम होता— अंग्रेजी अखबारों के लालच में काम रहता ही था— तो थोड़ा ही थामे इन्तुरिस्त का कार्यालय भी अस्तोरिया होटल में था। बरफ और जाड़े का प्रभाव ट्रामवे की गाड़ियों पर भी पड़ता था। जहां शून्य-विन्दु के पास तापमान पहुँचना, कि आदमी श्वास की जगह भाप निकालने लगते। आदमियों से भरी ट्रामवे में भाप जमा हो जाती, जो शीशों में जमकर उसपर एक खासी मोटी बरफ की तह लेप देती। रातके वक्त विशेष करके ट्रामवे में चढ़ने में एक दिक्कत यह होती, कि उतरने की टिकान का पता नहीं लगता। लोग नाखून से खरोंच-खरोंच कर जंगले के शीशों में कुछ जगह बना लेते, जहाँ से बाहर देखते। तापमान के ऊपर उठते ही यह बरफ अपने आप पिघलकर गिर जाती। २२ दिसम्बर को ऐसा ही हुआ था।

किसमस— २५ दिसम्बर ईसाईयों का सबसे बड़ा पर्वदिन है, लेकिन सोवियत में किसी भी धार्मिक पर्वदिन की छुट्टी नहीं होती। वहाँ लोग राष्ट्र के तौरपर धर्मका प्रदर्शन नहीं करते। हमारा यहाँ तो इन धार्मिक पर्वदिनों ने नाक में दम कर रखा है। हिन्दुओं के तो ३६५ दिन ही धार्मिक पर्व के हैं। अलग अलग संप्रदाय अपने अपने पर्व-दिनों की छुट्टी को मांग करते हैं। अंग्रेजों की चलाई परम्परा अब भी चली ही जा रही है। हाँ, नये, पुराने पर्वदिनों को थोड़ा मूँद कर माननेवाली सरकार भारत के सबसे महान् ऐतिहासिक पुरुष बुद्ध के जन्म और निर्वाण दिवस के लिये एक दिन की भी छुट्टी करना नहीं पसन्द करती।

सरकारी छुट्टी न भी हो, सरकार चाहे बिल्कुल धर्म निरपेक्ष हो, किन्तु वहाँ की जनता व्यक्तिगत तौर से धर्म-निरपेक्ष नहीं है। आज भी कहीं गिरजे अतवार के दिन सड़कों में मरे रहते हैं। किसमस के लिये हरी देवदार की शाखा खूब विकती है, और बहुत कम ही ऐसे घर होंगे, जिनमें त्रितमस वृक्ष लगा हो। आप-दादा बचपन से किसमस कल्पवृक्ष से सुपरिचित चले आये थे। मुन्दर हरी हरी देवदार-शाखाओं में तरह-तरह के खिलौने लटकते, बतियां

जवर्ता और चसती फल या स्वादिष्ट मिठाइयों का फल लटकता । खिलौनों और मिठाई को लड़के कैसे मूल सकते हैं ? इसलिये क्रिसमस का महत्व लड़कों के लिये बहुत था । यद्यपि रूसके नेताओं ने क्रिसमस के उत्सव की कालान्तरित करके बच्चों के दिवस और नव वर्ष के दिवस में परिणत करने की कोशिश की, लेकिन इसका फल इतना ही हुआ, कि अब २५ दिसम्बर को जगह लड़कों का उत्सव २५ से पहिली जनवरी तक का हो गया । हमारे घर में भी क्रिसमस कल्पवृक्ष गाड़ दिया गया था । उसके लिये खाने की मेज को एक और करना पड़ा । रंगीन बिजली के लट्टूबाले तार को भी शाखाओं में लगा दिया गया । कई छोटे छोटे खिलौने भी लटकाने गये । लड़के के लिये ऐसे ही खिलौनों का एक पूरी आलमारी भरी हुई थी, लेकिन फिर भी १ दर्जन नये खिलौनों की आवश्यकता जान पड़ी । अब तक ईगर को स्कोलिनक हो जाना चाहिये था, लेकिन जैसा कि पहिले कहा, चार दिन की कर्मा के कारण उसे अभी आलोचन में ही रखा गया था । यह लड़कों का सप्ताह था । सब अपने इष्ट-भित्तों को ले आकर अपने कल्पवृक्ष को दिखलाते और वह खिलौने, मिठाईयों और बिजली के लट्टूबालों पर अपनी गम्भीर राय देते । २५ दिसम्बर १९४५ का क्रिसमस बहुत सर्द था । तापमान हिमबिन्दु से २७° सेन्टीग्रेड (या पचास डिग्री फारनहाइट) नीचे था । तापमान के ऊंचे होने का हम भारतीयों को ज्ञान है । जब १००° फारनहाइट तापमान होता है, तो शरीर में पसीना बूने लगता है, १०४° होने पर विकलता होने लगती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा भी स्थान है, जहाँ तापमान ११६° तक पहुँचता है; जब कि धरके भीतर भी गर्मी असह्य हो जाती है, शरीर निप-चिप करने लगता है, कोई काम करने का मन नहीं करता । ऐसे तापमान का अनुमान रूसवालों को नहीं हो सकता । उसकी जगह उनको अलुभव है हिमबिन्दु से ५०°, ६०° तक तापमान का नीचे जाना । सारी दुनिया में कितनी ही गणित संबंधी बातें एकसी मानी जाती हैं, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी भयुक्त को तीनों लोकों से न्यारी ही रखना चाहा है । इंगलैंड और इंगलैंड के साम्राज्य को छोड़कर सारी दुनिया में लोग सड़कों और सड़कों पर दाहिने चलने

हैं, लेकिन अंग्रेज “बार्नो नलों” की बात को मानते हैं। जिस वक्त मारता गणराज्य घोषित होने जा रहा था, उसके एक ही दो दिन पहिले मैंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से कहा, कि अंग्रेजों के रक्त छोड़े कब से कम इस बड़े कर्त्तव्य का तो दूर कर दीजिये और २६ जनवरी (१९१७) को गणराज्य की घोषणा के साथ साथ यह भी घोषित कर दीजिए—आज से हमारे यहाँ चलना दाहिनी ओर होगा। ईरान, अफगानिस्तान, चीन, जैसे छोटे बड़े हमारे पड़ोसी राज्य दाहिने चलने को मानते हैं; अमेरिका, और यूरोप के सारे देश दाहिने चलने को स्वीकार करते हैं, फिर भारत क्यों अंग्रेजों के पीछे बावमागी बना रहे। राष्ट्रपति ने पसन्द किया, लेकिन वह अपने को असमर्थ पाते थे, कहा— नेहरूजी से कहिये। भला नेहरू जी की खोपड़ी में कभी यह बात घँसनेवाली थी।

राष्ट्र में भी सारी दुनिया शक्ति मानको मानती है। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर, अफगानिस्तान और ईरान तक में चलते हैं। सारी दुनिया इस वैज्ञानिक मान को मानती है। दशोत्तर ब्रिटिश के होने में विज्ञानमें इससे बहुत आसानी होती है, लेकिन अंग्रेज १२ इंच का १ फुट, ३ फुट का १ गज और १७६० गज का १ मील अभी भी मानते जा रहे हैं। थर्मामीटर में भी दुनिया शून्य डिग्री को हिमबिन्दु और सौ डिग्रीको उबाल-बिन्दु मान घेन्तीग्रेड तापमान का व्यवहार करती है, लेकिन अंग्रेज उस थर्मामीटर को स्वीकार करते हैं, जिसमें ३३ डिग्री पर हिमबिन्दु माना जाता है। विज्ञान संबन्धी कितनी ही बड़ी खोजें अंग्रेजों ने चाहे क्यों न की हों, लेकिन जाति के तौर पर वह महा-अवैज्ञानिक हैं। उसके साथ रहकर हम भी अपनी इस मूढ़ता का परिचय अंग्रेज-मिन्ने दूसरे लोगों के सामने दिखलाते हैं।

हाँ, तो—२७° (गण) तापमान कहने में जितना आसान मालूम होता है, उतना सहने में नहीं। हिमबिन्दु से २४° तक तापमान के नीचे जाने पर मुझे कोई खास तकलीफ नहीं मालूम होती थी। जैसे इतनी सर्दी में भी मैं लोगों को कान खोले देखता था, लेकिन मैं केवल आँख, नाक और मुँह को ही नंगा रखनेका पक्षपाती था। जब—२५° से नीचे तापमान जाता, तो उसका अग्र

सांस लेते समय छाती में मालूम देना । इस प्रकार नाक में निकली श्वासकी भाष मृदुन्दर आदमियों के श्रोत्रोंके ऊपर जम जाती, भीहों पर भी सकेटी पत जाती, और महिलाओं के आगे निकले बालों की भी रुपहला बना देती । इतना हीने पर भी मैं उसे असह्य नहीं अनुभव करता था । वस्तुतः आदमी जितना निम्न तापमान पर नियंत्रण कर सकता है, उतना उच्च तापमान पर नहीं । यदि हिमविन्दु से पचास डिग्री नीचे तापमान चला जाये, तो अधिक गरम कपड़ों की आवश्यकता होगी, जिनके नीचे चमड़ा या पोस्तीन रखना भी आवश्यक होगा । सारे शरीर को आप चमड़े के पतलून, चमड़े के कूट और ओवरकोट, चमड़े की टोपी तथा चमड़े के दस्तानों से गरम रख सकते हैं । अपनी द्वितीय यात्रा से मैं यह सारी चीजें ईरान में अपने साथ ले गया था, लेकिन अशकी केवल टोपी और ओवर कोट चमड़े के ले गया था । चमड़े के ओवरकोट का पहन कर तो निश्चय ही कड़ी से कड़ी सर्दी पर विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ११०°, ११२° डिग्री की अपने यहां की गर्मी पर आप कैसे नियंत्रण कर सकते हैं ? टंडे तहखानों में बैठने का रवाज हमारे यहां बहुत पुराना है, छिड़काल के साथ खसकी टट्टियां भी मदद करती हैं, और अब दिल्ली के देवताओं की कृपासे कम से कम उनकी कोठियों में वायु-नियंत्रित ( एयर कंडीशन्ड ) वातावरण रखने का प्रबन्ध हुआ है । लेकिन यह सभी साधन बहुत खर्चीले हैं और साथ ही ऐसे हैं, जो आपकी क्रियाशीलता और गति की रोक को हटा नहीं सकते । इसके विरुद्ध सर्द से सर्द मूलक में आप अपने शरीर भर को अच्छी तरह ढांक कर चल-फिर सकते हैं । सारा काम कर सकते हैं ।

२७° (सेन्टीग्रेड) हिमविन्दु से नीचे तापमान था, किन्तु तापन-भरान की मरम्मत का अभी कोई ठिकाना नहीं था । घर-घर में क्रिसमस की पारस्परिक मिठाई ( पुडिंग ) तैयार की गई थी । पनीर, अंडा, चीनी और क्या क्या न्यामतें मिलाकर यह रूसी पुडिंग तैयार होती है । उसके चौकुर पिंड के चारों पाश्वरों में क्रस ( सलेब ) का चिन्ह अंकित करने का सांचा प्रायः सभी घरों में होता है । यह मिठाई बड़ी स्वादिष्ट होती है, और प्रभु समीह का प्रसाद मानकर

बड़े सम्मान के साथ खाई जाती है। क्रिसमस के दिन जो इष्ट, मवि, भयंघों वगैरे मिलते आते हैं, वह इस प्रसाद में से थोड़ा अवश्य पाते हैं। पवित्रे क्रिसमस की बात तो मुझे याद नहीं, लेकिन १९४६ के क्रिसमस का दिन मुझे अच्छी तरह याद है। घरमें मिठाई बनाकर चुपचाप खाली नहीं जाती, बल्कि उसे गिरजा में भेजना पड़ता है, जहां कुशकी तरह की एक घास में गहूँ में रखे पवित्र जल को छिड़क कर पुरोहित भोग लगा देता है, तब वह घरमें लाकर खाई जाती है। हमारे यहां रख-यात्राओं और दूसरी जगहों पर इसी तरह भक्त लोग भोग लगाने के लिये अपनी अपनी चीज ले जाते हैं। रामलीला के चढ़ावे में आधा दोना खाली कर लेनेपर भी हमारे यहां के पुजारियों का संतोष नहीं होता, लेकिन रूसी पुजारा केवल पवित्र जल छिड़क भर देना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। पास ही के गिरजे में ईगर नौकराती के साथ भोग लगाने के लिये अपनी मिठाई ले गया था। उनके लौटने में दो घंटे से ऊपर लगे। पता लगा, गिरजा के द्वार ही नहीं, बल्कि उसके बाहर पराडंडी पर भी बहुत दूर तक भक्तों की दूहरी पंक्ति खड़ी थी। सबके पास पहुंचने में पुरोहित को काफी समय लगा, इसीलिये यह देर हुई।

कम्युनिज्म का दर्शन भले ही ईश्वर और धर्म का विरोधी हो, लेकिन लोगों के लिये धर्म का द्वाँड़ना उतना आसान नहीं है। सोवियत के तजर्ने में यह मालूम होता है। जिन लोगों को मसीह के भगवान् होने पर विश्वास नहीं बर भी जब अपनी कला, संस्कृति और इतिहास देखते हैं, तो पिछले सात-आठ बीस वर्षों में ईसाई धर्म के साथ उसका घनिष्ठ संबन्ध पाते हैं। हरेक आदमी की सहानुभूति और रुचि सदा अपनी परंपरा के साथ होती है। बचपन के भंकार भन्प्य के मन में सहज भूलनेवाले नहीं हैं। क्रिसमस को ही ले लीजिये, इसके साथ कितने पुराने संबन्ध याद आते हैं। आजकल पंचांग बदल गया है, किन्तु मुझे १९३७ का क्रिसमस याद है। डा० श्चेर्वात्स्की ने अपना क्रिसमस पुराने पंचांग के अनुसार मनाया था।

आदमी जिस परिस्थिति में रहता है, उसी के अनुसार अपनी आत्मारक्षा और सख्त का प्रबन्ध कर लेता है। रूस के लोग हजारों वर्षों में घटने तक के

लेबे बूट पहनने आये है। आजकल वह ज्यादातर चमड़े का होता है, लेकिन पूर्वजों का नमदे का बूट भी लुप्त नहीं हुआ है। यह वही बूट है, जो कि शकों के साथ भारत आया और वहाँ की सूर्य प्रतिमाओं के पैरों में आज भी दिखलाई पड़ता है। पुरुष को अपने कौट के ऊपर एक और कन्टोप जैसा जाड़ा की टोपी रखनी पड़ती है, जिसे खोलकर अवश्यकता पड़ने पर कान और गरदन को ढाँका जा सकता है, नहीं तो ऊपर करके उसे गोल टोपी बना दिया जाता है। अधिकतर टोपियाँ पोस्तीन या समूर की होती हैं। स्त्रियाँ ऐसी कन्टोपदार टोपी नहीं पहिनती, उसको जगह उनके ओवरकोट का कालर काफी बड़ा होता है, जिसमें चमड़ा या समूर भी मड़ा रहता है, जिस को उठा देने से सारा भिग कान और गरदन ढक जाता है।

२७ दिसम्बर को हम विश्वविद्यालय गये, तो वहाँ मध्यएशिया के एक प्रोफेसर से मुलाकात हुई। वह तुर्कमानी भाषा के पंडित तथा अशकाबाद में २२ साल से अध्यापन करते थे। अब हमारे सिर पर मध्यएशिया जाने की घुल सवार हुई। पिछले छ महीनों में मध्यएशिया के इतिहास और आधुनिक मध्यएशिया को जानने के लिये काफी पुस्तकें पढ़ी थीं। इतने दिनों में वह तो मालूम हो गया था, कि यहाँ रहकर हम पुस्तक नहीं लिख सकते। पुस्तक लिखें भी तो दुहरे सेंसरो के कारण उसका भारत में पहुँचना संदिग्ध है। फिर खो जाने के डर से दो दो कापी करना हमारे बस की बात नहीं थी। मन यहाँ कहता था, कि चलो सोवियत का दर्शन तीसरी बार भी कर लिया। यदि मध्यएशिया देखने का अवसर मिले, तो अचकी गरभियों में वहाँ चला जाय, नहीं तो देशका रास्ता पकड़ना ही अच्छा है। भारत की कोई खबर नहीं मिलती थी। चिट्ठियों के भी आने में छ छ महीने लग जाते थे। तुर्कमानिया के प्रोफेसर से मालूम हुआ, कि भारकी से अशकाबाद का वैमानिक किराया ७०० रूबल है। अकेले के लिये राशनकार्ड पर २० रूबल में होटल का इंतजाम हो जायगा। उनके कहने से मुझे मालूम होगया कि अग्रज जाने की आज्ञा मिल जाय, तो मैं अपने पैसों के बलपर भी वहाँ चार महीने धूम था सकता हूँ।



डोफेयर ने बतलाया, कि चीजों का दाब यहीं जैसा है, सिर्फ मौसिम के समय में वे कुछ सस्ते होते हैं। कद रह थे—वहाँ गरमी बहुत पड़ती है, इसलिये ऐन गरमी के महीनों ( मई, जून, जुलाई ) में नहीं जाना चाहिये, लेकिन उनको क्या मालूम कि हिन्दुस्तान में कितनी गरमी पड़ती है। उन्होंने बतलाया कि तुर्कमानिया में भी अरबी-भाषा-भाषी कहीं कहीं मिल जाते हैं, उजबेकिस्तान में और भी मिलेंगे। उनके कहने में यह भी मालूम हुआ कि तुर्कमानिया में बलोची और अरबी बोलने वालों के कुछ भाँव हैं। शामको लौटकर जब घर आया, तो देखा सकान गरम है—मशीन की सम्भत करदी गई थी।

२९ दिसम्बर को घरके भीतर तापमान—२२° और—१५° था, लेकिन गरमी बहुत मालूम नहीं होती थी। विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, इसलिये नया पाठ नहीं चल रहा था। ३० दिसम्बर से नववर्ष की तैयारी होने लगी। लाल भेड़ों और दूसरी चीजों से संस्कारों के घरों को सजाया जाने लगा।

३१ दिसम्बर भी आया। १९४५ का सन् विदाई लेने लगा और १९४६ थाने को हुआ। आज अपने सालभर के कामों का जब मैं लेखाजोखा करने लगा, तो मालूम हुआ इस साल में कुछ नहीं लिख सका। “मयुरस्वप्न” और “मध्यएसिया” के संबंध में साभग्री अवश्य जमा की, लेकिन मालूम नहीं उन्हें कब लिखने का मौका मिलेगा। अगला साल भी यदि इसी तरह पीता, तो बहुत बुरा होगा। आज सोफी के यहां दाबत थी। उसका पति ३ साल बाद लौटा था। पान दाबत का अनिवार्य अंग है, फिर उसके बाद नाच भी। मैं दोनों ही में अनारी था। सोफी ने बहुत चाहा कि यदि पीता नहीं तो थोड़ा नाच ही लूँ, लेकिन जिन्दगी में जब सीखा ही नहीं था, तो आज नाच कैसे सकता था। २ बजे रात तक दाबत चलती रही। मेहमान कुछ होश में और कुछ पैरों से लड़खड़ाते अपने घरों की तरफ चले। अगले वर्ष के लिये यहाँ सोचा कि यदि मध्यएसिया को अच्छी तरह देखने का मौका मिल गया, तो अगले ३६५ दिनों को भी यहां अर्पण करने के लिये तैयार हूँ।

## १-वसन्त की प्रतीक्षा (१९४६)

जहाँ दो दो सालों में बाटना बिलकुल बेवकूफी मालूम होती है—  
नवम्बर-दिसम्बर को १९४५ में और जनवरी-फरवरी को १९४६ में। वसन्त के आरम्भ से सम्बत्सर का आरम्भ ठीक था, लेकिन दुनिया परम्परा के पीछे इतनी पड़ी हुई है, कि वह अपने पंचांग में इस साधारण से सुधार के लिये भी तैयार नहीं है, चाहे इसके कारण आय-व्यय पेश करते समय एक साल की जगह १९४५-१९४६ भले ही लिखना पड़े। वसन्त की प्रतीक्षा जितनी उत्कण्ठा के साथ रूस जैसे ठंडे देशों में की जाती है, उतना हमारे देश में नहीं हो सकती। लड़कों की एक रूसी कविता में सुना था—

आ आ वसन्त, मेरी बहिनिया—

खिड़की पर बेंटी तेरी प्रतीक्षा कर रही है।

छोटी सी बहिनिया (सेस्तुच्का) नहीं बल्कि जवान-बूढ़े सभी वसन्त की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन लेनिनग्राद में उसके पहुँचने में अभी पूरे चार महीने की देरी थी। पहिली जनवरी को तापमान १२° से १५° था। ३ जनवरी को युनिवर्सिटी गये। प्रथम वर्ष के छात्रों को कुछ पढ़ाया, फिर अध्यापक तथा

चतुर्थवर्ष के छात्रों ने पाठ्य पुस्तक से भिन्न “मृच्छकटिक” नाटक शुरू किया। अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही थी। परीक्षा समाप्त होते ही कुछ दिनों की छुट्टी थी, इसलिये १० फरवरी तक के लिये मेरा युनिवर्सिटी में कोई काम नहीं था। मैं अब अधिकतर घर पर ही रह पुस्तकों को पढ़ता और उनमें नोट लेता।

८ जनवरी को पहिली बार देखा कि ५० कें करीब जर्मन बन्दी मेरा बिड़की के बाहर से जा रहे हैं। इसके बाद तो रोज १० वजे उन्हें काम की ओर जाते देखता और ४ वजे डेरे की ओर लौटते। उनकी देखभाल के लिये कर्मी कर्मी तो बन्दूक लिये एक स्त्री-सिपाही होती। बन्दियों के चेहरे उदास और शीघ्रान हो तो आश्चर्य ही क्या? हिटलर ने विश्वविजय के लिये उनको दुनिया के देशों में भेजा था। हिटलर तो दूसरे लोक को विजय करने चला गया, लेकिन यह बेचारे अपने देश से दूर रूस की मरुत सर्दों में काम करने के लिये छोड़ दिये गये थे। उनके खाने पीने का इंतजाम अच्छा था, यह उनके स्वरथ शरीर से मालूम होता था। हाँ, कपड़े उनके अपने पुराने फौज के थे, जो कुछ अधिक मँले थे।

१४ जनवरी का युनिवर्सिटी गये। चतुर्थवर्ष की दोनों छात्रायें संस्कृत में उत्तीर्ण हुईं। “मेवदूत” से कुछ प्रश्न पूछे गये। सोवियत के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में परीक्षा के लिये कागज-स्याही बिलकुल खर्च नहीं करनी पड़ती। परीक्षा मौखिक होती है, और परोक्ष होकर अपने ही अध्यापकों में से तीन कुर्सी पर आ बैठते हैं। पूछांक ५ होते हैं। छात्रायों के उत्तर देकर बाहर जाने के बाद तानिया को मैंने दो नंबर देने के लिये कहा, तो मेरे सहकर्मियों ने बतलाया— इसका अर्थ तो है फेल करना। जान पड़ता है फेल शब्द विद्यार्थियों में ही नहीं बर्जित है, बल्कि अध्यापकों और परीक्षकों में भी। पर्याप्त दिनों तक जिस छात्र ने उपस्थिति दी है, उसे सोवियत की विद्या-संस्था में फेल होने की संभावना ही नहीं है। प्रश्न का उत्तर देते समय विद्यार्थी अपनी सारी पुस्तकों को साथ रख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा स्मृति की नहीं बल्कि समझ की ली जाती है।

हमारे घर में अभी कोई नौकर नहीं था! राशन के जमाने में एक नौकर

थीं रखकर अ-राशन दुकान से दस गुने दामपर चीजें खरीदकर खिलाना आसान काम नहीं था। वर्तन मलना और चारपाई ठीक-ठाक करना मेरे जिम्मे था। जाड़े के दिन थे। नल का पानी काटने को दीड़ता था। मैं गरम पानी से धोने का पक्षपाती नहीं था, क्योंकि उसमें समय अधिक लगता था। और घर के नल के टंडे पानी से धोने पर एक मिनट में ही दर्द के मारे हाथ और मन तिलमिला उठते। हमारा तो यह सिद्धांत था—शारीरिक परिश्रम से बृणा करने की अवश्यकता नहीं, लेकिन उसमें इतना समय नहीं लगाना चाहिये कि लिखने पढ़ने के समय में कोताही हो। मालकिन का विचार कुछ दूसरा ही था। हम बैठे बैठे रात के १-२ बजे तक पढ़ते और नोट लेते रहते, जिसे वह बेकार समझती।

२४ जनवरी को जर्मन बन्दी सड़कों की बरफ पैंक रहे थे। मकान के काम को इस समय बन्द रखा गया था, लेकिन अगले जाड़ों में वह २४ घंटे अखंड चलता रहा। शहर की सभी बरफ तो कहां फेंकी जा सकती थी? छोटी छोटी सड़कों और गलियों की बरफ वसन्त के आरम्भ होने पर ही गलकर साफ होती, लेकिन बड़ी सड़कों पर उसे बराबर हटाते रहना पड़ता, नहीं तो ट्रामों और मोटरों का आना-जाना रुक जाता, क्योंकि बरफ पर चलने से वह ऊंची-नीची हो जाती है, जिसके कारण उसपर यानों का चलना सरल काम नहीं होता।

अभी भी भारत में क्या हो रहा है, इसके जानने का कोई इतिजाम नहीं हो सका था। स्थानीय रेडियो और रूसी समाचार पत्रों से काम चलनेवाला नहीं था। उनमें महीनों बाद शायद कभी कोई दो-चार पंक्तियाँ देखने-सुनने को मिलतीं। मुझे सबसे जरूरी मालूम होता था—एक रेडियो खरीदना, जिसमें देश विदेश की खबरें मालूम होती रहें, लेकिन यह इच्छा पूरी होने में अभी चार-साढ़ेचार महीनों की देर थी। २३ जनवरी की रात के रेडियो से मालूम हुआ, कि दिल्ली की एसेम्बली ने राष्ट्रीय सरकार की मांग की है। जाना में वहां के स्वतंत्रता-प्रेमियों को दवांकर फिर से डकों का राज्य कायम करने से अंग्रेजी सेना ने जब इंकार कर दिया, तो अंग्रेजों ने वहां भारतीय सेना भेजी। कहने को अब

विलायत में मजदूरदल का शासन था, जो अपने को समाजवादी कहने का अभिमान करता है, लेकिन विलायत की मजदूरपार्टी भी साम्राज्यवाद के अन्धानुसरण में अपने गौरी भाइयों से पीछे नहीं है। अब उसने भारतीय सेना का जावा में उपयोग करना शुरू किया था। दिल्ली की एसम्बली ने इसका भी विरोध किया था। “प्राब्दा” सोवियत के सबसे अधिक छपनेवाले दो रूसी पत्रों में से एक है। कुछ स्थानीय खबरों के साथ मास्को की “प्राब्दा” का लेनिन-ग्रादीय संस्करण भी निकलता था, जिसमें अन्तर्-पट्टीय खबरें और कुछ लेख भी रहते थे। चाहे खबरें दो-चार ही पंक्ति को कमो कमो निकलतीं हों, लेकिन उनसे यह मालूम हो रहा था, कि युद्ध के बाद का भारत चुपचाप अंग्रेजों के जुग को नहीं हो सकता। लेकिन मेरा वृद्ध नेताओं पर विश्वास नहीं था। मेने २३ जनवरी ( १९४६ ) की डायरी में लिखा था— वृद्ध नेता तो सभी कामों में रोड़ा अटकानेवाले हैं, राजनीति में और भी। नेता तरुणों को होना चाहिये। वृद्ध अपने ज्ञान और तज्जुबे से परामर्श दे सकते हैं। भारतीय हिन्दू राजनीतिक बुद्धों के ख्याल में ही नहीं आता, कि वह समय आनेवाला है जबकि हिन्दू-मुसलमानों को सीमायें रोटी-बेटी से भी मिट जायेंगी। ( हमारे वृद्ध नेता तो ) अर्थात् पर नजर डालकर समझौता करना चाहते हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो चुका था और ऐसे सीबण नरसंहार के साथ, जो कि “न भूतो न भविष्यति,” --सोवियत रूस को सत्तर लाख आदमियों की बलि चढ़ानी पड़ी। लेकिन २७ जनवरी को मैं देख रहा था, कि अन्तर्-पट्टीय लेख में फिर तनातनी शुरू हो गयी है। राष्ट्रसंघ की बैठक में सोवियत प्रतिनिधि ने जावा में अंग्रेजों तथा उसकी सहायक जापानी सेना के इस्तेमाल करने के विरोध में पत्र लिखा। उक्रइन के प्रतिनिधि ने ग्रीस में अंग्रेजों सेना को फासिज्म-पौषक नीति का विरोध किया। ईरानी प्रतिनिधि ने ईरान के भीतर हस्तक्षेप करने का इन्जाय रूस के ऊपर लगाया। कोरिया में सोवियत और अमेरिका रस्साकशी कर रहे थे। अमेरिका अल्पसंख्यक धनिकों के पक्ष में था और वहाँ को बहु-संख्यक पीड़ित जनता सोवियत के पक्ष में।

२ फरवरी को लोला के माई की लड़की माया आयी। वह मास्को में कालेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रही थी। अभी दो वर्ष और बाकी थे। माया के नामपर नाम से यह न समझे, कि उसके नाम पर बुद्धि की माना का कुछ अलग था। उसमें अब हजारों की तादाद में माया नाम-धारिणी-लड़कियाँ मिलेंगी। माया मई पहोना है। मई का प्रथम दिवस दुनिया के मजदूरों का पवित्र दिवस है, इसलिये जो लड़की मई महीने में पैदा होती है, उसका नाम माया रखने की कोशिश की जाती है। माया अच्छी सम्भवांग लड़की थी। बेचारी की माँ भर गई थी, और अत्यंत प्रतिभाशाली पिता जेल में था। वह सबसे तरुण सोवियत जनरल था। उसका दादा भी जारशाही युगका एक योग्य जनरल तथा सैनिक कालेज में रखित का अध्यापक था। माया के पिता ने तोपों के ऊपर एक खोजपूर्ण दिग्दर्श लिखा था, जिसके सिद्धान्तों को पीछे पाठ्यक्रम में ले लिया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध में वह जिस जेल में भी रहा होगा, अपने देश की ओर से लड़ने के लिये जरूर तड़कड़ाता होगा। कुछ लोग तो यहां तक अफवाह उड़ते थे, कि नाम बदलकर उसने फिनलैंड की लड़ाई में भाग लिया— कुछ लोग इसकेलिये कसम खाने के लिये भी तैयार थे। लेकिन यदि वह युद्ध में सोचे भाग लेने का अक्सर पाता, तो बुद्धि की सम्भासि के बाद उसे जेल में रहने की अशक्यता नहीं थी। हाँ, इसमें संदेह नहीं, कि सोवियतवाले अपने राज-बन्धियों की प्रतिभाओं का भी उपयोग करना भली भाँति जानते हैं, इसलिये अपने इस प्रतिभाशाली जनरल की प्रतिभाओं का उपयोग उन्होंने जरूर किया होगा। जनरल जांकुस्या बिलकुल निरपराध थे। जब १९३७ में विदेशी साम्राज्यवादियों से मिलकर उस समय के सोवियत भारील तुखाचेव्स्की तथा दूसरे कौजी अफसरों ने षड्यंत्र करके सोवियत शासन को उलटाना चाहा, उसी वक्त जो के साथ फिसनेवाले पुन की तरह जनरल जांकुस्या भी पकड़ लिये गये। तुखाचेव्स्की सबसे बड़ा सेनापति होने के कारण ऊँचे अफसरों पर प्रभाव रखता था। उसने उच्च अफसरों की बैठक बुलाई, जिसमें जनरल जांकुस्या भी चले गये। उपस्थिति-बढ़ी पर शायद हस्तान्तर भी कर चुके थे। जैसे ही दो चार

मिन्नट वात मुनने का मिला, प्रयोजन का पता लग गया और वह बैठक से उठकर चले आये । लेकिन षड्यंत्रियों को पकड़े जाने समय जांकुल्या भी पकड़ लिए गये और अब वह सजा पा जेलमें थे । माया ने बहुत जानने की कोशिश की, तो उसे बतलाया गया : तुम्हारे पिता स्वस्थ और प्रसन्न हैं, और वह साल-डेह-साल में बाहर चले आएंगे ।

जनरल जांकुल्या की तरह से हो सकता है, जो के साथ और भी कुछ युन पीस भये हों, लेकिन इसमें तो संदेह नहीं, कि सोवियत-शासन के विरुद्ध दुनिया की प्रथम समाजवादी सरकार के विरुद्ध तथा शारीरिक मानसिक कमकर्मों के भविष्य के विरुद्ध उस समय एक भीषण षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें जापान और जर्मनी ने पूरी सहायता की थी । उन्होंने ऐसा इंतजाम किया था कि सोवियत-शासन को खतम करके फिर वहां पूंजीपतियों की तानाशाही स्थापित कर दी जाय । जनरल जांकुल्या के पिता आरशाही जनरल थे, लेकिन उनका परिवार शुद्ध शिचित्तवर्ग से संबंध रखता था, इसलिये उनकी सहायुभूति आरशाही के साथ नहीं रह सकती थी । क्रान्ति के बाद उन्होंने बोल्शेविकों का साथ दिया । जांकुल्या तो होश संभालते ही लेनिन के पक्के भक्त थे । किन्तु जहां दतना जबर्दस्त खतरा हो वहां जो के साथ युन के पिसने का डर सदा ही रहता है । लेकिन भयंकर से भयंकर अपराध करनेवालों को भी मृत्यु दण्ड देने में सोवियत शासक बड़ा संकोच करते हैं, इसे उनके शत्रु भी मानते हैं । अच्छा होता यदि इस तरह की घटनायें बिलकुल ही नहीं होतीं । लोला का भाई होने के कारण जांकुल्या के बारे में मैं जितना जान सकता था, उतना ऊपरवालों की कैसे मालूम होता ? माया पढ़ने के लिये मास्को में दाखिल हुई थी । बीच में अब पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती थी । हम लोगों की इच्छा यही थी, कि वह यहाँ रहती तो अच्छा होता । वह अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिये फिनलैण्ड की खांडी के एक विश्रामालय में गयी हुई थी, जहाँ से लौटते वक्त अपनी बुआ से मिलने आयी थी ।

जाड़े का दिन भी कितना नीरस होता है ? हफ्ते-दो-हफ्ते की बात होती,

तो इसमें संदेह नहीं की, रजत-नाशिकी तरह जहाँ-तहाँ फैला बरफ, तथा चांगों और की निशब्द शान्ति बड़ी मोहक मालूम होती, लेकिन जब अकट्टघर में अप्रेल के अन्त तक वही दृश्य सामने रहे, तो कहीं से आकर्षण रहता। ऊपर में हरियाली के लिये आँखें तरसती थीं। अगर कहीं कोई देवदार का दरख्त हुआ, तो आँखों का जगसा विश्वास मिला, नहीं तो हर रंग का कहीं नाम नहीं था। और तो और चिड़ियों का भी पता नहीं था। केवल घरों में रहने वाली गौरैया सिकुड़ी-सिमटी कभी कभी बरफ पर इधर-उधर फुदकती दिखाई देती। पचासों तरह की चिड़ियाँ, जो गरमियाँ में चहचहायन करती थीं, वे सब अब गरम इलाकों को हँदते हुए दक्षिण की ओर चली गई थीं। जैसे जैसे तापमान गिरने लगता, वैसे वैसे यहाँ की चिड़ियाँ दक्षिण की ओर प्रयाण करती हैं। कहते मुना कि कौवे भी द्यमासा नौद लेकर आ जाते हैं, लेकिन मैं किसी कौवे को साँया नहीं देखा।

संसद का चुनाव— महाबुद्ध के बाद केन्द्रीय तथा प्रजातंत्रीय संवियत संसदों (पालियामेंटों) का चुनाव होने जा रहा था। एक ही सूची में दिये हुए व्यक्तियों पर वोट देना था। कोई विरोधी उम्मेदवार खड़ा नहीं हुआ था, तो भी चुनाव के लिये जितना प्रचार और तत्परता रूस में देखी जाती थी, वह किसी देश के चुनाव से कम नहीं थी। शहर के बड़े बड़े मकानों की दीवारों पर उम्मेदवारों के बड़े बड़े फोटो लटक रहे थे। हजारों सिनेमा-घरों में चुनाव की स्लाइड दिखाया जाता था। व्याख्यान भी उसी तरह जोर शोर से हो रहे थे। कहीं कहीं तो चलते फिरते सिनेमा किसी दीवार को ही रजतपट बनाकर दिखाया जा रहे थे। चुनाव ठीक तरह से हो, इसके लिये निरीक्षक समितियाँ चुनी जा चुकी थीं। हमारे चुनाव-क्षेत्र की निरीक्षक समिति में लाला भी सम्मिलित थी।

१० फरवरी को चुनाव का दिन आया। इतवार होने से वैसे ही उस दिन छुट्टी थी। सुबह छ बजे से ही लोग वोट देने के लिये जाने लगे। प्रचारक समझते थे, कि मैं भी वोट दूँ, उन्हें निराशा हुई, जब मैंने कहा कि मैं सोवियत नागरिक नहीं हूँ। तब तक स्थानीय प्रचारक तीनबार हमारे घर में



या चुके थे, जब कि एक बड़े लोला अपने वोट देने के लिये १४ नम्बर के चुनाव स्थान में गयीं, जो पास के ही स्कूल में था। सड़कों पर रास्ता बतलाने के लिये रंगीन पट्टियाँ लगी हुई थीं। चुनाव-स्थान में और भी भंडे पताके लगे थे। अकारादि-नाम-सूची लिये काग-पांच मेजों पर लोग बैठे हुए थे। नाम बतलाया, रजिस्टर पर निशान किया गया, वोट का कागज लिफाफे के साथ दिया गया। चूंकि इस स्थान से कलिनिन और उदानोफ दो उम्मीदवार संसद की दोनों उच्च संस्थाओं के लिये खड़े हुए थे, इसलिये हरेक वोटर को दो रंग की पर्चियाँ मिलीं थीं। यदि कोई अपनी पर्ची में कुछ लिखना चाहता, तो लाल परदे के घेरे के भीतर अलग अलग कुछ छोटे छोटे डैक्स रखे हुए थे, जहां जाकर वह लिख सकता था। किसीने किसीको वोट दिया, इसके जानने का वहां कोई उपाय नहीं था। प्रबन्ध बड़ा अच्छा था, इसलिये अधिक भीड़ नहीं थी, यद्यपि वोटों में से १५-६ फीसदी से भी ज्यादा वोट देने गये थे। चुनाव-सहोत्सव में गाने बजाने, नाचने को कैसे भूला जा सकता था ?

रेडियो और एक कैमरा दो चीजों की आवश्यकता मैं अपने लिये बहुत समझता था। कैमरा मैं अपना भारत की सीमा से बाहर न ले आने पाया और उसे ब्रेटा में छोड़ आया था। कैमरे से पहिले भी मुझे रेडियो की जरूरत थी, किन्तु रेडियो का अभी डील नहीं लग रहा था। अभी दाम बहुत ज्यादा था। लोग कह रहे थे— कारखाने अब रेडियो तैयार करने लगे हैं, कुछ ही महीनों में वह बाजार में बड़ी संख्या में आजायेंगे, तब दाम कम हो जायगा और मशीन भी अच्छी मिलेगी। अत्यावश्यक होने पर भी मैं रेडियो नहीं ले पा रहा था। सोवियत के शहरों में पुरानी चीजों के बेचने का वड़ा ही सुव्यवस्थित प्रबन्ध है। पुरानी किताबों की दुकानें २ दर्जन के करीब तो मेरे रास्ते पर थीं, जिनका नक्कर काटना मैं अपने लिये अनिवार्य समझता था। उसी तरह दूसरी पुरानी चीजों की भी दुकानें थीं। २२ फरवरी को मैं एक ऐसी ही दुकान में गया, वहां लाइका के ढंग का सोवियत का बना "फेद" कैमरा देखा। लेंस ३.५ शक्ति का था और दाम १.१ सौ रूबल। यद्यपि वहां असली लाइका कैमरे भी थे, किन्तु दाम ३

हजार स्वतंत्र ( २ हजार रुपया ) था । स्वतंत्र का जो मूल्य हमारी दृष्टि में था, उसके लिहाज से दाम ज्यादा नहीं था, लेकिन तो भी हम यह नहीं चाहते थे, कि कोई हमें फजूकखर्च कहे, इसलिये हमने फेद को ले लिया और सोवियत में रहते उससे कितने ही फोटो भी लिये, यद्यपि उनका उपयोग लेखों के न लिखने के कारण नहीं हो सका ।

१४ फरवरी को दृत्व-म्यूजियम देखने गये । लेनिनमार्ग में म्यूजियमों की संख्या ४ दर्जन से भी ऊपर है, और सब अपना अपना महत्व रखते हैं । इस म्यूजियम में हमने सिबेरिया की जातियों की खास प्रदर्शनी को देखा, जो कि उस बक्त हो रही थी । चुकची, तुंगुस, याकूत्, कम्बूत और सखालीन जैसी जनजातियों का फलकवा यहाँ बहुत अच्छा संग्रह था । साइबेरिया की इन जातियों को उनके आदिम जीवन से आधुनिक जीवन में लाने के लिये जब आवश्यकता पड़ी, तो सबसे पहिले जरूरी काम था, उनके भीतर से निरचरता का दूर करना । उनमें लिखने-पढ़ने का कोई स्वाज नहीं था, इसलिये अध्यापक कहां से मिलते ? रूसी या दूसरे भाषा-भाषी अध्यापक मिल सकते थे, लेकिन सोवियत की नीति है— हरेक को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देना । यहाँ केवल नीति का मवाल ही नहीं था, बल्कि व्यवहारतः भी यही लक्ष्य पर पहुँचने का सबसे छोटा रास्ता हो सकता था । उस बक्त यह जरूरी समझा गया, कि थोड़े बहुत भी भाषा जानने वाले रूसी या दूसरे लोगों को उनके भीतर भेजा जाय, लेकिन जब शिक्षा को और आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ी, तो बाकायदा प्रशिक्षित अध्यापकों के तैयार करने के लिये लेनिनमार्ग में स्कूल खोला गया । अत्यन्त शीत ध्रुव-कक्षीय प्रदेश के रहने वाले लोगों के लिये मास्को भी गरम था, जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर बुरा पड़ता, इसकेलिये लेनिनमार्ग को उपयुक्त समझा गया । अब तो शायद वह स्कूल भी नहीं है । लेनिनमार्ग युनिवर्सिटी में भी इन जातियों के कई खडकें लड़कियाँ पढ़ रहे थे । उच्चशिक्षा में भी वह काफी दूर तक आगे बढ़ चुके थे । म्यूजियम के डायरेक्टरने भारतीय सामग्री को भी दिखलाने की बड़ी उत्सुकता प्रकट की, लेकिन अभी वह भाग खुला नहीं था । उन्होंने सिबेरिया

की जातियों की प्रदर्शनी को स्वयं दिखलाया। वहाँ उनके हाथ की बनी हुई बहुत सी कलापूर्ण चीजें रक्की थीं— परिवान, खिलौने, घरेलू बर्तन, आखेट की चीजें आदि थीं। सोवियत मध्यएशिया में मिली हुई सबसे पुरानी खोपड़ी (तकिश-ताश मानव) का भी नमूना तथा उस खोपड़ी के आधार पर बना शरीर भी वहाँ देखने को मिला। गिगमिमीए खोपड़ी देखकर अमली मूर्ति बना देने में बड़ा सिद्धांश कावाकार माना जाता है। उसने तैमूर की खोपड़ी से जो आकृति बनाई, वह तैमूर के समकालीन चित्रों से बिलकुल मिल जाती है। अतः यह है कि जहाँ तक चेहरे का सम्बन्ध है, हड्डियाँ निर्णायक होती हैं। खोपड़ी पर चमड़ा, थोड़े स्नायु और कुछ चरबी ही तो और लगती है। उतनी मोटी तह जमाकर हम खोपड़ी को असली चेहरे का रूप दे सकते हैं। यहाँ के पुस्तकालय में कई भाषाओं में काफी पुस्तकें हैं। मेरे सामने मध्यएशिया के इतिहास में शकों की समस्या थी। मैं कुछ निष्कर्ष पर पहुँच चुका था, लेकिन जब तक दूसरे विशेषज्ञ भी उससे सहमत न हों, तब तक अधिक आत्मविश्वास अच्छा नहीं है, इसे मैं मानता था। मैंने म्यूजियम के डायरेक्टर से इस विषय पर बातचीत की। उन्होंने बतलाया, कि डायक्टर वेर्नस्ताम इस विषय के विशेषज्ञ हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा था— छठी सदी ईसा-पूर्व में शक कारिपयन के उत्तर, उत्तर-पश्चिम में जहाँ दैन्यूव के तट तक फैले हुए थे, वहाँ साथ ही वे दरबन्द (काकेशस) और सिरदरिया के उत्तर होने आगे तक चले गये थे। चौथी सदी ईसा-पूर्व में सिकन्दर के समय भी वह शिरसे दन्व तक थे। द्वितीय सदी ईसा-पूर्व में सप्तनद के नीली आँखों तथा लाल बालों वाले ब्रूसन भी शक थे। उस समय तरिम-उपत्यका में भी यही जाति रहती थी। पीछे ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी में पूरब से हूणों के प्रहार के कारण उन्हें धीरे धीरे दक्खिन और पच्छिम की ओर भागना पड़ा। २ फरवरी के “मास्को न्यूज” में शकों के बारे में एक लेख पढ़ने को मिला, जिससे मालूम हुआ कि कालासागर के उत्तर-पूरब में शक राज्य चौथी सदी ईस्वी तक थे। इस मूमि में आज कल सोवियत पुरातत्व विभाग बड़े सारी पैमाने पर खुदाई का काम कर रहा है। क्रिमिया में नियोपोलिस शकों की

राजधानी थी, जिसका जिक्र पुराने लेखकों ने किया है। खुदाईयों से मालूम होता है, कि इस जगह पर ईसा-पूर्व चौथी सदी में एक शक्ति नगरी थी, जिसके चारों ओर मोटा प्राकार था। खरों में कमरे बड़े बड़े थे। घर के आंगन में संगमरमर के प्याले मिले, कुछ ग्रीक मूर्तियाँ भी प्राप्त हुए और दूसरी तरह से भी पता लगा कि इन शकों पर ग्रीक संस्कृतिका बहुत प्रभाव पड़ा था। उनके खरों और बर्तनों के मजाने, अलंकरण करने का ढंग वही था, जिसका प्रभाव आजकल भी उकइन के पुराने खरों में मिलता है। जेवरों को देखने से मालूम होता है कि उनका प्रभाव बहुत पीछे तक रहा है। अर्तों और खिलौनों को अलंकृत करने में रूसी हाल तक उसी ढंगका अनुसरण करते रहे हैं। यह सांस्कृतिक चिन्ह जो शकों (सिथियन) के साथ संबन्ध बतलाते हैं, काला सागर के सारे उत्तरी तट से होते दन्यूब के किनारे तक मिलते हैं।

उधर हमारा पठन-पाठन और नोट लेना भी चल रहा था। चौका-बर्तन करते वक्त खरों की शिकायत भी करनी पड़ती थी, जब तब रेडियो दो चार शब्दों में भारत की खबर दे देता, जिसमें मन और कल्पना दूसरी ओर दौड़ चड़ती। १५ फरवरी को मालूम हुआ कि कलकत्ता में भारी हड़ताल हुई है। टैंक आदि के साथ गोरी फ्लटनें बुलाली गई हैं, गोली से दर्जनों आदमी मारे गये हैं—“एटली की सरकार जर्मिल से क्यों पीछे रहने लगी? लेकिन यह तो निश्चय ही था, कि तोपों और टैंकों के सहारे अब हिन्दुस्तान पर राज्य नहीं किया जा सकता। रूसी कथाकाली (बैले) तो कई देख चुके थे। अरमनी कथाकाली “रायाने” की खरों और बड़ी चर्चा सुनी। सोचा इसे भी देख लेना चाहिये। अरमनी देश कथाकाली के लिये तो प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन रूसको विश्वविख्यात बैले का पथ-प्रदर्शन जब उसे मिला, तो वह कैसे पीछे रह सकती थी? मारिस्की नाट्यशाला में १७ फरवरी को उसे देखने गये। सचमुच ही बहुत सुन्दर नाट्य था। सोवियत के प्रथम श्रेणी के कलाकारों में एक अरमनी खचतुर्यान ने इस बैले को तैयार किया था। बैले में जब भाषा का पूर्ण तौर से वायकाट है, तो उसे रूसी कहें या अरमनी इसका मवाल ही नहीं उठता। जहाँ तक देश,

काल, पत्रा का संबन्ध है, उसके सजाने में तो आज के रूसी परम अर्थवादी होते हैं। यदि वह शकुन्तला का ब्रैले तैयार करें, तो उसमें कालिदास के भारत का अंकित करने की कोशिश करेंगे— शकुन्तला का ब्रैले तो नहीं तैयार हुआ है, लेकिन नाटक के रूप में अभिज्ञान शाकुन्तला सोवियत-काल में भी कई बार खेला जा चुका है। “गयाने” के सारे नट-नटी रूसी थे। नृत्य बड़े सुन्दर थे, दृश्य बड़े ही मनोहर, वेश-भूषा भी अकर्षक, भावों की कोमलता के बारेमें कहना ही क्या? यवनिकाओं से तैयार किये दृश्य बहुत ही स्वाभाविक विशद और विशाल थे। स्वर सायद अरमनी थे। वहाँ अरमनी अभिनेय और नृत्य के भावों की अत्यन्त कोमलता देखी जाती थी, किन्तु उकड़नी और रूसी नृत्य जो इस ब्रैले में दिखाये गये थे, उनमें कबीलेशाही परंपरा भी स्पष्ट ढाँच भालूम होती थी। जान-पड़ता है, भजगामिता ऐसियासी नारियों पर ही उभरा लागू है, क्रुद-फाँदकर चलने वाली युरोपियन नारियाँ भला भजगमन करना क्या जानें! लेकिन “गयाने” में नट-नटियों के रूसी होने पर भी उन्होंने ऐसियासी कोमलता का निर्वाह बड़े सुन्दर तौर से किया था।

१८ फरवरी को तापमान हिमविन्दु से १५° सेन्टीग्रेड नीचे था, लेकिन मैं अब सर्दी का अभ्यस्त हो चुका था। नेवा जमी हुई थी, और हम विश्वविद्यालय से लौटते समय उसे सीधे पारकर इसाइकी-सर्वोस में ट्रांम पकड़ते।

लेनिनग्राद युनिवर्सिटी के शास्त्र-विभाग के दैकन (चीन) प्रोफेसर स्टाइन अर्थशास्त्र और राजनीति के एक माने हुए पंडित हैं। चीन में एक बार वह परामर्श दाता बन करके रह चुके थे और भारत के बारे में भी उनका अध्ययन बड़ा गंभीर था। उन्होंने चीनी राजनीति और कौटिल्य पर हाल ही में एक लेख लिखा था। उनसे चीन और भारत के राजनीतिक सिद्धान्तों के दानादान पर देर तक बातचीत होती रही। बौद्ध धर्म और दर्शन के दानादान के बारे में मैं भी कुछ जानता था, लेकिन भारत और चीन के दो हजार साल पहिले आरम्भ हुए सांस्कृतिक संबंध में राजनीतिक दानादान कितना हुआ था, इसका पता नहीं था। मैं जो कुछ भी जानता था उसे बतलाता रहा, लेकिन

में ज्ञान कोटिस्थ के अर्थशास्त्र से अधिक नहीं था। उस दिन (२० फरवरी) जब मैं कबाड़ियों की दुकानों में किताबों की खोज में निकला, तो मेरे साथ हिन्दी की लेखरर दीना भारकोवना मोल्दमान भी थीं। उन्होंने बतलाया, कि हमारे रहने के स्थान के पास खितनी में अकदमी की एक बड़ी अच्छी दुकान है। मैंने उनके साथ जा वहाँ से ३३० रूबल में पुरातत्व और मध्यएशिया संबंधी खितनी ही पुस्तकें खरीदीं। जैसे और चीजें राशनहीन दुकानों पर मद्दगी मिलती हैं, किताबों की वैसी हालत नहीं थी, इसलिये ज्यादा लोगों को प्रिय पुस्तकें इन दुकानों में आकर भी टिकती नहीं थीं। यहाँ पर मुझे १९०४-१९०५ की छपी पुरातत्व संबंधी किताबें दीख पड़ी।

२३ फरवरी को छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण खबर भारत के बारे में रेडियो से मिली। बम्बई में भारतीय नौसैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मार्क्स का कहना ठीक होने जा रहा है। आधुनिक सैनिक विद्या में शिक्षित-दीक्षित भारतीय अपनी बन्दूकों को सदा अंग्रेजों के लिये ही नहीं उठाते रहेंगे, बल्कि कभी वह उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लिये भी उठायेंगे। आज वह उठने लगी हैं।

पश्चिम के समृद्ध और समुच्चत देशों में भी खितनी ही चीजें मिलती हैं, लेकिन उनका उपयोग हजार में एक आदमी से भी कम के लिये होता है। सोवियत में शारीरिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के साधन इतने बड़े पैमानेपर हैं, कि उनसे सारी जनता फायदा उठाती है। यदि वहाँ शिशुशालायें हैं, तो उनमें डेढ़ महीने से तीन वर्ष के सोवियत के सभी बच्चों को रखकर लालन-पालन का प्रबन्ध है। यदि बालोद्यान हैं, तो वह इतने अधिक हैं, कि उनमें चौथे बरस से सातवें बरस के अन्त तक के सोवियत-भूमि के सारे लड़के रखे जा सकते हैं। यह बहुत खर्चीली चीज है। ईगर की तरह १४० रूबल मासिक देनेवाले माता-पिता नहीं देते, लेकिन सबके लिये वहाँ अलग-अलग चारपाइयाँ, गद्दे, तकिया, चादर-लिहाफ, तौलिया, वर्तन, कुर्सी, मेज, खेलने के सामान सभी जमा किये हुये हैं। बालोद्यानों में खेलते खेलते अधिक से अधिक चीजें

और उनके गुणों के बारे में ज्ञानवृद्धि के साधन के तौर पर कृत्त, सूत्र, मेडें, थकरियां, मुमें और पर्जा भी रखे जाते हैं। पृत्तों का तो एक अच्छा खासा उद्यान हरक थालोथान के साथ लगा होता है। इसके अनिरीक्त चाचियां अपने बच्चों की जमात को लेकर नगर के दर्शनीय कौतुकारागों (म्यूजियम), उद्यानों, प्राग्-उद्यानों तथा कितने ही ऐतिहासिक स्थानों तथा प्राकृत सौंदर्य की जगहों को दिखलाने के लिये ले जाती हैं। बालकों के लिये अपने सिनेमा भी होते हैं, जिनमें उनके समझने लायक विषयको ही प्रस्तुत किया जाता है। एक समय भूतों प्रेतों की कहानियों को मिथ्याविश्वास फैलाने में सहायक समझकर ऐसी किताबों को छापना बन्द कर दिया गया था, लेकिन पीछे पता लगा, कि मिथ्याविश्वास से आंख बचीने से काम नहीं चल सकता, उसके तो सामने जाकर मुकाबिला करने की आवश्यकता है, और वह मुकाबिला बुद्धि और परित्ज्ञान द्वारा ही हो सकता है। अब जहाँ पंचतंत्र की तरह की पशु-पक्षियों की कहानियों से बच्चों का मनोरंजन और ज्ञान-वर्धन कराया जाता है, वहाँ भूतों प्रेतों की कहानियों को कहने में भी परहेज नहीं किया जाता। बच्चों के मनोरंजन और ज्ञान-वर्धन का एक और साधन है, सोवियत के पुतली नाटक (कुकल्यो तियात्र)।

२४ फरवरी को ईगर के साथ हम पुतली नाटक देखने गये। तमाशा था अलादीन और चिराग। नाट्यशाला दर्शकों से भरी हुई थी, जिनमें ८० सैंकड़ा बच्चे थे, और २० सैंकड़ा उनके साथ गये अभिभावक। हम लितनी के पीछे की नाट्यशाला में गये थे—नेव्स्की पय पर भी एक पुतली नाट्यशाला थी। अभिनय ६ बजे से ८ बजे के करीब तक हुआ। लड़के तो देखते देखते लोट-पोट हो रहे थे। अलादीन के चिराग में कोई ऐसी बात नहीं रखी गई थी, जिसे कि ८-९ बरस तक की उमर वाले लड़के न समझ सकें। चाहे सिनेमा हों, चाहे नाटक, चाहे वयस्कों के मनोरंजन की वस्तु हो या शिशुओं की, हर जगह सोवियत के निर्माता और कलाकार अपनी सफलता अपनी नहीं, बल्कि अपने दर्शकों की मानसिक प्रतिक्रिया से नापते हैं। हरक ऐसी प्रस्तुत की जानेवाली वस्तु को पहिले प्रेक्षकों के सामने परिणाम पेश किया जाता है, और उनके

मनोभाव को देखकर काफी सधार करने के बाद उसे जनता के सामन लाया जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि “अलादीन के चिराग” में बच्चों का बड़ा मनोरंजन हुआ, और वयस्कों का भी अच्छा मनोविनोद।

२६ फरवरी को हमारे चौथे वर्ष की द्वात्रा वर्षा बड़ी प्रसन्न थी। बोली आज चीनी का दाम बिना कार्ड के १२० रुबल ( ८० रुपया ) प्रति किलोग्राम ( म्या सेर ) हो गया। वह स्वयं और उसकी सखियां यह खबर सुनने ही बिना राशन की दुकानों पर टूट पड़ीं। कहती थीं—बहुत आदमी होगये थे, इसलिये आधा किलोग्राम ( टाई पाव ) चीनी ही मिल सकी। चौसठ रुपया सेर, या चार रुपया ब्रटांक चीनी हमारे लोगों के लिए तो बड़े आश्चर्य की बात होगी, और यहां किसी की टूट पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन वहां उस दिन सचमुच ही बड़ा आनन्द मनाया जा रहा था। इसका यह मतलब नहीं कि उनको चीनी मिलती ही नहीं थी। राशन में चीनी सबको पर्याप्त मिलती थी, जिसमें रोज की चाय के अतिरिक्त हफ्ते में एकवाच दिन मीठी पुडिंग भी बनाई जा सकती थी, लेकिन हमारे यहां की तरह रूसी भी मिठाई की चीजों के बड़े शौकीन हैं, अबतक खुलकर चीनी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और अब उन्हें मौका मिला था। राशन से मिलनेवाली चीनी बहुत सस्ती थी। और इससे पहिले बिना राशन की चीनी १६० रुबल किलो थी। प्रतिकिलो मूल्य में ४० रुबल की कमी जरूर ही खुशी की बात थी। पूंजीवादी अर्थशास्त्र के जाननेवाले या क्रम से कम वहां के साधारण शिक्षित बिना-राशन की दुकानों को चोरबाजारी की दुकान कहने की गलती कर सकते हैं, लेकिन बिना राशन की दुकानों में जो अतिरिक्त चीजें १० गुने २० गुने दामपर बेची जाती थीं, उनका पैसा किसी चोरबाजारी सेठ के हाथ में नहीं जाता, बल्कि वह सरकारी खजाने में जाकर नवनिर्माण की योजना में लगता है। और जैसे ही जैसे टूटे हुए कारखानों का पुर्नवास और नये कारखानों का नवनिर्माण होता जाता था, वैसे ही उत्पादन बढ़ता, और उसके ही अनुसार दाम गिराया जाता था। इसका ही फल था १६० रुबल से चीनी के भाव का १२० रुबल पर पहुंचना। हमें उसकी विशेषता



इसलिये नहीं भालूम हो सकती थी, कि प्रोफेसर होने के कारण हमें विशेष राशनकार्ड मिला था, जिससे चीनी, मक्खन, मांस, दूध, अंडा, विस्कुट आदि चीजें राशन के दाम पर हतनी अधिक मिल जाती थीं, कि राशन की दुकानों को देखने की आवश्यकता नहीं थी, और न खर्च में संकोच करने की भी ।

सोवियत के फिल्म देखने से मुझे उतना वैराग्य नहीं होता था, जितना भारत के फिल्मों को । यहां तो वरस में कभी एक बार गला दबानेपर यदि जाता भी हूं, तो ऊबकर बीच में ही चले जाने की इच्छा हो जाती है । सोवियत के फिल्म केवल यौन-आकर्षण को लेकर नहीं बनते, इसका यह मतलब नहीं कि उनमें स्त्री-पुरुषों के प्रेम संबंध को छिपाने की कोशिश की जाती है । तो भी वह उतना ही रहता, जितना की दाल में नमक । सोवियत फिल्मों में भी मैं ज्यादा देखता था एसियायी फिल्मों को—उजबेकिस्तान, कजाकस्तान, आज़र्बाइजान, मंगोल आदि देशों के फिल्मों को । नये एसियायी कलाकार तरुण अब अपनी भातृभाषा के अतिरिक्त रूसी भाषा भी अच्छी तरह बोल सकते हैं, इसलिये अच्छे एसियायी फिल्मों को रूसी भाषा के साथ भी बनाया जाता है । अब मुझे भाषा कि उतनी दिक्कत भी नहीं रह गई थी ।

२ मार्च को मैं उजबेक-फिल्म “ताहिर और जोहरा” देखने गया । यह आज़र्बाइजानी फिल्म था । ताहिर और जोहरा उस समय हुये थे, जब कि अभी चासूद का आविर्भाव नहीं हुआ था और तीर और घनुष चलते थे : एक खान ( राजा ) अपने सेनापति से बहुत प्रसन्न है । जोहरा खानकी पुत्री और ताहिर सेनापति का पुत्र है । खान ने ताहिर को पुत्रवत् मान रखा है । बचपन में ही ताहिर और जोहरा साथ खेलते हैं । आगे किसी समय निरंकुश खान सेनापति के ऊपर क्रुद्ध हो जाता है, और वह खान के इशारे पर जंगल में शिकार के समय में तीरका शिकार हो जाता है । ताहिर को अपने पिता की निर्भय हत्या का पता लग गया है—खान की निष्ठुरता और अन्याय से बाप ही नहीं मरा बल्कि जनता भी त्राहिमां कर रही है । ताहिर के लिये अपने बाप के खून का बदला

लेना अवश्यकरणीय था, और उधर जोहरा का प्रेम भी वह छोड़ नहीं सकता था। खान को यह बात मालूम हो गई। वह ताहिर के मारने की फिक्र में पड़ा। एक समय ताहिर उसके पंजे में आगया। खान ने उसे संदूक में बन्द करके नदी में फिकवा दिया। आगे किसी खानजादी ने संदूक को निकलवा लिया। वह इस सुन्दर तरुण पर मुग्ध हो गई। ताहिर की जान बचाकर उसने बड़ा उपकार किया था, लेकिन ताहिर अपनी प्रेयसी जोहरा को छोड़ने के लिये तैयार नहीं था। उसने असमर्थता प्रकट की। खानजादी कुपित हो गई। ऊंट के पीछे बांधकर उसे भगा दिया। किसी दोस्त ने रास्ते में बेहोश पड़े ताहिर को उठाया। ताहिर फिर जोहरा के पास पहुँचा। फिर उसका अपने पिता के हत्यारे के साथ सामना हुआ। ताहिर ने उसे मारकर पिता के खून का बदला लेने गया, किन्तु पकड़ा गया। खान के हुक्म से उसे बन्ध उस स्थानपर ले गये। छुड़ाने के लिये भिन्न आये, किन्तु चारुदत्त की तरह समय पर नहीं, तबतक ताहिर का कलेजा भाले से छिद चुका था। उधर बापने जोहरा का भी गला घोट दिया। दोनों एक अरथीपर कवरिस्तान गये। कथानक और अभिनय की दृष्टि से फिल्म बड़ा सुन्दर था, लेकिन सोवियत-फिल्मों में जो विशाल प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं, वह इसमें नहीं थे—न वह अनन्त बयानान और पवर्तमाला, न नदी की विस्तृत उपत्यका, न नगर के ही हर अंग का प्रदर्शन।

ऐसियायी फिल्म अगर रोज-रोज भी नये नये मिलते, तो मैं देखने के लिये तैयार था। अगले ही दिन ( ३ मार्च ) को “अवाय के गाँत” ( पीस्ने अवायेक ) कजाक-फिल्म दिखाया जा रहा था। मैं उसे देखने के लिये चल पड़ा। कजाकस्तान मध्यएशिया का सबसे बड़ा और सबसे धनी प्रजातंत्र है। लेकिन यहाँ के लोगों में कार्का संख्या १६२७ ई० तक घुमन्तू या अर्ध-घुमन्तू पशु-पालकों की थी। इसकी अपार खनिज सम्पत्ति पृथ्वी के गर्भ में अछूती पड़ी हुई थी और कजाक नर-नारी लिखने-पढ़ने से बिलकुल अपरिचित थे। बहुत थोड़े से मुल्ला और सरदार—उनमें भी पुरुष ही पढ़ना-लिखना जानते थे, सो भी अरबी-फारसी भाषा में। अत्रायेफ कोई कल्पित नाम नहीं है। वह कजाक भाषा

का महान् साहित्यकार और साहित्य-पिता माना जाता है। वह पिछली गताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ था। अब्रायेफ के विद्याग्रम ने परम्परा से चली आती पढ़ाई और सरदारों के शिक्षा-क्षेत्र तक ही उसे सीमित नहीं रखा, बल्कि कजाकस्तान के भिन्न-भिन्न स्थानों में बस गये रूसियों के संपर्क में आकर उसने रूसी भाषा और साहित्य का अध्ययन किया। इस प्रकार कजाक-साहित्य का आरम्भ करने ही उसने अपनी प्रौढ़ लेखनी से विनिःसृत परिपक्व ग्रन्थों को अपनी जाति के सामने रखा। जीवन में उसको उतना मान नहीं मिला था, क्योंकि न उसने फारसी-अरबी और नहीं साहित्यिक तुर्की में अपनी पुस्तकें लिखी थीं। उसकी लेखनी अपनी मातृभाषा में चली थी, जो कि उस समय एक बोली समझी जाने से हीन दृष्टि से देखी जाती थी। यही कारण था जो अब्रायेफ के अपने जीवन में वह सम्मान न प्राप्त करने का, जो कि आज सोवियत काल में प्राप्त हो रहा है। आज वह कजाकस्तान का बाब्सकी और अश्वघोष, कालिदास और वाण है। “घोसूने अब्रायेफ” इसी अमर साहित्यकार के जीवन संगीत को लेकर बनाया गया था। प्राकृतिक दृश्य बड़े सुन्दर थे, जिनको देखकर घर बैठे कजाकस्थली की सैर हो सकती थी। कजाक युमन्तू अपने तम्बुओं (किवितों) में रहते घोड़ों के अतिरिक्त भेड़ों भी बहुत पालते थे, उनका किवितों का गांव उजड़ता-बसता रहता था और घोड़े नई चरागाहों में भूमते रहते थे। चरागाहों का बड़ा सुन्दर दृश्य दिखलाया गया था। कजाकस्तान के पहाड़, नदियों की उपर्यकार्यें भी मनोहारिणी थीं। किसी विशाल जलाशय के नजदीक कजाकों का डेरा पड़ने लगा। लकड़ी के गोल टांचे खड़े किये गये, फिर नमदों और कपड़ों को तानकर तम्बू बना दिया गया। बाहरी खोल को जहाँ-तहाँ से हटाया जा सकता था। एक दृश्य कजाक न्यायालय का था—न्यायालय क्या युमन्तू कजाकों के पास तो आलय ही नहीं होता। एक सिरे पर कुछ ऊँच से आसन पर कबीले का महापितर बैठा था, जिसके हाथ में न्याय का प्रतीक दण्ड था। उसके दाहिने बायें कुछ और सरदार बैठे हुए थे। साधारण जनता इन अभिजात लोगों से कुछ दूर बैठी थी। पास में कितने ही घुड़सवार भी पांती से खड़े थे। कवि

अबायेफ और उसके एक मित्र का पुत्र वहां लाया गया । मित्र का पुत्र भी कवि था । वह किसी कज़ाक तरुणी पर सुग्ध था । बिना बड़ों की आज्ञा के उसको प्रेम करने का अधिकार नहीं था, इसलिये वह अदालत में लाया गया था । कवि अबायेफ ने उसके पत्र में भावण दिया, जिसके कारण विचारकों को राय पलटनी पड़ी । दोनों प्रेमियों का विवाह हो गया । कज़ाक विवाह का वहां बड़ा सुन्दर दृश्य दिखाया गया था । घुमन्तू लोगों में उनके सरदार बड़ी मौज से रहते थे । लड़की के लिये बहुमूल्य वस्त्र-आभूषण प्रदान किये गये । जहां तक कज़ाक अमीरों का संबंध था, वह सामन्तशाही अवस्था में थे । इस समय कज़ाक संगीत और नृत्य का भी आनन्द लेने का मौका मिला । गीतों में बहुत से वही थे, जिनको अबायेफ ने बनाया था । लड़की का पिता इस विवाह को पसन्द नहीं करता था, लेकिन पंचों के फ़ैसले के विरुद्ध कैसे जा सकता था ? उसने अपना क्रोध अबायेफ के ऊपर उतारना चाहा, और उसके पान-चषक में जहर मिला दिया । लेकिन ग़लती से विष के प्याले को उसने अपने ही पुत्र को दे दिया । पुत्र अपनी प्रेयसी की गोद में मर गया । प्रेयसी एक एक गहने को उतारकर फेंकने लगी । अबायेफ के शत्रु हैदर ने धर्म के नामपर अबायेफ के ऊपर मुकद्दमा चलाया । उसमें असफल होने पर दल बांधकर वह अबायेफ के ऊपर आक्रमण करने गया । इन हथियारबन्द खूंखार लोगों के भीतर अबायेफ निर्भय होकर चला गया । हैदर के साथ आये लोग उसकी बात मानने से आना कानी करने लगे, इसपर हैदर ने एक कंटीली गदा अबायेफ के ऊपर चला दी । अबायेफ प्रहार से घायल हो गया । यह देखकर लोगों ने हैदर के दल को मार भगाया । फिल्म बड़ा ही सुन्दर और मेरे लिये बड़ा ही ज्ञानवर्द्धक था ।

६ मार्च को युनिवर्सिटी जाते समय सड़क पर पानी-पानी दिखाई पड़ रहा था—तापमान गिर गया था । मैं तो समझने लगा कि वसन्त आ गया, लेकिन रूस में वसन्त अभी दो महीने बाद आने वाला था, मई में जाकर नंगे वृद्ध कलियों के रूप में अपनी पत्तियों को दिखलाने लगते हैं । ऋतुओं में परिवर्तन अवश्य होता है, लेकिन हमारे यहां की प्राचीन परिपाटी की न छः ऋतुयें

वहाँ हैं, और न जाड़ा, गर्मी, बरसात जैसी तीन ऋतुओं का ही स्पष्ट अन्तर। मई के आरम्भ से लैनिनग्राद में बसन्त का आरम्भ जरूर हो जाता है, लेकिन जो बात लैनिनग्राद में आज होती है, वह उससे दक्षिण मास्को में हफ्ता पहिले होती है। और दक्षिण जाने पर वह और भी पहिले होती है। बसन्त, ग्रीष्म तथा वर्षा की ऋतुयें एक साथ मिली जुली सी हैं। नये फूलों और नये पत्तों के कारण मई-जून को हम बसन्त मान सकते हैं, लेकिन जुलाई से अगस्त के अन्त तक को यह कहना मुश्किल है, कि यह गर्मी है या वर्षा। दोनों का यह मिश्रित समय है। कभी कभी दो चार दिन जब वर्षा नहीं होती, आकाश निरभ्र दिखाई पड़ता है, तो उसे ग्रीष्म कह सकते हैं, लेकिन ग्रीष्म नाम से जो लू और गरमी हमारे यहाँ होती है, उसका वहाँ नाम नहीं। सितम्बर के आरम्भ से जब तक कि पानी अभी बरफ नहीं बूँदों के रूप में बरसता है, लेकिन कुछ सर्दी अधिक होने के कारण हरियाली पर असर होता जाता है, इसे वह शरद कहते हैं, उसके बाद चार पांच महीने का जाड़ा। इसप्रकार बसन्त, ग्रीष्म-वर्षा, शरद, और हेमन्त में वहाँ के साल को बाँट सकते हैं, अथवा बसन्त, ग्रीष्म और हेमन्त इन तीन ही ऋतुओं में विभाजन कर सकते हैं। बसन्त सबसे छोटी ऋतु है, वर्षा उससे बड़ी और हेमन्त सबसे बड़ी। लेकिन अभी मार्च में बसन्त के आने की कोई संभावना नहीं थी। तापमान की आंख-मिचौनी में हम कईबार सड़क पर पानी फैलते देख चुके थे।

८ मार्च को सोवियत-काल के बनाये हुए, नये पवों में एक अन्तर्राष्ट्रीय महिला-दिवस मनाया जा रहा था। सोवियत की हों, या दुनिया के किसी देश की, आज की हों या प्राचीन काल की, महिलायें सदा उत्सव-प्रिया होती हैं। हमारे प्राच्य-विभाग में भी दिवस मनाया गया। प्राच्य-विभाग के दोकानात (डीनशाला) में भोज की तैयारी थी। भाषण, भोज, गीत और नृत्य उत्सव के यह चार अंग थे। विभाग के सारे ही अध्यापक नहीं आये थे। वहाँ २५ के करीब व्यक्ति मौजूद थे, जिनमें दोतिहाई स्त्रियाँ थीं। संगीत भाषा के विशेषज्ञ वृद्ध अकदमिक कोजिन (दोकनविभागाध्यक्ष) ने भाषण किया, फिर चीन

भाषा के विशेषज्ञ अकदमिक अलेक्सियेफ और मिश्रतत्ववेत्ता अकदमिक स्त्रूने ने भी पर्व के महत्त्व पर भाषण दिया। दो तीन महिलायें भी बोलीं, फिर पान से भोज का आरम्भ हुआ। विस्मयला ही गलत—मैं ही अकेला पान-विरत था। लोगों को समझाने के लिये व्याख्या करने की जगह अच्छा तो यही था, कि प्याले को मुंह में लगाकर जीभकी नोक की तरफ कर लेता, लेकिन मैं तो अपने जीवन के रिकार्ड को कायम करने की धुन में था। पीने का बहुत आग्रह हुआ, किन्तु मैं कच्चा गुइया नहीं था। लोगों को कुछ अचरज-सा जरूर मालूम हुआ होगा, लेकिन किसी ने मेरे नियम के तोड़ने तक आग्रह नहीं किया। रोटी, मक्खन, पनीर, कलबासा (सोसेज), मछली का अंडा, विस्कुट, केक, मिठाइयां, चाय, और नारंगों के फल यह सब मेरे खाद्य थे, और वहां वह प्रचुर नहीं तो काफी परिमाण में जरूर थे। भोज के लिये लोगों ने पैस दिए थे, शायद राशन से अधिकतर चीजें ली गई थीं। भोजनोपरान्त गाना शुरू हुआ। दो प्राध्यापक महिलायें ने सुन्दर गीत सुनाये। लोगों ने तालियां बजाईं। फिर नृत्य आरम्भ हुआ। जहां बूढ़े बूढ़े तक नाच के अखाड़े में उतरने से नहीं हिचकिचाते, वहां जवान सा दिखाई देनेवाला उस कला से अनभिज्ञ मैं कड़े आग्रह के बाद चुपचाप बैठा टुक टुक देखता रहा। नृत्य के लिये मन तो ललचाता था, लेकिन अब तो चिड़ियां खेत खुश गई थीं। और तो और मैंने सोवियत सीमा के भीतर पैर रखते ही सिगरेट को भी छोड़ दिया था। वहां पुरुषों में तो कोई भी सिगरेट त्यागी नहीं था, और कुछ स्त्रियां भी उसका आनन्द ले रही थीं। महोत्सव से लौटकर डेढ़ बजे रात को हम घर पहुँचे।

१० मार्च को कमाल ऐनी शाम के वक्त हमारे घर आये। वह प्रसिद्ध ताजिक उपन्यासकार सदरुद्दीन ऐनी के सुपुत्र तथा द्वितीय वर्ष के छात्र थे। समरकन्द में पैदा होने के कारण मातृभाषा ताजिक (फारसी) होने के साथ उजबेक भाषा को भी मातृभाषा वत् ही बोल सकते थे। उनके लिये अपने नगर में भी विश्वविद्यालय था, स्तालिनान्नाद में ताजकिस्तान का विश्वविद्यालय था, जिसका माध्यम ताजिक भाषा थी। लेकिन वह समरकन्द से दूर लेनिनग्राद के

विश्वविद्यालय में पढ़ने आये थे। शायद उनका लक्ष्य ताजिक भाषातत्त्व के अध्ययन की ओर था, तब तो संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता थी। शायद वह चौथे पांचवें वर्ष में उभे पड़े। कबाल में उनके पिता, परिवार और देश के बारे में बहुत देर तक बातें होती रही। कबाल का समरकन्द से लेनिनग्राद आना कोई अनहोनी बात नहीं थी। सोवियत के सभी कालेजों और विश्वविद्यालयों में ६० प्रतिशत लड़के सरकारी व्यावृत्ति पाते हैं, जो इतनी काफी होती है, कि बिना माता-पिता की मदद के पढ़ सकते हैं। व्यावृत्ति सखालीन से पोलैण्ड की सीमा तक अफगानिस्तान से श्रवकला तक फैले विस्तृत भूभाग के किसी भी विश्वविद्यालय या कालेज में जानेपर मुलम थी, इसलिये कश्मीर के सीमान्त के छात्र के लिये भी मास्को या लेनिनग्राद में पढ़ना कोई बोम्ब का सवाल नहीं था। हां, अन्तर इतना अवश्य था, कि जब आने जाने में रेल पर दो हफ्ता लगता हो, तो केवल ग्रीष्म के बड़े अवकाश में ही घर का मुँह देखा जा सकता था।

२२ मार्च को मैं युनिवर्सिटी गया, तो द्वितीय वर्ष के एक दर्जन छात्रों में केवल दो मौजूद थे। मैंने उस दिन भुङ्गला कर अपनी डायरी में लिखा— “मुँसी बेपरवाही से पढ़ना क्या अच्छा है? सचमुच ही यह मजाक है। सभी अध्यापकों को यह शिकायत है। साध्यमिक स्कूल समाप्त करने के बाद काम में जाने की आवश्यकता पड़ती, इसलिये कितनी ही छात्रार्थ, अपने पांच वर्ष युनिवर्सिटी में आकर बिना देना चाहती है।” उस दिन तीन बजे प्राच्य-विभाग के मजदूर संघ की बैठक हुई। लोकचगर (दीनमन्त), प्रोफेसर, और थकदमिक जिस सभा के सदस्य हों, उसे मजदूर सभा कहना उपहासपद सालूम होगा? किन्तु मजदूर शब्द का मूल्य उस देश में बहुत बढ़ गया है, और वह उपमान नहीं सम्मान का परिचायक है। अध्यापकों ने पढ़ाने की कठिनाइयों पर भाषण दिये, फिर कुछ प्रश्नोत्तर हुए, पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और सभा विसर्जित हो गई।

वर्ष के अन्त से ही मैं अब मध्यएशिया जाने की फिकर में पड़ा था। मेरे मास्को के मित्र इसके लिये कोशिश कर रहे थे। कभी उनकी चिट्ठी

आशाजनक आती और कभी निराशाजनक । एक विदेशी को सोवियत के इस दूर भाग में जाने की इजाजत देना वैदेशिक मंत्रालय के हाथ में था । तुर्कमनिया के प्रोफेसर के कहने के अनुसार मैं चाहता था, कि गर्मियों से पहिले ही अपनी यात्रा खतम करने के लिये मार्च में ही चला जाऊँ, लेकिन १२ मार्च तक पता लगा, कि अप्रैल में भी शायद ही यात्रा हो सके ।

१७ मार्च को अखबारों में पढ़ा, कि अब से सोवियत के मंत्रियों का बोल्शेविक क्रांति के समय से चला आतापद-नाम “जन-कर्मिन्तर” न रह, मंत्री (मिनिस्तर) होगा । मंत्री शब्द सारे दुनिया में चलता है, और जन-कर्मिन्तर कहने से बाहर वालों को सम्झने में दिक्कत होती है, इसलिये सोवियत ने यह नयी व्यवस्था की ।

जल्दी कराने के लिये मैंने मास्को जाने का निश्चय कर लिया, और २५ मार्च को नरम दर्जे के लिये २५० रूबल इन्तूरिस्त को दे आया । पास ही में सोचा इसाइकीसबोर है, इसलिये उसपर चढ़ गया । सोवियत का यह सबसे बड़ा गिरजा म्यूजियम के रूप में परिणत कर दिया गया है । पिछली यात्रा में इसके भीतर घुसकर देख चुका था । अभी वह दर्शकों के लिये खुला नहीं था, इसलिये ऊँची छतपर चढ़कर नगर-परिदर्शन करके ही संतोष किया । छत पर पहुँच कर आस-पास की चारतले की इमारतों में बहुत नीची मालूम हंती थीं । छतों और सड़कों पर सफेद बरफ की चादर पड़ी हुई थी, नेवा भी सफेद चादर से लिपटी टेढ़ी भेड़ी साँई थी । हमारे बिभाग की सहाय्यापिका दीना साकोव्ना इस्पेरान्त ( एम० ए० ) थीं, और चाहती थीं कि प्रेमचंद के “सप्तसरोज” पर कन्धीदात ( डाक्टर-उमेदवार ) के लिये निबंध लिख डालें । लेकिन अपेक्षित पुस्तकें नहीं थीं ! वस्तुतः पिछले २० वर्षों में शायद ही कोई हिन्दी पुस्तक लेनिनग्राद पहुँची हो । उन्होंने “सप्त-सरोज” का रूसी में अनुवाद कर डाला था । महाब्रह्मदेव भाषा को केवल कोश की मदद से नहीं समझा जा सकता, इसके उदाहरण उनके अनुवादों में कई जगह मिले । तारीफ यह थी कि उसे वह डाक्टर बराचिकोफ को भी दिखा चुकी थीं ।



## १०-मार्चको में सवा महीना

---

२६ मार्च को युनिवर्सिटी से छुट्टी का कागज़ मिल गया । खर्च के लिये कुछ अग्रिम पैसा लेना चाहते थे, लेकिन कार्यालय में भीड़ थी, इसलिये विना लिये ही चल पड़े । इंटरिस्तने लाखतारा ट्रेन में सीट रिजर्व कराली थी । हाँ, नरम सीट नहीं मिली थी । १७५ रुबल में विना गद्देवाली कड़ी सीट थी, जिस पर चादर और गद्दा ऊपर से उसी पैसे में मिल जाता था, इसलिये उसमें भी आराम गद्दीदार सीट जैसा ही था । सवा पांच बजे घर से निकले । किसी भी काम को समय पर करना लोला ने नहीं सीखा था, हमें तो डर लग रहा था, कि कहीं ट्रेन न छूट जाय । घर के पास ट्राम पकड़ी । तीन टिकान तक जाते जाते वह थोस कर बैठ गयी । भाग्य से पास से एक मोटर ट्रक निकली, जिसके ड्राइवर ने मेहश्वानी करके स्टेशन पर पहुँचा दिया । ट्रेन सात धंजे छूटनेवाली थी, हम आध घन्टा पहिले ही पहुँच थे, यह जानकर आराम की सांस ली । हमारे कम्पार्टमेंट में इंटरिस्त के एक कर्मचारी भी जा रहे थे, जो अंग्रेजी जानते थे, लेकिन अब भाषा की वैसी दिक्कत नहीं थी । उनके पास कुछ अमेरिकन समाचार-पत्र थे । मैंने तो सारा समय उन पत्रों को तच्चाने में लगाया । यह कड़ा दर्जा भी नरम द्वितीय दर्जे ही जैसा था । गद्दी न

होने पर भी उतने ही लम्प और दूसरी चीजें थीं । पूरी की पूरी सीट मिलने से सोवियत में दीर्घयात्रियों को भीड़ का डर नहीं रहता ।

२७ मार्च को सबेरे जब हमने गाड़ी के बाहर की ओर देखा, तो सफेद बर्फ से ढँकी ऊँची-नीची भूमि में जहाँ-तहाँ सदा-हिरत देवदार दिखाई पड़ रहे थे । रेल के हरेक डब्बे में एक कंडक्टर होता है, जिसका काम विस्तार ठीक करना और डब्बे की सफाई करना ही भर नहीं है, बल्कि वह गरम चाय भी दे देता है । चाय से हम निवृत्त हो चुके । ट्रेन ठीक ११ बजे मास्को पहुँची । ईतुरिस्त को भी खबर दे दी गई थी और बोकस तो हमारा यात्रा का प्रबन्ध करने ही वाली थी । दोनों के आदमी लिबाने के लिये स्टेशन पर आये थे, लेकिन विशाल स्टेशन में नहीं मिल सके । मेरे पास सामान बिलकुल मामूली था, जिसके लिये भारवाहक की आवश्यकता नहीं थी, और भाषा की कठिनाई दूर हो चुकी थी, ऊपर से पहिले भी एक पखवारा मास्को रह गया था । मैंने मेत्रो ( भूगर्भी रेल ) पकड़ी और मास्को होटल के पास ही उतर कर पास के एक पुराने और अच्छे नेशनल होटल में पहुँच गया । नेशनल होटल जारशाही युग में भी बहुत असिद्ध होटल था । क्रैमलिन उससे बिल्कुल नजदीक है । कमरा ठीक रखने के लिये ईतुरिस्त वालों को नहीं लिखा था, इसलिये ३ घंटे ऑफिस में बैठे रहना पड़ा फिर २४० नं० का कमरा मिला । बोकस के आदमी भी आये, उन्होंने कहा कि यात्रा का सारा प्रबन्ध हम कर देंगे, केवल विदेश-मंत्री की आज्ञा भर की आवश्यकता है । अगले दिन आवेदन पत्र देने का निश्चय हुआ । उस दिन तो ऐसी आशा बंधी, कि मालूम हुआ १५ अप्रैल तक हम अशकाबाद पहुँच जायेंगे ।

ईतुरिस्त के दफ्तर से अंग्रेजी के अखबार मिले । पता लगा, लार्ड पैथिक लारेंस, स्ट्राफोर्ड क्रिस्स, और अलैकजेंडर तीन ब्रिटिश मंत्री सम्भौता करने के लिये भारत गये हैं । बात चल रही है, सम्भौता हो जाने की आशा है । लेनिनग्राद में अधिकतर रूसी पत्रों और रेडियो पर ही विदेशी समाचारों के लिये निर्भर रहना पड़ता था, जिसमें भारत की खबरें तो शायद ही कभी

निकलती थीं। समझोते को बात को वहाँ वाले महत्व नहीं देते थे। उनके राज-नीतिज्ञों का भी विश्वास था : भारत की स्थिति में परिवर्तन नहीं होने पायेगा, मजदूर पार्टी उतनी ही साम्राज्यवादी है, जितनी की टोरी पार्टी। उनकी तरह मैं भी मानता था, कि अंग्रेज प्रसन्नता-पूर्वक दान के तौर पर भारत को स्वतंत्रता नहीं अर्पित करेंगे, लेकिन अंगुली पकड़ा देने पर वह पहुँचे को वना नहीं सकेंगे। भारत में स्वतंत्रता के लिये पावल जो शक्तियाँ पैदा हो गई हैं, वह अंग्रेजों के मन्सूबे को सफल नहीं होने देंगी।

पहली बात चीत से इतना तो मालूम हो गया था, कि तीन हफ्ते मास्को में रहना ही पड़ेगा। इसमें शक नहीं, कि यहाँ काम की बड़ी पुस्तकें मिल सकती थीं, जिन्हें कि मैं अपने बल-बूते पर हँदकर जहाँ-तहाँ से खरीद सकता था, लेकिन समाचार पत्र हर तरह के मिल सकते थे। ब्रिटिश-दूतावास से मैं विशेष सम्बन्ध नहीं रखना चाहता था। ब्रिटिश प्रजाजन होने के कारण उनका पत्र भी मेरे पास पहुँचता था, और मेरा नाम वहाँ दर्ज हुआ था। वहाँ से भी कुछ ताजा खबर मिल सकते थे, किन्तु केवल एक बार दूतावास के एक कर्मचारी ने कुछ पात्र सामग्री दी थी, वह कर्मचारी इसी होटल में रहता था।

२८ मार्च को बैठे-ठाले रहने से मैंने सोचा, चलो मास्को की सैर भी हो जायगी, और माया से मेट भी। माया बहुत दूर शहर के एक छोर पर रहती थी। उसके कॉलेज को इंदने के लिये घंटों की आवश्यकता थी। सवेरे दूध भाई का पता लगाने चये, किन्तु उनका स्थान नहीं मिल सका। टूप्पो और पैदल की यात्रा करते काफी समय बाद आखिर उस छात्रावास में पहुँचे, जिसमें माया रहती थी। वह पढ़ने गयी थी, इसलिये अपना कार्ड और पता रख आये। लेनिनग्राद से मास्को कम सर्द है, यह आज के सैर-सपट्टे से मालूम हुआ। लेनिनग्राद का मेवा जहाँ सफेद चादर आँढ़े हुए अभी उठने का नाम नहीं लेती थी, वहाँ मास्को नदी पृक्त-प्रवाह वह रही थी। नगर में जहाँ-तहाँ अब भी बरफ थी, किन्तु ऐसी जगहों पर जहाँ दिन में छाया अधिक समय तक रहती थी।

उस दिन की बात-चीत से तो मालूम होने लगा, कि शायद पहली या

दूसरी अप्रैल को ही अशकावाद पहुँच जायें। हमारे पास वहाँ के लिये कपड़ों की कमी थी। चौकस ने कहा कि हम यहीं तैयार करा देंगे।

२८ मार्च को कुछ बरफ पड़ी, लेकिन पड़ते ही गल गई। आधे अप्रैल तक सभी बरफ के गल जाने की संभावना थी।

शुद्ध की दत्त भाई के यहाँ कई बार जाता रहा। वह इस वक्त नगरोपान्त में नहीं थे, बल्कि नगर में ही हमारी जगह से चार-पाँच फर्लांग पर रहते थे।

३० ही मार्च को “लालसेना सामूहिक नाट्य मन्दिर” में गये। भास्को की यह सबसे बड़ी स्कूलशाला है। बड़ी भीड़ थी। लोग एक टिकट के लिये ३० खच्चल (२० रुपया) देने के लिये खुशी से तैयार थे। आज प्रोग्राम था जन-संगीत का, लेकिन वह पड़ गया था उस्तादों के हाथ में, और वह उमे मल्लिया-सेट कर रहे थे। हाँ, स्त्री और कसाक नृत्य बड़े सुन्दर थे।

अगले दिन (३१ मार्च) लेनिन की समाधि देखने गये। साधने में तो न जाने कितनी धार गुजरे होंगे, लेकिन वक्त निश्चित तो भी संज्ञित तथा दर्शनार्थियों की भीड़ देखकर बच्चे में खड़े होंगे की जिम्मत नहीं होती थी। आज निश्चय कर लिया था, कि दर्शन करके ही हटेंगे।

बच्चे का दुहरी पंक्ति थी। मुझे काफी दूर खड़ा होना पड़ा, लेकिन द्वार खुला, तो लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे, और दस ही मिनट बाद मैं भी समाधि के भीतर चला गया। समाधि लाल पत्थर की है, और पालिस के कान्ठ चमकती है। यह लाल मैदान के एक चोर है। उसको चौरस द्रत उत्सव के समय नेताओं के खड़े होने के मंच का काम देती है। वह बाहर से देखने पर बहुत छोटी मालूम देती है, लेकिन उतनी छोटी नहीं है। साथ ही जितनी जमीन के ऊपर है, उससे कमा नीचे नहीं है। लेनिन का शरीर एक शीशे के खोल के भीतर रखा हुआ है। शीशा इतना साफ है, कि दृष्टि को जरा भी बाधा नहीं होती। मांस सूख जाने से शरीर छोटा हो गया है—वैसे लेनिन शरीर में नाटे थे भी। चेहरे का रङ्ग यथापूर्व कायम रखा गया है, आँखें दृढ़ गई हैं, दाढ़ी वैसी ही छोटी सी दिखलाई पड़ती है। रामने आते ही लोग टोपी उतार देते हैं। लेनिन

अद्वितीय महापुरुष थे, इसमें क्या किसी कौ शक है। यदि दुनिया के परिवर्तन में महान् पुरुषों की शक्ति को नापा जाता है, तो लेनिन जैसा जग-परिवर्तन दुनिया में आज तक किसने किया ? यह ठोक है कि लेनिन अपने को मार्क्स-का शिष्य भर ही मानते थे, और यह भी निश्चित है कि रास्ता दिखलानेवाला, सैद्धांत खोज निकालने वाला कार्ल मार्क्स ही था। लेकिन क्रान्ति के सिद्धान्तों को व्यवहार में लाना और भी कठिन है, जिसे व्यवहार में लाकर लेनिन ने साम्यवाद को धरातल के ऊपर साकार खड़ा किया। लेनिन ने साम्यवाद को अपनी आंखों फूलते फलते नहीं देखा, लेकिन वह उनके समय में ही दृढ़ मूल-बद्ध हो चुका था। दुनिया की सारी बड़ी बड़ी शक्तियां लग कर उखाड़ने की कोशिश ४ वर्ष तक करती ही रह गई, लेकिन वह उच्छिन्न होने का जगह और मजबूत होता गया। लेनिन के बारे में कहा जाता है, क्रान्ति के दुरूह समस्या-प्रवाहों में वह उसी तरह आसानी से तैरता था, जैसे जल में मछली। मानवता के उत्कर्ष में जिस महापुरुष का इतना बड़ा हाथ है, उसके सामने खड़े होते समय मेरे दिल में कितने ही अद्भुत भाव क्यों न पैदा हों। वह मृत शरीर अब बोल नहीं सकता, अपने सिंहनाद से शत्रुओं के दिल को दहला नहीं सकता था, किन्तु उसने जो काम किया, और उसकी लेखनी ने मानवता के लिये जो पथ-प्रदर्शन दिया है, वह इतना मूल्यवान् है, कि एक कट्टर भौतिकवादी भी उसके सामने जाकर श्रद्धा से अत्यंत द्रवित हो जाता है। एक रास्ते से घुसकर दूसरे द्वार से मैं भी लोगों के साथ निकल आया। सामने लाल मैदान सूना पड़ा था।

२ अप्रैल आया। मैंने आज मास्को युनिवर्सिटी के नूतनवीय संग्रहालय का देखना चाहा। इसके भाई को लेनिनवाद में देख चुका था। लड़ाई के कारण प्रदर्शनीय वस्तुएं सुरक्षित स्थानों में भेज दी गई थीं और अब उन्हें लाकर धीरे धीरे सजाया जा रहा था, अभी म्यूजियम का एक ही कमरा खुला था। तब तक लड़ाई बीते १२ महीने ही हुए थे। मैंने तो लड़ाई बीतने के २७ महीने बाद लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम के एक ही हाल को सजा देखा था, और जिस गति से सजावट हो रही थी, उससे अभी वर्षों में सारे म्यूजियम के

खुलने की उम्मीद थी। यहां नकशे टंगे हुए थे, जिनसे मनुष्य के वश की क्रमिक उत्क्रान्ति को देखा जा सकता था। मनुष्य का मस्तिष्क ही वह चीज है, जिसके कारण वह प्राणियों में सबसे ऊँचा उठा। अपने शरीर के अनुपात से मनुष्य के पास जितना मस्तिष्क है, उतना किसी जन्तु में नहीं है, यह नकशे में दिखाया गया था— मनुष्य के कपाल में कितना अंधकाश है, उसके पैर और पंजों में दूसरे प्राणियों से क्या अन्तर है, नेत्रन्डर्थल, क्रोमयाँ, और आज के सपियन मानव के शारीरिक ढाँचों में क्या भेद है। मैंने वहाँ के प्रोफेसर से शक-सिथियन जाति के बारे में बात चीत की और अपने विचारों को भी प्रकट किया। उन्होंने बड़ी उत्सुकता से सुना और बतलाया कि डाक्टर तावस्तोक आजकल यहीं है, जोकि इस विषय के माने हुए विशेषज्ञ हैं।

शामको “रोमन तियात्र” में सिगालुच्का (रोमनिया) नाटक देखने गये। रोमनी हमारे यहाँ के उन्हीं तुमन्तुओं के भाई-बन्द हैं, जो आज भी अपनी सिरकी या डेरों को लदिये भारत में एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते हैं। इस प्रकार मैं अपने भाई-बन्धुओं की नाट्यशाला में गया था, इसके कारण यदि वहाँ जाते समय मेरे मन में विशेष भाव पैदा हुए, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। यह एक छोटी सी नाट्यशाला थी, जो १५ वर्ष पहिले ही स्थापित हुई थी। सदा की तरह आज भी वह नाट्यशाला दर्शकों से भरी हुई थी, इसलिये अभिनय बड़ा ही प्रभावशाली था यह कहने से मुझे भाई-बन्धों के प्रति पक्षपाती होने का दोष नहीं दिया जा सकता। मेरी भी यह इच्छा थी, कि सिगान भाई-बहनों से मिलूँ, लेकिन पहले तो नाटक देखना था। जिस तरह की छोटी सी दर्शकशाला थी, उसीके अनुसार रङ्गमंच भी छोटा सा था, और नट-मंडली भी। लेकिन उसे हम उसके आकार-प्रकार से नहीं नाप सकते थे। कथानक था एक स्पेन का सामन्त (ठाकुर) तरुण एक सिगान लड़की पर मुग्ध हो गया। सिगानों की जीविका में नाचना-गाना भी एक है, इसलिये यदि सिगालुच्का (सिगान-कन्याका) अपनी कला में निपुण थी, तो कोई असाधारण बात नहीं थी। वह बड़ी सुन्दरी थी। सिगालुच्का भी ठाकुर

तरुण को प्रेम का प्रतिदान देने के लिये तैयार था, लेकिन तब, जब कि वह भी सिगान बन जाय । तरुण तैयार हो गया । उसने अपनी सामन्ती पोशाक दूर फेंकी, सिगानों की मैली कुचैली क्रेटिंगी पोशाक धारण की, और वह तंत्र का जीवन आरम्भ करके एक नगर से दूसरा नगर, एक देश से दूसरा देश घूमने लगा । धीरे धीरे घुमवकड़ी, नाच, घोंड़े बेचने के व्यवसाय को भी सीख गया । वह इसी तरह घूमता फिर रहा था, फिर एक दूसरे सामन्त की कन्या उस तरुण पर मुग्ध हो गई । तरुण ने इन्कार किया । उसकी गठरी में चीज रखकर चोरी का इन्जाम लगा, जेल में भेजा जाने वाला था । इसी बीच में एक कप्तान आ गया । सिगान यूरोप के दलित-खल्लूत समझे जाते हैं, इसलिये अगर कहीं चार गार्ला भी खा जायें, तो भी ही वह सन्तोष करने को भला समझते हैं । कप्तान ने भी इस तरुण सिगान को वैसा ही समझा था । लेकिन उसने द्वन्द्व-युद्ध के लिये कलकारा । द्वन्द्व-युद्ध से इन्कार करना १९ वीं सदी तक के यूरोप में भी सबसे अपमान की बात समझी जाती थी । इसे धीरता की शिक्षा का सुन्दर पाठ समझ कर यूरोप के लोगों ने हाल तक कायम रखा था । द्वन्द्व-युद्ध में सिगान तरुण ने कप्तान को मार डाला । तरुण पर हत्या का मुकदमा चला । न्यायाधीश मृत्यु-दण्ड देने जा रहा था । सिगानुचका अपने प्रेमी के लिये न्यायाधीश के सामने बहुत रोती रही, उसकी पत्नी के हाथ पैर जोड़ती रही । पत्नी ने भी अनुनय-विनय किया, लेकिन सिगान तरुण ने अक्षम्य अपराध किया था, उसने भद्रवर्गीय सामन्त तरुण को मार डाला था । उसे कैम साधारण दण्ड देकर छोड़ा जा सकता था ? इसी समय एक सिगान वृद्धाने बच्ची का एक आभूषण सामने रखा । न्यायाधीश की पत्नी ने उसे तुरन्त पहिचान लिया : यह तो १२ वर्ष पहिले गुम हुई मेरी लड़की का आभूषण है । जज की पत्नी ने कहा—यदि तू इस लड़की को लादे, तो मैं सिगान तरुण को मुक्त करा दूंगी । लड़की लाई गई, लेकिन उसने अखली मां को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । आभूषण ने तो बतला ही दिया था, इसलिये मां-बाप अपनी लड़की को भले लगाकर अश्रुमोचन करने लगे । सला अपनी लड़की का जीवन-धन कैसे

फांसी पर चढ़ाया जा सकता था। तगण मुक्त कर दिया गया, लेकिन माता-पिता इसके लिये तैयार नहीं थे, कि उनकी लड़की सिगानों का जीवन व्यतीत करे। वह इसके लिये भी तैयार नहीं थे, कि लड़की का ब्याह किसी सिगान से हो। अन्त में लड़की परदा खोल देती है— अन्द्रेइ सिगान नहीं है। उभयपत्नीय मां-बाप अतिसन्तुष्ट। सिगान कुछ दिनों तक विवाह के आनन्द में सब कुछ मूल जाते हैं, लेकिन उनको तो किसी एक जगह में न रहने का शाप है। वह अपने डरे को उखाड़ने लगते हैं और सिगानचक्रा और उसका पति आंसू बहाने लगते, केवल अपने चिर-बन्धुओं के विछोह पर ही नहीं बल्कि सिगानों के मुक्त जीवन के छूटने पर भी। नाट्यशाला के परदे पर भी सिगानों का विशेष चिन्ह सपनों की माला जहाँ तहाँ लगी हुई थी। नाटक की भाषा रूसी थी, लेकिन सज्जा सारी सिगानों जैसी थी। बीच-बीच में सिगानपन को दिखलाने के लिये कोई-कोई रोमनी शब्द भी आ जाते थे, और संगीत तो सारा का सारा रोमनी था। मैं अन्तराल में भी तियात्र के सेक्रेटरी से मिला और उनसे कुछ बातें मालूम कीं। नाटक की समाप्ति के बाद तो सेक्रेटरी ने अपने कई अभिनेता और अभिनेत्रियों से भी भेंट करायी। यद्यपि वह सभी सेक्रेटरी की तरह शिक्षित थे, लेकिन उनमें से बहुत कम को मालूम था, कि यह हिंदू है। सेक्रेटरी ने कहा— हां, मैंने सुना है। सबने फिर मिलने के लिए आग्रह किया। मैंने कहा दूसरे नाटक के खेले जाने के समय मैं फिर आऊँगा।

लेनिनग्राद में तो पुस्तकों में डूबा रहता था, यहाँ उसके लिये न उतना सुभीता था और न मैं चाहता था। मैं ज्यादा से ज्यादा सोवियत मध्य-एशिया सम्बन्धी साहित्य के पढ़ने तथा जगहों और संस्थाओं के परिदर्शन में लगा रहता था। वोकस की ओर से कभी खबर आती कि जब्दी हो जायगा, और कर्मा सन्देह की बात होने लगती। वस्तुतः सोवियत-शासन में अगर कोई बड़ा दोष है, तो यही कि वहाँ सन्देह की मात्रा चरम सीमा तक पहुँच गई है। मुझे मध्य-एशिया जाने का अनुज्ञापत्र न मिले, इसका कोई कारण नहीं था। वहाँ के पार्टी वाले चाहते थे, वोकस संस्था हर तरह की सहायता देने के लिये तैयार



थी, लेकिन विदेश-विभाग किसी निर्णय पर ही नहीं पहुँच रहा था।

हमारे होटल के पास में ही कई म्यूजियम थे, जिनमें से एक इतिहास-म्यूजियम था। यहाँ पुराण-पाषाण युग तथा नव-पाषाण युग की भी सामग्री थी, हस्तलेखों का बहुत अच्छा संग्रह था, शको की भी कुछ चीजें थीं। सबसे पुरानी पुस्तक ग्रीक भाषा की थी, जो नवीं सदी में चरम-पत्र पर लिखी गई थी। देखने में वह पीले से पड़ गये सफेद कागज की तरह मालूम होती थी। रूसी भाषा की भी कितनी ही पुरानी पुस्तकें थीं, और सबसे पहिले छापे में छपी पुस्तकों का भी अच्छा संग्रह था, लेकिन मैं तो जप रहा था मध्यएशिया की माला, लिखना ही तो उसका इतिहास, और देखना ही तो उस की भूमि।

रात को (३ अप्रैल) बोल्शोवितियात्र (महानाटकशाला) में बैले देखने गये। मारिन्स्की तियात्र जैसी ही इसकी भी इमारत है, हां यह उससे अधिक बड़ी है। बैले बड़ी आकर्षक थी। गृहस्वामिनी की लड़की और नौकरानी छोकरी—में छोकरी अधिक सुन्दर और निपुण थी, जिसे देखकर गृहस्वामिनी को अपनी लड़की की हीनता का भान होता, और फिर वह चण्डिका हो नौकरानी जीवन को दुर्भर करने पर उतारू हो जाती। तरुणी अपने भाग्य और जन्मको कोसती दिन काट रही थी। एक दिन घर में एक भिखमंगिन आई। साधारण भिखमंगिन ने प्रसन्न होकर अपने असली रूप को प्रकट कर दिया। वह तो परियों के देश की अप्सरा थी। उसने छोकरी को ले जाकर भिन्न-भिन्न ऋतुओं के नाच को दिखलाया। देखकर तरुणी भी आवेश में आई, उसने भी सुन्दर नाच नाचे। कुछ समय बाद छोकरी पर एक राजपुत्र सुग्ध हो गया, लेकिन छोकरी राजपुत्रों के वर्ग से निराश हो चुकी थी, इसलिये वह घर से निकल भागी। राजकुमार उसे ढूँढते देश-विदेश मारा मारा फिर। बैले का मतलब ही है मूक-अभिनय, इसलिये रंगमंच पर भिन्न भिन्न देशों की विशेषता दिखलाने के लिये वहाँ के वेश, वाद्य और नृत्य के सिवाय कोई उपाय नहीं था। राजकुमार इस भ्रमण में उजबेकों, अफरीका के वस्तुओं और न जाने किन किन जातियों के देशों में गया। अन्त में छोकरी अपने पुरानी मालकिन के घर में मिली। नाटक सुखान्त था।

बोल्शोइतियात्र सोवियत रूस की सर्वश्रेष्ठ रंगशाला है। यह नाम बोल्शेविकों ने नहीं दिया, बल्कि रंगशाला के महान् होने के कारण ही उसे यह नाम मिला। इसका टिकट मिलना दुर्लभ है और मुझे तो स्थान भी मिला था पहलो पंक्ति में रंग के बिलकुल पास। अभिनेता और अभिनेत्रियां दो सौ रही होंगी। उन्होंने अभिनय और नृत्य में कमाल किया था। दृश्य अंकित करने में और भी अधिक चमत्कार मालूम होता था। अंधेरी रात में तारों का छिटकना देखकर किसी को संदेह नहीं हो सकता था, कि यह वास्तविक रात्रि और तारे नहीं हैं। रंग के सीमित अवकाश में मीलों तक के जंगल; पर्वत, नदियों के दृश्य थे। लेकिन सोवियत रंगमंचों में पुराने साधनों के साथ साथ अब आधुनिक साधन भी व्यवहार किये जाते हैं, जिनमें पता न देते हुए कुछ यन्त्रों का भी उपयोग होता है।

अगले दिन ( ४ अप्रैल ) दत्त भाई के यहां गये। वहां उनकी चौथे वर्ष की छात्राओं से बात चीत हुई। यह युनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं थी, जहां कि पुरानी चली आती परम्परा को पालन करते हुए संस्कृत का पढ़ना आवश्यक था। लड़कियां केवल उर्दू-हिन्दी पढ़ती थीं। वह काफी ज्ञान रखती थीं, और मुझे विश्वास है, यदि भारत में ६ महीने रहने का मौका मिले, तो वह शुद्धभाषा बोलने लगेगीं। हिन्दी पुस्तकों और पत्रिकाओं के अकाल की शिकायत थी। वस्तुतः जो लोग इन विषयों में दिलचस्पी रखते हैं, वह तो लंदन जाते नहीं, नहीं तो वहां से भी कितनी ही पुस्तकें इकट्ठा कर सकते थे। भारत से दौत्य-सम्बन्ध स्थापित हो जाने के बाद तो अब वह अभाव नहीं होगा, यह मुझे विश्वास है।

शाम को केन्द्रीय लालसेना तियात्र में “कतुजोफ” फिल्म देखने गये। यथार्थवाद में सोवियत का रंगमंच चरम सीमा तक पहुंचा हुआ है। कतुजोफ रूसी सेनापति था, जिसने नेपोलियन को बड़ी दुर्गति के साथ रूस के बाहर जाने दिया। इस अभिनय में नेपोलियन के समकालिन रूस का चित्रण था। सेनिकों और सेनापतियों, नागरिकों और ग्रामीणों को उसी समय की पोशाक,

उसी समय के अस्त्र-शस्त्र थे। कहीं पर भी ऐतिहासिक या भौगोलिक अनौचित्य नहीं आने दिया गया था, यहां तक कि समकालीन चित्रों में नेपोलियन और कनुजोफ का चेहरा जैसा देखा जाता है, उनका पार्टी लेनेवाले अभिनेताओं का भी वैसा ही चेहरा मोहरा बना दिया गया था। कनुजोफ एक आँख का काना था, इसलिये अभिनेता अपने सारे अभिनय में एक आँख बन्द कर काना बना रहा। इस फिल्म में एक भी स्त्री पात्र नहीं थी, शायद इसीलिये इस विशालशाला में १० सेंकड़ा सीटें खाली थीं। जाड़े की हिमाच्छादित भूमि, पर्वत में दूर दूर तक वसे गांव, देवदार और भुर्ज के वृक्ष ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े रूई के फाहों जैसी पड़ती बरफ, और सनसनाती भंभा को भी इस फिल्म में दिखाया गया था। संवाद और भी कमाल का था। नेपोलियन की परेशानी और कष्ट को दिखाया गया था, लेकिन कहीं भी उसके अभिमान-पूर्य चहरे को दर्शन नहीं होने दिया गया। दर्शकों में लालसैनिकों की संख्या अधिक थी।

६ अप्रैल को फिर बोल्शोइतियात्र में “ यूगे..... ओनेगिन ” ओपेरा देखने गये। बोल्शोइतियात्र में अभिनय और महान् कलाकार चैकोप्स्की की कृति फिर उसकी साज-सज्जा और तैयारी के बारे में क्या कहना? लेकिन यह ओपेरा था, जिसमें सारे संवाद पथमय होते हैं और स्वर में तो अगर थोटा पहिले से दीक्षित और अभ्यस्त न हों, तो वह हमारी तरह कान फाड़नेवाली चीख के सिवाय और कुछ न समझें। दृश्य अत्यन्त सुन्दर बने हुए थे। परिधान देश-बाल-पत्रोचित थे। नृत्य या दूसरी बातें भी निर्दाव थीं, लेकिन उस अस्वाभाविक पथमय वार्तालाप ने मुझे मजबूर कर दिया, कि पहिला अंक समाप्त होते ही वहां से उठकर चल दूं। आज कुछ हलका सा बुखार भी था, शायद यह भी इतनी असहिष्णुता का कारण हो। मुझे इस नाट्यशाला के दो टिकट मिले थे, इसे बड़ा सौभाग्य समझना चाहिये। एक टिकट को तो मैंने पहिले ही अपने होटल के किसी आदमी को दे दिया था, दूसरे टिकट को बाहर निकलते ही एक तरुण को दे दिया। बहुत से चूके हुए लोग आशा लगाये बोल्शोइतियात्र के बाहर मंडराते रहते हैं। नरुण कइ पैसा देना चाहता था, मैंने कहा—नहीं तुम जाकर देखो।

जान पड़ता है, शरीर में धीरेधीरे कुद्ध विकार पैदा हो गया था, जो किसी बीमारी का रूप लेना चाहता था। हल्का बुखार, पेट में कब्ज, और फिर में भनभनाहट देखकर १० अप्रैल को ख्याल आया, कि अस्पताल चलना चाहिये। एक पंथ दो काज— चिकित्सा भी हो जायगी, और सोवियत चिकित्सालय को भी देख लेंगे। ११ अप्रैल को एक वृद्ध डाक्टर ने आकर देखा। क्रान्ति के पहिले धनाढ्य और आभिजात्य कुलीन पुरुष थे, बोल्शेविकों के तेज को सहन करने के लिये आवश्यक आदर्शवाद की भारी घूंट भी नहीं पी थी, फिर वह कैसे संतुष्ट हो सकते थे। आज उनकी लिखी हुई दवायों को सेवन किया, और अस्पताल नहीं जा सका।

१२ अप्रैल को तापमान नहीं था, किन्तु पेट भी साफ नहीं था। बीमारी थी, लेकिन पढ़ने को चीजों को छोड़ भी नहीं सकता था। शामको एक विख्यात डाक्टर आये, उन्होंने देखा, कुद्ध मैने भी कहा, इसलिये अस्पताल जाना तै हो गया।



## ११-सोविघत अस्पताल में

---

अकाले दिन मोटर एक वजे के करीब शहर से दूर हवाई अड्डे के पास बोस्किन अस्पताल में पहुँचा आई। अस्पताल क्या इसे एक पूरा मुहल्ला ही समझिये। बोस्किन नाम के कोई प्रसिद्ध डाक्टर थे, जिनका नाम इस संस्था के साथ जोड़ दिया गया है। डाक्टर के पूछने पर मैंने बतलाया था कि १९२४-१९२५ ई० में मुझे साल भर के करीब कानिक डिसेन्टरी रही, उसके बाद पिछले साल ईरान में संदेह हुआ। इसी संदेह पर मुझे छूतवाली बीमारियों के बक्स ( कमरे ) में रखा गया था। कमरा छोटा था, किन्तु चारों तरफ से पूरी तौर से प्रकाश आने के लिये शीशे ही शीशे लगे हुए थे। कमरा एक तल्ला था, जिसके भीतर लोहे की एक छोटी चारपाई थी। हरेक रोगी का कमरा अलग अलग था। डाक्टर तथा परिचारिका के अतिरिक्त कोई दूसरा भीतर नहीं आ सकता था। यात्रा के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये एक उच्च-पदस्थ सज्जन मुझसे मिलना चाहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन अस्पताल के अधिकारियों ने इजाजत नहीं दी— छूत के वार्ड में हैं, वहाँ कोई नहीं जा सकता। हालांकि मुझे कोई छूत की बीमारी नहीं थी,

डिसेन्टरी भी नहीं थी, केवल पुराने सम्बन्ध से उसका संदेह भर था। अन्त में उक्त सञ्जन को स्वास्थ्य-मंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सोवियत में घरे-घरे न्यू-खैरे को मंत्री बनाकर जो कोई भी विभाग नहीं बसा दिया जाता। किसी विभाग का मंत्री ऐसा ही आदमी होता है, जो उस विषय में काफी जानकारी रखता हो। हिन्दुस्तान नहीं है, कि राजकुमारी अमृतकोर को स्वास्थ्य-मंत्री और मौलाना को शिक्षा मंत्री की गर्दी पर बैठा दिया जाय। सोवियत का स्वास्थ्य-मंत्री वही हो सकता है, जो चिकित्सा-विज्ञान को जानता हो। यदि मंत्री ऐसा न होता तो शायद उसकी बात की भी अस्पतालवाले परवाह न करते। खैर, कुछ भिन्नता के लिये उक्त सञ्जन को अनुमति मिली। वह अस्पताल की सफेद कपड़ा पहना कर पिछले द्वार से भीतर लाये गये, और बात करके चले गये। हमारा भी कपड़ा बदल दिया गया था। कपड़े सादे थे, लेकिन बहुत साफ थे। यहाँ अब परीक्षाओं का ताँता शुरू हुआ।

१३ अप्रैल की ६ बजे से पहिले ही नींद खुलने पर देखा, चारों ओर लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। गरम पानी से भरा मुँह-हाथ धुलवाया गया। उससे पहिले ही तापमान ले लिया गया था। डाक्टर ने पेट, छाती, कफड़े आदि की परीक्षा की। स्वास्थ्य-इतिहास लिखा जाने लगा— १९२४ में क्रॉनिक लाल-डिसेन्टरी थी। जापान, मंचूरिया, रूस हो भारत लौटने पर १९३५ में दो हफ्ते टाईफाइड का शिकार, जिसमें एक सप्ताह बेहोश, १९४१ में कई महीने मलेरिया से पीड़ित, १९४४ में फिर डिसेन्टरी।

मुँह-हाथ धो-लेने तथा बिस्तरा ठीक हो जाने पर प्रातराश आया। टोस्ट, मक्खन, दो अंडा, दूध की लस्सी और काफी। यह प्रातराश क्या भोजन ही हो गया। फिर एक प्रोफेसर-डाक्टर ने आकर परीक्षा की। डाक्टर से प्रोफेसर-डाक्टर का दर्जा उँचा है, वही किसी मेडिकल-कॉलेज का प्रोफेसर होता है। सबने अपना काम बहुत सावधानी और शिष्टता के साथ किया। खाना २ बजे और सात बजे फिर चाय की आवश्यकता होने पर वह भी मिल सकती थी। अब शाम-सबेरे तापमान लेकर लिखा जाने लगा, तापमान साँचे में था। उबोई

भी दो बार पिलाई जाने लगी। उस दिन दो प्रोफेसर-डाक्टरों और दो डाक्टरों ने देखा। मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी भी इस वार्ड में आने थे, लेकिन मेरे पास नहीं आये।

१४ अप्रैल को रविवार साधारण छुट्टी का दिन था, इसलिये केवल अपने डाक्टर मलेरिना आयीं। खून के दबाव को देखने पर कहा—तरुणों जैसा है। दिन में दो इंजेक्शन कल ही से शुरू हो गये थे। एकान्त अवश्य था, यद्यपि उसके तोड़ने के लिये डाक्टर मलेरिना तथा उनकी तरुण-सहायिका दूसरी डाक्टर आकर कुछ देर बैठती थीं। मैं अपने साथ कुछ पुस्तकें भी लाया था। अस्पताल के प्रत्येक कमरे में दो आदमी रखे जाते हैं, मगर मेरे कमरे में मैं अकेला था। अस्पताल में बहुत भीड़ नहीं थी। मुख्य नर्सर्येण्डा एवसा ( स्टाज-संस्था ) परिमाण से अधिक स्थूल थीं। वह बराबर आकर पृच्छती रहतीं : कोई खास खाने-पीने की चीज चाहिये। मैं कहता — नहीं, धन्यवाद। डाक्टर मलेरिना से काफी बात होती। उन्होंने रवीन्द्र की कुछ किताबें पढ़ी थीं, इसलिये भारत के बारे में अधिक जिज्ञासा रखती थीं। मैं एक छोटी कोठरी में बन्द था, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा होती थी, बोल्टिकन अस्पताल ( बोल्लिनरसा बोल्टिकना ) के हरेक भाग को देखने की। १५ तारीख से अब कोई शिकायत भी नहीं थी। दस्त धाकायदा होता था। बुखार भी नहीं था।

१६ अप्रैल को दोपहर तक धूप रही, फिर आस्मान विर आया। सभी की शिकायत थी, कि अब की साल बादल बार-बार लौट रहा है, शायद मई तक भी बरफ न पिघले। मैं चूँकि मध्य-एशिया जाने वाला था, और दत्तभाई से फरगाना की मलेरिया की बात सुन चुका था, इसलिये चाहता था, कि उसकी सुई ले लूँ। डाक्टर ने बतलाया, मलेरिया और इन्फ्लुयेन्जा की सूइयों की आवश्यकता नहीं, हैजा और टाइफाइड की ले लीजिये।

पृम्मे जगह-जगह परीक्षा के लिये जाना पड़ा। एक जगह रीन्तगिन ( एकसरे ) के लिये, दूसरी जगह अंतड़ियों की परीक्षा के लिये जाना पड़ा। सभी परीक्षकों ने यही बतलाया— बहुत ठीक है, कोई विकार नहीं, फेफड़ा, छाती

विलकृत स्वस्थ हैं। यहां के चिकित्सक और प्रत्यक्षवादी हैं : केवल आंख का देखी बात पर विश्वास करते हैं।

१२ अप्रैल को अस्पताल आया था, और २० अप्रैल को मैं उसे छोड़ा। झाड़ते वक्त अस्पताल को और से एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके दी गई और आगे के लिये क्या करना चाहिये, इसकी हिदायत भी। सोवियत-शासन की सफलता का एक बड़ा प्रमाण चिकित्सालयों की सुव्यवस्था है। नगर हो या ग्राम सभी जगह हरेक नागरिक निःशुल्क चिकित्सा पाने का अधिकार रखता है। आरम्भ में डाक्टरों की कमी से चाहे कितने ही गांव अस्पतालों से वंचित रहे हों, लेकिन अब तो शायद ही कोई गांव होगा, जहाँ अस्पताल और डाक्टर न हों। किरगिज़-स्तान और कजाकस्तान में क्रांति के समय तक बहुत भारी संख्या में लोग घुमन्तू या अर्धघुमन्तू जीवन बिताते थे। भेड़ों और घोड़ों का पालन उनका मुख्य व्यवसाय था। किरगिज़स्तान और कजाकस्तान के छोड़े तुखारी घोड़े के नाम से प्राचीन भारत में भी मशहूर थे। आज भी उन्होंने अपनी कीर्ति को खोया नहीं है। सोवियत-काल में तो बल्कि घोड़ों की परवरिश के लिये विशेष ध्यान दिया गया है, और अच्छी से अच्छी नसल के घोड़ों को जल्दी से व्यापक रूप में पैदा करने में कृषि वीर्य-निक्षेप द्वारा भारी सफलता प्राप्त की गई है। आज वहाँ बड़े स्वस्थ, मजबूत और सुन्दर जाति के घोड़े देखे जाते हैं। वहाँ हजार-हजार दो-दो हजार घोड़ों के रेवड़ का एक जगह देखा जाना आश्चर्य की बात नहीं है। घोड़े रिसाले के लिये आवश्यक हैं, इसलिये भी सोवियत सरकार को उनकी ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ा। अब तक किरगिज़ और कजाक लोग अपने खासाविक जीवन में घूमते हुए अश्वपालन करते थे। सभी चरागा हैं एक समय चरने लायक नहीं होतीं, त्यानशान और अल्ताई की पर्वतमालाओं में ऊँचाई के अनुसार आगे पीछे बरफ पिघलती और हरियाली उगती है, इसलिये पुराने घुमन्तूओं ने किस चरभूमि में किस समय जाना चाहिये, इसका एक नियम बना रखा था। आजकल भी उससे पूरा फायदा उठाने की कोशिश की जाती है।



कल के घुमन्तुओं के अब अच्छे खासे गांव बस गये हैं, जिनमें अधिकांश में मिट्टी के तेल की जगह विजली जलती है । इन गावों में अब कोई निरक्षर नहीं मिलता । और गावों के आसपास कुछ लाग-सब्जी, फल-फूल भी उगाये जाते हैं, लेकिन अन्न-पालन को छोड़ नहीं चुके हैं, अब भी वह अपनी पुरानी चरागाहों में करीब करीब उसी समय में पहुँचते हैं, लेकिन तब से अब भारी अन्तर है । अब रेवड़ों के जानें के रास्तों में हर मंजिल पर चारा-पानी, लोगों के रहने का ही इंतजाम नहीं होता, बल्कि उनके साथ खर भेजने का रेडियो भी होता है, आदमियों और पशुओं के चिकित्सक साथ होते हैं, और साथ में चलती फिरती पाठशाला भी रहती है । कई जगहों में स्थायी घर भी बन गये हैं, लेकिन अधिकतर चरागाहों में लोग तम्बुओं के भीतर ही रहते हैं । सोवियत के विशाल राज्य में कोई मनुष्य चिकित्सा से वंचित न हो, इसका अब पूरी तौर से इंतजाम हो चुका है । जैसा कि पहिले कहा, पशुओं की चिकित्सा का भी इसी तरह प्रबंध है । मुक्त चिकित्सा से आदमियों को कितना सुखीता है, इसके महत्व का सोवियत के लोग नहीं समझते । हवा अनमोल चीज है, लेकिन अत्यन्त सुलभ होने के कारण हम उसके महत्व को नहीं समझते । पूँजीवादी देशों में मध्यम वर्ग के लोगों को बीमारी के पीछे बिकने देखा जाता है, वह इसके महत्व को समझ सकते हैं । नगरों में हरेक आदमी के लिये एक-एक नहीं तीन-तीन जगह निःशुल्क चिकित्सा का प्रबन्ध है । मेरा ही उदाहरण ले लीजिये । काचेइ मुहल्ले में अलग डाक्टर थे, जोकि टेलीफोन पाते ही रोगी के पास पहुँचते थे, मैंने कभी उनके आने में पन्द्रह मिनट से अधिक समय बीतते नहीं देखा । यदि डाक्टर कहता है अस्पताल चलो, तो वहाँ सारी व्यवस्था मुफ्त है । यदि हम आग्रहवश घर रहना चाहते हैं, और बीमारी छूत की नहीं है, तो डाक्टर जेवर्दस्ती नहीं करेगा, हाँ घर रहने पर सरकारी दुकान से सस्ते दाम पर मिलनेवाली दवाइयों भर का दाम देना पड़ेगा । काचेइ के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में भी निःशुल्क चिकित्सा का प्रबन्ध था और तीसरा वैसे ही प्रबन्ध था तिरयोकी में ।



## १२--प्रतीक्षा और निराशा

---

२० अग्रेल को बोम्बे की कार आई और ४ बजे के करीब मैं फिर नेशनल होटल के उसी २४० नं० के कमरे में चला आया। इतने दिनों तक अस्पृश्य था, लेकिन कमरा रख छोड़ा गया था। एक जगह पड़े रहने के कारण ही शायद कुछ कमजोरी मालूम होती थी। उस रात को कुछ बुखार सा भी मालूम हुआ। चाहे कुछ भी हो, मैं पढ़ने को तो छोड़ नहीं सकता था। शाम को भूख नहीं लगी, कुछ संदेह होने लगा, लेकिन अब अस्पताल नहीं जानेवाला था।

२१ अग्रेल को कल के हलके बुखार के डर से मैंने बाहर निकलने का संकल्प छोड़ दिया। शाम के बक्त अपनी पत्नी सहित साथी समझन आये। जिस जाकी मित्र से मैं तेहरान में आदिल खान के नाम से परिचित था, उन्हीं का नाम साथी समझन था। उनके साथ शाम को रोमन-तियात्र में "भट्ठी के बहू" नाटक देखने गया। यूरोप के सिगानों का जहां भीख मांगना, हाथ देखना, घोड़ा फेरी करना व्यवसाय था, वहां नाचना गाना भी, विशेषकर शराब के भट्ठी खाने के सामने। शराब पीनेवालों को ऐसे सस्ते मनोरंजन का साधन सिगान

ही दे सकते थे । नाटक में एक ऐसी वृद्ध का वर्णन था, जो कि भट्टीखाने से लायी गई थी । सिगानों का तुमन्तु जीवन बड़ा ही आकर्षक होता है । रूस के कालिदास कवि पुष्किन भी इस जीवन पर मुग्ध हो गये थे, और उन्होंने इस पर एक सुन्दर कविता लिखी थी । शराबखाने पर नाचना-गाना दिखलाया गया । सिगान नर-नारी अपनी कला दिखाकर पैसा मांग रहे थे । एक सिगान तरुण दूसरी सिगान तरुणी पर मुग्ध हो गया । तरुण केवल कलाकार था । कन्या का हाथ मांगने वाले दो दूसरे तरुण भी थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी भेंट माता-पिता के सामने रखी । लेकिन जो नाचगाना तथा सिगानों की दूसरी विद्यार्थों को नहीं जानता 'तस्मै कन्या न दीयते' । पिता-माता ने गुण नहीं देखे गृह और भेंट-मोगातपर फैसला करते हुए, एक बूढ़े के हाथ में अपनी कन्या को सौंपना चाहा, लड़की के विरोध करने पर— पिताने कोड़ों से मारा । प्रेमी तरुण ने फिर एक बार कोशिश की, लड़की भी रोई-कलपी, किन्तु पिता के सामने किसी की नहीं चली, जबदस्ती विवाह कर दिया गया । सिगान धर्म के बारे में कट्टर नहीं नहीं रहे, जहां जिस धर्म की प्रधानता थी, वहां वही उनका धर्म हुआ रूस में वह ग्रीक-चर्च के माननेवाले बने, लेकिन दिखावे मात्र था, नहीं तो सिगानों की अपनी प्रथा सर्वत्र एकसी थी । उनका भोजन, गाना-नाचना भी एक ही जैसा था । लड़की का विवाह हुआ, जिसमें सारे नर-नारियों ने भाग लिया । नववधू भी प्रथा के अनुसार नाचने के लिये बाध्य थी, किन्तु उसने रोदन नृत्य किया । घोड़े की चौपहिया गाड़ी पर तरुणी को चढ़ाये जाने के समय तरुण प्रेमी क्रिमिया के भूतपूर्व सुल्तान के रूप में जादूगर बनकर आ गया । उसने चादर के नीचे से एक अत्युपम सुन्दरी ( परी ) को निकाला, जिसने कुछ भविष्यवाणी की । सुल्तान ने घोड़ा गाड़ी में उसे लुप्त कर दिया । वर-वधू उसी गाड़ी पर सवार हो विदा हुये । रास्ते में परी चुड़ैल का रूप लेकर चढ़ पड़ी । सिगान बेचारे भूत-प्रेत के बड़े विश्वासी होते हैं । सभी डर गये—चराती कहीं भागे, वर कहीं भागा । सुल्तान का वेष छोड़कर तरुण अपनी प्रेयसी से मिला । बूढ़ा वर पागल हो गया, जब उसने दोनों को चुम्बन करते देखा । लोग फिर लौट कर

आये । प्रेमी के साथी ने दोनों को गाड़ी में छिपा दिया, और लोगों को बहका कर दूसरी ओर हँदने के लिये भेज दिया । अन्त में दोनों प्रेमी पकड़े गये । नूटें-वर ने अपने श्वसुर पर बड़ा रोष प्रकट किया है । श्वसुर नाराज हो गया । और उसका बीबी ने आखी भेंटों को निकाल फेंका । अन्त में प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हुआ । सारी सिगान-मंडली ने उनका स्वागत किया । सिगानों के इतने सुन्दर नाट्य को देखकर मुझे अफसोस होता था, कि उन्हें घर का तहखाना देकर श्यों छोड़ दिया गया । उनके लिये तो एक खास इमारत होनी चाहिये । इनका त्रियात्र सदा भरा रहता था । ग्रीष्म के दिनों में इनकी मंडली दूसरे शहरों में भी जाती । लेनिनग्राद में कई बार तो उनका टिकट नहीं मिलता था । अगर यहां बड़ी नाट्यशाला होती; तब भी वह खाली न रहती ।

यद्यपि अभिनेता सारे सिगान और सिगानियां थीं, लेकिन दर्शक प्रायः सारे ही सिगान-भिन्न थे, इसलिये रूसी भाषा अनिवार्य थी । प्रौढ़ा अभिनेत्री ने अतलाया कि अभी हम अपनी भाषा को भूलें नहीं हैं । यह भी मालूम हुआ कि सिगानों को उनकी मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन सिगानों का न कोई प्रदेश और न कोई गांव है । दूसरे लोगों के बीच में यह विखरें होते साथ ही सभी द्विभाषी हैं, इसलिये व्यवहारतः यह प्रयोग चल नहीं सका ।

अब की मस्को यात्रा में नाटकों के देखने को मैंने छूट करदी थी । २४ अप्रैल को भी युरेई ( यहूदी ) नाट्यशाला में एक सामाजिक नाटक देखने गये । उसके संगीत को देखकर मुझे मालूम हुआ, कि भारतीय फिल्मों में जो संकर, संगीत की इतनी अधिकता है, उसका कारण यही युरेई प्रभाव है । रोमन नियंत्रण की तरह यह नाट्यशाला भी अल्पसंख्यकों की नाट्यशाला थी । यूरोप में सबसे अधिक यहूदी रूस में शताब्दियों से रहते आये हैं, किन्तु जन साधारण में इजम नहीं हो सके । इसमें यहूदियों की कठोर जात-पात की भयांदा ही कारण नहीं रही; बल्कि ईसाइयों की भी ईसा के प्राण हरनेवाले बन्धुओं के प्रति घृणा भी कारण थी । क्रान्ति से पहले तो वह एक तरह अछूत ( छोटी ) जाति के

सम्भके जाते थे। शायद लहमुन का प्रयोग वह खाने में ज्यादा करते हैं, इसलिये लहमुनखोर कहकर रूसी उनके प्रति घृणा प्रकट करते थे। कोई आदमी अपनी लड़कों को यहूदी को देने के लिये तैयार नहीं था, और न कोई रूसी यहूदी लड़की से ब्याह कर अपने बर्ग और परिवार में सम्मानित रह सकता था। जन्म-मृषि से उजड़कर भूखे पत्तों की तरह दुनिया भर में बिखरे यहूदी शायद उसे चाहते भी नहीं थे, या चाहने पर भी उनको अवसर नहीं मिला जोकि वह खेती में नहीं लगे। बनियाँ-महाजन का व्यवसाय ज्यादा लाभप्रद था, इसलिये वह उसी तरह आकृष्ट हुए और यूरोप के देशों के मारवाड़ी बन गये। उनकी अपनी भाषा इवराणी अब केवल पढ़ने की भाषा रह गई, तो भी वह जर्मन-मिश्रित एक तरह की भाषा (यिदिश) आपस में बोलते हैं। शिक्षा का द्वार खुलने के साथ उन्होंने उस तरह भी कदम बढ़ाया और अच्छे अच्छे वकील, डाक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर उनमें द्रोनें लगे। उनके व्यवसाय सीमित थे, विवाह-सम्बन्ध सीमित थे, इसलिये उनका सामाजिक क्षेत्र भी बहुत संकुचित था। वह जेन्तील (अ-यहूदी) को चूसना अपना धर्म समझते थे, और दूसरे उन्हें तुच्छ दृष्टि से देखकर आत्म-संतोष कर लेते थे।

लेकिन क्रांति के बाद युगों से चले आये पद्धतियों को हटाने का प्रयत्न किया गया। आज वही लोग पुराने दुर्भावों को अपने मन के भीतर रखे हुये हैं, जो सोवियत शासन से भी प्रेम नहीं रखते। सोवियत-शासन ने यहूदियों के राने की सभी रूकावटों को दूर कर दिया है, तो भी अभी ७० प्रतिशत विवाह सम्बन्ध उनके अपने ही धर्म-साइयों में होते हैं और वह अपने आसफदों— स्टाइन, मान आदि को कायम रखे हुये हैं। यूरोपीय रूस में उनकी कोई विशेष भाषा न होने के कारण उसमें तो प्रयत्न नहीं किया गया, लेकिन मध्यएशिया के यहूदी एक तरह की विशेष फारसी बोलते हैं, उसमें छपाई हुई स्कूली किताबों को लोक पुस्तकालय (लेनिनग्राद) में मैंने देखा था। लेकिन यह तजर्बा उसी तरह असफल रहा, जिस तरह सिगानों की उनकी भाषा में शिक्षा देने का। वस्तुतः जब सभी यहूदी अपने गणतंत्र की भाषा को मातृ-भाषा की तरह बोलते हैं, तो वह क्यों

अपने वेष को सीमित रखते हुए थोड़े आदमियों की भाषा में पढ़ना पसन्द करेंगे। यहदियों की शुक जैसी नासा का जातीय चिन्ह परिचित यूरोप की तरह रुस में ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन उनके बाल काले आमतौर से देखे जाते हैं।

यह नाट्यशाला छोटी नहीं थी। इसका हाल विशाल था, जिसमें ऊपर नीचे ५०० (पांचसौ) से अधिक दर्शक बैठ सकते थे। यहाँ के गाने हमें, ज्यादा पसन्द आ सकते थे, क्योंकि इन में अरबी और भारतीय गानों के स्वर मिलते थे। पोशाक भी ऐसियायी-यूरोपीय मिली थी— वही शेरवानी थी, जिसका प्रचार मुसलमानों ने तुर्की का समझकर भारत में किया और अब महापुरुष नेहरू द्वारा जिसको भारत की राष्ट्रीय पोशाक के पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न हो रहा है। संक्षेप में वेष, वातावरण, सजावट आदि में यह तियात्र भारत के अधिक नजदीक था।

नाटक का कथानक था : एक पुरोहित सनातनी विचारों का था। उसकी हकलौती लड़की का प्रेम एक तरुण विद्यार्थी के साथ हो गया। लेकिन पिता नास्तिक विद्यार्थी के साथ अपनी कन्या का विवाह कैसे करता ? उसने वर के ढूँढ़ने के लिये घटक दौड़ाये। घटकों ने एक भ्रमिक परिवार के तरुण को पसन्द किया, जो कि लंगड़ा, काना, और हकला भी था। लेकिन विद्यार्थी इतनी जल्दी अपने दात्रे को छोड़ने के लिये तैयार नहीं था। जब विवाह-पत्र लिखा जाने लगा, तो उसने पुरोहित को रिश्वत देकर अपना नाम लिखवा दिया, और जिस में पिता को मालूम हो, कि यह वही लंगड़ा-काना-हकला लड़का है, उसने भी वैसा ही अपने को घनाया। लोग उसके अभिनय को देखकर लोट-पोट हो जाते थे। उसके चलने, बोलने की सभी बातें धनिक-पुत्र की तरह थीं। नाटक की भाषा यिदिश थी, लेकिन अभिनय इतना अच्छा था, कि भाषा जाने बिना भी आदमी नाटक का आनन्द ले सकता था। दूसरों की तरह हंसते-संसते भरे पेट में भी दर्द होने लगा। जब तक असली लंगड़ा, किसी काम के लिये आने की तैयारी में होता, तब तक नकली लंगड़ा पहुँच जाता, और कोशिश यह करता कि दोनों एक समय मामने न आयें। यिदिश भाषा का उपयोग होने के कारण

यहां बहुत सी सौंटे खाली थीं, शायद रोमन-तियाज में भी सिगान भाषा का आग्रह किया जाता, तो वहां भी यही हालत होती ।

२५ अप्रैल को एक और मन भारकर अनुज्ञापत्र की प्रतीचा कर रहा था, और दूसरी तरफ शाम को पेर केन्द्रीय बाल-नाट्यशाला की और चले । यह नाट्यशाला १२ साल से ऊपर के बच्चों के लिये है । नाटक था “नगर के दो कुबड़े” । लड़कों के लिये मनोरंजन की चीज थी, यह इस नाम से ही प्रकट होता है । भाइ देनेवाला कुबड़ा तरुण करकाल बड़ा सुन्दर गायक, नगर भर के लोगों का प्रेमपात्र तथा ईमानदार था । नगर-वासी खान ( राजा ) के अत्याचार से पीड़ित थे । खान के अमीरका एक महामूर्ख लड़का था, जिससे नगर की सर्व सुन्दरी कन्या का उसके पिता ने विवाह करना चाहा । पता पाने के बाद खान ने स्वयं शादी करने का प्रस्ताव किया । उधर दुष्टोंने कुबड़े तरुण का काम लमाम करने के लिये षडयंत्र रचा, लेकिन नगर के प्रेम-पात्र कुबड़े के गड्डे में न गिरने की जगह मूर्ख तरुण और खान दोनों उसमें गिरे । तरुण गायक कुबड़े ने उन्हें गड्डे से बाहर निकाला । पहिले ही से उसके गान पर मुख जंगल के भालू, सिंह, खरगोश देख रहे थे । लेकिन अपने प्राण बचानेवाले कुबड़े तरुण के उपकार के लिये कृतज्ञ होने की जगह, खान ने उस पर अपराध लगाया । नगर के मैदान में कचहरी लगी । उसी मूर्ख तरुण का पिता न्यायाधीश था । गवाहों की पुकार हुई, किन्तु एक भी गवाह कुबड़े के खिलाफ बोलने के लिये तैयार नहीं हुए । इस पर न्यायाधीश ने कुछ बूढ़ों को न्यायाधीश बना स्वयं मुदई और अपने मूर्ख पुत्र को गवाह बदकर अभियोग लगाया । तरुण अपराधी से गवाह के बारे में पूछने पर उसने जंगल के वासियों को गवाह के रूप में पेश करना चाहा । विरोधी इस पर हंस पड़े । गवाहों की पुकार का धातू तीन बार बजा, और इसके बाद मृत्यु-दण्ड को कार्य-रूप में परिणत करने के लिये भले कुबड़े को ले ही जाने वाले थे, कि सिंह, भालू, खरगोश आ पहुँचे । लोग दंग रह गये । जंगल के वासियों को गवाही पर कुबड़े करकाल को मुक्त कर दिया गया । तब खान ने स्वयं मुकदमा देखना चाहा, किन्तु अब तक

अपराधी वहाँ से लुप्त हो चुका था। उसे फिर पकड़ कर लाने का हुन्म हुआ। स्वयं दूसरों का हाथ न उठाने पर खान ने स्वयं उसे पकड़ना चाहा और छीना भूपटी में करताल के हाथ मारा गया। इस पर खान के एक सेनापति विलियम ने जादू की तलवार से करकाल को मारना चाहा। जमकर लड़ाई हुई। खान के आदमी मारे गये, और विलियम भी बन्दी बना। अब जादू की तलवार करकाल के हाथ में थी, फिर उसे कौन जीत सकता था ? नगर की सर्वसुन्दरी कन्या ने उसी कुवड़े से विवाह किया— रूप से गुण को उसने अधिक प्रसन्न किया। नगर खान के अत्याचार से मुक्त था। किसी बुढ़िया की भविष्यवाणी के अनुसार करकाल का कुवड़ भी गल गया। इस नाटक में श्रमिक जनता की ईमानदारी और प्रभु वर्ग के अत्याचार का अच्छा चित्र खींचा गया था। १४ वर्ष तक के लड़कों के लिये ही यह अधिक मनोरंजन और शिक्षाप्रद नहीं था, बल्कि सयाने भी उसका आनन्द ले रहे थे। सभी अभिनेता कुशल थे। नाट्यशाला का मकान अच्छा था, कई कमरे थे। हाल में ७०० सौ आदमियों के बैठने की जगह थी।

डाक्टर ताल्लोफ के बारे में मैं पहिले भी सुन चुका था। यह भी मालूम था कि कई वर्षों से उनके नेतृत्व में सोवियत पुरातात्विक अभियान मध्यएशिया के उजड़े नगरों के अनुसंधान के लिये जा रहा है। २६ अप्रैल को ढाई वजे दिन को मैं उनसे मिलने गया। कराकल्पक और ख्वारेज़्म के अपने अनुभवों के बारे में २ घंटे तक वह बात करते रहे। यूची और शक लोग मंगोल नहीं बल्कि हिन्दू-यूरोपीय जाति के थे, इस बात से वह भी सहमत थे और कह रहे थे कि उनका सम्बन्ध मेसागित ( महाशक ) जाति से था। वो-सुनों की भूमि (सप्तनद) तक ही नहीं बल्कि दन्वूब से लेकर तरिमउपत्यका तक शक-जाति का निवास था। शक और हिन्दू-ईरानी जाति का परस्पर बहुत नजदीक का सम्बन्ध था। ईसा-पूर्व तीसरी चौथी सहस्रब्दी के अरंजित मृत्पात्र-काल में शायद शक और आर्य शाखायें अलग हुईं। फिनो-उइयुर और मुंडा-द्रविड़ जाति का भी उसी तरह का सम्बन्ध था। भाषा की समीपता से जो बात मालूम होत है, उसको पुराता-



द्विक खुदाई में प्राप्त सामग्रियों का भी समर्थन प्राप्त है। ख्वारेज़म और भारत के जय-पाषाण युग के हथियारों में समानता है, किन्तु तत्कालीन मनुष्यों में कौसी समानता है इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। मैंने कहा: ओरेल स्ट्राइन को मकरान में जो मृत्पात्र मिले थे, वह रंगीन हैं। उसमें पहिले के आड़ी रेखाओं में अंकित पात्र मैंने नहीं देखे हैं। प्रोफेसर ने बतलाया कि ख्वारेज़म में कुषाणों के सिक्कों का पूर्ण रूप देखने को मिलता है, नाम भी उनके उसी ओर संकेत करते हैं। ताल्स्तोक का मत है कि अंत-वेद ( मिर और वलु दरिया के बीच के प्रदेश ) में पहुँचने पर पहिले पहल ग्रन्थियों की राजधानी ख्वारेज़म में थी। श्वेत-दृश्यों (हैफ़तालों) की राजधानी उनके मत से संभवतः वरदा में थी, जिसकी खुदाई १९३८-१९३९ में ताशकंद के प्रोफेसर शिक्शिन ने कार्या। वहाँ की खुदाई में ईसा की चौथी-पाँचवीं शती की चीजें और भित्ति-चित्र मिले हैं।

मध्यएशिया से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री के बारे में पढ़ने पर उन्होंने बतलाया : उनका कितना ही भाग मास्को में है, और कितना ही अशकावाद, पमरकन्द, ताशकन्द, तेरमिज, स्तालिनाबाद, फ़ुन्जे और अन्माअता के म्यूजियमों में। खुदाइयों के समय और नेताओं के बारे में उनसे पता लगा —

खनक	खनक प्रदेश	सन्	संग्रहालय
फाइसान	पंजकेन्त (मुकगिरी)	१९३४	मास्को
वेर्नश्ताम	सप्तनद	१९३६-४५	फ़ुन्जे
ताल्स्तोक	ख्वारेज़म	१९२७-४४	मास्को कला संग्र.
शिक्शिन	अरकशा ( बुखारा )	१९३८-४८	ताशकन्द
तेरेतोशिकन	अफरासियाब	१९४५	"
भासोव	फरगाना नहर	१९३९	"
"	मेर्घ	१९३९	अशकावाद

ताल्स्तोक अपने विषय के डाक्टर एचेवोत्सकी जैसे ही गंभीर विद्वान् हैं और उसी तरह की प्रबल जिज्ञासा रखते हैं। २ घंटे की बातचीत के बाद भी मेरी ही तरह वह तृप्त नहीं थे, और फिर आने के लिये निमन्त्रित किया। अभी

संग्रहालय में चीजों को प्रदर्शित नहीं किया गया था, इसलिये उन्हें अफसोस था कि चीजों को नहीं दिखा सके, लेकिन कितने ही फोटो उन्होंने दिखलाये, साथ ही यह जानने की इच्छा प्रकट की भारत में पुराण-पुरातत्व के विशेषज्ञ कौन कौन हैं। मैं इसका क्या उत्तर देता ? हमारे यहाँ तो सर्वज्ञता को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, पुरातत्व जाननेवाले ही पुराण-पुरातत्व पर भी हाथ साफ कर देते हैं।

२७ अप्रैल को पता लगा, कि शायद विदेश-विभाग से स्वीकृति न मिल सकेगी, लेकिन आशा-तन्तु अभी बिलकुल टूटा नहीं था। उस दिन हम भास्को के दूसरे सबसे बड़े माली-तियात्र में “ प्रतिभा से दुःख ” ( गरी अत्-उमा ) नाटक देखने गये, इसमें १९ वीं सदी के आरम्भ के रूसी सामन्त वर्ग का जीवन दिखलाया गया था। बाल्शोयी-तियात्र की तरह माली-तियात्र भी अपना एक शताब्दी बहुत पहिले पूरा कर चुका है, और उसके नाट्यमंच पर भी सैकड़ों प्रतिभाशाली अभिनेता और अभिनेत्रियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। इन पुरानी नाट्यशालाओं के अपने संग्रहालय, और शिक्शाणालय हैं। यह केवल रूसी रङ्गमंच के लिये ही कलाकार नहीं तैयार करते, बल्कि सुदूर सिबेरिया और मध्यएशिया के बुरियत, उजबेक, कजाक आदि तरुण-तरुणियाँ यहाँ से नाट्य-कला सीखकर अपने देशों में उनका बड़ी सफलता के साथ प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। संग्रहालय में भिन्न-भिन्न समय पर खेले गये नाटकों की ऐतिहासिक सामग्री देखी जा सकती है— नेपथ्य का खाका, वेश-भूषा के नमूने, कलाकारों के चित्र या फोटो।

नाटक का कथानक था : वृद्ध ग्राफ (काउन्ट) की इकलौती अत्यंत सुन्दरी लड़की थी। ग्राफ विधुर था, वह अपनी तरुण नौकरानी—जोकि उसके रैयतकी पुत्री थी—को फंसाना चाहता था। उस समय रूसमें किसान अर्धदास (सर्फ) थे, भूमिपति के हाथ में किसानों की जान-माल, इज्जत सब कुछ था। ग्राफ लोग राजधानी और शहरों के अपने महलों में बड़े आराम से रहा करते, और कभी कभी सैरसपट्टे तथा मन-बहलात्र के लिये अपनी तालुकदारी के महल में चले जाते थे, उस समय किसान तरुणियों की इज्जत नहीं बच पाती थी। किन्तु ही किसान

कुमारियाँ इन विलासियों से गर्भवती होतीं, और पीछे उनको बड़ी बुरी अवस्था में अपने गांव में रहना या नगर में जाकर वेश्या बनना पड़ता । बृद्ध ग्राफ की तरुण नौकरानी इस घोर परिणाम को जानती थी, इसलिये वह बूढ़े से श्रृणा करती थी । ग्राफ-पुत्री के तीन प्रेमी थे— एक पैंतालिस साल का कर्नल, जिसका सैनिक हैकड़ी मूर्खता की चरम सीमा तक पहुँच गई थी, दूसरा चापलूस तरुण जो ग्राफ-पुत्री से भी अधिक तरुण नौकरानी पर लट्टू था, और तीसरा एक स्वतंत्रता-प्रेमी नवयुवक चास्की, जिसका साहित्य और मानवता पर बहुत प्रेम था, और प्रेमिका के ऊपर दिलोजान से फिदा था । पिता कर्नल को दामाद बनाना चाहता था, पुत्री लम्पट तरुण को चाहती थी । साहित्य और स्वातंत्र्य के प्रेम में पागल तरुण को न पिता चाहता था, न पुत्री ।

पिता और पुत्री के साथ तीनों उम्मेदवारों ने कई बार बातचीत की थी । बूढ़े ने एक बड़ी दावत की, जिसमें बीसों कन्याज ( राजकुल ), ग्राफ ( काउन्ट ) अपनी पत्नियों और पुत्रियों के साथ आये थे । उनकी पोशाक बड़ी भड़कीली थी । जैसी कि १९ वीं सदी के आरम्भ में होती थी । स्त्रियों और आभूषणों की प्रदर्शनी सी खुल गई थी । पुरुष सम्मान प्रदर्शित करते हुए महिलाओं का हस्त-चुम्बन और किसी का मुँख-चुम्बन भी करते थे । स्त्रियाँ घाघरे को कमर के पास से पकड़कर जरा-सा झुककर अभिवादन करती थीं । देश-काल-पात्र में किसी तरह का अनौचित्य न हो, इसका ध्यान सोवियत नाट्यकला में बहुत दिया जाता है और इसके लिये भिन्न-भिन्न विषयों के विशेषज्ञ परामर्श के लिये बुलाये जाते हैं । रूसी उच्च-वर्ग के हरेक व्यक्ति की अलग-अलग रुचि थी, जिसे अभिनय में बड़ी अच्छी तरह दिखलाया गया था । स्त्रियाँ वृद्धा हों, प्रौढ़ा या तरुणी, सभी का व्यवहार इतना अस्वामाविक था, कि जान पड़ता था मानव-शरीर नहीं बल्कि पुतलियाँ हिल-डोल रहीं हैं । चौथे और अन्तिम दृश्य में ग्राफ के दरवाजे का प्रदर्शन किया गया था । जाड़े का समय था । परिवारक अपने मालिक और मालकिनों के बहुमूल्य समूरी औरस्कोट और टोप लिये बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे । मालिक और मालकिन एक एक करके बाहर निकल नौकरों के हाथसे अपने

कोट और परिधान लेकर सवारियों पर सवार हो जाने लगे । कर्नल भी विदा हुआ । चारुकी में और गुण थे, लेकिन बोलने में वह सीमा पार कर जाता था, इसलिये उसका लम्बा भाषण अभी खतम नहीं हुआ था । वह आकर नीकरों-वाली कोठरी में रुक गया । दरवाजे पर कोई नहीं था । चिराम गुल हो चुके थे । प्राण कुमारी ने अपने लम्पट प्रेमी को बुलाया । परिचारिका उसे लेने गई, लेकिन प्रेमी परिचारिका से ही प्रेम का प्रस्ताव करते आगे बढ़ा । कुमारी ने देख लिया । उसने कुपित हो बकभककर उसे त्याग दिया । इसी समय चारुकी पहुँच गया उसने स्मरण दिलाया, किन्तु कुमारी मौन रही । पिताने आकर दोनों को देखा, और उसने शक करके उन पर कोप प्रकट किया । तरुण ने पहले कुमारी को संबोधन कर खरोन्खाटी सुनाई, उससे अन्तिम नाता तोड़ा, और अन्त में वृद्ध पिता को भी चार मुनाकर अपना रास्ता लिया ।

सोवियत के नाटक केवल सुन्दर कला और मुश्किलपूर्ण मनोरंजन के ही उत्कृष्ट उदाहरण नहीं होते, बल्कि वह इतिहास, समाज-विज्ञान की सुन्दर पाठ-शाला का काम देते हैं । जिस समय का नाटक देखने का आपको अवसर मिला है, वहाँ उस समय का इतिहास आपके सामने बिलकुल असली रूप में आ जाता है, और ऐसे रूप में जिसे आप जब्दी भूल नहीं सकते । हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि अशोक के समय उस विक्रमशिला के भिन्दु पेश कर दिया जाय, जिस विक्रमशिला का अस्तित्व अशोक के ११ शताब्दियों बाद हुआ । रेडियो नाटकों में कलिंग-विजय के समय वारूद का धड़का दिखाया जाय, जिसको कि बाबर के आने से पहिले हिन्दुस्तान के लोग जानते नहीं थे । हमारा ही देश क्या इस विषय में पश्चिमी यूरोप और अमेरिका वाले भी अर्थात् सोवियत रूस से बहुत पीछे हैं । माली और ब्राँडशोह तियात्र की नाटक-परम्परायें बहुत पुरानी हैं, और आज भी दोनों चोटी के तियात्र समझे जाते हैं । देश के सर्वोत्तम अभिनेता और अभिनेतियाँ यहीं हैं । बहुत से उन नाटकों को आज भी खेला जाता है, जिन्हें कि आज से शताब्दी पहिले खेला गया था, हाँ उनसे अनौचित्य के दोष को हटाकर और सामग्री और अभिनेताओं के परिणाम और गुणको बढ़ाकर । सामन्त-युग के

समाजक के विलासमय जीवन का दिखलाने में आज के शासक कोई संकोच नहीं करते, उनको उन्हें कोई खतरा नहीं है। हाँ, अब भी पुराने सामन्तवर्ग की सन्तानों में से कुछ हारा, रतन, रेशम और सपूर के प्रदर्शनों को देखकर ठंडी सांस लेकर कह उठते हैं— “कला तो यह है। सौंदर्य तो यह है” (जिसका अर्थ है— ‘तुम हि नो दिवसा गतः।’)

बोल्शोव की तरह माली-तियात्र का टिकट मिलना भी सीमाय की बात है। उसके तीनों तल और फर्श की सीटें बिलकुल भरी हुई थीं। मैं फर्श पर तीसरा पंक्ति में रंगमंच के बिलकुल नजदीक होने में सभी चीजों को साफ साफ देख-गुन सकता था।

२८ अप्रैल आया। मन नहीं लग रहा था। दुविधा में पड़ा हुआ था। यात्रा का प्रबन्ध करनेवाले देर होने से शंकित जरूर थे, किन्तु अब भी आशा छोड़ नहीं बैठे थे। उस दिन मैं मारको के ओपरेता-तियात्र में डरते-डरते गया। मैंने समझा था, ओपरेता भी ओपेरा का ही छोटा भाई होगा और मिरदर्द मोल लेना होगा। लेकिन यहाँ ओपरेता का मतलब है नृत्य-संगीत सहित-सुखान्त नाटक, अर्थात् ऐसा नाटक जिसे भारतीय रुचि ज्यादा पसन्द करती है। इसका ओपेरा से कोई सम्बन्ध नहीं। यहाँ के सभी गीत, नृत्य और संवाद स्वाम्भाविक थे। नृत्य में बैले का उच्च नृत्य भी शामिल था। नाटक में आधुनिक समाज को चित्रित करते हुए नौसैनिक के प्रेम को दिखलाया गया था। इसमें विनोद का मात्रा भी बहुत थी। अत्यंत स्थूला अभिनेत्री साविःस्कया का अभिनय बड़ा विनोदकारी था। निकुलकीना अभिनय में और उज्जमिना नृत्य में परमदत्त।

२८ अप्रैल ही से चारों ओर मई-महोत्सव की जोंगों से तैयारी होने लगी। कितने ही मकानों पर नेताओं के चित्र लगा दिये गये थे, दीपमालाएँ भी जग गई थीं। ७ नवम्बर के (क्रान्ति-दिवस) के बाद सोवियत का दूसरा सबसे बड़ा न्यौंहार मई-दिवस है।

लेनिनग्राद छोड़े महीना भर हो गया था, इसलिये वहाँ के बारे में क्या-

कह सकता था ? लेकिन मास्को में तो २६ अग्रेल को वसन्त का आगमन सा मालूम हो रहा था । प्रथम मई त्यौहार के लिये वसन्तारम्भ से बढ़कर सुन्दर मसय कौन सा मिल सकता था ? उसदिन तीन-चार घंटा हम शहर में टहलते रहे । मास्कोवा नदी में कहीं बरफ का नाम नहीं था, वह मुक्त-प्रवाह बह रही थी । छत या जमीन पर भी बरफ का पता नहीं था, सिर्फ दस भाई की गलों में मुकाब घरो के निचले स्थानों में हिम नहीं बरफ ( यख ) दिखाई पड़ती थी । मास्कोवा के उस पार बच्चों की हाट लगी हुई थी, जिसमें खिलौने, गिस्कुट, चाकलेट आदि की बेचनेवाली संस्थायों ने अपनी अपनी छोटी-छोटी दुकानें खोल रखी थीं । दुकानें लकड़ी की थीं, लेकिन मुचित्रित, सुसज्जित, और शीशे के गोल कंस के साथ । पानी का क्यूल रखना जरूरी था, इसलिये वर्षा का असर न पड़नेवाली छतें बनाई गई थीं । सारा बाजार चित्रशाला सा मालूम होता था, और चित्र भी वैसे ही जिनकी और बालक बहुते सज्जित हैं । यहाँ पर कई झूले और कठबोडवा भी लगे हुए थे । मन्दिरनुमा छतदार स्थान बाजे के लिये सुरक्षित था । बरफ-मलाई बेचनेवाले कितने ही ठेले भी पहुँच गये थे, लेकिन प्रभी दुकानों में चीजें सजाई नहीं गई थीं । नगर के बड़े बड़े घरों को भी सजाया गया था । जगह जगह पर लेनिन और स्तालिन तथा दूसरे नेताओं के भी विशाल चित्र टंगे हुए थे । लेनिन पुस्तकालय के ऊपर लेनिन और स्तालिन का चित्र इतना ऊँचा था कि वह नीचे से चौतल्ले के ऊपर तक पहुँचता था । कोई जगह ऐसी नहीं थी, जिसमें स्तालिन का चित्र न हो । जहाँ-तहाँ “ ग्लावा बेलीकस स्तालिन ” (महान् स्तालिन की जय) बड़े-बड़े अक्षरों में लगे हुए थे । एक जगह वर्तमान पंच वार्षिक योजना के आँकड़ों का रेखाचित्र भी लगा हुआ था ।

इतने दिन रहे, तो बिना मई-महोत्सव देखे जाना अच्छा नहीं, इसलिये इंतुरिस्तवालों को २ मई के लिये लेनिनग्राद की ट्रेनों में सीट रिजर्व कराने को कह दिया और लेनिनग्राद तार भी दे दिया । अब मेरा मन बिलकुल उकता गया था । मध्यएशिया की यात्रा को मैं बड़ी लालसाभरी दृष्टि से देख रहा था, जिसके लिये टका-सा जवाब मिल गया । उक्त खबर को सुनाने के लिये एक उच्चपदस्थ

मद्र पुरुष थायें, और संकोच करते हुए कदमों में भिन्नक रहे थे । मैंने कहा— कोई परवाह नहीं । लेकिन प्रभाव तो पड़ा था । अब बेसी यही इच्छा थी, कि कब भारत लौट चलूँ । केवल पढ़ाना मुझे पसन्द नहीं आ सकता था । पुस्तक की सामग्री कभी जमा कर चुका था, लेकिन लिखने के लिये कलम नहीं उठती थी, क्योंकि कई सैन्यी के भीतर होकर प्रेस-कार्यी भारत में प्रकाशक के पास पहुँच ही सकेगा, इसमें संदेह था ।

२६ अप्रैल को फिर प्रोफेसर तास्तोफ के पास जाकर दो घंटे तक बातचीत की । आज अधिकतर मध्यएशिया के मानवतत्व, पुरातात्विक सामग्री के प्राप्ति स्थान, पुरापाषाण-युद्ध, तेशिकताश ( नेअन्डर्थल-मूस्तेर ) मानव आदि के बारे में बातें हुईं । उन्होंने बतलाया, कि पुरा-पाषाण युग का अवशेष तेशिकताश में मिला है ।

मध्य-पाषाण और पश्चात-पुरापाषाण युग के अवशेष तेशिकताश वाले वाइसुन इलाके में मिले हैं, जिनकी खोजी हिन्दो-यूरोपीय, कपाल दीर्घ और मूढ़ पतला है ।

आरम्भ नवपाषाण — इस काल के शिकार के चित्र दराउस्ताई में मिले हैं, जिनमें मनुष्य, पशु, घसुष, चमड़ा-परिधान अंकित है । चित्र बनाने-वाले ने पहिले रेखाओं को पाषाण में खोदा, फिर उस पर रंग लगाया । ओश ( मध्यएशिया ) के पास के पर्वतों में भी इस काल के चित्र मिले हैं, पाषाणयुद्ध और मृत्पात जो मध्यएशिया का और जगहों में भी प्राप्त हुए हैं ।

दो संस्कृतियां— प्रोफेसर ने बतलाया कि मध्यएशिया में प्रागैतिहासिक-काल में दो संस्कृतियां थीं । जिनमें दक्षिणी संस्कृति की दो शाखायें थीं— ( १ ) अनाउ-तेरसिज़-फरगाना में नव-पाषाणयुग में हिन्दू-यूरोपीय संस्कृति थी । यहाँ के लोग कृषि जानते थे । इनके मृत्पात्र रंगीन होते थे । ( २ ) अराल-दोषी निम्न-बहु में उत्तरी नवपाषाण ( ४००० ई० पू० ) संस्कृति थी । लोग शिकारी और पशुपालक थे । इनके मृत्पात्र अरजित और उत्कीर्ण होते थे ।

आदिम पिचेल-युग— ईसा-पूर्व द्वितीय सहस्राब्द के इस काल में यहाँ

के लोग पशुपालन के साथ कृषि भी किया करते थे। मनुष्य पहले लालरंग के थे, फिर उनके ऊपर काली रेखाओं से निचयन करने लगे। दोनों दक्षिण और उत्तरी संस्कृतियाँ भेद रखती थीं। इनका संगम-स्थान स्वारेड्स था।

मानव—इसके बारे में उनका मत था, कि तीसरी-दूसरी सहस्राब्द ईसा-पूर्व के आदिम पित्तल-युग में उत्तर (कजाकस्तान) में जो मानव रहता था, उसका चेहरा पतला था। उसी प्रदेश में ईसा-पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में पित्तल-युग के गमय क्रोमियों जाति से सम्बन्ध रखनेवाला दीर्घकपाल चौड़े मुँहवाला मानव रहता था। उत्तर हो या दक्षिण : सिर-बलु उभय-उपत्यकाओं में ईसा-पूर्व द्वितीय और प्रथम शताब्दियों में हूण से पहले मंगोलायित मानव का कोई पता नहीं था। ईसा-पूर्व १०००-५०० ई० पू० में दक्षिणी सिबेरिया (सकाशिया) ओइरोट, कास्नोयास्क में मंगोलायित मानव के अवशेष मिले हैं।

हूण—हूणों के आक्रमण काल ई० पू० द्वितीय-प्रथम शताब्दियों में पहले पहल मंगोलायित मानव अलताइ से पश्चिम दिखाई पड़ता है। उस समय अल्ताई-पुनीसेई मंगोलायित और हिन्दी-यूरोपीय जातियों की सीमा रेखा थी। जुद्ध हूण लक्षण आजकल याकूतों, और तुंगुतों में ही अधिकतर पाया जाता है।

श्वेत-हूण—मेरी रायका समर्थन करते हुए श्वेत-हूण या हैफ्तालों के बारे में उनका कहना था : ग्रीक लेखक भी इस शब्द को प्रायक कहते हैं। श्वेत-हूण का चेहरा मुहरा हिन्दी-यूरोपीय जैसा है। श्वेत-हूण की भाषा में एकाग्र प्रत्यय हूणों के मिलते हैं जैसे मिहिरकुल में कुल (कुल्ली, दास)।

पश्चिम में मंगोलायित—प्रोफेसर ताल्लरुफ ने पश्चिम में मंगोलायितों की तीन लहरें आती बतलाई। (१) लाप—यह नवपाषाणयुग में ध्रुव-कक्षीय भू-भाग से होते पश्चिम में फिन्लैंड और नार्वे तक पहुँचे, इन्हीं के वंशज आज के लाप हैं।

(२) हूण—ई० पू० द्वितीय-प्रथम शताब्दियों में हूण अपनी पुरानी भूमि (हव्वांग-हो से मंगोलिया) छोड़ पश्चिम की ओर चले। यह लहर अतिला के हूणों के रूप में चौथी सदी में मध्य-दक्षिण-उपत्यका (हंगरी) तक पहुँची, जहाँ



कि आजकल उनके यूरोपीय मिश्रित वंशज रहते हैं। इसी लहर के अवशेष वोल्गा के आसपास चुवाश, वोल्गा और कज़ाख, चुवाश आज भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी भाषा में मंगोलियत प्रभाव अधिक है, शरीर-लक्षण में वह हिन्दी यूरोपीय मिश्रण से अधिक प्रभावित हैं।

( २ ) तुर्क— यह लहर छठवीं सदी में पश्चिम-आसियान प्रयाण करने लगी और द्विपेर के तट तक पहुँची। इसके दो भाग थे ( क ) किपचक ( ख ) आग़ज़। मंगोलियातियों के भाषा-विकास के बारे में उन्होंने बतलाया कि तुर्क पहले दो भागों में बँटे, एक सप्तनद ( इली-खू-सरेम ) में जो कि पहले आये थे। इन्हीं के वंशज वर्तमान कज़ाख और किरगिज़ हैं, जिनमें कज़ाखों का लिखित साहित्य १६ वीं सदी से पहिले का नहीं मिलता। तुर्कों की दूसरी शाखा शिरवच्छ उपत्यका में आई। इसका प्रथम लेखक ११ वीं सदी का महमूद काशगरी है जिसने अपनी समय की भाषाओं और जातियों पर बहुत ज्ञातव्य बातें बतलाई हैं। यही उजबेक-भाषा का मूलरूप है। उजबेक भाषा पर ईरानी भाषा का बहुत प्रभाव पड़ा है, केवल उधार के शब्दों में ही नहीं, बल्कि भाषा के ढाँचे पर भी। तुर्कों में भिन्न ग़ज़ ( या आग़ज़ ) हज़ारों शाखा के ही वंशज वर्तमान

तुर्कमान, आज़रबायजान और उस्मानी ( तुर्कीवाले ) तुर्क हैं।

तुर्कमानों के बारे में उन्होंने बतलाया कि इनपर हिन्दी-यूरोपीय प्रभाव ज्यादा, मंगोलियातित कम है। इनकी भाषा मंगोलियातित है और संस्कृति ईरानी। उजबेकों की भी यही बात है। कज़ाखों में जितना ही पश्चिम की ओर जायें उतना ही हिन्दी-यूरोपीय अंश अधिक होता जाता है। यह छठी से दसवीं शताब्दी के तुर्कों के वंशधर हैं। किरगिज़ों में मंगोल रक्त अधिक है।

ई० पू० द्वितीय शताब्दी में सप्तनद के निवासी शक-वंशज कुसुन आयन-कपाल थे।

फिनिश और मुंडा-द्रविड भाषाओं का सादृश्य भाषा-तत्व की एक बड़ी समस्या है। यह सादृश्य बतलाता है, कि किसी समय भ्रुवकन में रहनेवाले फिनों, और भूमध्य-रेखा के पास रहनेवाले द्रविड़ों का एक वंश था। प्रोफ़ेसर

वाल्स्टोफ के अनुसार इस वंश का विभाजन शायद नवपाषाण युग में हुआ—  
 अकारेडम और भारत के तत्कालीन पाषाणवासीयों की समता भी इसी बात को बत-  
 लाती है, लेकिन मनुष्यों की अभी देखना है। इस वंश की एक शाखा—फिनो-  
 उदयर और दूसरा द्रविड। द्रविड-शाखा भी दक्षिणा, (मलयालम, तमिल,  
 तेलुगु, कन्नड, तुलु) और मंडा (कोल, गोंडी, मुंडा, कुर्वा, कुरुख, कुई, मण्डा)  
 में विभक्त है।

वाल्स्टोफ का ज्ञान बहुत ही विशाल है, इसे कहने की आवश्यकता नहीं  
 मने चलते बक्त बहुत कृतज्ञता प्रकट की और उन्होंने फिर मिलने के लिये  
 निमंत्रण दिया। उसी दिन मैंने दत्तमाई की जीवनी के लिये नोट भी लिये।

अब मैं भारत लौटने की सोच रहा था। किन्तु आये रास्ते से लौटना  
 मेरा आदत के विरुद्ध है, इसलिये ईरान के रास्ते जाने का ख्याल नहीं होता था।  
 अब दो रास्ते रह जाते थे। सबसे नजदीक का रास्ता अफगानिस्तान होकर था।  
 मैं अफगानिस्तान की सीमा तक तो आसानी से पहुँच सकता था, आगे के लिये  
 मेरे पास जो पौंड में चेक थे, उनका यदि यहाँ पर पौंड मिल जाता तो मैं निश्-  
 चित रह सकता था, नहीं तो आमुदरिया नद से काबुल तक के यात्राध्यय का  
 अवन्ध किये बिना जाना ठीक नहीं था। मैं ब्रिटिश-कौंसिल के पास गया।  
 उन्होंने कहा कि चेक के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि तीस पौंड  
 का रुबल जमा करदें, तो हम अपने स्ट्राकहोम दूतवास में या काबुल में तार  
 दे देंगे, जहाँ पैसा मिल जायेगा। उन्होंने सलाह दी, कि लेनिनग्राद से स्ट्राक-  
 हॉम होते हुए लंदन जाना ही अच्छा है, सर्व ३० पौंड से अधिक नहीं  
 पड़ेगा। हमारे पासपोर्ट पर स्वीडन और अफगानिस्तान का नाम भी लिख दिया  
 गया। काबुल का रास्ता मुझे पसन्द था, लेकिन तैरमिज से काबुल पहुँचने  
 का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। लंदन के रास्ते जाने में एक यह भी मुरीता  
 था, कि हम रुबल में किरायत शुकाकर सोवियत जहाज से जा सकते थे। उस  
 बक्त वातचीत करने से तो यही मालूम होता था, कि दो-ही-तीन महीने में यहाँ  
 से चल देना है, लेकिन जल्दी करते-करते भी पन्द्रह महीने और रह जाने पड़े।

२ बजे रात को सरकस देखने गये। कोई खास विशेषता नहीं थी। कई सिंह अपना खेल दिखाते रहे। वाजीगर ने खाली आखबार से बहुत सी कागज की चिट्ठें निकालीं, जरा ही देर में उनका ढेर लगा गया, फिर आगे लगा के जला दिया। एक चीनी वाजीगर ने तीली से चीनी भिट्टी की तश्तरियां उबालकर दिखा लायीं। फिर सरकस की कई कसरतें हुईं। आज भी शामको शहर में दीपमालिका थी।

मई-दिवस— लाल मैदान में मई-महोत्सव का परिदर्शन देखने जाना था। पास के बिना कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता था। वोक्स ने पास का इतिजाम कर दिया था। यद्यपि लाल मैदान हमारे होटल से सड़क पार करके कुछ ही कदम आगे शुरू होता था, लेकिन आज का रास्ता उतना सीधा नहीं था। चारों ओर जवरदस्त सैनिक प्रबन्ध था। कुछ जगहों पर तो जाने पर यहीं जवाब मिला— जाओ, यहाँ से नहीं जाने देंगे। फिर किसी ने कहा “तीसरी धार से जाओ”। एक दर्जन से भी अधिक चार पास और पासपोर्ट दोनों दिखलाने पड़े। लाल मैदान में आज बहुत कीसती जानें आई हुई थीं, पूंजीपतियों का कोई गुंडा पहुँच कर पिस्तौल न चलादे, इसीलिये इतना प्रबन्ध था। अन्त में आध घन्टा चक्कर काटते मैदान में पहुँचे। नेताओं के खड़े होने के स्थान की दाहिनी ओर सीमेंट की गैलरियां बनरी हुई थीं, जिनमें १४ नं० की गैलरी में हमारा स्थान पिछली पंक्ति में था। सभी लोग खड़े थे, इसलिये हमें भी खड़ा होना पड़ा। मैदान के परले पार विशाल मकान पर सबसे ऊपर विशाल सोवियत लांछन लगा हुआ था, जिसके नीचे मई का अभिनन्दन तथा दूसरे नाते अंकित थे। लेनिन और स्तालिन के विशाल चित्र भी वहाँ लगे हुए थे। मकान के ऊपर संघ के १६ प्रजातंत्रों के अपने लांछनों सहित भेदों की पंक्तियां फहरा रही थीं। इतिहास-म्यूजियम के मकान के ऊपर भी नारा लगा हुआ था, जिसके बायें विशाल इसिया, हथौड़ा, और दाहिने तारा था।

३ बजे से ही जगह भरने लगी। मैदान में भिन्न-भिन्न वर्गों की सेनाओं पंक्ति-बद्ध खड़ी थीं। १० बजे नेता लोग आये। उनसे पहिले सैनिक वेश में

स्तालिन, मार्शल रोकोसोवस्की फिर मंत्रीगण, कितने ही मार्शल और जेनरल । मार्शल रोकोसोवस्की आज की परेड के प्रमुख थे । स्तालिन का वक्तव्य रोकोसोवस्की ने पढ़ा, फिर प्रदर्शन शुरू हुआ । पहिले पैदल, फिर नौसेना के जवान मार्च करते निकले, फिर सवार तथा दूसरी सेनाएं, दोड़ोंवाला तोपखाना, मोटर और ट्रैकवाली सेनाएं । आकाश में ६ चिरोह विमानों के इसी समय दिखलाई पड़े । डेढ़ घन्टा सेना-प्रदर्शन में बीता । दर्शकों के सामने से अपार सेना गुजरी । नाना भांति की तोपें थीं — छोटी तोपें, एक ही साथ पांच-पांच सात-सात गोलों की माला छोड़नेवाली कगूस, विशाल तोपें फिर पराकृष्टी जवानों से भरी तोरियां निकलीं । मौसिम बड़ा अच्छा रहा । देशी-विदेशी-सम्बन्धदाता, और फिल्मवाले चित्र लेने में लगे हुए थे । साढ़े ग्यारह बजे नागरिकों का प्रदर्शन शुरू हुआ । तम आखिर तक नहीं ठहर सके, प्रदर्शन को दो घंटे ही देखा । कितने ही दर्शक तो सेना के प्रदर्शन के बाद ही लौटने लगे थे ।

यद्यपि हमारा होटल बिल्कुल नजदीक था, किन्तु लौटना आसान नहीं था । लौटते वक्त भी कितनी ही सैनिक पंक्तियों में पास दिखाना पड़ा । १० सैकड़ सैनिक सूखे भी मिले, नहीं तो वह बड़ी मुलायमियत से रास्ता बतला देते थे । नागरिक प्रदर्शन-पंक्तियों से थारी सड़क भरी हुई थी । इस चत्प्रायमान नर-समुद्र को पार करना आसान काम नहीं था । पता लगा कि नगर के केन्द्र का रास्ता बन्द है । नेशनल होटल नगर केन्द्र में ही था । तो क्या शाम तक होटल नहीं जा पावेंगे ? लेकिन आध घंटे में हम अपने होटल में पहुँच गये । भोजन के लिये जार्ज मित्र सिमाउन के यहाँ निर्मांत्रित थे, साथी सिमाउन का पुत्र करीम लेन के लिये आया था । १ बजे बाद दीपमाला देखने गये । लेकिन हम नगर के एक छोर पर थे, इसलिये अच्छी दीपमालिका तहाँ देख सके, और आतिश-बाजी से तो बिल्कुल वंचित रह गये । भूगर्भ-रेल से आकर पुश्किन चौरस्त्रे पर लड़कों के बाजार को देखा । अपार भौड़ थी । पता लगा छ बजे हा सारे गमन खुल गये थे । जगह-जगह दीपमालिकायें थीं, किन्तु सभी घरों और निवी पर नहीं । केन्द्रीय तार घर पर चलती फिरती रङ्ग-विरंगी रोशनी बड़ी सुन्दर

मालूम होती थी। सारे प्रकाशालयों में “ प्रथम माथा ” और वीन में बूमता हुआ भू मंडल, लहरदार दीपपत्तियां जल रहीं थीं। हमारे होटल के सामने वाले मैदान में भी दाहिने छोर पर नागरिक नृत्य-गान और कसरत दिखाने में लग्न थे। मई का अपूर्व महोत्सव देखकर गाढ़े ग्यारह बजे रात को हम अपने कमरे में लौटे। आज ही हरी हरी पत्तियां भी देखीं, वसन्त आ गया।



## १३-फिर लेनिनवाद में

३ मई को ७ बजे शाम की गाड़ी पकड़ी और अगले दिन लेनिनग्राद पहुंच गये। ब्रिटिश कौंसिल ने बहुत से समाचार पत्र दे दिये थे, जिनको रेल में भी पढ़ते रहे, और यहां भी। लेनिनग्राद में भी अब वृत्तों के ऊपर कलियों जैसी पत्तियां निकल रही थीं, नेवा की धार मंक्त हो गई थी, लेकिन अब भी उसमें बरफ की शिलायें वह रही थीं। ६ मई को वनस्पति की हालत देखकर कहना पड़ा कि वृत्तों पर पत्तियां बहुत धीरे धीरे निकल रही हैं। सरदी अभी गई नहीं थी। लंदोणां भरील अपनी बरफ की सैंगगत को नेवा द्वारा समुद्र में भेज रही थी, जो ६ मई को भी उसी तरह चली जा रही थी। १० मई तक निश्चय कर लिया, कि साल भर और यहीं रहा जाय। मध्यएशिया नहीं गये, मध्यएशिया के इतिहास की सामग्री इतने में और जमा ही जायगी, लेकिन फिर एक साल बिना रेडियो के नहीं रहा जा सकता, इसलिये १० मई को ही साढ़े तीन हजार रूबल में एक नया रेडियो खरीद लाये। हमारे पास राशन जैसा एक कार्ड था, जिसके कारण ७०० रूबल कम देने पड़े। हमारे साथी और विद्यार्थी कह रहे थे—यदि छ महीना रुक जायें, तो आधे ही दाम पर

मिल जायेगा। (उनकी बात सच निकली। छ महीने बाद वही रेडियो १६०० रुबल में मिलने लगा था)। लेकिन हम दूना दाम देने के लिये तैयार थे, क्योंकि छ महीने और देश-विदेश की खबरों से वंचित नहीं रहना चाहते थे। रेडियो छोटा और बहुत सुन्दर था। उसी दिन दिल्ली सुना। लंदन तो खूब साफ सुनायी देता था, पीछे तार बांध देने पर तो दिल्ली भी लंदन की तरह सुनाई देती थी। महाराज कभी-कभी सुनने में आता था। यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि दूर से लघु-तरंग की ही बातें सुनने में आती थीं। अब हम निश्चित हो गये थे। अपने यहां का नाटक भी सुन लेते थे, गाना भी सुन लेते थे, और समाचार भी। हमारे घर में इन चीजों का आनन्द लेनेवाला मुझे छोड़ और कोई नहीं था। कई हफ्ता सुनने के बाद स्टेशनों और समयों का पता लग गया। मन में सन्तोष किया—चलो अब निश्चित होकर एक साल और रहा जा सकेगा।

नियत समय के अनुसार अब फिर हम युनिवर्सिटी जाने लगे। विद्यार्थी तो पढ़ते ही थे, अध्यापक भी मेरी उपस्थिति से लाभ उठाना चाहते थे। उन्होंने कुछ दिनों व्याकरण महाभाष्य को भी पढ़ा। आरंभ के आह्वानक उत्तरे नास नहीं हैं, विशेषकर भाषातत्त्व से दिलचस्पी रखनेवालों के लिये वहां पद-पद पर दिलचस्प बातें निकल आती थीं। थोड़े से उच्चारण में परिवर्तन करके कई शब्दों को रूसी जैसा देखकर छात्र बहुत प्रसन्न थे।

१२ मई को श्रीमती श्चेर्वात्स्की के यहां दावत हुई। डाक्टर श्चेर्वात्स्की का मेरे साथ असाधारण स्नेह-संबंध था। वह वड़े ही मजुर स्वभाव के थे। दूसरी यात्रा में मेरे जल्दी लौट आने का उन्हें बड़ा अफसोस था, और वह इस बात की कोशिश कर रहे थे, कि मैं अधिक समय के लिये रुस आऊं। इसी समय लड़ाई छिड़ गई और लड़ाई के दिनों में लेनिनग्राद से उत्तरी कजाकस्तान में जाकर उन्होंने अपनी शरीर-यात्रा समाप्त कर दी। उसी घर में आज गये, जिसमें १९३७ में न जाने कितनी बार घंटों हमारी बातचीत होती थी। पहिले ही दिन मिलते हुए उन्होंने कहा था—‘स्वागतं इदमासनं उपविश्यताम्।’ अब थी

के शब्द मेरे कानों में गूँज रहे थे। भोज में संस्कृताध्यापक कलियानोफ भी सपरनीक आये थे। २ बजे ही चलने की बात थी, लेकिन श्रीमती की तैयारी में धर पर ही ब्रज गये। एचेंवॉल्स्की के रिक्त-स्थान को देखकर मन में बहुत तरह के ग्याल आरहे थे, जिन्हें वैराग्य का मधुर-संभिश्रण भी कह सकते हैं। श्रीमती एचेंवॉल्स्की जर्मन वृद्ध महिला हैं। जब वह श्यामा (तसणी) थीं, तभी एचेंवॉल्स्की के तालुकदारी वंश में परिचारिका बनकर आयी थीं। वह पाकविद्या में निपुण थीं। आचार्य एचेंवॉल्स्की के मरने तक वह उनकी पाचिका रहीं। बोल्शेविक क्रांति ने एचेंवॉल्स्की की विशाल तालुकदारी को खतम कर दिया, लेकिन “विधाधर्म सर्वधनप्रधानम्”। एचेंवॉल्स्की पहिले ही अपनी विधा के बलपर अकदमिक हो चुके थे। अपने राजा-नाबू-बन्धुओं की तरह वह पागल नहीं हुए। उन्होंने राजनीति को अपन में अलग रखा, और बोल्शेविकों के वर्ताव से जान लिया, कि उनके यहां विधा का कदर पहिले से भी अधिक रहेगी, इसलिये बड़ी लगन के साथ अपने काम में जुट गये। पहिले उन्हें कुछ समय जमींदारों के काम में भी लगाना पड़ता था, लेकिन अब उनकी सारी चिन्ता को सरकार ने लिया था। जिसवक्त अन्न का भारी अकाल था, उस वक्त भी सबसे पहिले अकदमिक देवताओं की ओर सरकार का ध्यान जाता था। श्रीमती १९३७ में मेरे यहां आने के समय भी अपने मालिक की पाचिका मात्र थीं। पाँछे सालूस हुआ कि ७० वर्ष के दुलहे ने ५५ वर्ष की दुलहिन से व्याह किया है। आचार्य एचेंवॉल्स्की जीवनभर अविवाहित रहे, पारिवारिक भ्रंश्ट को केवल अपनी मानुभक्ति भर सीमित रखा—उनकी माता बहुत दिनों तक जीवित रहीं। मरने के समीप पहुंचने पर एचेंवॉल्स्की ने सोचा कि अपनी वृद्ध-पाचिका के साथ यदि विवाह कर लें, तो अकदमिक की पेंशन उसे जीवनभर मिलती रहेगी, इसीलिये उन्होंने विवाह किया। अकदमी विधा-संबंधी सोवियत की सबसे बड़ी संस्था है। किसी विद्वान का सबसे अधिक सम्मान जो हो सकता है, वह है अकदमी का सदस्य बनना अर्थात् अकदमिक होना। अपने विषय का चोटी का विद्वान् तथा नये ज्ञान का देनेवाला व्यक्ति ही अकदमिक बनाया जाता है। सोवियत रूस में



आजकल भी अकदमिकों की संख्या १५० से ज्यादा नहीं है। अकदमिक बनते ही आदमी जीवनभर ६०० म्यल मासिक पाने का अधिकारी हो जाता है। श्रीमती एचेवर्त्सकी उस धेतन को पा रही हैं, और जब तक जीवित रहेंगी, तब तक पायेंगी। इसके अनिश्चित एचेवर्त्सकी का बहुत सा सामान: चित्र, वाजे, पुस्तकें, सोने-चांदी के बर्तन आदि-उनकी संपत्ति है। पुस्तकों का बहुत सा भाग पचास हजार म्यल देकर युनिवर्सिटी खरीद भी चुकी है।

श्रीमती एचेवर्त्सकी की पाकविद्या की सिधमंडली में काफी श्याति है, भोज और दावत देने का उन्हें बहुत शौक भी है। आखिर रुपया भी तो बहुत आता है, उसके खर्च का सो तो कोई इंतजाम होना चाहिये। उन्होंने बड़े सुन्दर सुन्दर भोजन तैयार किये थे। एक मांस दिव्युस्तानी टंग से भी बनाया था, और करी-पाउडर ( मशाला चूर्ण ) का डिब्बा दिखलाकर कहा—देखिये यह हिन्दुस्तान की चीज भी मेरे पास है। भोजन और बातें करते बहुत देर तक हम वहां बैठे रहे। बीच बीच में मूझे ख्याल आता था—अगर डाक्टर एचेवर्त्सकी इस वक्त होते ! ६ बजे तक उजाला रहा, ११ बजे इस घर लौटे। कहने का मई का मध्य था, लेकिन अभी भी हमारे यहां के माघ-पूस के जाड़े को डोकर लगानेवाली सरदी वहां मौजूद थी। रास्ते में ट्राम से उतर कर घर जा रहे थे। इसी समय पुलिस एक लड़के को पकड़े लिये जा रही थी। आखिर सभी मकानों में शीशे की खिड़कियां हैं, शीशे पर पत्थर चलाने से उसके टूटने की आवाज बड़ी कर्णप्रिय मालूम होती है, इसलिये लड़के ने शीशा तोड़ दिया था, इसकेलिये पुलिस पकड़े लिये जा रही थी। गलती यही की थी, कि साधारण शीशे को न तोड़कर उसने आग बुझाऊ विगोड को बुलाने के लिये रखे यंत्र का शीशा तोड़ दिया था। लड़का बेचारा बड़ा चिरोरी-मिनती कर रहा था, रो रहा था। पुलिसवाला उपहास करते हुए कह रहा था—नहीं बाबा, चलो। तुमने खेल का अच्छा टंग सीखा है। अन्दाज से यही मालूम होता था, कि दो-चार घंटे उस धमकाकर लड़के को छोड़ दिया जायगा। लेकिन अभी तो उसके गालोंपर आंसू की धार बह रही थी।

रेडियो लाने का चमत्कार और फल जल्दी ही मिला। पन्द्रह मई को दिल्ली-रेडियो ने खबर दी कि भारत में नई राष्ट्रीय सरकार बनने जा रही है। प्रान्तों में भी नई सरकार बन गई है, जिनमें बंगाल को छोड़ प्रायः सारी ही कांग्रेस की हैं। प्रान्तों के मुख्य मंत्रियों के नाम भी छुने। १६ मई को ब्रिटिश मंत्रियों का भारत में वक्तव्य निकला, जिसमें पाकिस्तान को अव्यवहारिक तथा राष्ट्रीय सरकार कायम करने के संबंध में कितनी ही बातें बतलायी गई थीं। उसी दिन पैथिक लारेंस का भी भाषण रेडियो पर हुआ। यह सब खबरें भारत के लिये महत्व की थीं, लेकिन मास्को-रेडियो में महीने से चल रही इन गंभीर बातों का कोई उल्लेख नहीं होता था। युगों बाद १८ मई को २० मार्च को कलकत्ता में डाला थानन्द जी का पत्र मिला, जिससे मालूम हुआ कि हमारे लंका के आचार्य श्री धर्मानन्द महास्वाविर अब संसार में नहीं रहे। ८० कें पास पहुंचकर मरे, इसलिये काल की तो शिकायत नहीं करनी चाहिये, लेकिन विहुङ्गनेवाले अपने गुणों का स्मरण दिलाकर दुःख देते हैं। महास्वाविर बड़े ही सरल और मधुर हृदय के आदमी थे। अपने शिष्या पर और मुझपर तो और भी भारी स्नेह रखते थे। मैं पहिली यात्रा में तिब्बत में था। नेपाल और तिब्बत में युद्ध ठनने लगी थी, खबर मिलने पर उन्होंने तार पर तार दिये और पूछा कि व्हासा हवाई जहाज जा सकता है या नहीं। उस भगड़े के खतम होने के बाद उन्होंने के आग्रह पर और उन्होंने के मिजवायें रुपये से २२ खच्चर पुस्तकों और दूसरी चीजों को लेकर मैं सवा वर्ष बाद तिब्बत से लौटकर लंका चला गया। जिस समय भारत में १९३०-३१ का सत्याग्रह चल रहा था, मैंने बहुत संकोच करते करते कई दिनों के प्रयत्न के बाद जब उनसे भारत जाने की इजाजत मांगी, तो वह स्नेह-परवश हो एकदम फूट-फूट कर रोने लगे। मुझे उस समय अर्पना विचार छोड़ देना पड़ा। मरे हो साथ उनका यह आसाधारण स्नेह नहीं था; अर्पने सभी शिष्यों में वह अर्पना स्नेह बड़ी उदारता के साथ वितरण करते थे। वह अब संसार में न रहे। वह पोलोभाषा और व्याकरण के महान् विद्वान् थे। उन्होंने कई पुस्तकों का संपादन और उद्धार किया

था। हो सकता है, कुछ समय और उनका नाम लिया जाय, लेकिन काल के महासमुद्र में हजार-दो-हजार वर्ष भी तो कोई हस्ती नहीं रखने। आदर्मी के हाथ से काल कितनी जल्दी निकलता चला जाता है। जिनको हमने बच्चा देखा था, वह हमारे सामने ही जवान हो बाल भी पका बैठे। हमारे बचपन के कितने ही तरुण और वृद्ध तो न जाने कब से अनन्त मरान की गोद में लीन हो गये। सबको एक दिन उसी रास्ते जाना है। मरने के बाद भी अमर होने की चाहे कितनी ही इच्छा हो, लेकिन सभी को रेतपर पड़े पद-चिन्ह की तरह आखिर में लुप्त हो जाना है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर और जीवनरूप निःसार है, तुच्छ है, ब्रह्मास्पद है, परित्याज्य है। आखिर इन्हीं बगों में जीवन जैसा बहुमूल्य मूल भी है। उसको तुच्छ नहीं कहा जा सकता। जीवन में संबंध रखनेवाला हर एक बण — जो कि वर्तमान बण ही हो सकता है — अनमोल है, सत्य है।

अगले दिनों में हमारा रेडियो भारत का बहुत सी खबरें लाता रहा। क्वाचैड के हमारे कमरे के वायुमंडल में हिन्दी और भारतीय संगीत का बराबर प्रसार होता रहा। दिल्ली-रेडियो के कमरे में बैठा गायक या वक्ता क्या जानता होगा, कि उसकी आवाज ६ हजार मील दूर इस अज्ञात नगर के अज्ञात धरक भीतर गूंज रही है।

२२ मई को जिज्ञासावश हम सोवियत अदालत देखने गये। अदालत हो, चाहे सरकार, सभी के रोब को सोवियत-शासन-प्रणाली ने खतम कर दिया है। यह मुहब्बले की अदालत थी। आज प्रधान-जज के धामर होने के कारण हमने कार्यवाही नहीं देख पाई, यहां की हरेक अदालत में तीन जज बैठते हैं, जिनके लिये लाल कपड़े से ढकी मेज के पीछे तीन कुर्शियां इजलाम के रूप में कुछ ऊपर रखी थीं। छोटा सा कमरा था जज अधिकतर निर्वाचित होते हैं, जो कुछ समय के लिये उस पदपर रहते हैं। बकीलों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि पूंजीवादी वैयक्तिक संपत्ति की सीमा उस देश में बहुत संकुचित है, तो भी बकील हैं और वह प्रेक्टिस भी करते हैं, लेकिन

अधिकतर सरकारी वेतनभोगी नौकर के तौरपर। हर मुकदमे में उन्हें तकलीफ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। उनके आफिसों पर साइनबोर्ड लगे रहते हैं। जिनको कानूनी सलाह लेनी होती है, वह नियत समय पर वहां जाकर ले सकते हैं। भला जहां जज को देखते ही लोग सांस न बन्द करलें वह भी कोई अदालत है, जहां जिला मजिस्ट्रेट का नाम सुनते ही, आदमी की सांस ऊपर न टंग जाये, वह भी कोई जिला-शासक है? सोवियत में तो वस वही एक नमूना है। गांव के १० वर्ष से अधिक उमर के लोगों ने मिलकर वोट दे गांव का शासन करने के लिये अपनी सोवियत (पंचायत) चुन ली, जिसका एक मुखिया सोवियत चुन लेती है। गांव की तरह ही तहसील (रायोन) और जिले के भी सोवियतें चुनी हुई होती हैं। लेकिन जिले की सोवियत का सभापति—जिसको हमारे यहां का मजिस्ट्रेट कहना चाहिये—को देखकर किसी की सांस ऊपर नहीं टंगती, बल्कि कोई भी जाकर उसके साथ वेतकल्लुषी से बात कर सकता है। रोवदाव सचमुच ही उस देश से उठ गया है। लेनिनवाद जैसे उच्च विश्वविद्यालय की प्रोरेक्टर (वाइसचांसलर) महिला को कमरे की भाइ देनेवाली अथवा टायपिस्ट स्त्रियों के साथ घेठा देने पर आप पहिचान नहीं सकते, कि वह प्रोरेक्टर है। विद्यार्थियों, अध्यापकों ही नहीं साधारण नौकर भी उसको संबोधन करने में न बहुत आदाव-अलकाव का प्रयोग करते हैं, न बहुत सम्मान ही। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं, कि वहां सब धान चाईस पंसेरी है। योग्य स्थान पर योग्य आदमी ही पहुँचने पाता है।

२६ मई की देखा, फिर शुक्ला रात्रि आगई : ६ बजे शाम तक भूप थी। मालूम होता है, जब से दिन १० घंटों को अपनी जेब में रख लेता है, तब से वह बाकी ६ घंटों को भी रात्रि के पेट में जाने नहीं देता। शुक्ला रात्रि में घर के बाहिर १२ बजे रात्रि को भी आप अखवार पढ़ सकते हैं। शुक्ला रात्रि दीर्घ दिन का पता देती थी। दीर्घ दिनका मतलब है सूर्य अधिक समय तक अपने प्रकाश और ताप को फैला रहा है। लेकिन सर्दी तो अब भी गई नहीं थी। हां, नेवा अब मुक्त-धार बह रही थी। यह समुद्री मछलियों के अंडा देने का समय

था। लेनिनग्राम में ही नेवा समुद्र में भिलती है, इसलिये थंडा देने के ख्याल से फरोड़े मछलियां नेवा से ऊपर की ओर चढ़ आयी थीं। मछुओं की पांचों अंगुलियां भी में थीं, लोंगों को भी मुर्माता था : मछली ३० सवत ( २० रूपय ) किलोग्राम ( सवा मेर ) लग गई थी।

मास्को में तो नाटकों के देखने में मैंने हृद करदा थी। लेनिनग्राम में उतनी जाने की इच्छा नहीं होती थी। मास्को का ओपेरा देख आये थे, पहिली जून ( १९४६ ) को हम यहां के माली ओपेरा थियेटर में गये, जिसमें “कान्पनिक वर” बैले खेला जा रहा था। ओपेरा होता तो मैं नहीं जाता, या गला दबानेपर ही जाता, किन्तु बैले को तो मैं पसन्द करता था। अभिनय और नृत्य बहुत सुन्दर था। यह नाट्यशाला भी मारिस्की ही जैसी किन्तु छोटी है। इसमें ७-८ सौ आदर्श बैठ सकते हैं। बाहर से देखने पर तो बिलकुल साधारण घर सा मालूम होता, किन्तु भीतर काफी अवकाश है। दर्शकों की भीड़ थी। नाटक का कथानक था: पारिवारिक वादा के कारण तरुणी विवाह नहीं कर पाते और दोनों अलग अलग घर में भागकर इताली के किसी शहर में अज्ञातवास करते हैं। तरुणी पुरुष वेश में भगी थी। वह इस अज्ञातस्थान में दूसरी तरुणी के परिवार के संपर्क में आई। पिता उसे उपयुक्त वर समझकर अपनी पुत्री को विवाह के लिये मजबूर करने लगा। सूखने के लिये डाले कपड़े से भेद खुल गया। कुशल भृत्य प्रेमी को उसकी प्रियतमा के मरने की और नवविवाहिता को उसके नवीन वर के मरने की खबर दे देता है। दोनों छुरी लेकर आत्महत्या के लिये निकलते हैं, और एक दूसरे को पाकर आनन्द-पारावार में डूब जाते हैं। चतुर भृत्य दूसरी लड़की का पति हो जाता है, और एक ही समय दोनों विवाह-सम्पन्न होते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के नृत्य नाटक की खास विशेषता थी। दोनों नायक नायिका और उनके भिन्न इस कला में बड़े निपुण थे। इतालियन नृत्य में गणनृत्य, बालनृत्य, तथा और कितने ही प्रकार के नृत्य थे। हमने तीन टिकट लिया था, लेकिन तीसरे व्यक्ति न आने से २५ रूपय बरबाद गये।

३ जून १९४६ को सोवियत भूमि में आये मुझे १ साल होगया।

आज लेखा जोखा का दिन था। मध्यएशिया न जा सकने के लिये दिल उदास अवश्य था। मैं चाहता था, कि मध्यएशिया जाकर अपनी आंखों देखी बातों पर एक पुस्तक लिखूँ, और अपने देशवासियों को बतलाऊँ, कि पहिले हमारी ऐसी परिस्थिति में रहा मध्यएशिया कितनी जल्दी आगे बढ़ा है, और आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन वह नहीं हो पाया। मध्यएशिया के इतिहास के संबंध में मैंने पिछले सालभर में काफी अध्ययन किया, काफी नोट लिया और याशा है कि उनके बलपर विश्वास के साथ कोई पुस्तक लिख सकूंगा।

३ जून को दिनभर वर्षा होती रही। ४ को भी वर्षा जारी रही। ३ को मोवियत के भूतपूर्व राष्ट्रपति कालनिन का देहांत होगया। उसके उपलक्ष्य में ४ को सारे नगर की तरह युनिवर्सिटी में भी शोक मनाया। शोक सभा हुई। कालनिन ने ब्रह्मापन के कारण कुछ ही समय पहिले हुए चुनाव के बाद राष्ट्रपति पद नहीं संभाला था। वह बहुत जनप्रिय थे। एक साधारण साईंस और मजूर की स्थिति से बढ़ते बढ़ते वह राष्ट्रपति बने थे। जून के प्रथम सप्ताह के बाद युनिवर्सिटी में सरे पढ़ाने का काम खतम सा होगया था, इसलिये पुस्तकालय या और जगह कोई काम होनेपर ही भी वहाँ जाता था, नहीं तो अधिकतर घर पर रहकर ही पुस्तकें पढ़ता रहता।

मध्यएशिया यात्रा का भूत उतर गया था, लेकिन मध्यएशिया इतिहास का भूत तो सिरपर चढ़ा-रहता ही था। तालस्तोफ से कितनी ही बातें मुझे मालूम हुईं, और कितनी ही अपनी कल्पनाओं की सत्यता का पता लगा। १३ जून को मैं मध्यएशिया के इतिहास के एक दूसरे विशेषज्ञ प्रो० वेर्नश्टाम के पास गया। पता कुछ ऐसा ही यैसा था, लेकिन मैंने क्रोशिश करके किसी तरह उनके घर को ढूँढ निकाला। यदि स्थान पहिले से ही निश्चित होता, तो ढूँढते ढूँढते निश्चित समय से पौन घंटा बाद उनके पास जाने का अपराधी न होता। डाक्टर वेर्नश्टाम और उनकी पत्नी दोनों ही पुरातत्व और इतिहास के विशेषज्ञ हैं। दार्द घंटे तक किरगिजिया और कझाकस्तान के बारे में बातचीत होती रही। उन्होंने बतलाया कि सोवियत-काल में वहाँ बहुत जगह खुदाइयाँ हुई हैं, और बहुत सी

ऐतिहासिक चीजें मिली हैं :

पुरापाषाण युग—इस युग के हैंडलथर्गीय ( भूस्तेर ) मानव के हथियार दक्षिणी उजबेकिस्तान ( तेशिक ताश ) के अतिरिक्त समरकन्द और कुदाई ( इतिश-उपत्यका ) में भी मिले हैं । ऊपरी पुरापाषाण युग के सलानुर-गदलिन मानव के भी हथियार कोपितदाग ( तुर्कमनिया ) और हिसारताग ( उजबेकिस्तान ) में प्राप्त हुए ।

सूक्ष्मपाषाण ( मैक्रोलिथ )—इस युग के यायावरों के हथियार दक्षिणी कजाकस्तान में तुर्किस्तान-शहर, थरालतट, सिर-उपत्यका, कराताउ, म्युनकस ( जम्बुल के पास ), वेपकदला ( यल्माअता के पास ) में मिले हैं ।

नव-पाषाणयुग—इस काल के हिन्दू-यूरोपीय मानव के कपाल और हथियार एलातान ( फरगाना ), अर्ना ( तुर्कमानियाँ ) और ख्वारेज्म से मिले हैं । उन्होंने यह भी बतलाया कि ख्वारेज्म जैसे कपाल मध्य-पाषाण युग के युग्मत्तुओं और नवपाषाण युग के कृषकों में भी पाये गये हैं ।

सप्तसिन्धु में सप्त, जान पड़ता है, हिन्दू-यूरोपीय, या शकार्य-जाति के "सप्त" शब्द और नदियों के प्रेश को बतलाता है । भारतीय आर्यों के देश को ईरानी लोग सप्त-सिन्धु कहा करते थे, जोकि सिन्धु और उसकी छ शाखा नदियों का पर्याय था । मुसलमानों ने सप्तसिन्धु को "पंजाव" नाम दिया, लेकिन उससे पहिले ही शायद ताजकिस्तान का पंजाव मौजूद था । उत्तरी मध्यएशिया में भी सप्तसिन्धु मौजूद है, जिसका पर्याय तुर्की में भी कुछ होगा, जिससे कि रूसियों ने उसका अनुवाद सेमीरैके ( समनद ) किया । हमने भी अपने इतिहास में सप्तसिन्धु को भारत के लिये छोड़कर इसके लिये समनद इस्तेमाल किया है । डाक्टर वेर्नरताम के कथनानुसार यह सात नदियाँ हैं—अरिस, अतलस, चू, इली, कोकसु—कराताल, लेप्सा और यागूज । यह सभी नाम तुर्की हैं, जिसमें चू और सू जल और नदी वाचक शब्द हैं । कोकसु का अर्थ है नीलनद और कराताल का काला समुद्र ।

छठी सदी से लेकर दसवीं-ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी तक के बहुत से

बौद्ध अवशेष सभनद में मिले हैं। चू-उपत्यका में फ्रुन्जे के पास अस्सिक-अत्ता में बारहवीं शताब्दी तक बौद्धों के निवास थे, यह वहाँ के पुरातात्विक अवशेषों से पता लगता है। सारिंग (कास्नयारचूकालोहित नदी) की उपत्यका में भी छठी सदी के बौद्ध भित्तिचित्र और मानी धर्म के भित्तिचित्र मिले हैं। बलाशागून में भी बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं। तलस में छठी-सातवीं सदी के मानी धर्म अवशेष मौजूद हैं। सभनद में नेस्तोरी ईसाईयों की बहुत सी महरें तथा दूसरी चीजें प्राप्त हुई हैं। डाक्टर वेर्नस्ताम ने बहुत से फोटो दिखलाये, जिनमें एक सातवीं-आठवीं सदी की एक पीतल की बौद्ध मूर्ति पर उक्तीर्ण था—“दियधमोंय थी.....” साफ पढ़ा जा रहा था। उन्होंने बतलाया कि और भी अभिलेख वहाँ से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध सामग्री के परिचय में वह चाहते थे कि मैं सहायता करूं। मैंने भी अपने मध्यएशिया-संबंधी अनुसंधानों के बारे में कहा और आधुनिक जातियाँ किस तरह से प्राचीन जातियों के विकास और संमिश्रण से बनीं, इन्हे भी बतलाया। उन्होंने उमं युक्ति-युक्त बतलाया। डा० तागुस्नोफ की तरह डा० वेर्नस्ताम भी बहुभाषाविद, बहुश्रुत, विद्याप्रेमी पंडित पुरुष हैं। रूसी विद्वानों में मुश्किल से कोई मिलता है, जो कि अंग्रेजी या दूसरी विदेशी भाषा में अपने विचारों को प्रकट कर सके। असल में बोलना अभ्यास में आता है। लेकिन ये विद्वान अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन का इतना काफी ज्ञान रखते हैं, कि अपने विषय-संबंधी शोध-पत्रिकाओं और ग्रंथों को पढ़ सकते हैं।

१४ जून को पुश्किन-तियाग में वनार्डशा का नाटक “पिगमैलियन” देखने गये। रूसी स्वदेशी विदेशी, का कोई भेदभाव किये बिना कला के साथ प्रेम दिखलाते हैं। इसके कहने की आवश्यकता नहीं कि यह शा के नाटक का रूसी अनुवाद था, जिसको रंगमंच पर खेला गया। हाल खचाखच भरा था। लोला जैसी कितनी ही महिलाओं को वह उतना पसन्द नहीं आया। बूझी समाजपर शा ने बड़ी तीखी बाण-चर्चा की थी, इसलिये भूतपूर्व मध्यमवर्गीय त्रिचारधारा के पोषक उसे कैसे पसन्द करते? भीख मांगने के लिये फूल बेचने-वाली लंदन की एक लड़की सिला पढ़ा कर लेडी बना दी जाती है। अब जैसा



जीवन उसे बिताना पड़ता है, उसको अनुभव करने के बाद कहती है—“मैं फूल बेचना करती थी, लेकिन अपने को तो नहीं बेचती थी।” लैडी वन ज़ाने के बाद वह बिना अपने को बेचे जीवन-नैया को खे नहीं सकती थी। मुझे नाटक और अभिनय दोनों बहुत पसन्द आये।

१५ जून को अपने साढ़े चार सौ रूबल के विशेष राशनकार्ड से अपने लोगों की विशेष दूकान में चीज खरीदने गये। वहाँ से बहुत सा सामान लिया। दूकान से त्रामवाय तक सौ गज से ज्यादा नहीं रहा होगा, कुली करते तो नाहक १०-१५ रूबल चले जाते, और फिर त्रामवाय छोड़ अपने घर आने में भी उतना ही पैसा देना पड़ता। शायद पैसों की उतनी परवाह नहीं थी, लेकिन दूसरे प्रोफेसरों और अध्यापकों को देख रहे थे, वह भी २०-२५ किलोग्राम का बोझा उठाये आनन्द से चले जा रहे हैं, तो हमीं क्या घास-फूसके बने हुए थे? रास्ते में मास्को के परिचित रोमन-तियाथ के एक अभिनेता मिल गये। उन्होंने बतलाया, कि आजकल हमारी नाटक मंडलियाँ यहाँ आयी हुई हैं। उन्होंने आने के लिये बहुत आग्रह किया। वह लोग अस्तोरिया होटल में ठहरे हुए थे।

१६ जून के भारतीय रेडियो से वायसराय की घोषणा सुनी, जिसमें उनकी कार्यकारिणी (मन्त्रि मंडल) का भार कांग्रेस, लीग, सिक्ल और ईसाई प्रतिनिधियों के हाथ में सौंपा जानेवाला था। कांग्रेस की ओर से थे—जवाहरलाल नेहरू (उत्तर प्रदेश), राजगोपालाचार्य (मद्रास), बल्लभ भाई पटेल (बम्बई), म० प० इंजीनियर (बम्बई), राजेन्द्रप्रसाद (बिहार), जगजीवनराम (बिहार), हरेकृष्ण महताव (उड़ीसा) और लीग के थे—मुहम्मद अली जिना, (बम्बई), लियाकत अली (उ० प्र०), मुहम्मद इस्माइल (उ० प्र०), नजीमुद्दीन (बंगाल), अब्दुर्रब नरतर (सी० प्र०); सिक्ल प्रतिनिधि बलदेवसिंह (पंजाब) और ईसाई थे जान मथाई (मद्रास)।

मुस्लिम लीग पाकिस्तान के सवाल को लेकर तनी हुई थी, इसलिये वायसरायने घोषित कर दिया था, कि यदि कोई पार्टी इन्कार करेगी, तो उसके स्थान पर दूसरे आदमी नियुक्त कर दिये जायेंगे।

राष्ट्रीय मंत्रि-मंडल भारत में समाजवाद स्थापित करेगा, या आर्थिक समस्याओं को हल करेगा, इसकी संभावना तो थी नहीं, किन्तु गोरों हाथों से काले हाथों में यदि शासन चला आये, तो क्रान्तिकारी शक्तियों को सीधे लड़ाई लड़ने में बहुत सुभीता हो जाता, इसलिये विदेशी कांड को रास्ते से निकलना अच्छी बात थी, इसे मैं मानता था। १७ जून की सूचनाओं से मालूम हुआ, कि कांग्रेस और लोगने अभी अपना निश्चय प्रकट नहीं किया। निश्चय करने में काफी समय लगा, लेकिन यह तो मालूम हो गया, कि अंग्रेज शासक युद्धपूर्व की स्थिति में लौट नहीं सकते।

२० जून की अस्तोरिया होख गये। वहां से कुछ अंग्रेजी पत्रों को लेना था। कुछ चिट्ठियां हवाई डाक से भेजना चाहते थे, लेकिन अभी हवाई डाक का कोई इंतजाम नहीं था। हवाई डाक से भी उसे लंदन होकर जान पड़ता और दोहरे तहरे सेंसर भी काफी समय लेते। वहीं हमारी सिगान नाटक-मंडली के कलाकारों नोकोलाय नरोन्नी, लीना इवानोवना चीजेंको तथा दूसरों से बड़ी देर तक बात होती रहती। उस वक्त तक मैंने सिगानन-भाषा के सम्बन्ध में कुछ पुस्तकें पढ़ ली थीं, और हिन्दी तथा सिगान के सम्मिलित सों के करीब शब्द भरे पास थे। पहिले उन लोगों का विश्वास नहीं था, कि उनका भारत से कोई संबन्ध है। अब वह देख रहे थे, कि मैं और वह एक ही रंग-रूप के थे। जब मैंने उन शब्दों को पढ़कर सुनाया जो रूसी में नहीं हैं, और हिन्दी में जैसे के तैम मिलते हैं, तो उन्हें विश्वास हो गया, कि वह भी इन्दुस् (हिन्दू) हैं। फिर उन्होंने भारतीय सिगानों के बारे में पूछा। उनकी भाषा, संस्कृति, शिक्षा, पेशा, नृत्य-संगीत आदि के बारे में कितने ही प्रश्न किये, लेकिन मैं अपने देश में यहां के सिगानों के सम्पर्क में कभी कभी जेल में आया था और वहां भी मैंने इन बातों के संबन्ध में विशेष पूछताछ नहीं की थी। लीना एक प्रौढ़ अभिनेत्री थी। सिगान नाटक मंडली की स्थापना में उनका विशेष हाथ रहा और आज भी वह मंडली की उयेगा समझी जाती थी। वहां उनके साथ दो तरुण अभिनेत्रियां भी थीं, जिनमें से एक असाधारण सुन्दरी तथा भौंहों, बालों,

चेतनों पर सभ्य सौन्दर्य के साथ अधिक गौरी भारतीय लड़की जैसी मालूम होनी थी। उन्होंने यह विश्वास हो जाने पर कि भारत की मिट्टी से उनका बहुत धनिष्ठ संबन्ध है, भारतीय कला के बारे में पूछा और यह भी कि भारतीय कलाकार यहाँ क्यों नहीं आते ? मैंने कहा— अंग्रेजों का राज्य हटने दीजिये फिर भारतीय कलाकार भी यहाँ आएंगे, और आप लोगों को भी तो जाना चाहिये। लीना ने अपनी परम सुन्दरी लड़की की ओर देखकर विनोद करते हुए कहा— मैं तो चाहूँगी अपनी धेरी को किसी इन्दूसू से व्याह दूँ। मैंने कहा— हमारे यहाँ तो अभी तक विवाह करने का अधिकार माता-पिता का ही है, यहाँ क्या यह तुम्हारी लड़की इस तरह के कन्यादान को पसन्द करेगी। इस पर लड़की ने कहा— हाँ, मैं इन्दूसू को पसन्द करूँगी। वस्तुतः सिगानों के रंग और मुखपट्टा में भारतीयों से अब भी इतनी समानता है कि बाज बक्त लोग मुझे भी सिगान समझ लेते थे। ईगर को तो उसके साथी लड़के-लड़कियाँ जब सिगान नहीं कहते थे, तो यूईई (यहूदी) कहते थे, जिसका यह सदा प्रतिवाद करते हुए अपने को इन्दूसू कहता था। एक दिन मैं सांस्कृतिक उद्यान में घूम रहा था। वहाँ दो सिगानियाँ मिलीं। उनमें से एक ने कहा— हाथ दिखा लीजिये। मैंने कहा— क्या रोमनियाँ रोम का भी हाथ देखा करती हैं ? उसकी सखी ने कहा— हाँ, देख नहीं रही है, हमारे रोम (डोम) तो हैं। फिर उन्होंने कितनी ही बातें पूछीं और उनकी बातों से मालूम हुआ, कि अब भी हाथ दिखलानेवाले उन्हें कुछ मिल जाते हैं। पहिले सांस्कृतिक उद्यान के पास ही उनका एक छोटा सा मुहल्ला बसता था, जिसमें इधर-उधर घूम कर वह आके रहा करते थे, लेकिन अब वह मुहल्ला उजड़ गया है। नवशिक्षित सिगान तरुण-तरुणियाँ अब सोवियत के साधारण जन-समुद्र में मिलते जा रहे हैं। यदि वह मुहल्ला रहता, तो मुझे तो अवश्य फायदा होता, मैं उनके यहाँ कुछ समय देकर बहुत सी बातें जान सकता था।

२३ जून की ईगर कहीं से एक छोटी बिल्ली पकड़ लाया। वह जल्दी ही धर की बन गई, लेकिन खाती थी केवल मांस, रोटी तो तो छूती भी नहीं थी।

बला ऐसी संहारी बिप्लवी को कौन रखता । कुछ ही समय बाद वह जिसकी थी, उसके पास चली गई ।

उस दिन अतवार था । हमारे साथ अध्यापक व्लादीमिर इवानोविच कलियानोफ के यहाँ दावत थी । ईगर और लोला के साथ हम वहाँ जायें । बीजन के उपरान्त प्याले आये । ऐसे तो ईगर कह देता था: मेरे पापा नहीं पीते, इसलिये मैं भी नहीं पीता; लेकिन आज मंडली में वह भी शामिल हो गया और चषक के लिये आग्रह करने लगा । जब कुपे में ही भांग पड़ी हो, तो बच्चा कैसे अपने को रोक सकता था । लेकिन कलियानोफ ने लाल रंग के शरबत को शराब कहकर उसके हाथ में दे दिया । थोड़ी ही देर में लोग कहने लगे: ईगर तेरी आँखें लाल हो गई हैं । वह भी अनुभव करने लगा कि नशा बढ़ने लगा है !

रातके एक घंटे हम घर लौटे । वस्तुतः अब रात भी हो कहां ? आधा-रात का भी हम लाल रंग फे पहिचान सकते थे । यह शुक्ला राति का मौसम चल रहा था ।

२५ जून को एक दिन के विश्राम का टिकट लेकर हम किराफ संस्कृति अध्ययन में गये । खाने में अभी कोई अन्तर नहीं आया था, वह फीका फीका था । वहीं कार्ली रोटी वहाँ काली खिचड़ी (कमसा) और वहीं फीका चाय । आजकल मास्को की रोम (सिगान) नाटक मंडली उद्यान के थियेटर में अपना खेल दिखा रही थी । नाटक का नाम था "गुरुसिका" । हमारे टिकट में दर्ज स्थान रंगमंच से बहुत दूर था, लेकिन सिगान मंडली तो अपनी थी, इसलिये अभिनेताओं ने हम तीनों को पहिली पंक्ति में लेजाकर बैठा दिया । ३ घंटे नाटक देखते रहे । ११ बजने लगा, तो घर जाने का भी ख्याल आया, इसलिये बिना अन्त तक देखे ही वहाँ से चल पड़े । ईगर को तो तरुण सिगानुच्छायाओं ने इतना मोह लिया था, कि वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेता था । इस नाटक में भी सिगान जीवन को ही दिखलाया गया था । पुराने दंग की सिगान स्त्रियों की पोशाक पश्चिमी उत्तर-प्रदेश की स्त्रियों के घाघरे और सलके जैसी

थी। चांदी के सिक्कों की माला गले में ही नहीं बल्कि सिर में भी लटकती थी।

२९ जून को इतनी वर्षा हुई, कि मानूस होता था भारत के वर्षा के दिन आ गये हैं। हमारे घरके पिछवाड़े की बगियाचियों में लोग साग-सब्जी बोये हुए थे। शाम को सभी अपनी अपनी बाल्टियों में पानी भरे, फावड़ा हाथ में लिये वहाँ पहुँच जाते थे। वर्षा हो जाने से अब पानी देने की आवश्यकता नहीं थी। चारों ओर साग-सब्जी की हरियाली दिखाई पड़ रही थी।

जून के अन्त में अब प्रोफ़-कार्लान दो महीने की छुट्टियाँ आगई थीं। अब का सभी बिताने के लिये हमने युनिवर्सिटी के विद्यामोपवन तिरयोकी जाने का निश्चय किया था। अभी वहाँ इतना स्थान नहीं था, कि अधिक संख्या में लोगों को स्थान दिया जा सके। लेकिन सभी अध्यापक या विद्यार्थी तिरयोकी ही जाना भी नहीं चाहते थे। कितने ही काकेशस और फ़िबिया और कुछ बाल्टिक समुद्रतट पर जाने की फ़िकर में थे। विद्यार्थियों में भी कितने ही अपने घरों में जाकर छुट्टियाँ बिताना चाहते थे, विशेषकर कमाल की तरह के मध्यएशिया, साइबेरिया और मद्दूरस्थानों के विद्यार्थी को महीने की छुट्टियों का अपने लोगों में बिताना अधिक पसन्द करते थे। मुझे और लोला को तिरयोकी का टिकट मिलाने में कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन बच्चों के लिये अभी तिरयोकी में स्थान नहीं था। अन्त में प्रबन्धक राजी हो गये कि हम अपने साथ उनको रख सकते हैं। लोला को हरेक काम ठीक चलने के समय याद आता था। पहिले में ईगर के लिये ओवरकोट नहीं मिलवाया था। पहिली जुलाई को रातभर बैठकर वह ओवरकोट मिलवाती रही। रूस में जाइँ के लिये ही नहीं गरमियों के लिये भी ओवरकोट की जरूरत होती है, क्योंकि माव-पूस का महीना तो वहाँ बराबर बन्ना रहना है, हाँ, गरमियों का ओवरकोट पतला होता है। मैंने कहा था कि अपनी परिचिता सीनेवाली को दे दो, लेकिन वहाँ तो पेरिस के फैशन का ख्याल था। अन्त में वहाँ करना पड़ा, खुद रातभर जागी और बेचारी जीना कन्स्तन्तिनोवा को भी जगाकर कोट सिलवाया। हमें साढ़े आठ बजे की बस (२ जुलाई) को पकड़नी थी, जो सीधे तिरयोकी पहुँचाती,

लेकिन इतनी जल्दी तैयारी कहां हो सकती थी ? बस का ग्याल खीड़ना पड़ा और हम लोग फिन्लैंड स्टेशन पर पहुंचे । मास्को और लैनिनग्राद में गन्तव्य स्थान की ट्रेनों के उहर्ने के स्थान का उस नाम से पुकारते हैं । फिन्लैंड स्टेशन में पुराने त्रमाने में फिन्लैंड को रेल जाती थी । आजकल फिन्लैंड रूस से अलग है, शायद ही कोई सीधी ट्रेन लैनिनग्राद से फिन्लैंड जाती हो, लेकिन उसकी सीमा तक तो वह अवश्य जाती है । आभावाकाश के दिन थे । विश्रामोपवनों में भारी संख्या में लोग जा रहे थे । वसों भी ढी रहीं थीं, और स्टेशन पर भी मेला लगा हुआ था, लेकिन टिकट कई जगह बिक रहे थे, इसलिये मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई । हम अपनी गाड़ी में चढ़ गये । यह दूर जानेवाली गाड़ी नहीं थी, इसलिये सारी सीट के रिजर्व करने का सवाल नहीं था । गाड़ी का डब्बा बिना गद्दों का था । गाड़ी में बैठने के बाद कुछ समय तक इंतजार करना पड़ा, फिर १ बजे वह खाना हुई । हमारा यात्रा दो घंटे की थी ।



## १४-तिरयोकी में

युद्ध से पहिले तिरयोकी फिन्लैंडकी भूमि में था । १९४० में फिन्लैंड की सीमा लेनिनग्राद से १८-१५ मील पर थी, जिसे हमारी ट्रेन आधा घंटे में ही पार हो गई । लेनिनग्राद शहर से इतनी नजदीक एक अभिन्न सरकार की भूमि रहने से खतरा था, इसीलिए रूस ने चाहा था, कि भूमि के बदले ड्योन्दी भूमि लेकर फिन्लैंड अपनी सीमा को कुछ दूर हटा ले, लेकिन फिन्लैंड ने इसे स्वीकार नहीं किया । जर्मनों का खतरा सामने देखते हुए, रूसियों को हथियार उठाना पड़ा । तिरयोकी और आगे विपुरी तक युद्ध की ध्वंसावस्था के चिन्ह अब भी बहुत दिखायी पड़ रहे थे । स्टेशनों और बस्तियों की इमारतें ध्वस्त थीं । उस समय की भीषण गोलावारी में प्रकृति को भी बहुत हानि उठानी पड़ी थी, लेकिन उसने अपने सौंदर्य को फिर से स्थापित करने में बड़ी शीघ्रता से काम लिया । लेनिनग्राद के शहर से निकलते ही पहिले कुछ खेत और बस्तियां आयीं । फिन्लैंड की पुरानी सीमा में घुसते ही वह दृश्य सामने आया, जिसके लिये फिन्लैंड विख्यात है । चारों ओर देवदार और भुर्ज के हरे जंगल थे, घास की हरियाली भी फैली हुई थी, नाना प्रकार के सुन्दर फूल खिले हुए थे । जहां-तहां जल और छोटी छोटी

नदियां दिखाई पड़ती थीं। यह सौंदर्य लेनिनग्राद के बाहर से शुरू हुआ, और चांगे बढ़ते हुये अपनी चरम अवस्था को पहुँचा। रेल का किराया २ रूबल २० कोपक था, बच्चों का किराया केवल ५५ कोपक। प्रकृति के सौंदर्य को देखते हुए हम अंत में तिरयोकी स्टेशन पर पहुँचे। वहाँ पर युनिवर्सिटी की बस आयी हुई थी—बस क्या खुली लोरी थी, जिसपर बेंचें लगा दी गई थीं। अभी लड़ाई का प्रभाव था, लेकिन हमारे लौटते समय कुछ नई बसें भी काम में आने लगी थीं। शो तो युनिवर्सिटी की बस, लेकिन किराया तो देना ही था। ५-५ रूबल देकर हम चाबू घंटे में स्टेशन से अपने विश्रामोपवन में पहुँचे, जो वहाँ से सात आठ किलोमीटर था। यह महावन आदिकाल से कभी उच्छिन्न नहीं हुआ था। स्टेशन के पास बाजार था, उसके बाद वस्तियों का अभावसा, और ऊँचा नीचा पहाड़ी जैसा धरती पर घने जंगलों के बीच से सड़क चली गई थी। समुद्र के किनारे के घने देवदार-बनों की सीलों तक भिन्न-भिन्न संस्थाओं ने आपस में बाँटकर वहाँ अपने विश्रामोपवन स्थापित किये थे। युनिवर्सिटी ने भी दस हजार एकड़ के करीब जंगल घेरा था। हमारे पास ही इंजिनरिंग ने भी अपना विश्रामोपवन कायम किया था और लड़कों-लड़कियों (प्योनीर, प्योनिर्काओ) के तो कई दर्जन सेनीटोरियम यहाँ मौजूद थे। लेनिनग्राद या विपुरी की तरफ सीलों चले जाइये, जंगल के बीच में उसी तरह के कितने ही विश्रामोपवन मौजूद थे।

युनिवर्सिटी का विश्रामोपवन वस्तुतः प्राकृतिक जंगल था। प्रकृति की शोभा को बिगाड़ने की कामसे कम कोशिश की गई थी। इसी वन में जहाँ-तहाँ कुछ छोटी-बड़ी इमारतें थीं, जिनमें अधिकांश कान्ठ की थीं, और सोवियतकाल से पहिले की अर्थात् फिन् लोगों की बनाई हुई थीं। तिरयोकी जारशाही काल में भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिये प्रसिद्ध थी, इसलिये धनी लोगों ने यहाँ अपने लिये वंगले बनवा रखे थे। विश्वविद्यालय के उपवन की इमारतें भी अधिकतर उसी समय की बनी हुई थीं। नई इमारतों के बनाने की योजना तो बन चुकी थी, लेकिन अभी नगर में काम अधिक होने के कारण यहाँ काम बहुत



फम शुरू किया गया था। हम पहिले प्रबन्ध-कार्यालय में गये। पता लगा: लोला बिना अनुमतिपत्र के ही ईगर को अपने साथ लायी थी। दीना गोल्दमान ने अपने लड़के का प्रबन्ध बालोद्यान में कर दिया था। बालोद्यानवाले ऐसी समयों में अहोरात्र के लिये लड़कों को ले लेते हैं, लेकिन लोला बेचारी अपने बच्चे को बाँखों में दूर रखने के लिये तैयार नहीं थी, इसलिये अनुमति मिले या न मिले वह अपने साथ उसे लेती आयी थी। मैंने मनमें कहा—कांगरू माता की जिम्मेदारियाँ वही जानती है। एम्मे यह जानकर कुछ चुरा तो लगा, लेकिन चारा क्या था। प्रबन्धकों ने साथ रहने के लिये इजाजत दे दी, लेकिन कहा कि खाने का प्रबन्ध स्वयं करना पड़ेगा। लोला से यह भी नहीं हो सका था, कि शहर से चलते बक्क कुझ खाने की चीजें और रोटी लाये होती। नाम लिखा गया, फिर उपवन के छोटे से चिकित्सालय में डाक्टर ने भी परीक्षा करके वजन आदि के साथ कितनी ही बातें अपने रजिस्टर में लिखीं।

हमें तो यहाँ गंगोत्री की जाइंगंगा के किनारे का वह स्थान देवदार वन थाद आरहा था, जिसे तीन वर्ष पहिले हमने देखा था। उसी तरह देवदार की घनी छाया थी, उसी तरह देवदार की भीनी भीनी मुगंध आ रही थी, यद्यपि यहाँ १० हजार फुट ऊँचा पहाड़ नहीं था, बल्कि हम फिन्लैंड खाड़ी के समुद्र के तटपर थे। वृक्षों में यहाँ देवदार-जातीय केलू अधिक थे। भुर्ज भी नजदीक में नहीं थे। आफिस के कामों से छुट्टी पाते तक हमारा सामान, हमारे कमरे में पहुँचा दिया गया। कमरा कहना उस शब्द का अपमान करना होगा। वस्तुतः वह बड़ी बड़ी दियासलाई के दो मंजिला डब्बों जैसा लकड़ी का दरवा था। संभलकर न चलने पर सिर में टक्कर लगने का भी डर था। उद्यान में कुछ इमारतें अच्छी भी थीं। उनके कमरे बड़े बड़े थे, लेकिन वह एक एक आदमी को नहीं दिये जा सकते थे। उनमें से कुछ भोजनशाला के रूप में परिणत किये गये थे, और कितनों में एक-एक दर्जन चारपाइयाँ रखकर अधिक आदमियों के विश्राम का इतिजाम किया गया था। हमें अलग कोठरी लेनी थीं, सो कोठरी मिली। वह ५ हाथ लम्बी और ५ हाथ चौड़ी थी, जिसमें दो पतली पतली

लोहे की खाटे पड़ा हुई थीं, भिरहाने एक छोटी सी मेज और एक कुर्सी रख दी गई थी। इतनी छोटी हॉल पर भी जाड़े में गरम करने का इंतजाम था। निरयोकी में जाइों में भी लोग आया जाया करते हैं। हमारे छात्र-छात्राओं में से भी कुछ यहाँ दिसम्बर में चन्द दिनों के लिये आये थे। देवदार की लकड़ियों का मकान तो बुरा नहीं होता और यदि बारनिशा न हो, तो एक तरह की उससे सुगन्ध आती। हमें ऊपरी मंजिल पर कोठरी मिली थी। कोठरी की दो पतली चारपाइयाँ तीन प्राणियों के लिये थीं। कोठरियों का द्वार एक पतले से बरान्डे की ओर खुलता था, जिसके एक सिरे पर नीचे उतरने की सीढ़ी थी। कोठरी में जंगला काफ़ी बड़ा था, इसलिये हवा की कमी नहीं थी। कुछ बृहत् के बीच से एक और समुद्र लहरें मार रहा था। यहाँ के समुद्र का जल उतना खारा नहीं था।

भोजन तीन बार मिलता था। आठ से दस बजे तक प्रातराश का समय था। भोजनशाला में सभी एक साथ नहीं बैठ सकते थे, इसलिये कई टोक्तियों में होकर लोग अपनी निश्चित मेजपर बैठ जाते थे। मध्याह्नोत्तर एक से तीन बजे तक मध्याह्न-भोजन और सात से नौ बजे तक रात्रि भोजन। भोजन सुरवाद् नहीं था, इसकी सभी शिकायत कर रहे थे। लड़ाई के समय जो असाव और अव्यवस्था हुई, वह अभी तक ठीक नहीं हो सकी थी। पाचिकायें कहती थीं : हमें उतनी और वैसी सामग्री नहीं मिल रही है। कुछ महिलायें कह रहीं थीं : यह स्वयं खा जाती है।

सनोरजन का प्रबन्ध अच्छा था। समुद्र में तैरना और बालूप धूप लेना, देवदार के जंगलों में मीलों घूमना तो था ही, इनके अतिरिक्त यहाँ क्लबघर की शाला में सौ कुर्सियाँ पड़ सकती थीं। वहाँ छात्र-छात्रायें, अध्यापक-अध्यापिकायें दिन में जाकर अखबार और पुस्तकें पढ़ सकते थे, शतरंज खेल सकते थे। शाला शाम के बाद नृत्य और गीत के अखाड़े के रूप में परिणत हो जाती थी। हमारे पासपड़ोस में कितनी ही दूसरी संस्थाओं के भी उपवन थे। भारत में यदि पुरी के समुद्र और गंगोत्तरी की भैरवघाटी को इकट्ठा कर दिया जाय,

तो यह प्राकृतिक गुषमा मिल सकती है ।

दिन में थोड़ा ही सोये, रातको तो ग्यूब सोना ही था, लेकिन रात थी कहाँ ? यहाँ १० बजे शाम तक तो सूर्य की पीली पीली किरणें देवदार के शिखरों पर झलकती रहीं, फिर बेचारी गोधूलि आयी, सूर्यास्त हुआ; लेकिन उसके बाद ही उषा आ पहुँची ।

३ जुलाई को तिरयोकी आकर अब हम प्रकृतिस्थ हो गये थे । दो व्यक्तियों के भोजन का प्रबन्ध था, उसी पर तीनों का गुजारा करना मुश्किल था, इसलिये एक के भोजन का अन्वेषण करना जरूरी था । किसी ने आशा दिलायी, कि शायद राशन की काली रोटी मिल जाय । काली रोटी कहने से पाठकों को एक प्रकार की दुस्वाद रोटी याद आयेगी । हाँ, ऐसी भी रोटी है, लेकिन रूस में एक और भी कोयले जैसी काली रोटी होती है, जिसको एकबार खालें तो मुँह से छूड़ेगी नहीं, वह इतनी मुसिबत होती है । और, रोटी की चिन्ता तो थी और और वह हमारी अपनी गलती से, क्योंकि अतिरिक्त राशनकार्ड में हमें बहुत रोटी-मक्खन, भांस-मक्खली तथा दूसरी चीजें मिलती थीं, जिन्हें हम लेनिनग्राद से साथ ला सकते थे । यदि विश्वविद्यालय की लोरी में आते, तो यहाँ उपवन के फाटक के भीतर तक वह पहुँचा देती । लेकिन अब तो फिर वहाँ से जाकर लाना था ।

हमारे आगे पश्चिम की ओर समुद्र था । जिसके आगे कुछ कगार-सा था जिसके बाद यह देवदारों का जंगल कुछ समतल भूमिपर था । कलबघर करीब-करीब समुद्र तटपर था । बालू उसके विलकुल पास तक चली आयी थी । इसके बाद हजारों वर्ष के प्राकृतिक परिवर्तन से एक के बाद एक छोटी छोटी पहाड़ियों की समतल सीढ़ियाँ सी बन गई थीं, जिनके ऊपर देवदार के जंगल खड़े थे । हमारे फाटक के बाहर ही लेनिनग्राद जानेवाली सड़क थी । युनिवर्सिटी का उपवन सड़क की दोनों तरफ था । सड़क पर चलना मुश्किल था, क्योंकि अभी सड़क पक्की करके कोलतार नहीं किया गया था, जिसके कारण लोरियाँ धूल उड़ाती चलती थीं । इसीलिये सड़क के किनारे से टइलना और धूल फाँकने

का प्रयत्न करना एक ही था। टहलने को समुद्र के तटपर भी चल सकते थे, किन्तु वहाँ रास्ते में डले और पत्थर बहुत थे, भूमि भी ऊबड़-खाबड़ थी, इसलिये चलना सुखद नहीं था। हाँ, सड़क के ऊपर की कम चलती एक दूसरी सड़क टहलने के लिये बहुत अच्छी थी। वन में मलीना और जैम्ल्यान्का (स्ट्रा-बरी) के फूल फूल चुके थे, और जाने से पहिले यद् खट-मीठे फल मिलनेवाले थे। खुम और गुच्छियों की फसल अगस्त में आनेवाली थी, जबकि हम यहाँ से चले गये रहेंगे।

हमारे वासे से समुद्र की ओर देखनेपर उसके भीतर गंधर्व नगर की तरह दूर कोन्स्तात् का मशहूर सामुद्रिक अड्डा था। जर्मन चारों ओर से प्रहार करते हार गये, लेकिन वह अजेय कोन्स्तात्की नहीं ले सके। खाड़ी बहुत उथली थी, बहुत दूर चले जानेपर भी पानी कमर-कमर तक ही मिलता था, जिससे तैरनेवालों को बहुत आगे जाना पड़ता। नीचे बालू अग्रर होती तो चलने में अच्छा रहता, किन्तु पानी में पत्थरों के डले ऊबड़-खाबड़ बिछे हुए थे। हमारा काम था दिन में एक या दो मर्तबे समुद्र-स्नान करना, कभी क्लब की छोटी लाइब्रेरी में जाकर अखबार पढ़ना या दूसरों को नाचते-गाते मनोविनोद करते देखना। हमने यह बहुत जानने की कोशिश की, कि फिन लोगों ने इन इमारतों को किस अभिप्राय से बनाया था, लेकिन फिन्लैंड की लड़ाई के समय ही यहाँ के जितने फिन—नौकर-चाकर या आसपास की वस्तियों के फिस्तान—थे, सभी अपने संकुचित होते हुए देश की ओर भाग गये। सौभाग्य से एक नौकरानी—जो वारहों महीना यहीं रहती थी, और हमारी कोठरी के नीचे रहती थी—उस युग को भी देख चुकी थी। उससे पता लगा, कि पहिले यहाँ फिन लोगों का एक होटल और रेस्तरां था। जिन दियासलाई के दर्रों में हम लोग रह रहे थे, उनमें अतिथियों के लिये बेश्यायें रखी जाती थीं। मेहमान अलग-अलग बंगलों में रहते थे, भैनरहाइम-राज्य में इस उपवन की यह स्थिति थी। यह भी ग्रहन होता था, कि यहाँ के मकान युद्ध में क्यों नहीं ध्वस्त हुये? शायद यहाँ जमकर लड़ाई नहीं हुई, लेकिन आसपास युद्धनेपर भालूम हुआ, कि ऐसी

घात नहीं थी। अब भी कितनी ही जगहों पर नोटिमें लगी हुई थीं—  
 “माइनों से खबरदार”—अर्थात् शत्रु को उड़ा देने के लिये धरती के नीचे  
 बिछाई वास्तु भरी माइनों का निकालने का पूरा प्रयत्न किया गया था, तो भी  
 कहीं कहीं उनके होने की संभावना थी। भूतपूर्व चकलेवाले होटल की कायापलट  
 देखते हुए मेरे मनमें तरह तरह की कल्पनायें आती थीं। कुछ ही वर्षों बाद  
 जब यहाँ के मकानों की योजना कार्यरूप में परिणत हो जायेगी और भोजन  
 की व्यवस्था भी ठीक हो जायेगी, तो यह स्थान कितना सुन्दर और सुखद होगा।

४ जुलाई को समुद्र स्नान करने गये। पानी खारा नहीं था।  
 वस्तुतः यह समुद्र भी तो नदी था, समुद्र की एक भूँख निकली हुई थी,  
 जिसमें बहुत से नदी नाले मोटा पानी ला-लाकर डाल रहे थे। बहुत भीतर तक  
 घुसे, किन्तु पानी पहिले छुटनों तक फिर जाँघ तक आया। तैरने का आनन्द  
 कहाँ था ? यदि बहुत भीतर तक दीवार खड़ी करदी जाय, तो बहुत सी सूखी  
 धरती समुद्र के उदर से निकाली जा सकती है, किन्तु इस देश में धरती की  
 कमी थोड़े ही है, यहाँ अगर कमी है तो लोगों की। शाम को २ घंटे टहलने के  
 लिये “पहाड़ी” में गये। यह स्नान और भी रमणीय था। देवदार और केतू  
 के वृक्ष ही ज्यादा थे, जो बतला रहे थे, कि जाहों में आनेपर खाड़ी और भूमि  
 सभी श्वेतहिम से ढकी होनेपर भी देवदार इसी तरह हरे भरे रहेंगे,  
 अर्थात् उस वक्त लेनिनघाट की तरह यहाँ हरियाली के लिये तरसने की जरूरत  
 नहीं रहेगी। मकान की कर्मा अवश्य थी, स्थान जनाकीर्णता मालूम होता था,  
 पाखाना गंदा था, फलश का इतिजाम नहीं था। इस समय साँी तिरयोर्को के लिये  
 साँवरज के पाइप बँटाय जा रहे थे। अभी तो पाखाना जरूर बुरा लगता था।  
 साफ करने का अच्छा इतिजाम नहीं था। लकड़ियों को खड़ा करके जैसे तैसे पाखाना  
 खड़ा कर दिया गया था। तम्बे के ऊपर बँटकर पाखाना जाने को मन नहीं  
 करता था। यद्यपि कुछ दवाइयाँ डाली जाती थीं, लेकिन बदबू नहीं हटती  
 थी। हमारी कोठरी के ठीक सामने और नजदीक होने के कारण हमें तो कभी  
 कभी बदबू अपनी कोठरी तक से मालूम होती थी, इसके लिये हमें बरान्डे की

खिड़की और अपने दरवाजे को बन्द रखना पड़ता था। खैरियत यहाँ थी, कि हम उस देश में नहीं थे, जहाँपर लोग लोटें में पानी भरकर पाखाने जाते हैं, नहीं तो न जाने गंदगी कहां तक पहुंचती। उपवन में थिजली की बत्तियां भी पक्का ही जगह पर थीं। पीने के पानी की भी दिक्कत थी, लेकिन पहाड़ीपर उसके लिये नलके भी बिछाये जा रहे थे। पानी और पाखाने की दिक्कत अगले साल तक खतम हो जायगी, यह रंग दंग से मालूम हो रहा था।

पहाड़ी से मतलब हमारा है ऊपर की ओर कुछ ऊंचाई पर दूर तक चली गई समतल भूमि और उसे टांके हुए देवदार-वन। पहाड़ी पर जहां तहां छोटी छोटी कुटियां थीं, जिनके पास साग सब्जी के खेत थे। पहिले इन कुटियों में फिन किसान रहते होंगे, अब उनमें रूसी भूतपूर्व सैनिक परिवार आ बसे थे। लेकिन वह अभी थोड़े ही खेतों को आबाद कर सके थे। इस आशा में अच्छे सेवों के होने की संभावना नहीं है, लेकिन साग-सब्जी और आलू तो प्रचुर परिमाणों में पैदा हो सकता है। पहाड़ी पर वसते समय मुझे याद आम्हा था सिक्किम में तिब्बत जानेवाले रास्ते पर १० हजार फुट की ऊंचाई पर बना लाइन गांव, जहाँ फिन-जातीय मिशनरी चुड़िया डेरा लगाये हुए है। यदि मुझे यहाँ हिमालय याद आता था, तो उसे फिनलैंड की देवदाह बनाच्छादित भूमि याद आती होगी।

तिरयोकी में घेरी दिनचर्या थी—सबेरे साढ़े आठ बजे उठना, हजामत कर मुंह-हाथ धोना। लोला को अपने प्रसाधन और ईगर को खिलाने में काफी समय देना पड़ता था। प्रातराश का समय ८ से १० बजे तक था। मगर १० बजे से पूर्व हमारा वहां पहुंचन मुश्किल था। हम आखिरी बंच में भोजनशाला में जाते। तीन-चार बड़े बड़े कमरे भोजनशाला का काम दे रहे थे, जिनमें से एक एक में आठ-आठ नौ-नौ मेजें, और हरेक मेज पर चार-चार आदमियों के बैठने के स्थान थे। प्रातराश में मिलते टोस्ट, भक्खन और चाय या काफी। चाय काफी में इतनी चीनी डाली जाती थी, जिसमें नाम होजाय, लेकिन वह भीठी न होने पाये। भोजन सुस्वाद बनाने के लिये लोग अपने साथ लाई चीजें लाते थे।

२ बजे तक का समय लिखने-पढ़ने या पास को देवदारुबनि अथवा समुद्र की धालुका पर बितते थे। फिर मध्यान्ह भोजन के लिये जाते। घास-पात का सूप, छुछ रोटी, शोकलात ( चॉकलात, चॉकलेट ) और कोई कम मीठी दूसरी चीज। एक तश्तरी मांस सहित होती थी। जहां तक मात्रा का सवाल था, वह पर्याप्त थी, लेकिन गुण के लिये अपनी सामग्री को इस्तेमाल करना पड़ता था। दुःस्वादु भोजन तैयार करने में यहां की रूपाकारिणियां पारितोषिक पाने की अधिकारिणी थीं, इसमें कोई संदेह नहीं। भोजनोपरान्त फिर समुद्र की ओर जाते, जहां कुछ देर तक बहाना होता, फिर आकर लिखने-पढ़ने में लग जाते। ७ से ९ बजे तक व्यारू का समय था, लेकिन सूर्यदेव का दर्शन १० बजे तक होता रहता था—यह जुलाई का प्रथम सप्ताह था। कहने की आवश्यकता नहीं कि आजकल सर्वश्वेता राष्ट्रि थीं, इसलिये निद्रा के आवाहन के लिये अंधेरे का सहारा प्राप्य नहीं था। हम व्यारू से साढ़े आठ बजे के करीब निवृत्त होते, फिर टहलने के लिये “पहाड़ी” पर जाते। समुद्र-तट पर सेड़े दुःखदायक थे, और राजपथ पर लगातार आती जाती मोटरों धूल उड़ाती थीं।

६ जुलाई—समुद्र आज भी कल की तरह शान्त था। हमारी फेकट्टी के डीन प्रोफेसर स्टाइन से भारत के संबन्ध में कितनी ही देर तक बातचीत होती रही। भारत में अंग्रेज नई नीति स्वीकार करने जा रहे हैं, जिसमें शारान और-शोषण में वहां के मध्यवर्ग को शामिल करना चाहते हैं। लेकिन कितने ही और अव्यापकों की तरह इस बातपर उनका भी विश्वास नहीं था, इसलिये अभी वह भारत को विश्वराजनीति में कोई महत्त्व नहीं देना चाहते थे।

स्टेशन के लिये सवारियां कभी कभी मिलतीं, इसलिये लेनिनग्राद जानेवालों को पांच-छ मील का रास्ता पैदल काटना पड़ता। वैसे लेनिनग्राद के लिये भी कभी कभी बसें या लारियां मिल जाती थीं। माल देनेवाली लारियां तो लगातार चलती रहती थीं, किन्तु उनमें बैठने की जगह ड्राइवर के परिचय बिना मुश्किल से मिलती थी। आज लोला को रसद लाने के लिये लेनिनग्राद जाना था। पैदल गईं, हम भी कुछ दूर तक धूल फांकते हुए पहुंचाने गये।

मन्यान्ह—भोजन के समय आज मलाई-बरफ का ठेला भोजनशाला के आहर खड़ा हो गया था। सौ-डेढ़-सौ मेहमान जहाँ खरीदने को तैयार हों, वहाँ क्यू की पाती क्यों न लग जाती ? हमने भी ४. ०० रुबल में ईगर के लिये विस्कट-मलाई ली। रुपये का हिसाब करने पर यह तीन रुपया होता, लेकिन विनिमय के इस हिसाब को हमें स्क्याल में नहीं लाना था। चीजों के मस्तेपन का प्रमाण हम इस बात को मानते थे, कि उनके ऊपर खरीदार कितने टूट रहे हैं। बात की बात में ठेला खाली हो गया। ठेले का आना अच्छा समुन था। राशन से भिन्न और भोजनशाला से अलग भी स्वादिष्ट खाद्य वस्तुएँ तो खरीदी जा सकती थीं।

रेडियों से दूर होने के कारण मैं जैसे तिव्वघत में आ गया था। दो-एक-दिन बाद लेनिनग्रद की “प्राग्दा” आ जाती थी। तिरयोकी से भी हमारे सामाहिकों के आकार के दो पृष्ठों का तिरयोकी पार्टी का पत्र निकलता था, लेकिन उसमें केवल स्थानीय कलखोजों (पंचायती स्वतांवाले गांवों) की बातें ही भरी रहती थीं, और विदेशी क्या स्वदेशी समाचार भी नहीं आते थे। हाँ, खेतों में कैसी फसल है, क्या काम हो रहा है, कारखानों की क्या हालत है, पुनर्निर्माण के बारे में क्या हो रहा है, तथा स्थानीय पार्टी क्या कर रही है—यही सब बातें उसमें रहती थीं। ऐसे दो पृष्ठवाले अखबार सोवियत रूस में देहातों में आमतौर से निकला करते हैं, और स्वावलम्बी हैं, इसके कहने की अवश्यकता नहीं। आज रातको अमेरिकन फिल्म “चोचका चालि” दिखलाया गया। रूस के गांवों में भी चलते-फिरते फिल्म धरावर दिखलाये जाते हैं, कोई हफ्ता नहीं जाता कि गांव में सिनेमा की लारी न आती हो। लारियों में बिजली का भी प्रबन्ध रहता है, इसलिये अगर गांव बिजलीवाला न भी हो, तबभी फिल्म दिखलाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे यहाँ वाकायदा सिनेमावाली लारी नहीं आयी थी। खबर सुनते ही लोग अपनी कुर्सियों पर आ डटे थे। ईगर को भी भरक लग गई थी, लेकिन मैंने किसी तरह सभ्भा-बुभाकर उसे सुला दिया, ११ बजे गोधूति थी, जब कि फिल्म आरंभ हुआ।



७ जुलाई रविवार का दिन था । कल रात को थोड़ी वर्षा हो गई थी, जिसमें बन की शोभा निश्चय आया थी । यागर उच्छ्वस्वित था । तिरयोकी का यह उपवन लेनिनग्राद से ५४ किलोमीटर दूर था । उपवन में डाक्टर और कम्पोजर सहित चिकित्सालय था । क्लब के साथ छोटा पुस्तकालय था, जिसकी शाला में नाट्य, नृत्य और गीत हो जाया करते थे । स्मॉईशाला अलग थी । अर्ध तो किसी तरह ही गुजारा करना पड़ रहा था, क्योंकि पांच हाथ लम्बी पांच हाथ चौड़ी कोठरियों में दो-दो आदमी अरे हुए थे, लेकिन लोग आशा कर रहे थे उन दिनों की, जबकि उपवन की योजना कार्यक्रम में परिणत हो जायेगी, फिर प्रत्येक विशामेच्छुक को एक एक कमरा मिल जायेगा । आज एक छोटा सा नाटक और उजवेक नृत्य हुआ, जिसके करनेवाले हमारे छात्र थे । बचपन से ही नाट्य-नृत्य संगीत का अभ्यास होने के कारण छात्रों को अपना पार्ट अदा करते जरा भी दिचकिवाहट नहीं होती थी, इसलिये इस मनोरंजन को निम्न कोटि का नहीं कह सकते थे । अगले दिन भी बूँदाबादी रही, रात को तो काफी वर्षा हुई । हरीतिमा और मोहक हो गई । सागर भी उच्छ्वास ले रहा था । उपवन में वोलो-बाल, और टेनिस खेलने के क्षेत्र थे । हम कभी कभी देखने के लिये चले जाते थे । खेलनेवालों में लड़कों की संख्या कम और लड़कियों की अधिक थी । वोलोबाल के कई क्रौडा-क्षेत्र थे । पास ही लक्ष्य गाड़कर एक बन्दूक रखी रहती थी । लोग वहाँ निशाने का अभ्यास करते थे । एक खूबल में १० "गोलियाँ" मिल जाती थीं— वस्तुतः यह गोलियाँ नहीं धल्कि छोटासा वाण होता था । लोगों को लक्ष्यवेध की कोशिश करते देख मैंने भी दो एक खूबल खर्च किये, लेकिन लक्ष्यवेध कभी नहीं कर सका । यह अभ्यास केवल मनोरंजन के लिये नहीं था, क्योंकि अभ्यास करनेवालों को समय पड़ने पर बन्दूक लेकर रण-क्षेत्र में उत्तरना होगा । वैसे यह मनोरंजन के सिवाय उतनी आवश्यक चीज नहीं थी, क्योंकि सोवियत के हरेक नागरिक के लिये वरस-दो-वरस की सैनिक शिक्षा अनिवार्य है, तथा स्कूलों से ही लड़के लड़कियों को फायदे-परेड सिखाई जाने लगती हैं ।

ईशरको अपने दोस्त मिल गये थे, समययस्क नहीं बल्कि युनिवर्सिटी की छात्रायें और प्रोफेसर्स, जिनसे वह कहानी सुनता माने बाद करता। इन "दोस्तों" का कहना था। वह लड़का गायक और अभिनेता होगा। गायक होने में संदेह है, लेकिन अभिनेता शायद अच्छा-बुरा हो जाय, यह मैं भी मानता था। उसके स्कूल का प्रथम वर्ष मैं के दुराग्रह के कारण बरबाद हो रहा था, लेकिन नये दोस्तों के संपर्क में आने के कारण उसको अंक लिखने का शौक हो गया था और कुछ ही दिनों में १०० से ऊपर पहुँच गया। अक्षर और नाम लिखने को उसका मन नहीं करता था। वह केवल अपने मन का काम करना पसन्द करता था। उस दिन लोला को लेनिनग्राद से लौटना था। १०-११ बजे रात तक प्रतीक्षा करके निराश हो गये थे, जबकि १२ बजे रातको वर्षा में सीवती खाद्य-भामत्री से खड़ी-फड़ी चार पाँच किलोमीटर की पैदल यात्रा करके लोला राती पहुँची। समय की पाबन्द होती, तो इतनी देर करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन १२ बजे रातिका मतलब अंधेरा नहीं था।

दहलने के लिये एक-दो मील जाकर लौट आते थे। ६ जुलाई को हमने कदम कुछ आगे बढ़ाया। ६ बजे निकले। अंधेरे का डर नहीं था, इसलिये राती रात घूम सकते थे। सड़क से तीन किलोमीटर से ऊपर समुद्र के पासकी सड़कसे गये। किलोमा स्टेशन मिला। पानी बरस जाने से गारद नहीं उड़ रही थी, इसलिये हमने सड़क पर दहलने की हिम्मत की थी। जारियों और मोटरों की दौड़ बराबर जारी थी। एक जगह आवने-गामने से आने वाली दो जारियाँ लड़ गई थीं, जिसमें एक ड्राइवर और उसकी सहायिका घायल हो गई थी। पुलिस बखान ले रही थी। आगे वाई और से पहाड़ी की ओर मुझे "पहाड़ी" के द्वार पर भचान बंधा था, जिसपर से लड़ाई के समय छिपे हुए थन्दूकची शत्रुओं पर निशाना लगाते रहे होंगे। जहाँ तहाँ खाइयाँ अब भी ब्रेसी ही पड़ी थीं। पहाड़ी चौरस मैदान जैसी थी। वहाँ बहुत सारे मकान लड़े थे। पहिले मकान का हाता बहुत विशाल था, उसके कोने पर छतरी सी थी, जहाँ बैठकर फिन-देवियाँ समुद्र की लहरें गिना करती थीं। आज यह लेनिनग्राद के

लोगों की विधाम भूमि है, ता युद्ध से पहिले फिन सामन्तों और धनिकोंने भी इसका उपयोग किया था। स्टेशन तक जाकर लौटे। एक विशाल प्रसाद के चारों तरफ लकड़ी और पत्थर की ऊंची चहारदीवारी खड़ी थी। पहिले यहाँ मेनरहाइम के भाई-बन्दों का विद्यालय बन रहा होगा, किन्तु आजकल प्यूनारों (बालचरों) का केन्द्र था। आज कागज का एक योजना को धरती पर उतरते देखा: मीलों तक भिन्न-भिन्न संस्थानों के विधान्ति-निवास बन रहे थे। आदमी भी काम कर रहे थे और मशीनें भी। तिरयोकी, किलोमा जैस नाम अब फिनो के अग्रगण्य रह गये हैं। लेनिनग्राद भी पहिले फिनो का ही था। उसकी नदी नेवा का नाम फिनिश है। इस तरफ अब लेनिनग्राद से विपरीत के रास्ते में दूर तक की भूमि विधान्ति-उपवनों के लिये ही रख छोड़ी गई है। १२ बजे दहल कर लौटे तो केवल वृक्षों के नीचे जरा-जरा अंधेरा मालूम होता था।

मेनरहाइम दुर्गपंक्ति — फिन्लैंड देवदार की बनावली, ऊंची-नीची पहाड़ी जैसी भूमि और अपनी हजारों छोटी बड़ी भीलों के लिये विख्यात है। १० जुलाई को ११ बजे लारी करके हम मेनरहाइम दुर्गपंक्ति देखने गये। अस्त्रधारों में लड़ाई के समय मेनरहाइम पंक्ति को जर्मनी “मिचिकद” और फ्रान्स के “मगिनो पंक्ति” का छोटा भाई कहा जाता था, इसलिये जब उसे देखने का प्रस्ताव साथियों ने किया, तो मैंने बड़ी उत्सुकता से उनका साथ दिया। लेनिनग्राद से ६४ घं किलोमीटर पर पहाड़ समुद्र से बहुत नजदीक आनाया है। यहीं से यह दुर्गपंक्ति शुरू होती है, और पूरब में लादीगा महासरोवर तक चली जाती है। टैंकों और दूसरे युद्धवाहनों को रोकने के लिये तीन तीन टनकी बगैर छिली चट्टानों चौड़ाई में ३-३, ४-४ रखी हुई थी। इन चट्टानों को तोड़ बिना कोई युद्धवाहन आगे नहीं बढ़ सकता था। नीचे कहीं कहीं, भूगर्भों तोपस्थान थे, जिनके ऊपर बहुत मोटी सीमेन्ट की तह थी। एक जगह तो इस मैली पहाड़ी से इतना मजबूत दुर्ग बना था, कि उसको उड़ानेपर वहाँ गहरी खड्ड बन गई, तब जाकर पर्वत-समुद्र द्वार को पार करने में सोवियत टैंक समर्थ हुए। यहाँ से हम दुर्ग-पंक्ति के साथ साथ पहाड़पर चढ़े। पहाड़ चढ़ने का

मतलब कोई हिमालय या विन्ध्याचल जैसा पहाड़ चढ़ना नहीं था। हैं तो यह माँतर पत्थर के ही पहाड़, किन्तु ऊपर की मिट्टी इतनी घुल नहीं पाई कि वह पहाड़ का रूप लेते। हाँ, समुद्र की तरफ से जाने पर थोड़ी सी चढ़ाई जरूर चढ़नी पड़ती है। इसी वजह से इन्हें पहाड़ कहने में संकोच होता है। धरती यहाँ चढ़ाव-उतार चली गई है, जिसके नीचे पत्थर की चट्टानें टकी हुई हैं। मैन्नरहाइम दुर्गपंक्ति इस चढ़ाव-उतार पहाड़ी भूमिपर चलती चली गई है। यंक्ति के परले पार एक गांव दिखाई पड़ा। कुछ लकड़ी और एक लाल खपरौल में छाया भकाव भी था। गांव में अब रूसी रहते हैं, वनों के बनाने वाले तो, कवके उन्हें छोड़कर चले गये। मल्लाना और जिम्न्यांका (रट्टारी) बहुत थीं, लेकिन अभी पक्की नहीं थीं। याम्दी (एक जंगली मकोय) बहुत थी, जिसका स्वाद कर्दोदे जैसा मालूम होता था। इस गांव में आलू के खेत व्याप्त थे, लेकिन सिंचाई का प्रबन्ध न होने से देव भरोसे ही खेती की जा सकती थी। लौटकर लारी से फिर दो फर्लंग आगे ६६ बें किलोमीटर तक गये। यह सड़क विपुरी (बीजुर्ग) जा रही थी। ६६ बें किलोमीटर पर एक टूटा हुआ गिरजाधर मिला, जिसकी दीवार पर अब भी क्रस (सलेब) लगा हुआ था। यहाँ युद्ध द्वारा ध्वस्त बहुत से घर कंकाल रूपे में या जमीन टिमलाये पड़े हुए थे। शायद फिनोने इस ऊँचे स्थानको दुर्गके तौरपर इस्तेमाल किया, जिसके कारण गिरजा के नरबाध होना पड़ा। कितने ही लोग अपनी बहुज्ञता का परिचय देते कह रहे थे: यह "माइनरगीम" का महल है। फिनो में माइनरहाइम का ही नाम जागते थे, इसलिये हर बड़ी इमारत उनके स्थाल में माइनरहाइम का महल था। इससे जरा जाँच एक छोटी सी पर्याप्त पानीवाली नदिका बह रही थी, जिसका पानी काला था— उसे आरानाँ से काली नदी कहा जा सकता था। काली नदीने भी उस समय रत्नापंक्ति का काम दिया होगा। यहाँ कुछ आलू के खेत थे। एक स्त्री केवल स्तनबन्द और घाघरा पहिने अपने आलू के खेतों में काम कर रही थी। कई दृश्यों के फोटो लिये थे, लेकिन हमारे परिचित युद्ध फोटोग्राफर की असावधानी के कारण वह खराब हो गये। दाईं घंटे की यात्रा के बाद हम लौटे।

इस पर उस वक्त बायों और शिशुउद्यान और धूम्रियों के निवासस्थान बहो  
थे। जहाँ किसी समय भिनों के गांव, कस्थ और मनोरंजनशालायें रहीं  
गंभी, वहाँ अब गंभीयत-संस्थायों ने अपना आधिपत्य जमाया था। भोजन-  
शालायें, रेस्तोरॉ और स्नाथमण्यशालायें, सभी जगह मौजूद थीं।

११ जुलाई को ११ बजे से फिर हमारी शाला भरम हुरद। अभिनेता  
मैर गायक विश्वविद्यालय की छात्र और छात्रायें थीं। आखिरी अभिनय था:  
रुषी प्रेमिका-का पत्र पाकर तमस छात्र उसमें मिलने की सोच रहा है, फिर  
बहता है: अभी समय बहुत है, थोड़ा और पोलें। फिर पीने बैठ जाता है। एक  
घंटा समाप्त होती है, फिर वही कहकर दूसरी बोतल उठाता है। इसप्रकार  
तीन, चार, पांच, छे, बोतलों समाप्त करता है। हरक बोतल के अनुसार उसकी  
बेधा और चेहरे पर विकार आता जाता था। देखकर लोग लौठ-पांठ हो रहे  
थे। ईगर तो शराबी की बातें सुनकर दतना जौर से हंसने लगा, कि उसको  
प्य कराना मुश्किल हो गया। अन्त में द्यठी बोतल समाप्त कर वह प्रेमिका के  
पास पहुंचता है। प्रेमिका उसको भिड़कती है। न कोई साज माझान था, न  
'गमंच' पर सदा पड़े रहने वाले पर्दे के शिवा और कोई पर्दे का प्रबन्ध  
था, न अभिनेता छात्र-छात्रायों ने विशेष पोशाक ही इन्हेमाज की थी, लेकिन  
प्रभिनय मनोरंजक था।

सरोवर की मर—१२ जुलाई को प्रोफेसर स्टाइन, उनकी पत्नी तथा  
एक दूसरे सपत्नीक प्रोफेसर के साथ हम सरोवर देखने गये। हमारे उपवन में  
ह तीन-चार किलोमीटर पर अवस्थित था, इसलिये पैदल ही चल पड़े। रास्ते  
में लेनिनग्राद में त्रिपुरी जानवाली रेल सड़क मिली। कुछ आगे बढ़ने पर  
वदारों का घना और सुन्दर जंगल आया। यहाँ केवल देवदार ( योल्क ) के  
वृक्ष थे। एक जगह बायों और जमीन के कुछ ऊँची हो जाने के कारण दृश्य  
बेलकुल हिमालय जैसा मालूम होता था। घने जंगल में दूरी किलोमीटर चले  
थे। फिर केलू ( सरल ) के वृक्षों की प्रधानता आयी। यहाँ युद्ध के अवशेष—  
मार्ग्य और भूधरे बहुत से मौजूद थे। सरोवर खुर्दा के आकार का था। जान

पड़ता था, युद्ध में पहिले मैदानियों की यह प्रिय भूमि थी, इयान्तिये सरोवर के पास दो कमरों का एक अच्छा खासा बंगला था, जिसको जाइों में गरम करने का भी प्रबन्ध था। शायद युद्ध के समय यहां अफसर रहे हों। सरोवर काफी लम्बा था। पानी नमकीन नहीं मीठा था, जिसमें मछलियां बहुत थीं, कुछ नावें भी थीं। पुराने निवासी फिन लोग चले गये थे, और नये निवासियों में युद्ध के पहिले की अवस्था के बारे में जितना जाना जा सकता था, हम उसे अपनी कल्पना से जान सकते थे। रास्ते में कितने ही भ्रोपड़ों को हमने उजाड़ देखा था। कितने ही खेतों में, जान पड़ता था, १९४० के बाद फसलें नहीं बोई गयी थीं, इसलिये घास उभा रही थी। कुछ में गेहूं भी लगे हुये थे, लेकिन आसपास आदमियों का पता तथा खुतारे का चिन्ह लुप्त होने के कारण यही कह सकते थे, कि न कटे हुए गेहूं भड़कर यहां स्वयं जंगली गेहूं के रूप में फसल तैयार करने लगे। ऐसे लाखों एकड़ खेत और सैकड़ों हजारों गांव इस भूमि में परित्यक्त पड़े हैं, आवाद करने के लिये आदमी मिलाने मुश्किल है। सोवियत रूस का क्षेत्रफल ७ भारत के बराबर है, और आवाद भारत से आधी। मुझे कभी कभी ख्याल आता था—यदि हमारे यहां की एक माल की जन-संख्या की वृद्धि यहां भेज दी जाती, तो यह सारी भूमि आवाद हो जाती। लेकिन हमारे मैदानी लोग यहां की सरदी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। खैर, भारत के लिये अपनी आवादी को कहीं बाहर भेजकर अपनी समस्या हल करने का द्वार चारों ओर से बन्द है। रूस में नहीं जा सकते, यद्यपि वहां काले गोरे का प्रश्न नहीं है। आस्ट्रेलिया के एक करोड़ गोरो ने एक महाद्वीप को दखल कर लिया है, जिसमें कालों का प्रवेश निषिद्ध है, इसलिये वहां भी नहीं जा सकते। दक्षिणी अफ्रीकावाले हमारे उन बन्धुओं को भी निकाल बाहर करने पर तुल्ले हुए हैं, जिनके जागर से वह भूमि आदमियों का सुख-निवास बन।

लेनिनवाद में ६६ किलोमीटर तक की भूमि को देखने से मालूम हो गया, कि कुछ ही वर्षों में यह सब्य मीन्मनिवासों की भूमि बन जायगी, लेकिन इस तरह की जो कितनी ही भीलें कितने ही परित्यक्त प्राय या रसणीक स्थान

है, उनको कब तक बसाया जायगा ? सोवियत में तो हर जगह खाली जमीन पड़ी हुई है। युद्ध में ७०-८० लाख आदमी मारे गये, जिनकी पूर्ति करना भी समयसाध्य है, तो भी इस भूमि के महत्व को यहां के शासक जानते हैं, इसीलिये दूसरी जगहों से लाकर लोगों के बसाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें कितने ही भूतपूर्व सैनिक हैं। सरोवर के तट के काटमाण्डव में नया मछुवा-परिवार आकर बसा था। मछुवाही के अतिरिक्त उन्होंने खरगोश भी पाल रखे थे, कुछ आग-सध्नी भी लगा रखी थी। सामने उस पार एक "दाचा" ( ग्रामीण विश्राम-गृह ) दिखाई पड़ा, जहां नांव से पहुंचा जा सकता था। अतिहरित देवदारों के बीच में यह काला सरोवर बहुत ही सुन्दर मालूम होता था, लेकिन इस सौंदर्य का आनन्द लेने के लिये यहां कितने ही और घरों और मछुवे परिवारों की आवश्यकता होगी। जंगल में इन लकड़ी के घरों की खिड़कियों में भी शीशे लगे थे। उनके बिना जाड़े में घरको गरम कैसे रखा जा सकता था ? रूस में तो सरदा के मारे सभी दरवाजे और खिड़कियां दूहरे बनाये जाते हैं। आज पकी चोर्निका ( काली ) याग्वी ( मकोय ) यहां बहुत थी। सारे विश्रामविहारी उठे जमा करने में लगे थे। यहां आनेवालों में हमीं सात आदमी नहीं थे, बल्कि भिन्न-भिन्न विश्रामोपवनों के सैकड़ों नर-नारी और बच्चे पहुंचे हुये थे। दो बच्चियों ने मकोय खा-खा कर अपने होठों और दांतों को काला कर लिया था। जहां पाथ भर मकोय का दाम दो तीन रुपया हो, वहां जंगल में उन्हें मुफ्त जमा करने और खाने में कितना आनन्द आता होगा, इसके कहने को आवश्यकता नहीं। आस-पास की ग्रामीण स्त्रियां मकोय लेकर हमारे यहां पहुंचा करती थीं, और नाप-नाप कर अपने फलों को बेचा करती थीं।

झान-झाजाओं को विश्राम का टिकट १५ दिनों का मिलता था। पन्द्रह तारीख को अब पहिले के आये झान-झाजायें लौट गये, जिससे उपवन में उदासी सी छागई। उनके रहने से कभी संगीत, कभी अभिनय और खेल देखने का मनोरंजन रहता था। उनमें से बहुत से परिचित हो गये थे। परिचित चेहरों के अभाव के कारण मनुष्य का हृदय एकान्त अनुभव करता ही है। लेकिन प्रोफेसर

एक महीने के लिये आयें थे, इसलिये हमारे सड़कारी परिधित अर्भी रहनेवाले थे । समुद्र-स्नान प्रायः रोज ही और कभी कभी दिन में बार होता था ।

१७ जुलाई तक नये आने वाले आ पहुँचे । मकान तो फिर भर गये, किन्तु अर्भी पहिले जैसी धूम नहीं थी । दो-तीन दिन तो परस्पर परिचय के लिये चादिये । परिचय-स्थान प्रीङ्ग-क्लेत्र और नृत्यशाला थी । विद्यालय में पाँच छात्राओं के पीछे एक छात्र का क्रम भी नहीं था, इसलिये छात्र दृष्प्राप्य थे, तो भी मुंहदञ्चू तरुणा सहभागिनी तरुणा पाने में समर्थ नहीं होते थे । मायासे अधिक मुंहजोर तरुणा भी निराशा का मुंह देखते थे । छात्रों को यहाँ एक-एक कोठरी में गात-सात आठ-आठ की संख्या में रखा जाता था । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि छात्र-छात्राओं की कोठरियाँ अलग-अलग होती थीं । स्नान के स्थान में, समुद्र में या रेत पर अर्धनग्न तरुणा-तरुणियाँ नहाने या धूप में शरीर सँकने, विना संकोच अकृत्रिम भाव से घंटों पड़े रहते । १२ बजे रात तक उन्हें हाथ में हाथ शिलाये बनस्थाली में घूमने की स्वतंत्रता थी । चुम्बन भी इन देशों में कोई महार्थ वस्तु नहीं है, उसे तो अधिक परिचित ध्यक्तियों का परस्पर साधारण शिष्टाचार माना जाता है । लेकिन हाथ में हाथ डालकर घूमने, चुम्बन या पार्श्वलिंगन का यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि संबन्ध यौन-संसर्ग तक पहुँच गया है । वस्तुतः स्वच्छन्द नर-नारियों के इन जैसे देशों में भारतीय तर्कशास्त्र बेकार हो जाता है । यद्यपि इसका यह अर्थ नहीं, कि वहाँ सभी अस्वच्छ ब्रह्मचर्य पालन करते हैं ।

हमारी कोठरी के नीचे रहनेवाली परिचारिका का छोटा सा लड़का अलोक करीब करीब उसी उम्रका था, जितना कि ईगर । कद में वह छोटा था, उसके बाल बिलकुल पीले, और रंग अत्यंत गौरा था । किन माता का पुत्र होने से नाक और चेहरा वैसा ही था, जैसा कि हमारे यहाँ के किसी शुद्ध द्रविड का । अलोक ने हाथ-मुँह धोने का एक नया आविष्कार किया था: अर्भी नल और विजली का प्रबन्ध अच्छी तरह नहीं हुआ था, उसने अपने मुँह को नलका बना लिया था । टसलर में पानी ले बाहर आता, फिर मुँह में पानी



भरकर उसकी कुत्तों में हाथ मुँह धोता। अलेक का आविष्कार बहुत सुन्दर था और उसमें भाता की और में भी कोई बाधा नहीं थी। लेकिन वहाँ शुद्धता और स्वास्थ्य का ग्याल लुप्त था। इस यह नहीं कहते, कि भारत के लोग बहुत शुद्धता रखते हैं। शुद्धताका मान हमारी सभी जातियों और सभी प्रदेशों में एकसा नहीं है। जिनमें शुद्धता है, वह भी शुद्धता को वैयक्तिक शरीर तक सीमित रखते हैं। चाहे आंगन का नाशदान सड़ाई फेंका रहा हो, द्वार पर कुड़ा-कंकड़ भरा हो, तो भी इसकी परवाह नहीं। यह तो कहना पड़ेगा कि जूटमीठ का जो विचार स्वाभाविक तौर से हमारे दिमाग में लड़कपन से ही घुसा दिया जाता है, वह दूसरे देशों में नहीं मिलता। स्वास्थ्य और साइंस संबंधी अध्ययन के बाद यहाँ के लोग समझने लगे हैं, और उसका धीरे धीरे प्रचार भी होने लगा है, लेकिन चिरप्रचलित प्रथा का स्थान वह उतनी जल्दी नहीं ले सकते।

१८ जुलाई को समुद्र अत्यंत तरंगित था, जिसके कारण पानी स्वच्छ नहीं था। नहाने से कपड़े गंदे होते थे, शरीर की भी सफाई नहीं होती थी, उधर सूर्य बादलों के कारण जब तब ही भस्की दे सकते थे, जिसके कारण पानी लंडा हो गया था। आज नहानेवालों का समुद्र तट पर पता नहीं था। इस एकते शहर में एक चौपड़ लाकर मां ने ईगर को दे दिया था, जिसमें पासा फेंक कर अपने अपने मोहरे चलाने होते थे। खेल के लिये ही ईगर ने बड़ी तत्परता से आँको को सीखा था। लेकिन उसमें कुछ स्थल ऐसे थे, जिनके आजाने पर मुँहरे को चार-पाँच सौटी नीचे गिर जाना पड़ता। बीच का स्थान दूर पड़ने के कारण ऐसे उतराव की जगह पर ईगर रोने और भगड़ा करने के लिये तैयार हो जाता। उसको कितना ही समझाया, कि इसमें किसी का कसूर नहीं है, पासेमें ही ऐसी गिनती आ गई है, लेकिन वहाँ तुर्कों को मजने वाला कौन था ? यह कहता— तुम्हारा मुँह क्यों आगे बढ़ता जा रहा है ?

शाम के बहाने आज एक बहाने ने अन्तरी-ष्ट्रीय स्थिति पर भावना दिया। बहाने साधारण शिक्षित व्यक्ति था और श्रोताओं में थे युनिवर्सिटी प्रोफेसर, उच्च कक्षा के विद्यार्थी, किन्तु सबने बड़ी सावधानी से सुना। भावना ज्ञानपूर्ण था।

अमेरिकन पूंजीवाद युद्धके वास्तुखाने तैयार कर रहा है। चीन में खुलकर वह चाइकाइशोक की प्रतिगामी शक्ति को मदद देते, जनताधिकता को ध्वस्त करने पर तुला हुआ है। बहुत काल तक सोवियत निष्पलता नहीं दिखला सकता। कोरिया और जापान में भैकार्यर प्रतिगामी शक्तियों को दृढ़ कर रहा है। इताली के उपनिवेशों को इंग्लैंड लेकर अफ्रीका में अपने को और बढ़ा रहा है। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, फ्रान्स और इताली के हाल के निर्वाचनों ने बतला दिया, कि जनताका अधिक भाग प्रतिगामिता को पसन्द नहीं करता, लेकिन एंग्लो-अमेरिकन पूंजीशाही अपने मन्सूवे पर दृढ़ है। दक्षिणी ईरान को इंग्लैंड दधिया-बन्द कर रहा है और चाहता है, कि वहां से जनताधिकता को खत्म करदे। लेकिन, अणुबमकी नीति सफल नहीं हो सकती। जिस अणुबमके बल पर अमेरिका कूद रहा है, वह भी इतना अमोघासन्न नहीं है। हाल में प्रशान्त महासागर में जो तजर्वा किया गया, उसमें लक्ष्य के तौरपर रखे हुए कितने ही जहाजों में बकरियां पगुराती रहीं, जबकि उनके पास ही से अणुबम गिराया गया था। अमेरिका के जापान पर किये गये अणुबम के तजर्वोंसे बाहर के लोग जितने भयभीत हो रहे, है वैसा प्रभाव रूसियोंपर नहीं देखा जाता। वह पूरी तरह विश्वास रखते हैं, कि जर्मनीको पश्चिमी शक्तियां हरा नहीं सकती थीं, यदि रूस युद्ध में नहीं पड़ा होता। साथ ही रूसी अपने यहां भी अणुबम के आविष्कार में रत थे। वस्तुतः जहां तक अणुबम-संबन्धी मौलिक आविष्कार का संबन्ध है, उसका आरम्भ अमेरिकाने नहीं किया था, बल्कि रूसके दो वैज्ञानिकों ने द्वितीय विश्वयुद्ध के पहिले ही अणुसंबन्धी अपने महत्त्वपूर्ण अनुसंधान को एक रूसी शोधपत्रिका में छपवाया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद एक अमेरिकन पत्रिका में निकला था। यह शायद १९३० के आस पास की बात है। उर्मी को लेकर एक जर्मन विज्ञानवेत्ताने आगे बढ़ाते अणुके गर्भमें ऐच्छिक विस्फोट पैदा किया। यह खोजें तब अंधरेमें नहीं की जा रही थीं। लेकिन युद्ध के छिड़ने ही जब हिटलरने उनपर पर्दा डाल करके अपने यहां इस तरह के आविष्कार करने की कोशिश की, तो मिन-शक्तियों का ध्यान भी उधर जाना जरूरी था।

द्विद्वार के अत्याचारों से पीड़ित कुछ जर्मन विज्ञानवेत्ता भागकर पश्चिमी यूरोप और अमेरिकाके देशों में चले गये थे, जिनकी सहायता और अपने अपार यांत्रिक साधनों का प्रयोग करके अमेरिका सबसे पहिले अणुबम बनाने में समर्थ हुआ और ट्रूमन और चर्चिल जैसे महान् राजसों ने यह निर्णय करते जरा भी आनाकानी नहीं की, कि हारने के लिये तैयार जापान के दो नगरों के लाखों निरीह मनुष्यों पर अणुबम छोड़ा जाय। यद्यपि सोवियत में यह बड़ी गुप्त बात थी, तो भी यह पता लगता था, कि सोवियत विज्ञानवेत्ता अणुबम और अणु-शक्ति के आविष्कार भी तैयारी में लगे हुए हैं। जिन परिवारों के व्यक्ति इन अनुसंधानों में भाग ले रहे थे, और अपने नगरों से दूर गये हुए थे, उनको किसी न किसी तरह अपने आदमियों का पता लगता था, जिससे लोग जानते थे कि सोवियत में इस दिशा में काम बड़ी तत्परता से हो रहा है।

१९ जुलाई को भी समुद्र उत्तरंगित रहा। हम भी नहाने नहीं गये। तिरयोर्का में अब मच्छरों की सेना आ पहुँची थी। सटमल और पिसू पहिले भी कुछ संख्या में मौजूद थे, लेकिन तब तो केवल रातको ही अपना प्रभुत्व दिखाते थे। यह मच्छर (कमारोफ) देवता न तो दिन को दिन गिनते थे, न रात को रात। तीनों की मार में अब मन परेशान रहने लगा। पानखाने खुले हुए थे। पानी के निकलने का प्रबन्ध नहीं था, यही कारण मच्छरों की अधिकता का हो सकता था। मोरी के नल बैठाये जा रहे थे, उस समय शायद जल से बचाये जाने वाले पखाने के कारण मच्छरों की कर्मा होजाय। लेकिन जहाँ तहाँ दलदलो भूमि भी थी, जिसमें सड़ती हुई घासों पर पानी उछलता दिखाई पड़ता था। मच्छर वहाँ अपना बसेरा कर सकते हैं।

२० जुलाई को अब कुछ निठलेपन को एकाग्रता से मालूम होती थी। कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे, जिससे आत्मसंतोष होता। २० को नहाने गये। दो दिनों के उत्तरंगित समुद्रने अपने भीतर की कितनी ही चीजें लाकर किनारे पर बमनकर दिया था और वहाँ हरी काई की मोटी तह पड़ी हुई थी, जिसमें कुछ घोषों जैसे सामुद्रिक प्राणियों के अवशेष भी मौजूद थे। उनसे बदव्

बहुत आती थी। गंदे पानी में नहाने से शरीर का कपड़ा भी गंदा हो जाता; किनारे से काफी दूर भीतर घुसने पर पानी कुछ कुछ साफ था। आज स्नान के शौकीन कम दिखाई पड़े। समुद्र के उबले पानी में छोटी छोटी मछलियां अक्सर दिखाई पड़ती थीं। ईगर भी कुछ मछलियां पकड़ लाया था और उन्हें उसने पानी डालकर टीनमें रखा था। तीन मछलियों में एक गुम हो गई थी, एक मरगासन्न मालूम हो रही थी। हमने कहा— इन्हें समुद्र में डाल दो। लेकिन पालने का आग्रह था, किन्तु तो भी उसने इस बात को अठभव किया, कि मछलियों को तड़पाकर मारना अच्छा नहीं है, इसलिये मछलियों को समुद्र में छोड़ आया।

खाने-पाने का प्रबन्ध अभी अच्छा नहीं था, यह हम कह आये हैं। साथ ही निजी तौर से पकी पकाई चीजों को छोड़कर कोई इतिजाम करना भी मुश्किल था, तो भी लोगों ने कुछ कर ही लिया था। हमारे तो तीन व्यक्तियों पर दो टिकट थे, इसलिये एक के भोजन का पृथक प्रबन्ध करना आवश्यक था। लोला अबकी बार एक पाकेट चूल्हा लायी थी, जिसपर ईंधन की टिकिया जलती थी। वर्षों रहने वाला चूल्हा चार रूबल का था, और टिककी का डाम भी चार रूबल टिककी चार घंटे तक जल कर श्वेतम हो जाती। चार रूबल का अर्थ था ढाई रुपये, चार घंटे तक जलने वाला ईंधन ढाई रुपये का और जो भी जेबी चूल्हे में! किन्तु सचमुच ही टिककी देखने से पता नहीं लगता था, कि यह इतनी देर तक जलेगी। उसी पर हम थंडे उवालेते। प्याले भर मकोय का दाम पांच रूबल था अर्थात् ईंधन या चूल्हे से भी ज्यादा। यहां इस देश में आकर सारे अर्थशास्त्र को छोड़ना पड़ता है और यहाँ देखकर संतोष करना पड़ता है— यहाँ कोई आदमी बेकार नहीं है, कोई आदमी ऐसा नहीं है, कि जिसको खाने-कपड़े, मकान तथा लड़कों की शिक्षा देने में कठिनाई हो और जब सरते दाम में राशन की चीजें पर्याप्त मिल जाती हैं, तो आप शिकायत करना क्यों चाहेंगे। प्रोफेसर, मंत्री या जनरल साढ़े चार हजार रूबल मासिक पाते हैं, वह तो रोज़ सौ रूबल से अधिक खर्च कर सकते हैं।

विपुरीकी यात्रा—२१ जुलाई के लिये लोगों ने विपुरी चलने का

प्रबन्ध किया। १६४० से पहिले विपुरी (वीवुर्ग) फिनलैंड के अच्छे शहरों में से था। यह तिरयोकी से प्रायः १०० किलोमीटर पर था। इतनी दूर के सैन्य सप्टेकेका अक्सर मिला था, फिर मैं कैसे अपने को वंचित रखता ? तारी पौन ग्यारह बजे हम लोगों को लेकर चली। रास्ते में पौन घंटा विश्राम करना पड़ा, फिर तीन बजे हम वहां पहुंच गये। जाते समय हमारा रास्ता समुद्र तट से दूर-दूर से था, लेकिन लौटते वक्त हम समुद्र की पासवाली सड़क से आये। दो तीन जगह कुछ बरतियां मिलीं, नहीं तो सारी भूमि जंगलों से ढंकी पर्वतस्थली थी, जिसमें जहां तहां कितने ही छोटे बड़े सरोवर थे। देवदार, केलू और भुर्ज के वृक्ष ही जंगलों में देखे जाते थे। रास्ते में एक जगह उसी जंगल में आग लगी हुई थी। यह जंगल लगातार हमारे उपवन तक चला आया था। आग बुझाने की चिन्ता छोड़ चुपचाप बैठे हुए आदसियों को देखकर हमें आश्चर्य होता था, आग बढ़ते बढ़ते कहीं हमारे पास न चली आये। देवदार, केलू, भुर्ज के हरे हरे वृक्षों की जलान में अग्निदेवता की सुखे गीले की परवाह नहीं थी। लेकिन जंगलों में जहां-तहां चौड़ी पटियां कटी थीं, इसलिये आशा थी कि शायद आग वहीं पहुंचकर रुक जाय। सड़कें जैसे सड़क का सारा रूपरंग रखती थीं, लेकिन उनमें धूल की बहार थी। सत्तरवें किलोमीटर के पास ऊर्चा नीचा किन्तु कुछ खुलीसी भूमि आयी, यहां अनेक गांव और बहुत सारे खेत थे। खेतों का आवाद करना कितना मुश्किल था इसके बारे में कह चुके हैं, लेकिन तब भी कई जगह ट्रेक्टरों की हराई पड़ी थी, जिससे आशा होने लगी। पुराने वाशिनटों के धों में अब आकर रूसी नर-नारी घस गये थे, ज्यादातर रिनियों का होना आश्चर्य की बात नहीं थी। जिस सैन्यहाइम दुर्ग-पंक्ति को हम पहिले देख आये थे, उसकी दो-तीन और मुरत्ता-पंक्तियां मिलीं। कई टैंक रास्ते में टूटे पड़े थे। स्वयं सैन्यहाइम-पंक्ति पर ही ४ बड़े बड़े टैंकों की लाश देखी। सीमेन्ट की कंकरीटके दुर्ग, भुंइधरे सभी जगह दिखाई पड़ने थे। फिनॉन विपुरी तक डटकर लड़ाई की थी। इधर की किलेबन्दी भी बहुत मजबूत थी। जहां-जहां सरोवर थे, वहां जरूर तीन-तीन टन की शिलाओं की रोशक-पंक्तियां

तैयार की गई थी। तैयार फसल ज्यादातर आलू की थी, उसके बाद जई और फिर गेहूँ का नम्बर था। बरों के पास बन्द गोभी के खेत भी दिखाई पड़ते थे। लौटानके रास्ते में चक्रन्दर के खेत भी मिले। जान पड़ता था, सभी मंत्रालय (सम्करी खेती वाले गाँव) थे। खेती में मशीनों को बहुत दस्तमालद किया गया था। उनके बिना इतनी भूमिकों थोड़े से आदमी आबाद भी नहीं कर सकते थे। दो ब्रँट के बाद जंगल में विश्राम करने के लिये हमारी लारी रुकी हो गई। यहाँ साम्रा (मकोय) बहुत थी, मकोय जैसा स्वाद था, जैसे वह हमारी मकोय नहीं, कोई दूसरा फल था। आज जिनियाँका (स्टूवरी) भी खाने को मिली। लारी के खड़े होते ही लोग उतर कर फलोंपर टूट पड़े। जहाँ बास ज्यादा था, वहाँ मच्छरों की मना भी यात्रियों के सिद्धने के लिये फिन-सेना से कम खूँखार नहीं थी।

पौन ब्रँटे बाद फिर हमारा काफिला चला, वही नाँची-ऊँची जंगलों की पर्वतस्थली, सरोवरों की भूमि। जहाँ तहाँ दो राजा पहिले टुंग युद्ध के चिन्त दिखाई देते थे। तीन बजे हम विपुरी पहुँचे। पहिले एक चौमजिला मकान प्राया, जिसकी दीवारें स्वस्थ खड़ी थीं, लेकिन खिड़कियाँ और दरवाजे नदारद—सभी लकड़ी की चीजें युद्धाग्नि में स्वाहा हो गई, ईंटों का भूँह झुलसा हुआ था। नगर में घुसने से पहिले ही ईंटें पाथने का बहुत बड़ा याचिक भट्ठा दिखाई पड़ा, जिससे पता लगा कि सोवियत शासक पुनर्निर्माण के संबंध में बड़ी गंभीरता के साथ कदम उठा रहे हैं। रास्ते में हमने दो बार लेनिनग्राद से यहाँ आनेवाली रेल को पार किया था। नगर में घुसते ही ट्रामकी लाइन बिछी मिली, लेकिन उसके खंभे निर्जाव खड़े खड़े भ्नांख रहे थे। ट्राम शायद १९४० के बाद फिर नहीं चली। नगर में आदसियों की कमी के कारण शायद अभी और कितने ही समय तक इसे चलने की तकलीफ नहीं करती पड़ेगा। विपुरी बहुत भव्य और सुन्दर नगर रहा होगा, यह अब भी उसके खरबहर बता रहे थे। यहाँ से पहाड़ दूर-दूर हैं। मकानों में एक तो बारहमजिला था, छद्-सात मंजिलावाले तो बहुत से थे। नगर की सड़कें सीधी नहीं थीं। नगर के

वीच में पार्क-लैनिन था, जिसका फिन नाम कुछ दूसरा ही रहा होगा। इसी में १९२४ में सन्ताइनिन द्वारा बनाई गई वारहसिंगा की सुन्दर मूर्ति है। दूसरी जगह एक और कुत्ता लिये हुये काले तन्तु की मूर्ति फिन कलाकार की सफल साधना का उदाहरण है। वही प्यास लगी थी। प्यास से निवृत्त हो हमने नगर की सैर शुरू की। यही मुश्किल से रात में से दस मकानों को ही कास चलाऊ करके लोग रहने लगे थे। नगर के पुराने निवासी ( फिन ) तो लड़ाई के समय ही भाग गये, अब सारे रूस से टूट-टांड कर लोग लाये जा रहे थे। युद्ध ने बड़ा ध्वंस किया था, तो भी १० सैकड़ा आवादी बरों के अतिरिक्त ५० सैकड़ा और भी आसानी से आवादी किये जा सकते थे। उनकी विद्वक्तियों, दरवाजों और छतों की ही सम्भार करनी पड़ेगी। छः ही घरस पहिले जहां अब जगह केवल फिन भाषा सुनी जाती थी, अब उसका स्थान रूसी ने ले लिया है। केवल दीवारों पर लिखित पुराने विज्ञापनों में ही “कमालिस ओप के पांड की यस्कच विस्की” जैसे विज्ञापन लैटिन अक्षरों में थे। फिन लोगों को रोमन चर्च ने ईसाई बनाया था, पीछे वहाँ उसी चर्च की सुधारवादी शाखा प्रोटेस्टेंट की प्रधानता हुई, इसलिये फिन भाषा ने रोमन लिपिको स्वीकार किया। प्रथम संस्कृति फैलानेवाले लोग इस तरह जातियों में अपना स्थायी चिन्ह छोड़ते हैं। मध्यएशिया में और दूसरी जगहों में भी जहां-जहां अरबी संस्कृति फैली, वहाँ अरबीलिपि ने चाहे तो पुरानी लिपिको मार करके अथवा भाषा के अलिखित होने पर अपनी लिपिको देकर अपने लिपि निरस्थायी स्थान बनाया। रोमनचर्च-प्रभावित यूरोप के देशों ने इसी तरह रोमन ( लातिन ) लिपि को अपनाया। ग्रीक चर्च ने जहां-जहां ईसाई धर्म फैलाया, वहाँ ( रूस, बुल्गारिया आदि ) देशों में ग्रीक लिपि अपनाई गई। भारतीय संस्कृति के प्रभाव से ही आज भी भारतीय लिपि से निकली लिपियाँ तिब्बत, बर्मा, स्याम, कम्बोज आदि में प्रचलित हैं।

विपुरी से समुद्र दूर है, लेकिन समुद्र की एक मूँछ यहाँ तक पहुँच गई है, जिसके कारण यह समुद्र तटवर्ती बन्दरगाह है। नगर के एक सिरेपर

जल की खाई के बीच में पुराना "जामुक" ( गढ़ ) है, जिसकी वनावट स्वीडिश वंश की है। अभी तक स्वीडिश वंश के लोगों का ही फिनलैंड का आधिजात्यवर्ग रहा है, जिनमें से ही एक साइजरहाइम फर्ड सालों एक फिनलैंड का सर्वेसर्वा रहा। पहिले यह गढ़ सारा पत्थर का था, पाँचे कितनी ही ईंटों की भीतारें जोड़ दी गईं। शताब्दियों पहिले यह गढ़ बनाया गया होगा। जो इसारतें तथा रत्ना-पत्थर आदि यहाँ बने हैं, वह शताब्दियों के मानव श्रम के परिणाम है। लेकिन रत्ना-पत्थरों में मानव का जितना श्रम बना कुछ ही समयों के भीतर खगाया गया, उसके सामने यह जामुक कुछ भी नहीं था। जामुक में अभी भी आदमी रह सकते हैं, जबकि उन रत्ना-पत्थरों का अब कोई उपयोग नहीं रहा। नगर में रीनक ( द्वार ) थी, जिसमें आस-पास के गांव की चीजें विक रही थीं। बेचनेवालों के देखने ले ही पता लग जाता था, कि अब इस यहाँत में केवल रूसी रह गये हैं। रूसियों को उजड़े हुए विपुरी और आगे तक फैले इस विभाग को बसाने के लिये अपने पुत्र-पुत्रियों को भेजना पड़ रहा है, इसी लड़ाई में क्रिमिया के तारत पहाँ से लुप्त हो गये और उस उजड़े हुए मनोरम प्राय द्वीप में भी अब रूसियों को ही जरकर बसना पड़ रहा है। पूर्वी मुशिया ( जर्मनी ) के भी एक भाग को रूसियों को बसाना पड़ रहा है, इस प्रकार इस युद्ध में रूसी जाति को उत्तर, दक्खिन और पश्चिम में बहुत दूर तक फैलना पड़ा। पहिली फिनलैंड की लड़ाई के बाद इस इलाके में मध्यएशिया की मंगोलायित जातियों में से भी कितने ही लोग लाकर बसाये गये थे, लेकिन अब तो उनके यहाँ भी विशाल मरुभूमि की उर्वर भूमि में परिणत किये जाने के कारण उन्हें यहाँ नहीं भेजा जा सकता। पार्क के एक कोने में लाख रंग का गिरजा था, जो लड़ाई में ध्वस्तप्राय हो गया। कुछ बड़े इसारतों को संरक्षित करके उनमें सैनिकों को बसा दिया गया है। सैनिकों में कुछ पुर्क और मंगोल चेहरे भी दिखाई पड़ रहे थे। सोवियत में कितनी ही पल्टनें "मिश्रित" होती हैं, अर्थात् एक ही रेजीमेण्ट में कई तरह की जातियों के नौजवान भर्तों रहते हैं। सात साल की अनिवार्य शिक्षा—जिसमें चार साल रूसी भी अनिवार्य हैं—के कारण भाषा



की कोई शिक्षण नहीं। सैनिक जीवन से वह सोवियत भूमि के आतुरावका परिचय भी पाते हैं। रीक ( हाट ) से वेद निक रहे थे। कश्मीर की तरह सीटे सेव तो ईरान और मध्यएशिया छोड़ कहीं नहीं मिलते, तो भी यहाँ के सेव घुरे नहीं थे। हमने २ रूबल में २ सेव खरीदे, चार रूबल में कुलफी की वरफ खायी। चाजों के बहुत सँहरे शोनों का एक बुरा प्रभाव तो यह जल्द देखने में आता है। कि आदमों एकाग्रता होकर अपने भित्तों का स्वागत नहीं कर सकते। और में और सेव के फेर में जल्दी पड़ जाता है।

४ धजे हमारी लारी निरयाकी की और रवाना हुई। एक जगह बिपरी के पास ही यात्रियों के कमाज-पच देखे गये, किन्तु मेरे पास अपना पासपोर्ट भी नहीं था। देखना शिष्टाचार ही जैसा मालूम होता था, नहीं तो एक विदेशी बिना पासपोर्ट के इतना दूर की सँर आसानी से नहीं कर पाता। एक जगह हमें एक बड़ा खीवर दिखाई पड़ा। जल में काई थी, लेकिन गर्मी होने से स्नान करने का मन कर रहा था। थंटा सर ठहरकर हम लोगों ने स्नान किया। २० वें किलोमीटर के पास दूर तक खेत थे, स्थान ऊँचा नीचा था। यहाँ खेतों में बन्द बोसों, आलू जैसा कराखें खड़ी थीं और खेतों करनेवाले जर्मन बुद्धबन्दी थे। कोई जेलखाने की तरह बन्द करके वह रखे नहीं गये थे, बल्कि वह परित्यक्त घरों से रहते खेतों में काम करते थे। सोवियत-शासक निश्चित जानते थे—साग्ने पर यह कहीं दूर नहीं जा सकते, इनकी भाषा ही पकड़वाने से सहायक नहीं होंगी, बल्कि सोवियत नागरिकों की तत्परता भी पैसा न होने देगी। लौटते वक्त हम समुद्र के किनारे-किनारे चलनेवाली सड़क से जा रहे थे। कितने ही परित्यक्त ग्राम, घर और खेत देखकर अपने यहाँ की जनाकीर्ण भस्तियाँ याद आती थीं। हम लोगों ने सौ-सौ रूबल पर लौरी किराया की थी। लौरी क्या लुला हुआ ठेला था, जिसपर देवदार की लकड़ों के बेंच रख दिये गये थे। पीछे उठेगनी भी नहीं थी। और यात्रियों की बात नहीं जानता, लेकिन मेरी तो गन वन गई थी। मुझे सबसे पिछली बेंचपर कोने में जगह मिली थी। रीढ़, घुटने और कमर में जो दर्द हो रहा था, उसके बारे में क्या पूछना ?

भारत में सर गुरु धूल फांकना पड़ा था। कहीं-कहीं पर सोवियत सैनिकों को भी खेतों के काम में लगे देखा—अन्न-समस्या को अपने देश से दूर जो रखना था। विपरीत से चलने के ४ घंटे बाद हम अपने उपवन में घर पहुंचे।

हमारी शाला में आज एक कलाकार कहानीवाचक आया था। उसके कहानी पढ़ने में अभिनय का आनन्द आता था।

अब हमारे रहने के एक हफ्ते और रह गये थे। २२ जुलाई को रोपहर को भोज हुआ। भोज युनिवर्सिटी की तरफ से था, इसको कहने की आवश्यकता नहीं, अथवा जब व्यथापकों को खाने-पीने का पैसा देना पड़ता था, तो हमारी तरफ से ही भोज था, यह भी कह सकते हैं। युनिवर्सिटी के रेक्टर ( चांसलर ) बोइनेसेन्सकी आज स्वयं मौजूद थे। वैसे हफ्ते में एक-दो बार अपनी कार पर वह तिरयोकी जरूर ही जाया करते थे। एक-एक मेजपर भोजन करनेवाले चार-चार व्यक्तियों के लिये एक-एक शराब की बोतल और दो-दो "पीवा" ( वियर ) की बोतलें एक-एक लेमोनाद के साथ रखी हुई थीं। मैं तो लेमोनाद में से ही कुछ ले सकता था, इसलिये इसारी मेज के तीन आधियों को एक पूरी बोतल मिली। हमारे मेज की शराब जालिया की बनी हुई पुरानी खंगूरी शराब थी। दूसरी मेजों पर भी अच्छी-अच्छी खंगूरी शराबें थीं। भोज में लेनिनघ्राद के पांच-छ प्रसिद्ध कलाकार आनेवाले थे, लेकिन समय की पावन्दी हमारे देश की तरह इस में भी तुच्छ समझी जाती है, फिर वह तो कलाकार थे। उनके लिये बंटा-पौन-घंटा प्रतीक्षा की गई, फिर भोज शुरू हो गया। बोइनेसेन्सकी ने भोज का व्याख्यान दिया। मातृभूमि के लिये मद्यचषक उठाये जाने लगे। बॉन-बीच में बराबर अनौरजब वस्तुतायें होती रहीं। शराब के साथ मछली, रोटी तथा दूसरी स्वादिष्ट चीजें थीं। तीन विद्वान् मोरिसोविच स्टाइन ने भी भाषण दिया, दो-तीन और भी बक्ता बोले, रेक्टर ने हमारे कमरे की हरेक मेज के पास अपने मद्यचषक को ले जाकर इनदनाते हुए स्वास्थ्य और स्वेदश के लिये पान किया, फिर इसी तरह दूसरे कमरों की भी प्रत्येक मेजपर गये। उस वक्त क्या दूसरे समय में भी बोइनेसेन्सकी को लोगों में

खड़े-बैठे देखकर कोई नहीं कह सकता था, कि अब इतने बड़े विश्वविद्यालय के नांसलर हैं ।

मेरे मद्य न पीने की अशामाजिकता का प्रभाव मेरी भेज तक ही रहा— वहाँ के लोग मद्यको एक सुन्दर पाना से अधिक नहीं मानते और उस अतिथि-सत्कार का सबसे अच्छा साधन समझते हैं । हमने किसी को यहाँ या और जगहों में भी नशे में गिरते-पड़ते नहीं देखा ।

आज भोज के उपलक्ष्य में संगीत-मंडली ( कंसर्ट ) भी होनेवाली थी । तब तक कलाकार लोग आ पहुँचे थे । साढ़े नौ बजे प्रोग्राम रूस की ७० वर्षीया प्रसिद्ध नीटो ग्रानोव्सकया के कला-प्रदर्शन से आरंभ किया गया । दूसरे कलाकारों में संगीतकार जर्जिन्स्की भी था, जिसने " तिखी दीन " ( शान्त दीन ) ओपरा तथा दूसरे बहुत से नाट्य वस्तु तैयार किये थे । ग्रानोव्सकया वास्तविक क्रान्ति के समय ४० साल की थी । उस समय भी वह जाग्री राजधानी की लाइली रही होगी । उसड़े वसन्त को देखने से ही मालूम होता था, कि वह तरुणई में अत्यन्त सुन्दर थी । उसने चेखोफ़ की कहानियों में से एक का अभिनय-पूर्ण ढंग से पाठ किया । बहुत प्रभावशाली अभिनय था । कहानी के जितने पात्र थे, उनके कथन को वह उचित तथा भिन्न-भिन्न स्वरों में अदा करती थी । कहानी पढ़ना भी एक उच्च कला है, इसका वह प्रभाव दे रही थी, और वह कला रूस में अरुण सीमा तक पहुँची थी । ११ बजे के बाद तक कंसर्ट जारी रहा ।

ज्ञान पढ़ता है, समय बीतने के साथ मच्छगों, खटमलों और पिम्पुयों के बल में भी वृद्धि हुई थी । रातको उन्होंने नींद हराम करदी थी । ३ इपट्टे बाद हमारे पीछे के पाखाने की अदबुद्दार हवा ही कह रही थी, कि अब यहाँ से उड़ा-कुंडा उठाओ ।

२३ जुलाई को भोजनोपरान्त ६ बजे हम "पहाड़ी" पर घूमने निकले । साथ घूमनेवाली एक महिला कह रहीं थीं—४-५ साल पहिले कफकशा ( काकेकशा ) के श्री विश्रामोपवन में कुछ लोग ठहरे हुए थे, १०

कोड़ी भर-भारी जंगल में टहलने गये, वहां डाकूओं ने उन्हें पकड़कर सब कुछ जीव नंगा करके छोड़ दिया; बेचारे जैसे ही नंगे अपने विश्रामस्थान को लौटे।

मैंने कहा— जिस तरह यहां तिरयोकी के वन में आधी रातको धूमते हुए हम इस कहानी को सुन रहे हैं, उसी तरह न जाने इस वक्त काकेकश के वन में धूमते हुए कुछ लोग तिरयोकी में किन-डाकूओं द्वारा १० जोड़ों को लूटकर नंगे कर के छोड़ देने की कथा सुनते होंगे।

सचमुच ही जो वर्ग अपने प्रभुत्व को खो चुका है, उसके अवशेष अपनी हरकतों को जल्दी छोड़ नहीं सकते। शायद इस शताब्दी के अन्त तक भी पुराने वर्ग-समाज की प्रतिक्रिया और प्रतिध्वनि यहां से पूर्णतया लुप्त नहीं होगी। आज के भूमने में हमें एक रीसेन्ट और लोहे का वन्य हुआ चवूतरा मिला, जिसपर युद्ध के समय १० बीला तक मार करनेवाली बड़ी जर्मन तोप लगी हुई थी। जैसे कंगीले तारों की बाड़ें, मोटे तख्तों से पटी युद्ध की खाइयाँ, खाली टिन तथा दूसरी चीजें अब भी जगह जगह मिलती थीं। यह तोप शायद कोस्तात के गौरीनिक दुर्ग पर आक्रमण करती थी।

२४ जुलाई को समुद्र उत्तरंगित और हुवा-पानी ठंडे थे। स्नान करनेवाले बहुत कम दिखनायी पड़ रहे थे। प्राणि-शास्त्र का एक छात्र समुद्र के पास खड़ा था नट्टा खोद रहा था। पूछने पर उसने बतलाया कि इसमें मेंढक गकसिंगे। ईगर ने भी एक मेंढक पाल रखा था। वह अपना मेंढक भी दौड़ कर ले आया। उसने समझा, वहां मेंढकों के लिये एक छोटा सा सरोवर बनेगा। जिसमें विद्यार्थी के मेंढक तैरेंगे, उसमें मेरा भी मेंढक तैर लेगा। वह मेंढक लेकर अपने परिचित विद्यार्थी के साथ वहां काम में लग गया। मैंने घर में जाकर घंटा भर प्रतीक्षा की, लेकिन ईगर का कहीं पता नहीं था, वह वहाँ डटा हुआ था। जाकर देखा तो विद्यार्थी केंनी से मेंढक के सिर को मूली की मति काट रहा है, विष्कूल निश्चित ही जरा भी संकोच न बिसलाते हुए वह एक के बाद दूसरे मेंढक को काटता जा रहा है, और शीशियों में से किसी में चालों और किसी में उसकी कोई दूसरी ग्रन्थि डालता जा रहा था। सरे लिये वहाँ एक

बग-भर भी उठरना असह्य था, हृदय फूलने पनकने लगा था; किन्तु ईगर उस तमाशे को विद्यार्थी की तरह ही वहाँ बैठा देख रहा था। अर्थात् उस दया के संस्कार प्राप्त नहीं थे कि किसी प्राणी का वध होते देख लिलपिलाता। मर् ने जब उस उस दृश्य को देखते देखा, तो बबड़ा गयी और डाट-डपटकर उसके अपने प्राण लायी फिर वह बड़ी संभारता से लोकचर दे रही थी—वहाँ फिर मत जाना, यह बहुत बुरा है। यदि कोई तुम्हारा मिर काटे। मुझे भी उपदेश देने के लिये कह रही थी, लेकिन मैंने कहा—ब्रॉड दो, क्या जाने उसे प्राणो दाक्टर या प्राणिशास्त्री बनना हो, फिर हमारी यह शिवा उसके रास्ते में बाधक होगा। यह तो वहाँ साफ ही दिखाई पड़ रहा था कि दया भी अभ्यास और संस्कार का परिणाम है। आज भी विद्यार्थियों ने हल्का कर रखा था—“कर्मर्त होनेवाली है, और लेनिनप्राद के कई प्रशिद्ध कलाकार आ रहे हैं।” लोग २ वजे से पहिले ही कुर्सियोंपर डट गये। ६ वजे गये, किन्तु कलाकार और कलाकारिनियों का कहीं पता नहीं था। फिर रियाल ( पियानों ) पर एक छान बैठ गया और उसने तानमेनी लयमें कुछ अस्तादी संगीत के साथ दिखलाने शुरु किये। आध बटे तक पट्टा पियानों पर डटा रहा। श्रोतुमंडली भी बलाकारों की प्रतीक्षा में बैठी रही। फिर अन्तराक्त ( वियाम ) का घोपशा हुई, लोग अब भी विश्वास किये हुए थे, कि कलाकार आ रहे हैं। फिर हमारी मुनिवर्सिटी की एक छात्रा, लंगड़ी किन्तु सुमुखी और सकसठी ने कई गाने गुनाये। लेनिनप्राद शहर की गैर-पेशेवर शायिकाओं की प्रतियोगिता में वह प्रथम आयी थी, इसलिये “बस्की मुर्गी साम बराबर” कहकर भले ही कोई कदर न करे, लेकिन उसने भाया अच्छा था। अब श्रोतुमंडली भी समझ गयी, कि संगीतशाला में जल्दी जसूर करने के लिये छात्रों ने यह अफवाह उड़ाई थी। सारे दरस वजे प्रोग्राम समाप्त हुआ। अर्थात् पश्चिम को थोरा गोवृत्ति की साविताछात्री हुई थी और गव्यरावि श्रोने में केवल डेढ़ घंटा रह गया था।

+ + +

+ + +

+ + +

हमारी ऊपर की कोठरियों कबूतरों के दूधे जैसी ही थीं, जिनमें एक एक में एक सफलीक प्रोफेसर ठहरे हुए थे। हमारी कोठरी आखिर में थी, उसकी बगल की कोठरी में युनिवर्सिटी के प्रोरेक्टर ( वायसचांसलर ) आक्रोम्बेल्सवुवा अपनी पूर्वी आशिया के साथ ठहरी हुई थीं। युद्ध के समय वह सगर्भोक्त युनिवर्सिटी में रचतर थीं। इनकी योग्यता को देखकर रेक्टर बोइंगेनशिन्सकी उन्हें यहां र्बीच लागे थे। शिक्षण, द्वाचवृत्ति आदि का काम इनके जिम्मे था, साथ ही प्राधि-शास्त्र का अध्यापन भी करती थीं। लड़का मोना में अर्भी लौटा नहीं था। १२ साल की लड़की पांचवीं क्लास में पढ़ रही थी, जो यहां साथ आयी थी। उन्हें युनिवर्सिटी के काम से र्बीच-बीच में जाना पड़ता था। उनकी मां फ्रान की और पिता जाड्रिया का था, पिता के ही कारण शायद अत्यधिक ऊंची नाक उन्हें मिली थी। उनकी कोठरी के बाद की कोठरी में मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख विद्वान् प्रोफेसर यूकोव्स्की उपनाम गोस्किवा अपनी तरुणी भार्गी के साथ रहते थे। यूकोव्स्की की यह चौथी पत्नी बहुत सुन्दर थी। लोग कह रहे थे, कि तृतीया बहुत ही सुन्दर थी और उसके पहिले वाली भी कम सुन्दर नहीं थी। प्रोफेसर की आयु ४५ वर्ष के आस-पास थी। वह सिद्धहस्त प्रोफेसर समझे जाते हैं। उनके बाद युनिवर्सिटी के एक कार्यकर्ता कोरनिोक सफलीक ठहरे हुए थे। उसके बाद हमारे परिचित दोकन ( डीन ) स्ताइन सफलीक ठहरे हुए थे। प्रोफेसर स्ताइन १९२६ में चीन की राष्ट्रीय सरकार के अर्थशास्त्रीय परामर्शदाता रह चुके थे। प्राचीन अर्थशास्त्र के भी वह मर्मज्ञ हैं, विशेषकर चीन और भारत के। उनके बाद प्रो० सावरोदिन स्की इतिहास के अरुद्धे पंडित और “प्राचीन रूस राज्य-निर्माण” ग्रन्थ के र्कर्ता तथा इतिहास फेकल्टी के डीन सफलीक ठहरे हुए थे। सावरोदिन पर से कुछ लंगड़े थे। उनकी तरुण पत्नी हस्तकत सजी धजी रहतीं—शांखों में खूब काजल पुता, मुंहपर जकरत में ज्यादा पौडर, ओठों पर माना से अधिक अधर-रांग और पोशाक अत्यन्त मदकीली। इतना वनाव लीनार तो रूस की स्त्रियों में क्या विदेशी स्त्रियों में भी कम ही देखने को मिलेगा। उनका सारा

असमय शरीर रंगने और पोशाक बदलने में जाता था। थोड़े पति तरुणा साया की हरेक नाजबरादारी के लिये तैयार थे। कोरसनोंक को छोड़कर इन दरवों में रहनेवाले सभी उच्च दर्जे के प्रोफेसर और उनमें से दो डीन थे। मैं इन दरवों के भाग्यपर खीन रहा था: कहां ६ वर्ष पहिले यहां फिनिस आभिजात्य वर्ग के यतिथियों के मनोरजन के लिये वेश्यायें रखा जाती थीं, और कहां अब उनका सोझान्त पुरुषों के अनिधि-विश्राम के रूप में परिवर्तन। स्ताइन, बावरोदिन, और गुकोलाकी यहूदी थे, जिनमें दो अपनी फेकर्टी के डीन थे। इससे पता लगेगा, कि यहूदी कितने प्रतिभाशाली होते हैं। स्ताइन को छोड़कर बाकी की पत्नीयां रूसी थीं। वस्तुतः शिक्षित यहूदी अब विशाल रूसी जाति में खप जाने के लिये तैयार हैं। योग्यता होनेपर अब जाति किसी के रास्ते में कबावट नहीं हो सकती, यह भी कारण है, जोकि वह इतने आगे बढ़ सके हैं। रूसी तरुणियां यहूदी प्रोफेसरो की पत्नी बनने में कोई हिचक नहीं दिखलातीं। वर्तमान रातावर्दी के अन्त तक जान पड़ता है, अधिकांश यहूदी सन्तानें रूसी बन गईं वीस पड़ोश। यह भी पता लगा कि फिजक्स-मैथमेटिक्स के डीन भी यहूदी ही हैं।

२६ जुलाई का खडमलों, पिस्भुओं और मच्छरों के बाद अब मक्खियों ने भी दर्शन देना शुरू किया, लेकिन अभी कम संख्या में ही। चोर्नीक ( मकोय ) अब सब पक गई थी, और हमारे उपवन में क्या, बल्कि हमारे निवासस्थान के अगल ही में उनके काले फलों में लदे हुए पौधे थे, जिनसे लड़के चिमटे रहते थे। इस महीने के अन्त तक ही उन्हें स्वतम होजाना था। मत्सीना ( रास्पबरी ) अभी अपनी कलियों में सकुचाकर छिपी हुई थी। हमारे रहने भर तो वह थोड़ा खोलने के लिये तैयार नहीं थी। अगले महीने आनेवाले उसके पौधे होंगे। उसके पौधे भी यहां बहुत ज्यादा थे। जेम्ब्यांका ( स्ट्रावरी ) के पौधे बहुत कम थे, लेकिन इस वक्त वह पकने लगी थी। लड़ाई के समय बहुत से कलखोज जब उच्छ्वस हो गये और उसके बाद आदमियों का मिलना भारी समान्या हो गया, तो लेनिनग्राड जैसे नगरों के आम-पास के क्षेत्रों की

भिन्न-भिन्न फैक्टरियों और संस्थाओं में सोवखोज ( सरकारी खेतों ) बना लिया । इन खेतों में अधिकतर साग-राब्जी और स्ट्रावरी जैसे फलों की खेती होती थी । वैज्ञानिक श्रमिक वहां काम करते थे, जो मालिक संस्थाओं के पाम चीजों को बेचते रहते हैं । आज हमारे अपने सोवखोज की स्ट्रावरी भोजन के समय लोगों के सामने आयी थी । लोग बड़े उत्साह के साथ कह रहे थे—हमारे सोवखोज की स्ट्रावरी है । हम समुद्र के किनारे दूमरी और टहलने गये, वहां एक अच्छा खासा बंगला युद्धापिन में दग्ध देखा । लोहे की चारपाइयाँ और कितने ही धातु के टूटे-फूटे वर्तन वहां अब भी दिखलायी पड़ रहे थे । यह भी युद्ध के पहिले किसी फिन तालुकदार का विलास-भवन रहा होगा ।

२७ जुलाई को अब ३ दिन ही रह गये थे । उपवन में पहिली-दूसरी या फन्द्रहवीं तारीख को लोग आया करते हैं, जानेवाले दो दिन पहिले ही स्थान खाली कर देते हैं, ताकि नये मेहमानों के लिये जगह ठीकठाक की जा सके । लोग चलानलू से हो रहे थे । अध्यापकों की प्रतिव्यक्ति प्रतिमास साढ़े सात सौ रूबल देना पड़ता था । दीना मार्कोव्ना गोल्दमान जैसी महिला-अध्यापकों को—जिनके पति युद्ध में मर गये—आधा ही और छात्रों को कुछ भी नहीं देना पड़ता । खाने की कुछ अव्यवस्था जरूर थी, जिसे अस्थायी कहना चाहिये, नहीं तो सैकड़ों-हजारों विद्यार्थियों को सुप्त प्रोपम-निवासों में खाने रहने का स्थान तथा प्रोफेसरों को भी कम खर्च पर सुन्दर प्रकृति की गोद में बैठकर एक दूसरे से मिलने और अपने भविष्य के काम के चिन्तन के लिये अवसर देना अन्यत्र सुलभ नहीं हो सकता था ।

लोगों को यहां सबसे ज्यादा शौक था— समुद्रस्नान करना, पुरुषों को केवल जांघिया, और स्त्रियों को स्ननबन्द और जांघिया पहिने धूप में लेटकर शरीर को सांबला बनाना । शरीर जितना ही सांबला बन जाय, उतना ही प्रशंसा की धात मानी जाती थी । किसी ने हमारी सफलता के लिये प्रशंसा की, तो मैंने कहा : यह तो सैकड़ों सहस्रों पीढ़ियों के आतप में तपने तथा तत्संबद्ध रुधिर-संश्लिषण का परिणाम है । कितनों ने तो धूप लेते लेते अपनी गरदन और पीठ के कितने की हिस्सों के खाल की एक तह निकलवा डाली थी, कुछ लोग



से जैसा रंग में परिणत हो भी गये थे ।

सामको फिर घूमने लगे । जहाँ तोप की सीमेंट-नोहेवाली पोटिका पड़ी थी, वहाँ अब नये मकानों के बनाने का काम शुरू हो रहा था । भारी-भारी टैंकों को देवदार के जंगलों में चूमा दिया गया था, जिसमें घेनारे देवदार ब्रह्म-सहित धर्मशास्त्री होगये थे । उनको मिजली के आरोग्य काटकर लकड़ियाँ स्थानान्तरित कर डींगारे बनाने का काम होने जा रहा था । विशाल देवदारों को टैंकों ने फिननी आसानी से उखाड़ फेंका था, यह देखकर मनुष्य की शक्तिपर आश्चर्य होता था । अगर हाथ में काटना पड़ता, तो दो आदमी शायद एक दिनमें दो दरख्त भी नहीं काट सकते थे, और टैंक ने एक दिन में हजारों को उखाड़ फेंका था । भिरे दारुनों के नीचे निकल आया काला मिट्टी बनता रही थी, कि सहस्राब्दियों में पत्तियों के गड़ने से यह मोटी काली मिट्टी पैदा होगी । यदि आज यहाँ मेत बनाये जाते, तो सैकड़ों वर्षों की परत के लिये यहाँ खाद मौजूद थी ।

और खाले ज़ानेपर अकदमिकों का उपवन मिला । अकदमिक सोवियत रूस के देवता हैं । उन्हें देवत्व-प्राप्ति अपनी विद्या से हुई । जितना नाम सम्मान तथा आगम उनको प्राप्त है, उनका रूस में किसी को प्राप्त नहीं है । उन्हें कुछ काम न करने पर भी वे हजार साल मासिक पेंशन मिलती हैं । हर जगह पर उनके बैठने, रहने, खाने का विशेष ध्यान रखा जाता है । देवदार के जंगलों की शोभा को कसगै कम नुकसान पहुँचाते उनके लिये यहाँ जंगलों का एक गाँव बन रहा था । सकाम बहुत कुछ तैयार होगये थे । एक एक के लिये कई कमरेवाले भवन, बरामडे, स्नानागार आदि का प्रबन्ध था । इसी मुहल्ले में उनके लिये भोजन आदि की शालाखों और दूकानों आदि का प्रबन्ध था । इसारतों को जल्दी से जल्दी तैयार करने की और ध्यान था । यान्त्रिक अमेरिकी के अगुवनों के प्रकाशितों में अपने अगुवनों को तैयार करना इन्हीं का तो काम है, फिर क्यों न उनकी इतनी पूजा-प्रतिष्ठा की जाती ।

२८ जुलाई हमारे तिर्योंकी वालका अन्तिम दिन था । आज का भोजन अच्छा था । चलने वक्त ही क्यों पैदा किया गया ?

## १५- 'कालो न दुरतिक्रमः' ११

तिरगोकी से लेनिनग्राद लैटने के लिये रेल के अतिरिक्त युनिवर्सिटी की लैरियों का भी प्रबन्ध था। एक के बाद एक लैरियाँ छूटती रहीं थीं, लेकिन यभी लोला की तैपारी ही ठीक नहीं हो रही थी। टाई बजे तक तो उनका सम्बुद्ध-स्नान होता रहा। हम सबसे पीछे भोजनशाला पहुँचे। जब लोग ४ बजे साक्षान लेकर लोरी की जगह पर पहुँच रहे थे, तब हमारा सामान धीरेधीरे बाँधा जा रहा था। दो लैरियों के चले जाने पर डर लगने लगा, कि कहीं लारी हमें मिले ही नहीं। ५ बजे के करीब हम अड़्डे पर गये। अड़्डा उपवन के भीतर ही ऑफिस के पास था। पता लगा कि एक लारी यहाँ से सीधे लेनिनग्राद जानेवाली है। लोला लारी के इतने लम्बे सफर का कष्टग्रह कर रही थी। मैंने बतलाया, ट्रेन से जार्न पर तीन-तीन बार बक्सों को उतारना फिर ट्राम पर भी बढ़ाना-उतारना पड़ेगा। खैर, उसके दिमाग से बात सागो गई। लारी आई, ड्राइवर की बगल में माँ-बेटे को बैठा दिया। लारी का किराया नहीं देना था, क्योंकि युनिवर्सिटी की थी। ड्राइवर को २०-२० रुबल दे देते पर उसने मुसाफिरों को उनके घर पर छोड़ना स्वीकार कर लिया।

सवा पांच बजे लारी खाना हुई। मज़क समुद्र के किनारे से जा रही थी। फिनलैंड की पुरानी सीमा तक महावन चला गया था, जिसमें सभी जगह वृद्ध की प्रतीकात्मकियाँ थीं। हमारे उपवन से १५ किलोमीटर तक तो विश्रामोपवन ही चले गये थे, जिनमें से सबसे ज्यादा बालोघानों के थे। २० किलोमीटर जाने पर फिनलैंड की पुरानी सीमा मिली। जंगल उच्छिन्न करके अब ग्राम और कस्बे बन गये थे। रास्ते में ही सेस्वारेच (स्वसा नदी) का अच्छा खासा कस्बा था। घंटे भर की यात्रा करने के बाद हम लेनिनग्राद के बौद्ध-विहार के पास पहुँच गये। लेकिन लोगों को घर-घर उतारना था, इसलिये दो घंटे बाद ८ बजे से थोड़ा पहिले हम अपने घर पहुँचे। अच्छा हुआ जो रास्ते में वर्षा नहीं हुई, नहीं तो लारी खुली थी। घर पर सामान रख देने के बाद वर्षा शुरू हुई। हमारा मज़क अधिकतर गोल-गोल पर्यटकों के डलों का थी, जहाँ लारी बहुत दूबके खाली थी। खैर, शारीरिक कष्ट का कोई सवाल नहीं था।

सहीने भर बाद रेडियो अर्थात् वाहरी दुनियाँ के समाप पहुँचे थे। भारत का प्रोग्राम खतम हो चुका था, लंदन और मास्को ही मन लगे।

युनिवर्सिटी खुलने में एक सहीने की देर थी। इसलिये फिर हम अपने पढ़ने और नोट लेने में लग गये।

३१ जुलाई को सघेरे थोड़ी वर्षा हुई। आज अपने कोपरेटिव दुकान से सामान लाना था। राशन के लिये हमारे वास्ते दो दुकानें थीं, एक अपने मुहल्ले की, जहाँ कि हम अपने साधारण राशनकार्ड की चीजें लेते थे, और दूसरी युनिवर्सिटी से नातिदूर अध्यापकों की कोपरेटिव दुकान थी, जहाँ हम साढ़े चार सौ रूबलवाले विशेष राशन-कार्ड की चीजें लेते थे। इस दुकान में साधारण कार्ड की चीजें भी ले सकते थे, लेकिन विशेष कार्ड की चीजें साधारण दुकान से नहीं ली जा सकती थीं। उस दिन चार बजे ट्राम से कज़ान-गिरजे के पास कोपरेटिव में गये। घंटे भर प्रतीक्षा करने के बाद लोला भी आ गई। फिर चीजों के खरीदने में तीन घंटे लगे। एक दिन पहिले कार्ड देने से चीजें सब तैयार भिन्न एकत्रा थीं। हाँ, हमारे यहाँ की तरह वहाँ की भी घड़ियाँ दो घंटे लेट रहती

हैं; किन्तु, जब आदमी हरके चीज अपनी आंखों से देखकर बंधवाना चाहे, तो वह कैसे हो सकता था ? आज महीने का आखिरी दिन था, इसलिए बचा हुआ राशन ले लेना जरूरी था, चाहे उसके लिये कितना ही समय लगे । शिजित-वर्ग में अब भी पुराने मध्यमवर्ग की संख्या काफी है, और कमकरवर्ग से थोड़े हुए लोगों में से भी कितनों ने शादी-सम्बन्ध या दूसरी तरह पुराने मध्यमवर्ग के भावों को ग्रहण कर लिया है । महिलाओं को मालूम हुआ, कि अक्तूबर में राशन-कार्ड उठ जायेगा । वह बहुत डरने लगीं । कह रही थीं— भागी ब्यू. की पाँती में धंटे खड़ा रहना पड़ेगा, जो हमारे बसकी बात नहीं है । वहाँ तो जो ज्यादा खड़ा रह सके, वही ज्यादा खरीद सकेगा, और पीछे हाथ में ज्यादा दाम धर धर भी सकता है । मैंने कहा— यदि दुकानें ज्यादा खुल जायें, जैसा कि अब भी राशन की दुकानें हैं, तो उतनी बेर क्यों होगी ?

टिनवाली मछली, माँस, मक्खन, अनाज, सभी चीजें एक मन से ज्यादा खरीदी थीं । इतनी चीजों को पीठ पर टोना शक्ति से वाहर की बात थी, हालाँकि संकोच का वहाँ कोई ख्याल नहीं था, क्योंकि सभी प्रोफेसर और लेक्चरर, पुरुष और महिलायें १५-२० किलोग्राम सामान अपनी पीठ पर लादे चले जा रहे थे । मैंने कहा— अभी इंतजाम करता हूँ, और जाकर इंतुरिस्त से किराये पर एक टैक्सी बांग लाया । किराया २६ रूबल था, यद्यपि हमने ४० रूबल दिये । यदि भास्वाहक लेना होता तो इससे कहीं ज्यादा मजदूरी देनी पड़ती ।

शहर में घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण बढ़े जोरों से जारी था । तितल्ले मकान चौतल्ले बनाये जा रहे थे । हमको आशा होने लगी कि शायद मकानों की अधिकता होने पर युनिवर्सिटी के पास कहीं तीन कमरे मिल जायें । युनिवर्सिटीवाले भी युनवर्सिटीनगर बसाने की सोच रहे थे, और युनिवर्सिटी के आसपास के मुहल्लों को ले लेना चाहते थे । यह कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि “सभी भूमि गोपाल की” अर्थात् लेनिनग्राद के सारे मकान लेनिनग्राद नगरपालिका के थे ।

पहली अगस्त का दिन आया। आज न विजली काम कर रही थी, न पानी का बल ही। जल-कामगारों के उत्पादन के आंकड़े गला दधाने के लिये पैसा थे, इसलिये वहाँ तक काम खड़ी को मुई की तरह बड़ी तनवेही से होता था। जो पानी, विजली का कुछ नागरिकों को ही रहा था, उसका टग या सीनर में आंकड़ा नहीं बत सकता था, इसलिये उधर अपनी सावधानी नहीं रखी जा सकती थी।

कल को लारी स्वाय-साधरी में दिन से बाहर का कलवासा और मजदूरी जैसी चीजें काफी थीं, जिनको ज्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता था, इसलिये भित्तों को दाबत देना जरूरी था। लोला की सखी सोफी पास में ही थी, लेकिन उसको बुलाने में विशेष मेयारी की जरूरत थी, इसलिये उसे नहीं निमंत्रित किया; लेकिन और कई बन्धु-सिन्धु नम-नारियां पधारंगी। अगस्त में अब लोदी पड़ने लगी थी, इसलिये मैं जंगलों को बन्द रखना चाहता था, लेकिन लोला का आग्रह सिद्धकी खोल रखने का था, क्योंकि उसमें “वितामिन” का झोंका था रहा था। मैं सिद्धकी इसलिये भी खुला रखना नहीं चाहता था, कि खाने के कमरे में काम करते समय सिद्धकी से कोई चीज न उठ जाय। नल विराड़ने से पानी को हमें दूर से भर कर लाना पड़ा। विजली खैर देर से आगई, उससे केवल इतना ही लुकावत हुआ कि मैं भारतीय रेडियो नहीं सुन सका।

४ अगस्त को गृहिणी के आग्रह पर अमेरिकन फिल्म “बलेरिना” देखने गये। पुराने मध्यवर्ग की स्त्रियां ब्रिटिश या अमेरिकन फिल्मों को अधिक पसन्द करती थी, क्योंकि वहाँ उनके वर्ग के जीवन की सुन्दर भाँकी मिलती थी। फिल्म बुरा नहीं था। वहाँ से हम फोटोग्राफ को दूकान पर भये— फोटोग्राफर न कद कर फोटोग्राफी को दूकान कइना चाहिये, क्योंकि इस दूकान का शायिक कोई व्यक्ति या व्यापारिक कम्पनी नहीं थी। सभी दूकानें यहाँ बिचबर्दे के बिना हैं। लेकिन यदि कोई फोटोग्राफर अपनी दूकान रखना चाहे, तो उसमें बाधा नहीं है। उसे सरकारी फेअरट्रियों से बने साल के मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह नीकर नहीं रख सकता। हाँ, चार-छः फोटोग्राफर मिलकर अपनी कोआपरे-

टिब दूकान खोल सकते हैं । घड़ीसाजों के बारे में भी यही बात है । हम फोटोग्राफी-कार्यालय में गये । वहाँ के फोटो का काम बहुत कम था, मगर लड़कों का पचास-पचास रूपया पड़ता था । लड़कों को फोटो के लिये ठीक बैठाने में दिक्कत थी, इसलिये उनके कई फोटो लेने पड़ते थे । हमने भी कुछ फोटो खिचवाये । फिर 'उर्जावर-मार्ग' (विश्व-परियोजना) में गये, जहाँ कई तल्ले वाले मकानों में हजारों तरह की चीजें बिक रही थीं । वहाँ ईगर के लायक कोई तैयार चीज नहीं मिली । कपड़ा था, लेकिन हमारे पास पहले से ही काफी कपड़ा रखा हुआ था, और दर्जियों की टिलाई के कारण सिल नहीं रहा था । फिर चांगे, पोस्तीन की दुकान थी, जिसमें बहुमूल्य साइबेरियन समूर तथा मध्यएशिया की कराकुल भेड़ों के रेशम जैसी चमकते छाले रखे हुये थे । छोटा कोट बनवाने में भी ८-१० हजार रूपया से कम नहीं लगता था, फिर ईगर तो जल्दी जल्दी बह रहा था, इसलिये छ महीने के बाद ही कोट उसके लिये बँकार हो जाता । पहली सितम्बर से ईगर को स्कूल में जाना था, इसलिये ओवरकोट और दूसरी पोशाक बनवाना ही थी । माँ का काम हमेशा धीरेधीरे होता था, इसलिये यह कम संभव था, कि महीने भर बाद भी उसके कपड़े बर सकेगे ।

५ अगस्त को फिर हम मुहल्ले की अदालत में गये । समय की पाबंदी न करने की तो मानो लोगों ने फसम खा रखी है । इसका यदि अफवाह था, तो उत्पादन-स्थान, क्योंकि वहाँ पंचवार्षिक योजना के आंकड़े गला दबाने के लिये तैयार थे । अदालत में एक जज और दो सहायक-जज बैठे हुए थे । सहायकों में एक स्त्री भी थी । एक प्रधान-सहायक कानून जानता था । कानून न जाननेवाले निर्वाचित जज कुछ समय के लिये होते थे, यह हम बतला आये हैं । लाल कपड़ा बिछी मेज की एक ओर तीनों जज बैठे हुए थे । मेज की बायीं ओर एक क्लर्क-स्त्री बैठी थी । सामने दर्शकों के बैठने के लिये पन्द्रह-बीस कुर्सियाँ पड़ी थीं । एक कठघरे में कारखाने का मजदूर खड़ा किया गया था । मालूम हुआ, वह 'रेल-इंजन बनानेवाले कारखाने का छ-सात सौ मासिक पाने वाला मिस्त्री है, जो चार साल सेना में भी काम कर चुका है, और सीनिंग

संज्ञित होकर पिछले सितम्बर में ही सेना में आलाग्न हुआ। किरिी मार-पीट में फँसकर आज कटघरे में आया था। शराब पीकर मार-पीट कर बैठा था। ध्यान लेकर उसे भेज दिया गया। बाकी मुकदमों में ज्यादातर सकारण में संबंध रखते थे। युद्ध के समय लोग घर छोड़कर सेना में या दूसरी जगह चले गये, तब तक उनके घरों को दूसरों ने आकर दखल कर लिया, अब लौटकर वह अपना घर माँग रहे थे। वहाँ से बस गये लोग घर छोड़कर जायें कर्हा, इसलिये उत्तुर-गाज़ुर कर रहे थे। हमारे यहाँ की तरह मुकदमों को महीनों लटकाने रहने की प्रथा यहाँ नहीं थी। नवाही-साकी लेकर एक-दो पेशी में फैसला हो जाता। हमारे देश के कृपमसङ्क यही जानते हैं, कि यूरोप में एक ही कानून-व्यवस्था चलती है, और वह वही है, जिसे कि अंग्रेज मानते हैं। अंग्रेजों की प्रथा के अनुसार कानून के शब्द का अनुगमन करना सबसे आवश्यक है; लेकिन जर्मनी, रूस आदि देशों में शब्द की नहीं बल्कि भाव की प्रधानता है, इसलिये वहाँ वकीलों की इतनी ज्यादा नहीं चलती। सोवियत-व्यवस्था ने तो मुकदमों की संख्या को वैयक्तिक संपत्ति की सीमा को संकुचित करके बहुत ही कम कर दिया है। दीवानी मुकदमों में एक तरह से नाम-मात्र के हैं, और संपत्ति तथा-स्त्री-पुरुष के सम्बन्धवाले फौजदारी मुकदमों की भी संख्या बहुत कम हो गई है। अदालतों का यही दांचा नीचे से ऊपर तक चला गया है। एक जज न होकर तीन जज रहते हैं। हाँ, ऊपर की अदालत के जज कानून के विरोधक हुआ करते हैं।

६ अगस्त को, जान पड़ता है, तापमान उनके अनुकूल था, इसलिये मक्खियों बहुत हो गई थीं, दिन में बहुत हैरान कर रही थीं। शायद बगल की खाली जमान में जो साग-राखी और दूसरी चीजें पड़ी हुई थीं, उसके कारण मक्खियों का जोर बढ़ा। मक्खियों के मारने के कारण बहुत सस्ते मिल रहे थे, और पेंदी की छोर से खुले शीशों के बर्तनों में भी मक्खियाँ फँसाई जाती थीं, किन्तु सौ-पचास के बलिदान में उनकी संख्या क्या घटती? दिन के शत्रु मक्खियाँ और रात के खटमल-पिसू एवं दिन-रात दोनों में अखण्ड राज्य या मच्छरों का।

७ अगस्त को तीन बजे बाद गरम कपड़ों की जरूरत पड़ने लगी। जैसे

तापमान तो यहां बराबर आंख-मिचौनी करता रहता है, लेकिन अब पता लग गया, कि अगस्त के प्रथम सप्ताह के बाद जाड़े का आगमन नहीं तो शरद का आगमन जरूर हो जाता है । बादल भी जब तब दिखावाई पड़ने लगे, नलके का पागो भी टंडा हो चला ।

६ अगस्त से हमारे घर में मरम्मत का काम लगा था । घर के स्वामियों ( नगरपालिका ) की ओर से मरम्मत हो रही थी, लेकिन काम करनेवाली एक दिन का काम चार दिन में करना चाहती थी । अभी रसोईघर और चौपालिका के घरों की ही मरम्मत होती थी, जिनका हमें बराबर काम नहीं पड़ता था । दीवारों पर कागज लगाने की आवश्यकता थी । वह हम से कागज मांग रही थी किन्तु कार्यालय से पृष्ठने पर मालूम हुआ, कि वह दिया जा चुका है । रहने की कोठरियों में भी थोड़ी मरम्मत की आवश्यकता थी, जिसके २५० रुबल मांग रही थी । हफ्ते में एक दिन तो घरों के लकड़ी के फर्शों को धोना आवश्यक था, उसके लिये एक रूबी ५० रुबल मांग रही थी— अर्थात् दो बंटे के काम के लिये ३०—३५ रुपया । लेकिन, आपको मजबूर कौन कर रहा था, काम अपने हाथ से कर लीजिये । शारीरिक श्रम का मूल्य वहां कम नहीं था । लोला ने दूसरे रूबी को १५ रुबल और एक किलो ( सवा सेर ) धाटा पराजी किया । १० अगस्त को घर की मरम्मत खतम हो चुकी थी । सामान को ठीक जगह पर रख दिया गया था । सामान के बारे में क्या कहना है ? 'सर्व-संग्रहः कर्तव्य कः काले फलदायकः' के महामंत्र का लोला अक्षरशः अनुगमन करनेवाली महिला थी । दोनों कमरे और रसोई का घर भी सामान से भरा हुआ था । वह किसी चीज को फेंकने या देने के लिये तैयार नहीं थी : पतलियां कब की टूट चुकी हैं, लेकिन वह भी थाले में पड़ी हुई हैं, कितने वस्तुएं फेंके जा चुके हैं, लेकिन उनके टक्कन जमा करके रखे हुए हैं । बोतल और शीशियां इतनी, कि उनकी सालों से भूला भी जा चुका है, किन्तु जगह खाली करने की आवश्यकता नहीं । ऐसी स्थिति में यदि खाने और सोने के कमरे भी मालगोदास बन गये हों, तो आश्चर्य क्या ? हां, खैरियत यही थी, कि वह थालमारियों या खुले रैकों में रखे हुए थे ।



अत्यन्त प्रेम करनेवाली मां अपने लड़के के स्वास्थ्य की शत्रु होती है, इसका प्रमाण भी हमें घर में मिल रहा था। ईश्वर का पेट कभी नहीं ठीक होने पाता था, क्योंकि मां उसे ठूस-ठूस कर खिलाना चाहती थी। आखिर पाचनशक्ति की भी कोई हद होती है। हम तो समझते थे, कि हमारे देश में ही धी-नेल-चर्बी की भरमार पचन्द की जाती है, किन्तु वहाँ भी यही हालत थी। २४ अगस्त को हमने नोट किया “पेट में गड़बड़ी प्रायः ही हो जाती है, कारण लोला का चर्बी-पूर्य भोजन।”

१६ अगस्त अर्थात् अगस्त के मध्य में पहुँचते-पहुँचते कितने ही अल्प-जीवी तुण पीले हो पतझड़ के आने की सूचना दे रहे थे। चालू वर्षों में तैयार नहीं थे। चीजें सस्ती और अधिक प्राप्य होने के कारण इस वर्ष लोगों ने साम-भाजी के खेतों में उतनी तत्परता नहीं दिखलाई। लोला को एक नौकरानी की अत्यन्त अवश्यकता थी, घर के काम करने के लिये ही नहीं बल्कि इसलिये कि १ सितम्बर से ईश्वर स्कूल जाने लगेगा और उसके लौटने के समय (एक बजे) हम दोनों युनिवर्सिटी रहेंगे। एक बुढ़िया काम करने के लिये मिल रही थी। राशन की कड़ाई और चीजों की महंगाई का लोगों के सदाचार पर भी प्रभाव पड़ रहा था। बुढ़िया ने कहा— “मैं भगवान्-विश्वासीनी हूँ, कोई चीज नहीं छूती”। २०० रुबल मासिक और भोजन देने से राजी हो जाती। बुढ़िया के कोई नहीं था, पेन्सन पाती थी। न जाने किस कारण लोला की उससे नहीं पटी। नौकरानी की खोज जारी रखी गई।

१८ अगस्त को हमारे गृहस्थों में भी एक रोमनी (सिगानिका) नंगे पैरों घूम रही थी। दो पुरुष उससे हाथ दिखला रहे थे। पांच-पांच रुबल तो देते ही, इसप्रकार २० चादमियों का हाथ देखकर वह सी रुबल रोज कमा सकती थी, फिर उसे काम करने की क्यों परवाह होने लगी? सहस्त्राब्दियों का क्रोध एक अतवार रखने से नहीं दूर होता। हाथ देखना, भाग्य भाखना, यह आज का मिथ्या विश्वास नहीं है, इसको दूर करने के लिये बुद्धिवाद के बड़े जवर्दस्त घूँट की अवश्यकता है।

मुनिवर्षिणी वन्द थी, ध्यान-छात्राये भी छुट्टी पर थे । सबसे ऊपरी वर्ग की छात्रा वर्धा कभी कभी हमारे परिदर्शन में सहायता करती थी । १६ अगस्त को वह हमें शहीदों की समाधि की घोर ले गई । अक्टूबर क्रांति के समय जो लोग हेमन्त-प्रासाद और आस-पास के स्थानों में बलिदान हुए, उन्हीं वारों की यहां समाधियाँ थीं । संग्रहारा की चमकती हुई चट्टानों की पांच-छः हाथ ऊंची दीवारों से यह समाधियाँ घिरी हुई थीं । पास में भारी पुष्पोद्यान तैयार किया जा रहा था । समाधि-उद्यान के पास ही लैन्नीह-साद ( ग्रीन्सोद्यान ) था, जो कि तारशाही युग के धनी-मानी लोगों के विहार का स्थान था । सचमुच ही ग्रीष्म में इसकी शोभा निराली थी । ग्रीष्म की धूप से बचने के लिये यहां वृक्षों की घनी छाया थी । गुरुप के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध मूर्तिकारों की कृतियाँ— प्रतिमूर्तियों के रूप में— यहां रखी हुई थीं । अधिकांश मूर्तियाँ संगमरमर की थीं, जिनमें से कितनी ही अंग-भंग थीं । १८ वीं सदी के प्रसिद्ध कथाकार क्लोफ की धातु-भर्या मूर्ति भी यहाँ स्थापित थी । क्लोफ ने पंचतंत्र की तरह पशु-पक्षियों के जाम में बहुत-सी कहानियाँ लिखीं, जिनसे तत्कालीन समाज के बच्चों पर चट्टी चोट की गई थी, लेकिन सीधी चोट न होने के कारण वह तिलमिलाकर रह जाते थे, और क्लोफ का कुछ बिचाड़ नहीं सकते थे ; यागिर क्लोफ भी उन्स-वर्ग का पुरुष था । उसकी मूर्ति के साथ कहानियों के पशु, पक्षी पात्रों की र्थी मूर्तियाँ धनी हुई हैं । सोक्रियत-युग में भी क्लोफ की कहानियाँ लड़कों और बच्चों का बड़ा मनोरंजन करती हैं । लड़के तो यहां बड़े चाव से देखने आते हैं, और एक एक जन्तु की मूर्ति को देखकर अपनी पढ़ी हुई कहानियों का स्मरण दिलाते हैं ; मुझे इस वाक के सैलानियों में अधिकतर लड़के ही दिखाई पड़े । कला के अद-भुत नमूनों को देखने पर खयाल आता था, कि कितनी भारी धन-राशि इनके निर्माण में लगी होगी । लेकिन जन-शोषण से प्राप्त अपार सम्पत्ति में से कुछ को कला पर खर्च कर देना शोषक के लिये कोई भारी बात तो नहीं है ।

२१ अगस्त को वेर्धा के साथ हंस रूस-म्यूजियम और एरमिताज-म्यूजिम देखने गये । रूस-म्यूजियम १८९५ ई० में स्थापित हुआ था । पहिले यह विशाल

प्रासाद जार अनेकमान्द्र प्रथम के छोटे भाई भिन्दाइल पावलिच के लिये १=१२ई० में आरंभ हो चार वर्ष बाद १=२३ में तैयार हुआ । उसके बहुत दिनों बाद १=३५ ई० में जार के विशेष फरमान के अनुसार एंगे लगी कला का स्पृजियम बना दिया गया । यद्यपि इनका आरंभ आधा शताब्दी पहिले हुआ था, किन्तु इस में सबसे अधिक चीजें १६१७ की क्रांति के बाद आयीं, जब कि धनियों और सामन्तों के घरों में पढ़ी कला को चीजें बाजारों में विकने लगीं, और स्पृजियमों ने दूँद-दूँद कर उन्हें खरीदना शुरू किया । युद्ध के समय और स्पृजियमों की तरह यहाँ की भी सामग्री सुरक्षित स्थानों में भेज दी गई थी, अभी केवल १= वीं १६ वीं सदी के चित्रकारों और कुछ मूर्तिकारों की ही कृतियाँ प्रदर्शित की गई थीं । वेग्ले यहाँ की ११ वीं १२ वीं सदी की दुर्लभ कृतियाँ खासतौर से दर्शनीय हैं; मगर, अभी वह नवम्बर तक यथास्थान रखी जानेवाली थीं । इवानोफ का प्रसिद्ध चित्र “ लोर्गों में मत्सोह ” को यहाँ भी एक प्रति है, जिसे अपेक्षाकृत छोटे रूप में उस कलाकार ने पहिले तैयार किया था । यहाँ वह सब झाँग तथा दूसरी वस्तुयें सुरक्षित रखा हुई हैं, जिनको महान् चित्रकार ने अपनी फिलरतीन की दीर्घ यात्रा में वस्तु से उतारा था और पछे उन्हें जोड़कर इस अद्य निच को तैयार किया था । शिस्तिकन प्रकृति का महान् चित्रकार था । वसन्त, हेमन्त, शरद, शीष्म को वह सजीव करके दिखलाने में अद्वितीय था । उसके कितने ही चित्र देखे, जो बड़े ही संकीर्ण और सुन्दर हैं ।

यहाँ से एग्मीताञ्ज-स्पृजियम गये । एग्मीताञ्ज-स्पृजियम पहिले जार के महान् प्रासाद (हेमन्त-प्रासाद) के एक पास के राजमहल में खोला गया था, जो क्रांति के समय ( १६१७ ) तक उसी महल तक सीमित रहा, लेकिन क्रांति के बाद जनता के युग के आरम्भ होते ही प्रदर्शनीय वस्तुओं की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी, इसलिये पास का हजार कमरोंवाला जार का हेमन्तप्रासाद भी स्पृजियम को दे दिया गया । युद्ध के समय नष्ट होने से बचाने के लिये सामग्री दूसरी जगह भेजी गयी थी, अब चीजें आ रही थीं, उन्हें सजाया भी जा रहा था, लेकिन सारे स्पृजियम को सजाकर तैयार करने में अभी काफी समय की देर

था। वहाँ जाने पर मध्यएशिया के इतिहास के विशेषज्ञ प्रोफेसर याकूबोव्सकी से भेंट हुई। वह युनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर भी हैं, और उजबेकिस्तान तथा ताजकिस्तान में भेजे जाने वाले अभियानों के नेता भी होते रहे हैं। उन्होंने वर-रुशा के बारे में बतलाया कि वह पाँचवीं-छठी सदी का ध्वंसावशेष है, और श्वेत ह्यूगों की राजधानी हो सकता है, लेकिन भित्तिचित्र के हाथियों, अंकुश, महावतों की वेष-भूषा को वह भारत से ज्यादा सम्बन्धित नहीं कहते थे। उनका कहना था कि उन चित्रों पर भारतीय प्रभाव ज्यादा है। उनका ध्यान इस ओर नहीं था, कि श्वेतहृण्य आधे उत्तरी भारत के स्वामी थे, और उनके एक राजा तोर-बान ने ग्वालियर में एक बहुत ही सुन्दर सूर्य-मंदिर बनवाया था। उनसे यह मालूम हुआ, कि वररुशा के स्वनर के नेता शिशिकन का एक अच्छा लेख किसी पत्रिका में निकलने जा रहा है, कई चित्र भी होंगे। मैंने उसके लिये पीछे बहुत ध्यान-वीन की, प्रेस तक दौड़ लगाई, लेकिन कहीं उस लेख का पता नहीं लगा।

पुरमाताज-म्यूजियम के एक विशेषज्ञ प्रोफेसर इस्मिन मिले। वह काकेशस और मध्यएशिया के धातुयुग के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से कितनी ही बातें बतलायीं और फिर मुझे कई कमरों को दिखाकर बताया। नव-पाषाण-युग, शक्युग, और उत्तरी कजाकस्तान की प्रागैतिहासिक सामग्री चुनी जा चुकी थी। ई० पू० दसवीं से सातवीं सदी में ऊपरी इतिहास-उपलका पर जाइसन भील के उत्तर सोने की खानों में काम होता था। वहाँ सोने के पत्थरों को चूरी कर धुलाई के द्वारा सोना अलग किया जाता था। काकचेतोफ में भी सोने की और भी बड़ी खानें थीं। यहाँ का ही सोना दक्षिण की ओर (भारत, ईरान) जाता था। लेना का सोना अभी मुख्य नहीं हुआ था। उत्तरी काकेशस में टिन की भी खानें हैं। तौवा तो वहाँ तथा बलकश के उत्तरी तट तथा दूसरी जगहों में बहुत पाया जाता है। उत्तरी काकेशस के धातु के इतिहास पर पुस्तक लिखने के बाद अब वह कजाकस्तान-सिबेरिया के धातु-स्थानों पर कलम चला रहे हैं। उन्होंने ई० पू० नूतनीय शताब्दी के शक-सरदार की कब्र में निकले एक लाल रङ्ग के पीड़े के शक्को

भी दिखलाया। यह कम उत्तर-पूर्वी कजाकस्तान में अल्तार्ह के पास निकली थी। कम में सरदार के शत्रु के साथ काफी सैन्य आदि की चीजें रक्खी गई थीं। लेकिन, उसी समय चोरों ने खोदकर उसे निकाल लिया। लकड़ी की शवाधानी, घोड़े, और घोड़ों की चीजें वहाँ बच गई थीं। जित्त खेद से चौर भीतर घुसे थे, उसी खेद से उसी समय पानी भीतर कला गया, जो गर्दी के भारे चिरकाल के लिये बरफ बन गया; जिन में घोड़ों के रोम, चर्म आदि सभी २२ शताब्दियों बाद भी सुरक्षित मिले। जित्त स्थान पर कम थी, वह हृणों और शकों की भीमा पर थी। लेकिन वहाँ सिवाय कुछ अलंकरण के कहीं पर भी संगोलायित शरीर-लजगों का प्रभाव नहीं था। चीन का भी प्रभाव इस कम की चीजों पर नहीं था। इस्तिन ने बतलाया, कि यहाँ के घोड़े और चारजामे तथा काकेशस के उत्तर की सिथियन समाधियों वालों जैसे ही हैं, जिसका अर्थ है: दोनों जातियाँ—पश्चिमी सिथियन और पूर्वी शक—एक थीं। इसके घोड़े हृणों के जैसे नहीं बल्कि दक्षिण और पश्चिम के घोड़ों जैसे बड़े-बड़े थे।

हमने साथ-साथ और भी कुछ चीजें देखीं, जिनमें पुराने रुषियों के आभूषणों में हंसली, बंगरी, केयूर, और कर्णपूल भारत जैसे थे। हो सकता है इन में से कुछ आभूषण शकों द्वारा भारत पहुँचे हों।

२४ अगस्त को खबर मिली कि भारत में राष्ट्रीय सरकार के नामों की घोषणा करदी गई है। मुस्लिम लोग उसमें शामिल नहीं हुई।

रूस में पेशों और व्यवसायों की सीमा-रेखा कितनी कम हो गई है, और सक्तिष्कर्जीवी भी शरीरजीवी बनने में कोई संकोच नहीं महसूस करते, इसका पता हमारे घर की दीवारों पर कामज चिपकाने के लिये आयी महिला थी। वह इंजीनियर थी, लेकिन अपने काम से बाहर यदि कोई काम मिल जाता, तो उसे स्वीकार करने में आनाकानी नहीं करती थी। हमने अपनी छोटी-सी शायत-कोटरी की दीवार पर रंगीन कामज चिपकाने के लिये कहा। वह १५० रुबल पर राजी होगई, और २५ अगस्त को ऐतबार के दिन उसने उस काम को कर दिया। उसे १४ घंटे लगाने पड़े। हजार रुबल से कम उसका वेतन नहीं होगा, तो भी

यदि महीने में पांच सात दिन इस तरह काम करके हजार खवल और मिल जायें, तो हरज क्या ?

२६ अगस्त को यह सुनकर लोला और उसकी साथियों ने संतोष की सांस ली, कि अभी साल भर तक राशन हटने वाला नहीं है । सरकारी दूकानों ऐसी भी थीं, जिनमें राशन-बिना चीजें मिलती थीं । वे राशन की चीजों के मिलने का एक और स्थान रोक ( हाट ) था । वहाँ १२० खवल किलोग्राम चीनी ७० या ८० खवल में मिल जाती थी । इसी तरह दूसरी चीजें भी तिहाई कम दाम पर विक रही थीं । हाँ, बिना राशन की दूकान की तरह यहाँ चीजें बराबर नहीं मिलती थीं, क्योंकि लोग अपनी राशन की चीजों को बेचकर दूसरी अपेक्षित चीजें खरीदते थे, कोई मध्यवर्गी आदमी लोगों से चीजें जमा करके बेचने नहीं पाता था, इसीलिये बराबर चीजों का मिलना संभव नहीं था ।

३० अगस्त आया । एक दिन छोड़ पहिली सितम्बर में ईगर को स्कूल जाना था । आज पास के स्कूल में उसका नाम दर्ज हो गया । माँ को खिलाने की बहुत फिक थी । यद्यपि बालोद्यान में उसे पूरा खाना मिलता था, किन्तु शाम भन्ने अपने मिश्का (चूहे) को ठूस-ठूस कर खिलाये बिना माँ कैसे रहती ? पहिली तारीख को सभा मातापुं स्वयं और अपने लड़कों का अच्छी तरह बनाव-मिगार करके स्कूल पहुंचीं । आज उनके बच्चे अक्षर आरम्भ करनेवाले थे । पिछले महीने का अन्तिम सप्ताह लड़कों और उनकी माताओं के भी बातोघानों से छुट्टी लेने में बीते थे ! लड़कों के यह स्मरणीय दिन थे, बालोद्यान के बाद अब अगले दस वर्षों तक की स्कूली पढ़ाई, लड़कों और लड़कियों की अलग हुआ करेगी, और चार साल साथ बिताने वाले लड़के लड़कियाँ अब घर पर ही एक दूसरे से मिल सकेंगे । कई वर्षों के तजर्बे के बाद सोवियत के शिक्षा-शास्त्रियों को सह-शिक्षा उठा देने की जरूरत मालूम हुई । उन्होंने देखा कि १७ वर्ष की आयु के भीतर लड़कियों के विकास की गति कुछ अधिक होती है ।

सितम्बर के साथ शरद अब पूरी तौर से प्रकट होने लगी । यही वर्ष

के भी दिन थे, जो तापमान के गिरने के साथ हिम-वर्षा के दिन बन जायेंगे । लोगों ने अब अपने आलुओं को जल्दी जल्दी खोदना शुरू किया; क्योंकि कुछ आलू चोरी चले गये थे । हमारी बयारी में पिछले वर्ष से ज्यादा साठ किलोग्राम ( प्रायः दो मन ) आलू हुआ । ६ सौ रुबल का आलू पैदा करना कम सफलता की बात नहीं थी । हमारी पड़ोसिन को जब खेती करने की बात कही गई, तो उसने कहा— क्यों खेत खोदने जाऊँ, जब कि एक रात के जागने में मेरा काम बन सकता है । चाहे वेतन अधिक भी कर दिया जाय, लेकिन चीजों के मंहंगे होने से लोगों के सदाचार पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यह यहाँ मालूम हो रहा था ।

अभी तक लोला की कोई नौकरानी नहीं मिली थी । नौकरी ढूँढती एक बुढ़िया ३१ अगस्त को आयी । वह फ्रेंच, अंग्रेजी, इतालियन, और जर्मन भाषायें जानती थी । पुराने आभिजात्य वर्ग की लड़की थी, इसलिये यूरोप के भिन्न-भिन्न देशों की सैर करना और कई भाषाओं का पढ़ना उसके लिये आवश्यक था । बुढ़िया का बाप जार की पार्लियामेण्ट का सेन्सर था । कितनी ही बार वह यूरोप की सैर कर चुकी थी । युद्ध के समय शहर छोड़कर चली गई थी, इसलिये उसके कमरे में कोई दूसरा बैठ गया था । अब भोली में अपना सारा घर लिये बेचर होकर रूस रही थी । वह भोजनशाला में रहने की जगह मिल जाने पर यहाँ रहकर ईसर की देख-भाज करने के लिये तैयार थी, लेकिन हमें तो ऐसे आदमी की आवश्यकता थी, जो कि खाना भी बना सके ।

कल-सर्जान का काम ऐसा ही होता है, जब तब वह विगड़ जाती है, और फिर काम ठण्ड हो जाता है । इसलिये मशीन-युग के त्रिक नागरिक को कल-सर्जान की बातें भी सीख लेनी आवश्यक हैं । विजली और नूहे के मिस्री तो हम बन ही गये थे, पहिली अक्तूबर को हमारा रेडियो भी बन्द हो गया । पीछे से खोजकर परीला की, तो एक बत्त बिराड़ा मालूम हुआ । पास-पड़ोस में दूधने पर एक रेडियो-विशेषज्ञ सेजर निकल आये । उन्होंने आकर अपना बत्त लगा दिया, और साथ ही कुछ बातें भी हमें बतला दीं । पारिश्रमिक

दंते पर लेने से इन्कार कर दिया।

पहिला सितम्बर रविवार को पड़ा था, इसलिये शिबण संस्थाओं के माल का आरम्भ २ सितम्बर से हुआ। युनिवर्सिटी में पिछले साल की तरह लड़कों का नितान्त अभाव नहीं था, अब लड़के भी दिखाई देने लगे थे। पढ़ाने के घंटों आदि का निश्चय पहिले ही हो गया था, इसलिये अब फिर हमारी सारी पहिले की तरह चलने लगी।

उसी दिन एक भारतीय द्वाप की चिट्ठी अमेरिका से आयी। वह योजना के संबंध में विशेष अध्ययन करने के लिये आना चाहते थे। भारत से उन्होंने कई पत्र रूस भेजे, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। हम से चाहते थे, कि उनके लिये कोई प्रयत्न करें। वेचारे जानते नहीं थे, कि पूंजीवादी दुनियाँ के कट्टर अनुभवों के कारण सोवियतवाले विदेशी विचारधियों को लेने के लिये तब तक तैयार नहीं होते, जब तक पूरी तौर से विश्वास न हो जाय, कि वह किसी विदेशी सरकार के खुफिया नहीं हैं।

× × × ×

भारत से २४ जून को हवाई डाक से भेजा-पत्र ७ सितम्बर को मिला, इसमें मालूम होगा कि भारत के साथ सम्बन्ध रखना कितना मुश्किल था। कुछ पत्र तो चार महीने के भी बाद हमारे पास पहुँचे।

२०० रुबल मासिक, भोजन, तथा रविवार की छुट्टी पर भी नौकरानी मिलना मुश्किल हो रहा था। यदि कोई काम करने के लिये तैयार था, तो उसे आपने काम से हटने के लिये जल्दी आज्ञा नहीं मिल रही थी। हमने दोनों कमरों की मुलाई के लिये प्रति रविवार ४० रुबल पर प्रबन्ध कर लिया था।

सितम्बर के प्रथम सप्ताह में भारत में जगह जगह साम्प्रदायिक दंगों की खबरें आरही थीं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय सर्वो-मण्डल को संभाल लिया था। लीग अपने हट पर डटी थी, और उसके कारण जगह जगह भगड़े हो रहे थे। ८ सितम्बर को जवाहरलाल नेहरू की वक्तृता रेडियो पर सुनी : 'भाइयो और बहिनो' से शुरू और "जय हिन्द" के साथ समाप्त। १२ मिनट की वक्तृता थी। अभी



पहिले पहल सरकार की बागडोर हाथ में आई थी, इसलिये ऊपरी बातों ही क्यादा थीं ।

११ शितम्बर को युनिवर्सिटी जाने समय पहिले प्रोफेसर इरिसन में पुरसिताज्ञ में जाकर बातें कीं । उन्होंने बतलाया कि कजाकस्तान की तरफ, टिन और सोने की खानों अधिकतर पित्तल-युग ( प्रायः ई० पू० १३ वीं सदी ) की थीं । सोने की खानों में एकथ लोहे के इधियार भी मिले हैं । ताम्रयुग कजाकस्तान में ई० पू० द्वितीय शताब्दी तक रहा । इसके बाद खानों में काम बन्द हो गया । वह खानें उसके बाद १८ वीं और १९ वीं सदी में और अधिकतर तो २० वीं सदी में फिर से चालू हुईं । अकमोलिन्स्क में आधे भुइधरे वाले बर मिले हैं, तिनमें खानों के कमकर रहा करते थे, और जो हिन्दू-यूरोपीय जाति के थे । उम्र समय अकमोलिन्स्क में और अधिक जंगल था । खानों के खानों के बारे में उन्होंने बतलाया :—

ताम्र— अकमोलिन्स्क, बलसाशा, अस्ताई ( इतिश से दक्षिण ) ।

सुवर्ण— कोकचेतोफ प्रदेश में ३० स्थान, अस्ताई में इतिश से दक्षिण ।

टिन— दक्षिणी अस्ताई, कच्चा पहाड़, इतिश का उभय तट ।

उनसे यह भी मालूम हुआ कि क्रान्ति से पहिले कजाक कमकर बहुत कम थे, लेकिन अब वह खानों और कारखानों में काफी हैं ।

युनिवर्सिटी की पढाई वाकायदा शुरू हो गई थी, किन्तु वाकायदा का मतलब था अध्यापकों का वाकायदा जाना । युद्ध के बाद विद्यार्थियों के मनोभावों के बारे में यह अबसर शिक्षायत की जाती थी, कि वह पढ़ने की अधिक परवाद नहीं करते । मुझे संस्कृत, तिब्बती, और हिन्दी पढानी पड़ती थी । वर के युनिवर्सिटी पहुँचने में डेढ़ घन्टा और उतना ही लौटने में लगता था । जूथ वहाँ विद्यार्थियों की शुभ देखता, तो समय की वर्नादी का अफसोस होता । लौटते समय ट्राम में चढ़ना आसान नहीं था । खड़े होने की जगह मिलती तो भी लोगों के मारे दबने-पिचने लगता । यदि बैठने की जगह मिल जाती, तो युटनों से तीचे के पैरों की खैरियत नहीं थी ।

मेने प्रधान-मंत्री को एक बधाई का तार भेज दिया था । मंत्रियों की धाँधली जैसी चल रही थी, उससे यह आशा नहीं थी, कि तार पहुंच ही जायगा; हालाँकि उसमें कोई बिसी बात नहीं थी । लेकिन १४ सितम्बर के दिल्ली-रेडियो से नेहरू जी के पास शुभेच्छा भेजने वाले लोगों में लेनिनशाद के प्रोफेसर राहुल सांकृत्यायन का नाम भी मूना । इससे यह तो मालूम हुआ कि रूस देश में भी नई सरकार के शुभेच्छु हैं, लेकिन जहां तक हमारे इण्डियनों का सम्बन्ध था, वह इस नई सरकार को कोई अहमियत नहीं देते थे ।

लोला ने अपने सगे सम्बन्धियों को नौकरानी के लिये कह रखा था । एक महिला एक ७० वर्षीया वृद्धा को अपने साथ लेकर १५ सितम्बर को आयीं । फिर एक दूसरी भी संबन्धिनी अपने दो बच्चों के साथ आयीं । दर में चार-पांच लड़के, और तीन चार मेहमानों के आ जाने से कुछ चहल-पहल हो गई । लोला के चचेरे भाई की लड़की नताशा बड़ी भद्र महिला थीं । उसके दो बच्चे थे, पति दूर चला गया था और शायद छोड़ भी चुका था । दोनों बच्चों का पालन मां स्वयं कमाकर कर रही थी । उसने अपने छोटे बच्चे को पितृकुल का नाम ( वेर्नेस्ताम ) दे रखा था । लोला बहुत ज्यादा स्नेह प्रकट करनेवाली स्त्री नहीं थी, लेकिन नताशा के साथ उसका स्नेह था । उसको इस बात का अफसोस था कि इस रक्तकेशी ने एक यहूदी से विवाह किया है । उसके लड़के का भी केश लाल था । वह यद्यपि ईगर से एक ही साल बड़ा था, लेकिन कहानियां खूब पढ़ लेता था, पढ़ने का शौक भी उसे बहुत था, और यह अनुभव करने लगा था, कि मां कितनी मेहनत करके हमारी परवरिश कर रही है । वृद्धा शायद काम नहीं कर सकती थी, इसलिये उसको नहीं रखा गया ।

१६ सितम्बर सोमवार होने से हमारे स्नान का दिन था । हर हफ्ते की तरह आज भी स्नान करने गये । दोपहर बाद वर्षा ही वर्षा रही । गोया शरद धूम-धाम से आरम्भ हो गई थी । अब दिन में भी घर में बैठते वक्त गरम कोट की जरूरत पड़ने लगी थी । बिना राशन की दूकानों में दाम और कम हो गया । चीनी १२० रुबल की जगह ७० रुबल किलोग्राम हो गई, राशनकार्ड

मे चीनी पांच स्वल्प किलोग्राम मिलती थी । चौकोर चीनी के डब्ले, ५. ७० स्वल्प से १५ स्वल्प किलोग्राम कर दिये गये थे, अर्थात् एक तरफ राशन की चीजों का ढाम ऊपर उठाया गया था और दूसरी तरफ विना राशन की चीजों का ढाम नीचे किया जा रहा था । काली रोटी १. १० स्वल्प से ३. ४० स्वल्प किलोग्राम हो गई थी । प्रवन्ध विना राशन का साढ़े तीन सौ से २६० स्वल्प हो गया था । रोटी का इतना ढाम बढ़ना कम वेतनवालों के लिये कष्टप्रद था, क्योंकि सबसे कम वेतन पानेवाले दो सौ से तीन सौ स्वल्प तक ही तनखाह पाते थे । हां ५०० सौ रुपये तक, मासिक पाने वालों के वेतन में २० सैकड़े की वृद्धि भी कर दी गई थी । वहाँ के अर्थ-शास्त्र को सम्भलना मुश्किल मालूम होता था, किन्तु हम किसी को भ्रूसा नहीं देखते थे ।

हमारे ही मुहल्ले का एक प्रौढ़ा सान्या को लोखाने नौकरानी ठीक किया । उसका सक्कान पास ही में था । वह एक लड़के और लड़की की मां थी । लड़ाई के बाद उसका घर बिखर गया ।

शिक्षित के वरुणा संबंधी लेखकों इंदुंगों के लिये हम १९ सितम्बर को अकड़सा प्रेस गये, किन्तु वह वहाँ नहीं मिला । अकड़सा के प्राच्य-प्रतिष्ठान के पुस्तकालय में गये । विना पासपोर्ट देखे भीतर जाने की इजाजत नहीं थी । इस तरह के अनुत्पादक श्रम में हर जगह काफी आदसियों को लगे देख कर ख्याल आता था : क्या इन्हें यहाँ से हटाकर किसी उत्पादन में और आवश्यक काम में नहीं लगाया जा सकता ? इसमें संदेह नहीं कि ऐसे प्रवन्ध से खतरों की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है, लेकिन ऐसे ख्यालों खतरों के भय से सभी क्षेत्रों में यांत्रिक प्रवन्ध को अपनाता अच्छा नहीं मालूम होता था । सौर, मेरे पास पासपोर्ट था, युनिवर्सिटी के प्रोफेसर होने का प्रमाण-पत्र था, इसलिये जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई ।

वराचिकोफ बहुत कम बोलनेवाले विद्वान् हैं, जिसका अर्थ यह नहीं कि वह अपने विषय पर सावण देने या लिखने में अक्षम हैं । उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, और “ प्रेमसानर ” का गद्यमय और तुलसीकृत रामायण का पद्यमय

रूसी अनुवाद किया है, इसलिये हम उन्हें आलसी-संकोची नहीं समझ सकते । २१ सितम्बर को मैं उनके घर गया था । बराबिकोफ़ अकदमिक हैं, इसलिये वह रूस के बड़े-सौ जीव-मुक्त देवताओं में से हैं । उनकी पत्नी भी प्रोफेसर हैं । पुस्तकों के जमा करने का कितना शौक है, यह उनके घर का विशाल पुस्तकालय बतला रहा था । उकइन के एक दरिद्र बूढ़े के पुत्र ने अपने अथ्यवसाय में इस स्थान को प्राप्त किया था । यदि सोवियत शासन नहीं स्थापित हुआ होता, तो वह शायद ही इस पद पर पहुँच पाते । मुझे कई सर्तबें तुलसीकृत रामायण के अनुवाद के संबन्ध में परामर्श देने के लिये जाना पड़ा था । जहाँ तक अनुवाद का सम्बन्ध है, उसे उन्होंने पहिले ही पूरा कर लिया था, अब वह प्रेस में जा रहा था ।

२३ सितम्बर को हाथ और पैर टिठुर रहे थे । जान पड़ता था, ताप-मान हिमविन्दु से नीचे चला गया है । अब साढ़े पाँच बजे अंधेरा हो जाता था और दस दिनों से रेडियो खराब होने से २४ सितम्बर को तो हमें जग अंधेरा मालूम होता था ।

२६ सितम्बर को जब युनिवर्सिटी से घर लौटे, तो देखा हमारी नई नौकरानी भानिया ने घर को घर बना दिया है, अस्त-व्यस्त चीजों को एक जगह पर ठीक से रख दिया है, घर साफ है । लेकिन पूरी व्यवस्था कायम करने के लिये भानिया स्वतंत्र कहाँ थी ?

२७ सितम्बर को पेड़ों के पत्ते करीब करीब सभी पीले पड़ गये थे । सर्दों बढ़ गई थी, लेकिन लोग अभी कन्टोप नहीं पहिन रहे थे । पोस्तान का कोट कोई कोई पहिने हुए थे ।

नाटकों और फिल्मों के बारे में न कहने से यह न समझना चाहिये, कि हम अब उन्हें देखने नहीं जा रहे थे । २८ सितम्बर को मारिन्स्की-तियात्र में हम एक ऐतिहासिक ओपेरा “ कन्याज ईगर ” ( राजकुल ईगर ) देखने गये । ओपेरा का लेखक-सहान् नोट्यकार अ० प० घोरोदिन ( १८७४-८७ ई० ) था । आज से ७०-७५ साल पहिले यह ओपेरा अभिनीत हुआ था । ईगर रूस का

ऐतिहासिक वार है, जिसने तातारों से लड़कर रूस को स्वतंत्र रखने की कोशिश की। उसी वारना के कारण रूसी लड़कों में ईगर नाम वाले बहुत अधिक मिलते हैं। क्रिमिया और दक्षिणी रूस में उस वक्त तातारों का बड़ा जोर था। वह क्रिमियों का नाक में दस किये हुए थे। उस समय रूस का शासन केन्द्र क्रियेफ था। साथ-साथ और भी छोटे छोटे राजा जहाँ-तहाँ रहा करते थे। ११८७ ई० में ईगर अपने पुत्र सहित तातार खान का बन्दी हो गया। रूसी बटना को लेकर यह खोपरा लिखा गया था। नवोप्राद शिविस्की के गवर्नर ईगर इवानो स्क्विच ने पट्टासी पलौवेस्की खान कोशक पर धावा किया। पिला-पुत्र पकड़कर जेल में डाल दिये गये। अभियान के लिये जाते वक्त ईगर पत्नी भगवान से प्रार्थना करने के लिये गिरजे में गया, फिर अपनी पत्नी यारोस्लाना से विदाई लेने गया जिस वक्त ईगर विदेश में बन्दी था, उस वक्त की विरह-वेदना को प्रकट करने के लिये किसी अज्ञात कवि ने 'भलावा ओ पोकृ ईगरारेवे' (ईगर के कटक की वाणी) के नाम से एक काव्य लिखा। काव्य बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन रूसी भाषा का यह सबसे पुराना आदिकाव्य है, इसलिये इसका बड़ा महत्त्व है। बन्दी ईगर के साथ कोन्चक खान का बर्तन अच्छा था। ईगर के पुत्र व्लादिमिर का खान की छुमारी से प्रेम हो गया था। खान भी धीरे-धीरे ईगर पर विश्वास करने लगा था, लेकिन उस विश्वास से फायदा उठाने की ईगर ने कोशिश नहीं की। खान ने इस पर प्रसन्न होकर कहा— यदि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो तुम क्या करोगे। ईगर ने उत्तर दिया— वही जो एक दुश्मन के साथ करना चाहिये। ईगर इस तरह बन्दी का जीवन व्यतीत कर रहा था, और उधर उसकी रानी का भाई व्लादिमिर व्लादिमि, तथा पुतिव्ल पदर्थन करके राज्य पर हाथ साफ करना चाहते थे। दरबारियों को मन मानी करने की छूट थी। यह खबर ईगर को मिली। वह वहाँ से भाग निकला। पत्नी और प्रजा ने वीर का स्वागत किया।

यह समय ११८५ ई० करीब वही था, जबकि जयचन्द का राज्य समाप्ति पर था और दिल्ली पर तुर्क-मुसलमानों का भंडा गड़नेवाला था। कथानक, संगीत और अभिनय की दृष्टि से ही यह नाटक सुन्दर नहीं था, बल्कि इसके रूप में उस

समय की धप-धपा, रहन-सहन, चगर-धाम, राजा, राजनीतिका एक बहुत सुन्दर पाठ दर्शकों के सामने उपस्थित किया जा रहा था । उसमें हथियार भी उसी समय के थे, और कवच भी । सामन्तों के उस समय जैसे काष्ठमय वगैरे काष्ठ-दुर्ग होते थे, वगैरे के भीतर जैसे चित्र बसाये जाते थे, यहाँ तक की वर्तन और बाह्य तक भी उसी समय के इस्तेमाल किये गये थे । वजाने वाले तय्ये नाच और अभिनय कर के दर्शकों का मनोरंजन कर रहे थे । उस समय के धाजों में एक गार्गी से कुछ मिलना ज़रूरी था ।

२६ सितम्बर का शनिवार था ! मैंने अपने एक विद्यार्थी से कह रखा था । आज कलखोज की सैर में वह मेरा पथ-प्रदर्शक हुआ । फिन-लैंड स्टेशन में जानेवाली लाइन के पास के किसी गाँव में हमें जाना था । दसवें नम्बर की ट्रेन जहाँ खतम होती है, वहाँ तक ट्रेन में जाकर फिर हमने रेल पकड़ी, और कितनी ही दूर जाकर उतर पड़े । हम उस भूमि में थे, जहाँ जर्मनी में धमासान लड़ाई हुई और जहाँ पर जर्मन सौ सौ दिनों से ज्यादा उटे रहे । कलखोज पहिले की तरह से अभी जन्म नहीं सके थे । रास्ते में एक जगह एक पूरी की पूरी कवचधारी ट्रेन खड़ी थी । मालूम होता था, लड़ाई यहाँ अभी खतम हुई है । पुराने कलखोजों के खेतों को भिन्न-भिन्न काखानों ने आपस से बाँटकर ब्यालू-गोमी की खेतों करनी शुरू की थी । पहले हम जिस फार्म पर गये, उसके त्रिगादीर ने बड़ी प्रसन्नता से हमें खेत दिखाया । उसके पास २५ एकड़ खेत थे । एक कोठरी थी, जिसमें काम करने वालों के लिये छःसात खाटें पड़ी थीं । फैंक्टरी के सजदूर, समय समय पर आकर काम कर जाते थे । जाइनों से वहाँ कोई नहीं रहता था । वहाँ से फिर हम "मिनिचेरकी कम्पिनात" ( रसायन समवाय ) की खेतों देखने गये । डार्ई सौ एकड़ में साग-सब्जों की खेती थी । बायें हवाई अड्डे को छोड़ते हम वहाँ पहुँचे । यहाँ ट्रेक्टर और दूसरी मशीनें भी खड़ी थीं । संयोग से कम्पिनातका डाइरेक्टर भी अपनी मोटर से वहाँ आया था, उसने हमारे विशेष रूप-रंग को देखकर जन्म-भूमिका नाम ह्वाज । ह्वाज ने हमारे विदेशीपन को छिपाने के लिये मध्यपूमिया

वह दिया । ताजिक लोगों में हमारे जैसे भारतीय रूप रंगवाले आदमी बहुत कम मिलने हैं । और, सैने पास-पोर्ट दिखला दिया । उन्हें मालूम हुआ कि मैं विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूँ । हमने खेत में जहाँ तहाँ घूम फिर कर खेती को देखा । पास ही में सैनिक हवाई अड्डा था, इसलिये वहाँ पर किसी विदेशी के लिये उतनी स्वतंत्रता तो नहीं होनी चाहिये थी । शायद इतनी स्वतंत्रता इंग्लैंड और अमेरिका के वह लोग भी अपने देशों में नहीं दे सकते, जो मौके-बे-मौके धैयक्तिक स्वतंत्रता की डींग मारा करते हैं और सोवियतों को लौह-परदे का देश बतलाते हैं । उस दिन हम शाम तक इधर-उधर घूमते रहे । कलखोजों को देखने की अभी यहाँ बहार नहीं थी, क्योंकि उजड़े गाँव बस नहीं पाये थे, और शहर वाले कारखानों ने केवल अपने साग-सब्जी लायक जमीन को ही आबाद कर लिया था, अभी किसानों का गृह-जीवन देखा नहीं जा सकता था ।

२० सितम्बर को आज एक सरकारी हुकम की बड़ी चर्चा थी, जिसमें कहा गया था कि कारखानों और राष्ट्रीय संस्थाओं में जो काम नहीं करते या पेन्शनर नहीं हैं, उन्हें राशनकार्ड नहीं मिलेगा । वस्तुतः यह इसलिये किया जाने वाला था, कि देश के पुनर्निर्माण और नवनिर्माण का काम सोवियत सरकार जल्दी करना चाहती थी, जिसके लिये आदमियों की बहुत कमी थी । मुद्द की सेना में लौटकर लोग मजदूरों की सेना में भरती हो रहे थे, लेकिन तब भी हिसाब से मालूम हुआ, कि लाखों स्त्रियाँ ऐसी हैं, जो गृहिणी बनकर घर पर बैठी हैं, इसी-लिये यह विकड़म लगाया गया था, जिससे बेकार बैठी महिलायें कुछ काम करने लग जायें । असर जादू की तरह हुआ, क्योंकि राशन कार्ड छिन जाने पर अब १० गुना २० गुना दाम देकर रोटी-मक्खन खरोदकर घर में बैठे रहने के लिये कोई स्त्री तैयार नहीं थी और काम भी कोई मुश्किल नहीं था । सभी बैठी ठाली स्त्रियों को वह हल्का से हल्का काम देने के लिये तैयार थे । वह समझते थे कि इन्के काम को यदि स्त्रियाँ संभाल लें, तो सारी काम में पुरुषों को लगाया जा सकता है । वह इसका तजर्वा भी काफी कर चुके थे । नगर की पुलिस में सड़कों पर १० फी सदी स्त्रियाँ थीं । दामों की ड्राइवर भी प्रायः सभी बही थीं । अफवाह

उड़ानेवाले रोटी का दाम बढ़ जाने से यह भी कह रहे थे, कि स्नानागार का शुल्क अब एक से साढ़े तीन रुबल हो जायेगा, दाम का टिकट १५ से ४५ कोपक हो जायेगा। कम वेतन वाले लोग परेशान थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। अधिक से अधिक सरकार का यही उद्देश्य मालूम होता था, कि देश के हरेक काम कर सकने वाले आदमी कुछ काम करें।

इधर रेडियो खराब हो गया था। यदि बन्द बदलाने की बात हम जानते, तो स्वयं कर सकते थे। उनिवर्-भाग में गये। ३ महीने से ज्यादा खरीदे हो गया था, इसलिये वह पुर्जे बदल नहीं सकते थे, लेकिन धरमत्त करने के लिये आदमी भेजने के लिये तैयार थे। वहां उसकी हाट में चीजें भरी हुई थीं। समूरी थ्रोवरकोट का दाम १२ हजार रुबल था। उसके खरीदने वाले तो अकदमिक बरान्निकोफ जैसे लोग ही हो सकते थे। साधारण गरम थ्रोवरकोट का दाम ४ हजार रुबल था। यह बिना राशन की कीमत थी। राशन या सीमित कार्ड हो, तो एक तिहाई दाम कम हो सकता था। १७०० रुबल में रेडियो मिल रहा था। हमारे साथियों की बात ठीक उतरी, अगर हम रुके होते तो ३५ सौ की जगह १७ सौ देना पड़ता ! हिसाब बड़ा उलट-पुलट मालूम देता था। १७ सौ रुबल अर्थात् ढाई मन रोटी एक रेडियो का दाम जो कि आजकल भारत में ५० रुपये से अधिक की नहीं होगी।

घर पहुँचने पर स्कूल के डाक्टर की सूचना आयी : ईगर को स्कारलेट लाल उवर है, उसे अस्पताल भेजना चाहिये। स्कूली डाक्टर ने केवल हमको ही सूचना देकर ही सन्तोष नहीं कर लिया था, बल्कि सीधे अस्पताल में भी सूचित कर दिया था। अभी हम कुछ निश्चय नहीं कर पाये थे, कि शाम को अस्पताल की मोटर आ गई। अस्पताल के नाम से शिचित मध्यवर्गीया लोला उतना ही डरती, जितना की एक गांव की पैदा हुई स्त्री मरुस्या। उसने कोशिश की, कि मोटर खाली हाथ लौट जाय, लेकिन यह तो छूत की बीमारी थी, दूसरे लड़कों और मुहल्ले का भी खयाल करना था। लोला जैसी स्त्रियों को सामाजिक धर्म से कोई वास्ता नहीं होता। उस दिन तो खैर उसकी जिद काम कर गई।



रुम	१ लितर
चीनी	२ किलो
दिन खाद्य	२ डीन
आलू	२३ ,, (माई वनीस सेर), २६ डीन भाजी
साबुन	२ नदाने का
गायन	२ धोने का
बाथ	१०० ग्राम ( २ छट्योक )

यह विशेष राशन-कार्ड की चीजें थीं, इनके अतिरिक्त भावार्ण राशन-कार्ड की चीजें भी थीं। लोला को भी इस साल से सहायक-प्रोफेसर होने के कारण एक विशेष कार्ड मिला था, जिसमें इससे एक तिहाई चीजें मिलती थीं। इससे मालूम होगा, कि राशन की कठिनाई के दिनों में भी साधारण नागरिकों और शिक्षित कर्मियों को कितना खाने पीने का सुभीता रहता था।

३ अक्बर को जब अस्पताल गया, तो ईगर को उबर आदि की कोई शिकायत नहीं थी। कांगलू मां समझती थी, कि जैसे मैं अपने पुत्र के बिना एक राग नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा बेटा भी होगा, किन्तु वह अकेले में घबड़ाता नहीं था। बड़े आदर के साथ अस्पतालवालों के साथ बातचीत करता था, इयलिये डाक्टर, नर्स और परिचारिकायें सभी सन्तुष्ट थीं। ईगर की इस बेपरवाही को देखकर लोला ने चार साल पहिले के शिशुशाला के अनुभव को बतलाया: उस समय वह तीन-चार बरस का था। मां किसी काम से एक महीने उसे देख न पायी थी। जब वह वहां मिलने गई, तो ईगर ने इतना ही कहा— “चौची (मौसी), तू धैठ में जरा खेलने जाता हूँ।” और वह खेलने चला गया। मां बेचारी रोती बैठी रही। उसका बेटा इतनी जल्दी उसे भूल गया, और मामा नहीं चौची (मौसी) कह रहा है। उस दिन तिरयोकी से जब हम आ रहे थे, तो मां ईगर वहीं रह जाने को कह रहा था। मैंने कहा— अब अस्पताल छोड़ने वक्त भी शायद वही बात होगी, और चौची मामा को खाली राब ही लौटना पड़ेगा। आदर्श का बच्चा स्वावलम्ब: स्वावलम्ब का पाठ पढ़ना

जाहता है ।

७ अक्टूबर को देखा, रातको बर्फ बना हुआ पानी ११ अंश शिंत तक बैसा ही पड़ा था । वृष्टी की पत्तियां अब बहुत गिरने लगीं थीं । ८ अक्टूबर को अस्पताल गये, तो ईगर कलेंडर बनाने में लगा हुआ था । खेलना, गाना, और बात करना बस यही उसका काम था । भिस्का को चौचुया-मामा को बहुत परवाह नहीं थी । घर लौटकर देखा, लोरियों पर टोकर कोयला लाया जा रहा है । आशा बँधी कि अबके साल मकान जल्दी ही गरम होने लगेगा । लोगों ने भी कहा, अबके १५ अक्टूबर से ही गरम होगा ।

१० अक्टूबर को समय से पहिले जाकर नेव्स्की ब्रह्मपथ पर कितायों और नये फिल्मों की तलाश में धूमता एक मंगोल फिल्म ( मरूमूमि के सवार ) देखने गया । फिल्म १९४६ ई० में मंगोलिया की राजधानी उलानवतुर ( उर्गा ) में तैयार किया गया था । इसके सारे अभिनेता और अभिनेत्रियां मंगोल थीं, केवल टेक्निकल सहायक रूसी थे । फिल्म का कथानक १७ वीं सदी के एक मंगोल विजेता का जीवन था । फिल्म में रूसी भाषा का अयोग यहाँ के लिये किया गया था । मंगोलिया का प्राकृतिक दृश्य बहुत सुन्दर था, जिसमें वहाँ के विस्तृत मैदान, रेगिस्तान, छोटे छोटे पहाड़, नदियां, देवदारों से ढंके पर्वत, पशुपालों के तम्बू और चरागाहों में जानवर दिखलाये गये थे । उस समय के हथियारों के साथ युद्ध के भी दृश्य थे । हथियार और घोशाक का ठीक देश-कालाकृतसार रखा गया था । लामा और गुम्बा ( मठ ) के भी कितने ही दृश्य थे । पुरानी मंगोल-प्रथा के अनुसार कबा के नायक को जत्र खान ( राजा ) बनाया गया, तो उसे नम्देपर बैठाकर लोगों ने जलूस निकाला । मंगोलराजाओं का सिंहासनारोहण नहीं, नमदारोहण होता था । खान ने मंगोलों के लगातार होनेवाले घरू भग्नों को हटाकर सारी मंगोल जाति को एकताबद्ध किया । फिर उसे जब पता लगा, कि हमारे धर्म के पोप दलाई-लामा को बहुत कष्ट दिया जा रहा है, तो वह मंगोलों की एक बड़ी वाहिनी लेकर तिब्बत की ओर चल पड़ा । तत्कालीन दलाई-लामा एक दस-बारह साल का बालक था,

जो बड़ा ही सुन्दर था। उसका अभिनय भी बड़ा प्रभावशाली था। फिल्म में पातला और न्हाजा को भी चित्रित करने की कोशिश की गई थी। खान के बामाद ने विरोधी नेता को पूर्णतया पराजित किया। विरोधी विध्वंस भासन्त ने एक सुन्दरी (विधकन्या) सेजकर उसे पराने की कोशिश की, जिसकी लहर बाकर खान ने अपने एकलौते बामाद को प्राणदण्ड देने का पत्र भेजा। तन्मय का मिर काटकर लाया गया। खान का हुक्म था, इसलिये कोई संगोप्य उसमें अनुत्पन्न नहीं कर सकता था। समूह आगे बहाने लगा, लेकिन उसके संतोष था, कि उसने राजधर्म का पालन किया। उसकी लड़की सुखिन्द हो गई, पिता अपने आसुओं को पोंछ पोंछकर उसे समझाता था। लड़की लड़ाई में लड़ती मारी गई। इस फिल्म में यह भी मात्स्य होता था, कि विरोध को कैसे लोग भिजे थे, जिनके बलपर वह विश्वविजयी होने में सफल हुआ।



## १६- पुनः हिमकाल

१३ अक्तूबर को सबेरे उठा, तो देखा बाहर सध जगह बरफ की चादर बिछी हुई है। रात को बरफ पड़ी थी, यद्यपि नापमान देखने से यह आशा नहीं थी कि वह ठहरेगी। शाम तक बहुत सी पिघल ही गई। इस जाड़े में यद्यपि सर्दी कम नहीं थी, किन्तु बरफ की कमी का बहुत शिकायत रही।

१४ अक्तूबर को अथ भी कुछ बरफ चार्की थी। १७ को सबेरे फिर तीन दोन मीठी गफेद बरफ से भरती टंकी हुई थी, लेकिन शाम तक सबका को बरफ बहुत कुछ गल चुकी थी।

युनिवर्सिटी हमें रोज जाना नहीं पड़ता था। यदि वहाँ न जाते तो, घर में बैठे पढ़ा-लिखा करते। जाने पर हमारे यहाँ से युनिवर्सिटी ४-२ मील थी और शहर का सबसे बड़ा राजपथ नेप्स्की से होकर जाना पड़ता था। रास्ते में बहुत से सिनेमाघर पड़ते थे। यदि कहीं ऐसा फिल्म देखते, जिससे अतीत या वर्तमान सोवियत युधि के सम्बन्ध की कुछ विशेष बातें मालूम होती, तो जाने या लौटने उसे जरूर देखते। वयस्कों के सिनेमा घरों में बच्चों को ले जाने भी इजाजत नहीं है, इसलिये ईमार के बगिन होने का सवाल नहीं था। सिनेमा में ज्यादा पैसे

पुरानी किताबों की दुकानों में जाकर अपने विषय की किताबों को ढूँढने का शौक था। कुछ ऐसी दुकानें नवखी राजपथ से हटकर भी थीं। कर्सी कमी वहाँ बड़े काम की पुस्तकें मिल जाती थीं। युनिवर्सिटी में भी पुरानी पुस्तकों की दुकान थी। यह कबाड़ी दुकानें संस्थाओं की थीं, किसी कबाड़ी व्यापारी की नहीं। नई पुस्तकों का मिलना दुर्लभ था, हमारे लिये तो यहाँ दुकानें कामधेनु थीं।

१८ अक्टूबर को काफ़िटरल ( विभाग ) के अध्यक्ष अकदमिक वराचिकोफ के घर पर अध्यापकों की बैठक हुई, जिसमें अध्ययन-अध्यापन तथा विधाधियों के परिश्रम आदि के विषय में सबने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। पहिले और दूसरे वर्ष में कितने ही अच्छे छात्र आये थे। तृतीय वर्ष की तान्या कतिनिना, और सारा सेव्नीकोफ की सभी तारीफ कर रहे थे। चौथा वर्ष युद्ध के कारण छात्र-रुद्ध था। पाँचवें वर्ष की दोनों छात्राओं से अध्यापक उतने सन्तुष्ट नहीं थे, वह अक्सर फ्रेंच-लीव ( मनमानी छुट्टी ) ले लिया करती थीं। रात को ११ बजे लौटने समय वृद्धे पड़ रही थीं। नीचे भूमि पर धरफ बिन्दा हुई थी और ऊपर से जल-वर्षण, अर्थात्— जमीन ज्यादा ठंडी, और आसमान ज्यादा गरम था। भूमि धरफ को छिनने नहीं देना चाहती थी।

सोवियत विश्वविद्यालयों के विदेशी भाषाओं के शिक्षण का तल पश्चिमी यूरोप के विश्वविद्यालयों से ऊँचा है, इसमें संदेह नहीं। पाँचवें वर्ष में दशकुमार चरित्र पढ़ाया जाता था। तानिया कतिनिना और सासा ने पहिले बड़े उत्साह में आकर तिच्चती भाषा शुरू करदी, लेकिन सासा का उत्साह बहुत दिनों तक नहीं रहा। सासा का सुभावाव अर्थशास्त्र और राजनीति की तरफ बहुत था, इसलिए वह उसी दृष्टि से भारत का अध्ययन करना चाहता था। तृतीय वर्ष में जाकर अब वह हिन्दी काफ़ी समझता था, और चाहता था, कि भारत से इतिहास राजनीति, और अर्थशास्त्र पर लिखी नई नई हिन्दी की पुस्तकें मिलें। मैंने कोशिश की। सासाने एक भाषातत्व की दुर्लभ रूसी पुस्तक को भी भारत भेजा, लेकिन पुस्तकों का आदान-प्रदान भी पूंजीवादी दुनिया समाजवादी देश के साथ आमानी से करने देना नहीं चाहती। तिच्चती भाषा के आरम्भिक पाठों

के बाद मैंने जातकमाला को पाठ्य पुस्तक चुना, क्योंकि उसके संस्कृत और भांग ( तिब्बती ) अनुवाद दोनों प्राप्त थे । एक पुस्तक होने पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि युनवर्सिटी के पास अपना बहुत अच्छा फोटो और फिल्म स्टूडियो था, जहाँ अपेक्षित कापियाँ तैयार कराई जा सकती थीं । कतिनिना गंभीर छात्रा थी, उसकी वृद्धि भी अच्छी थी, और परिश्रम तो इतना करता थी, कि प्रश्नों में मग्न होने पर हाथ-पूँह धोना तक मूल जाती थी, और उसके सहपाठी शिकायत करते थे कि नहाने में वह बहुत आलसी है । ऐसी लड़की भला अपने को भ्रंश-सिंघार करके कैसे रख सकती थी ? मुझे विश्वास था, कि यदि वह अपने रास्ते पर चली गई, तो कहीं संस्कृतज्ञ विद्वानों की परम्परा को आगे बढ़ाने में सफल होगी ।

२० अक्तूबरको अभी भी ईगर अस्पताल में था । उसकी सबसे अधिक मांग थी खिलौनों की, यद्यपि छूत की बीमारी वाले अस्पताल में रहने के कारण वह खिलौने फिर लौटकर साथ नहीं आ सकते थे, तो भी उसकी माँग पूरी की जाती थी । वह अपने खेल और कागजों पर मनमाना लिखने में अब घर को मूल-सा गया था ।

२४ अक्तूबर तक सारे वृक्ष नंगे हो गये थे, केवल देवदार जैसे सदा हरित रहनेवाले वृक्ष ही आँखों को अपनी हरियाली से तृप्त करते थे । मैं सोचता था — क्यों न, सड़कों या बगीचों में इन्हीं के वृक्षों की भरमार की जाती । लेकिन पीछे सालूम हुआ, कि उनकी देखभाल अधिक परिश्रम-सान्ध्य है । दूसरे वृक्ष तो अक्तूबर के अन्त तक अपने पत्तों की झाड़कर नंगे हो जाते हैं । उनके पत्तोंको बर्फ़ टांक लेती है, इसलिये उनकी सफाई की आवश्यकता बसन्त में ही एक बार पड़ती है । देवदार के पत्तों के गिरने का कोई निश्चित काल नहीं है । वह हर समय अपनी सूइयों को ब्रिखेरने विद्यमाने के लिए तैयार रहता है, जिसके कारण रोज़ झाड़ू-बुहारू की आवश्यकता पड़ती है ।

हमारी नौकरानी मान्या काम करने में बड़ी दक्ष थी, और सफाई तथा व्यवस्था के साथ फुर्ती भी काफी रखती थी । वह ३५-३६ वर्ष की अष्टेड स्त्री

शत्रुओं में अधिक बड़ा सा मानस होती थी। उसके एक पुत्री और एक पुत्र थे, जिन्हें लेकर वह लड़ाई के दिनों में तैयिनजान् छोड़कर बाहर चली गई थी। उसका ड्राइवर पनि नहीं रहा। तीन वर्ष तक बेचारा कहीं तक संयम करता, और विशेषकर जदकि प्ररुषों का इतना टाला था कि वह किसी दूसरी स्त्री के प्रेम-पाश में बंध गया। मान्या लड़के-लड़कियों को लेकर लौटी और बाप अपने बच्चों को प्यार भी करना था, लेकिन जउन द्रव्यन के लिए तैयार नहीं था। मान्या को जब तक वह पेशों की मदद करता था। मान्या बहुत रोती-भोती थी। पनि कभी कभी आजातों का विश्वास भी दिलाता था, लेकिन एंमे निश्चित किये न जाने कितने दिन चीत चुके थे, इतलिये कौट आने की आशा कम ही रह गई थी। हों बच्चों को देखने वह जन्म आता था। मान्या कभी रोती और कभी कुपित होती। एक दिन एंमे ही समय उसकी अप्ठवर्षीया कन्या माँ की बड़ी गंवार-ना पूर्वक सलाह दे रही थी — मामा, वालों में स्थायी लहर कराले, पाउडर तथा अबररास भी लगा लिसा कर, शायद यह देखकर पाषा आजाव। आठ वर्ष की लड़की की इतनी टोस सलाह दरआसन बतलाती थी, कि मान्याने भी अपनी माँ के न्यावलन्धी जीवन ने कुछ लाभ उठाया था। दूसरे दिन मान्या कह रही थी — मामा, पाषा के आन पर उमे अच्छा अच्छा खिला, शायद वह लौट आये। मान्या के पाषा ने अब की पहिली नवम्बर की आकर रहने का वचन दिया था, किन्तु वह अपनी प्रेमिका के साथ अधिक आराम से रहता था। मान्या एक गंवार लड़की १७-१८ वर्ष की उमर में गाँव छोड़कर शहर की ओर आयी थी। उसी समय उसका उससे प्रेम हुआ था, लेकिन पनि अब अधिक नागरिक को पणन्द करने लगता था। मान्या जीवन भर गंवार की गंवार ही रही। हमने सोचा था, मान्या के लिये भी राशनकार्ड मिल जायेगा, और खाने की चिन्ता नहीं रहेगी, लेकिन नये नियम के अनुसार बहू नौकरों के काम को राष्ट्रीय महत्व का नहीं समझा गया। इसलिये मान्या को हमें बिना राशन की चीज लेकर खिलाना पड़ना। लाला ने चिन्ता प्रकट की, तो मैंने कहा—आलू गोभी ज्यादा खायेंगे, लेकिन यह तो तो ३०-४० खाल कियो थे।

२३ अक्तूबर को अस्पताल गये, तो डाक्टर ने वनखाया कि स्कारलेट  
ज्वर नहीं था, हाँ, खून में डिप्थेरिया के कोटाणु पाये गये हैं। उसी दिन हम  
ईंगर को अपने साथ घर लाये।

२१ अक्तूबर को महीना के अन्तिम दिन तथा जाड़ों का भी एक महीना  
बीत चुका था, लेकिन सर्दी कम थी। रास्ते में कहीं कहीं कीचड़ थी। लोला को अब  
नौकरानी रखने का पश्चात्ताप हो रहा था। २०० रुबल की जगह अगर ५०० रुबल  
देने से काम चलता और खाना न देना पड़ता, तो वह खुशी से तैयार थीं, लेकिन  
अब तो राशन-कार्ड बन्द था। नौकरानी को हटाने की सोच रही थी, लेकिन उसकी  
हठाने पर मद्र-व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा होती। हमारे युनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर  
ने मोटर खरीद ली थी। मोटर खरीदना बहुत मुश्किल नहीं था, उसका काम वी  
रेडियो के बराबर था। प्रोफेसर साहब ने द्वादश और नौकरानी भी रखा थी।  
दोनों नौकरों की बात ही क्या अब तो स्वयं प्रोफेसर साहब की बीबी का भी  
राशन कार्ड छिन गया था, तीन तीन व्यक्तियों को बिना राशन की चीजों पर  
खिलाना-पिलाना दिवालिया होने की तैयारी थी। सरकारी दुकानों से हाट से  
चीजें कुछ सरती मिलती थीं, लेकिन वहाँ अब भीड़ बहुत होने लगी थी। आल्  
१२ रुबल किलो मिल रहा था। साम्या बेचारी अकेले ही अच्छा अच्छा खाना  
कैसे खा सकती थी, जबकि उसके दो बच्चे थे। रूसी नौकरों के बारे में वह सम्भव  
लेना चाहिये, कि काम के समय वह अवश्य नौकर थे, बाकी समय उनके साथ  
विलकुल समानता का बर्ताव करना पड़ता था। मालिक के साथ वह एक ही  
मेजपर बैठकर चाय पीते। साम्या अपना खाना घर ले जाकर खाती थी, और  
बच्चों का ख्याल करके कुछ अधिक ही ले जाती थी। लोला को अपने दिवालिया  
होने का डर लगने लगा।

२ नवम्बर को हमारे प्रबन्ध ऑफिस की बुद्धिया सरदी के मारे विजली  
की अंगीठी पर आग तापने लगी। कहीं पर आग-का सम्बन्ध लकड़ी से हो गया,  
और वह जलने लगी। बुद्धिया और ऑफिस वालों को पता नहीं लगा, लेकिन  
बगल में ही हमारी कोठरी धूल से भर चुकी। हमें जान पड़ा, शायद नीचे के



तहखाने में आग लगी है, जिसमें बड़ई काम कर रहे थे। नीचे जाकर देखा तो ताका लगा हुआ था। बुद्धिवा इदना तैयारी से भर रहा था, कि हमने खिड़की खोलकर जल्दी जल्दी पुस्तकों को बाहर ले जाने की तैयारी शुरू करदी। हमारी कोठरी के तहखाने से ऊपर होने से खिड़की बाहर की धरती से बहुत ऊँची नहीं थी। लीला अपनी आदत के मुताबिक एक घड़ी का काम चार घड़ी में करना चाहती थी। उससे फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए फोन करने को कहा, और अपने समान समेटने लगे। फायर ब्रिगेड तुरन्त आगया। उन्होंने तहखाने का ताका तोड़कर देखा, तो वहाँ कहीं आग नहीं थी। अन्त में असली बात का पता लगा। ( बुद्धिया ने सरदी का वहाना बनाया। लेकिन सरदी का वहाना करके घर में आग लगाने का किर्सा को कैसे अधिकार मिल सकता था ? शायद फायरब्रिगेड वालों ने बुद्धिया के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दी, नहीं तो बेचारी की मुश्किल हो जाती। इससे एक फायदा हुआ : आज ही शाम से घर गरम करने वाला इंजिन काम करने लगा। इंजिन का काम था, उबलते हुए पानी को चौम-जिले सक्नों के हर कमरे में फैले हुए मोटे नलों के जाल में पहुँचाना। नल स्वयं गरम हो कमरे की हवा को भी गरम कर देते थे, इस प्रकार तापमान हिम-बिन्दु से १०°-१५° सेन्टीग्रेड ऊपर उठ जाता था। लेकिन ४ नम्बर को देखा इंजिन की धरघराहट से हमारे कान बहरे हो रहे हैं, और दूसरी ओर कमरे टंडे के टंडे हैं। शायद कुछ टन कोयलों की वचत दिखलाने के लिए इंजिनका भूखा रखा जा रहा था, अथवा इंजिन की मरम्मत ठीक से नहीं हुई थी। उत्पादन के आँकड़ों का राज्य जहाँ न हो, वहाँ ऐसा होना अभी अस्वाभाविक नहीं था। लेनिनप्राद के सबसे प्रभावशाली नेता अर्थात् पार्टी मंत्री को इसकी ओर देखना चाहिये था, लेकिन उनको लोगों ने गदहे का खिताब दे रखा था। न जाने कैसे वह ऐसी जिम्मेवारी के पद पर पहुँचा था। जैसा बड़ा नेता होगा, वैसे ही छोटे नेता भी हो जायेंगे, इसलिये पपोक के कारण बड़ी अध्यवस्था थी। सोवियत रूस में ऐसे अयोग्य व्यक्तियों का भी कभी कभी दायित्व के पद पर पहुँच जाना संभव है, लेकिन “उबरे अन्त न होई निबाह” के

अनुसार पता लग जाने पर फिर वह उस पद पर टिक भी नहीं सकते। पत्रों का पतन हमारे वहाँ से चले आने के बाद हुआ। इंजिन की यह अवस्था कुछ ही दिनों रही। ८ नवम्बर से घर के भीतर तापमान  $18^{\circ}$ — $22^{\circ}$  सेन्टीग्रेड रहने लगा।

क्रान्ति महोत्सव— क्रान्ति का दिन ७ नवम्बर था पहुँचा। ४ ताराख ही से उसकी तैयारियाँ होने लगीं। भंडियाँ, तस्वीरें, तथा रंग-विरंगे बड़े बड़े विज्ञापन जगह जगह चिपकाये जाने लगे। हमारे स्नानागार के सामने एक बड़ा रंगीन चित्र चिपका हुआ था, जिसमें मशीन के सामने खड़ी जुलाहिन कपड़ों को दिखला रही थी। उसके आगे दुर्गजिले के बराबर का एक और विज्ञापन-चित्र था, जिसमें स्तालिन बच्चों के बीच में खड़े थे। एक जगह सड़क की दोनों बगल में लेनिन और स्तालिन के द्विपाश्र्वीय चित्र खड़े किये गये थे, जिनके बीच में रात्रि को विजली जलकर उन्हें प्रकाशित करती थी। लेकिन चीजों के दाम बढ़ जाने से लोगों को आज के उत्सव में उतना आनन्द नहीं आ रहा था। राशन की चीजों का दाम बढ़ना और वै-राशन की चीजों के दाम को घटाना इस प्रकार दोनों को एक तल पर लाकर राशनिंग को हटा देने का जो विचार किया गया था, वह अच्छा हो सकता था, यदि राशन की चीजों का दाम उतना ही बढ़ाया गया होता, जितनी तनख्वाहों में वृद्धि हुई थी। ऐसा न करने के कारण कम वेतनवालों को तकलीफ थी, ज्यादा वेतन वाले नौकरों को रख कर परेशान थे। सौभाग्य से बड़ी तनख्वाह घाने वाले भी अपना काम अपने हाथ से करने के आदी थे।

७ नवम्बर को क्रान्ति-महोत्सव के बड़े बड़े जुलूस निकले। नगर सब तरह से अलंकृत किया गया था। मास्को की खबरों से मालूम हुआ, कि आज के महोत्सव में लाल मैदान में स्तालिन उपस्थित नहीं थे, और वार्षिक वक्तव्य को उनके सबसे प्रिय और प्रभावशाली शिष्य ज्दानोफ ने दिया था। रात को दीपमाला हुई।

११ नवम्बर को हमें बराशिकोफ के घर जाना था, आज वहाँ अगली

दवाही का प्रोजाम बनाना था। कल तक बादल, बूंदों और कीचड़ से लोग परेशान थे, रातको बरफ पड़ जयी थी, जिनसे जमीन डेढ़ दो इंच हँक ही नहीं गई थी, बहिक कीचड़ ये भी जान छूट गई थी। बराधिकोफ उन अकदमिकों में से है, जो सोवियत के समरे अधिक संमानित, संभानत और धनी व्यक्ति हैं। बराधिकोफ की आमदनी सब मिलाकर ३० हजार स्ववत प्रतिमास से कम नहीं थी। अकदमिक होने से छ हजार स्ववत मासिक पेंशन तो मिलती ही थी, उसके बाद प्रोफेसर, शिक्षा-परामर्शदाता, पुरतकों की रायवटी आदि की भारी आमदनी थी। लोग ऐसे अकदमिकों की तनम्दाह को देखकर कह बैठते हैं : सोवियत से कम से कम टाई तो स्ववत वेतन जवा है, वहाँ अधिक से अधिक है ३०-३५ हजार। लेकिन इसे हम नियम नहीं कह सकते। बहान् विश्वातवेत्ताओं, और साहित्यकारों को हम साधारण कौटि से नहीं रख सकते, और उनका संख्या से कुछ से से अधिक नहीं है। यदि अपने विश्वातवेत्ताओं और आविष्कर्ताओं को इस तरह का परितोषिक न दिया जाय, तो आविष्क सभों तो आदर्शवादी कम्युनिस्ट नहीं है। उनमें से कुछ को इंग्लैंड और अमेरिका वहाँ वड़ी तनम्दाहों का प्रलोभन देकर अपनी ओर लौचने की काशिश करेगा। जैसे लघुतम और और महत्तम वेतन का अन्तर १-२० गुने से अधिक नहीं है। यह भी याद रखना चाहिये कि वहाँ एक युनिवर्सिटी के प्रोफेसर, सेना के जनरल, और सरकार के मंत्री के वेतन एक जैसे हैं, इसलिये हमारे यहाँ की तरह युनिवर्सिटी छोड़ कर प्रतिभाशाली तरुणों को सिविल सर्विस की ओर भागने की जरूरत नहीं पड़ती।

बराधिकोफ खाने-स्त्रिताने के बारे में बड़े ही उदार थे। जब भी अध्यापको और छात्रों की बैठक उनके घर पर होती— और वह अक्सर होती रहती—तो खान-पान की अच्छी तैयारी होती थी। वह अपने पुराने मकान में ही थे, इसलिये लेनिनग्राद के मकानों की किल्लत का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा। उनके पास चार-पाँच बहुत अच्छे अच्छे कमरे थे, जिनमें पुस्तकालय वाला कमरा अनिधि-सम्कार का भी स्थान था। अच्छी अच्छी शराबों तरह तरह की स्वादिष्ट

मिठाइयां और बहुत तरह के फल वहां सजाकर रखे रहते। विरासिकीक डायवेटीज के मरीज होने से मिठाई से अपने को बंचित रखते, लेकिन अतिथियों को खिलाने पिलाने में बहुत आनन्द अनुभव करते थे। वस्तुतः वह जितने अल्पभाषी थे, उतने ही अधिक सहृदय थे। वह चाह रहे थे कि मैं हिन्दी और संस्कृत की पाठ्य-पुस्तकें लिखूं, लेकिन अब तो अगले साल भारत जाने का मैंने निश्चय कर लिया था।

१४ नवम्बर को डेढ़ मास बाद ईगर स्कूल गया। गणित को मैंने ठीक करा दिया था और मां ने पुस्तक पाठ को भी; इसलिये स्कूल में जाकर सहपाठियों से पीछे नहीं रहा। पहिले मुझे भय था, कि वह मन्द-बुद्धि होगा, लेकिन वह ख्याल जल्दी ही हट गया। स्कूल के प्रथम वर्ष के लड़कों के पास भी एक खोटी सी नोटबुक रहती है, जिस पर अध्यापिका रोज नम्बर दे दिया करती है। पाठ्य विषय में जहां पूर्णक ५-५ के थे, वहां आचरण के भी ४ अंक थे। बराबर ५-५ अंक मिलने से ही मालूम हो जाता था, कि वह सभी विषयों में अच्छा है। एक दिन आचरण के सामने शून्य लगा हुआ था। हमने पूछा तो बात खुल गयी : वहां किसी सहपाठी से हजरत भगड़ पड़े थे। स्कूल में बच्चों को किसी तरह का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाता। कसूर करने पर बेंच पर खड़ा कर दिया जाता है, और क्रुद्ध करने पर क्लास से बाहर कर दिया जाता है, जिससे वह अपने सहपाठी लड़कों की संगति से बंचित हो जाता है। यह दण्ड पर्याप्त है।

युनिवर्सिटी में वसन्तारम्भ के समय प्रथम वर्ष में २२ के करीब छात्र-छात्राएं दाखिल हुए थे। लेकिन उनमें से कई पीछे अपने आप दूसरे विषय को लेकर चले गये, हिन्दी और संस्कृत का उच्चारण हमारे विद्यार्थियों के लिये एक समस्या थी। जहां तक संस्कृत के संयुक्ताक्षरों का सम्बन्ध है, उसी उसमें हमसे भी अच्छे होते हैं, और तीन-तीन चार-चार संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण कर लेते हैं, लेकिन दशर्ग उनके बस की बात नहीं है, दशर्ग की

जगह तर्जग ही चलता है। दरघसल टवर्ग का दुनिया में प्रचार भी बहुत कम है। अंग्रेजों की नकल करते हुए हम लोग विदेशी नामों और शब्दों में टी की भरमार करते रहते हैं, हम यह समझ लें तो अच्छा है, कि दुनिया में टवर्ग का क्षेत्र बहुत संकुचित है इसलिये यदि टवर्ग के स्थान पर तवर्ग का इस्तेमाल करें तो बहुत गल्ती नहीं करेंगे। जापान और चीन में टवर्ग नहीं है। चीन में त्रिव्यत टवर्ग का देश आ जाता है। उसके बाद मध्य-एशिया की तुर्की-फारसी तथा रूस की सारी भाषायें, पूर्वी योरप की भाषायें, इसी तरह ग्रीस, इटाली, पुर्तगाल, स्पेन और फ्रान्स ही नहीं, बल्कि आर्था जर्मनी की भाषा भी टवर्ग-रहित है। अंग्रेजी में टवर्ग अवश्य है। जर्मन भाषा से सम्बन्ध रखने वाली भाषायें भी टवर्ग-बहुल हैं। भारत में आर्यों की भाषायें अपने कुलधर्म के विरुद्ध जाकर टवर्ग-बहुल हो गईं। टवर्ग द्रविड़ भाषाओं की विशेषता है। मुझे याद है : बम्बई में भारत के भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी लोगों का समागम था, जिसमें उन्होंने अपने यहां के गीत गाकर सुनाये। वहां हिन्दी भाषा-भाषी काफी थे। लोग दूसरे प्रदेशों के गीतों को बड़े प्रेम से सुन रहे थे, लेकिन जब एक तैलंग तरुण ने अपनी भाषा में गाना शुरू किया, तो जल्दी ही लोगों ने अनिच्छा प्रकट करनी शुरू की। मैंने उनसे कारण पूछा, तो बतलाया— हम समझते नहीं हैं। मैंने कहा— अभी आसामी गीत जो आपने बड़े चाव से सुना, उसे क्या आपने समझा था ? वस्तुतः टवर्ग की बहुलता ही उसकी इस अनिच्छा का कारण थी। एक दक्षिणी तरुण बनारस में रवीन्द्र-जयंती के समय तैलंग भाषा में अपनी नवनिर्मित कविता सुनाने की बात कह रहे थे। मैंने कहा— आपने लोगों की अनिच्छा को कैसे रोका। उन्होंने बतलाया कि मैंने तैलंग के उर्णा शब्दों को चुन चुनकर रखा जो अधिकतर संस्कृत के थे और जिनमें टवर्ग नहीं था।

रूसी यदि टवर्ग का उच्चारण नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुश्किल यह है कि वह ह्रस्व-दीर्घ का विचार नहीं रखते। बहुत-सी वर्णमालाओं की तरह रूसी वर्णमाला में भी दीर्घ स्वर के लिये अलग संकेत नहीं है, और दूसरे स्वर को भी इच्छानुसार दीर्घ भी पढ़ा जा सकता है, इसीलिये गंगा के

वह " भांग " पदार्थ है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को उच्चाध्य शिक्षाने के लिये धूम्र कर्मा कर्मा जाना पड़ता था। हस्त-दीर्घ का विचार नहीं करते देश में उन्हें बतलाता था, कि नागरी वर्णमाला में दीर्घ के लिये अलग संकेत है, फिर क्यों गर्वता करते हो ?

देखा सिवैरिया की सबसे पिछड़ी जाति (स्किमा जातियों में से एक) नैनेस्क जाति की दो लड़कियां युनिवर्सिटी में तृतीय वर्ष में पढ़ रही थीं। मैंने समझा बंगोल या कजाक होंगी। असली वात-मालूम होने पर आश्चर्य की आवश्यकता नहीं थी, सोवियत ने कितनी जल्दी अक्षर-ज्ञान-शक्त्य सबसे पिछड़ी जातियों को इतना आगे बढ़ा दिया, यह प्रशंसा की बात अवश्य थी। क्रांति के बाद नैनेस्क और दूसरी अलिखित भाषाओं को ही शिक्षण का माध्यम बनाया गया। तब इन जातियों में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, और न कोई लिपि ही थी। उस समय यह काम कठिन जरूर मालूम हुआ होगा, लेकिन आज तो युनिवर्सिटी ले पढ़कर निकले किमने ही लड़के लड़कियां वहां पहुँच गये हैं। यह जातियां शुद्ध भंगोलायित हैं, क्योंकि इनके देश में अन्य जातियों का आना जाना ज्यादा नहीं हुआ, इससे यह रक्त-समिश्रण से बची रहें। शुद्ध भंगोलायित जाति का चेहरा अपेक्षाकृत शरीर से अधिक भारी और चौड़ा होता है, आँखें और भीहें कुछ तिरछी और भास की हड्डियां अधिक उठी होती हैं। पुरुषों को दाढ़ी-मूँछ बहुत कम आता है।

२० नवम्बर को नेवाको जमी देखकर बड़ा आनन्द हुआ, क्योंकि अब हम धूम्रक पुल से पार होने की जगह सामने ही नदी पार कर टूम पकड़ सकते थे। लेकिन, यह आनन्द चिरस्थायी नहीं रहा। नेवा बहुत दिनों तक आँख-सिंचनी करती रही। अर्थात् अकाल में ही उसको यह नदी आयी थी।

मेरे पसन्द के फिल्मों में आधुनिक भंगोलिया के फिल्म भी थे। २१ तारीख को " भंगोलिया-पुत्र " फिल्म देखने की शिक्षा। फिल्म-निर्माताओं ने सोवियत विशेषज्ञ भी थे, लेकिन अभिनेता और अभिनेत्रियां तब ही भंगोलायित कथानक था— उत्सान घातुर का एक तरफ़ लड़कर किसी स्त्री में एक पल का

लेकिन उससे प्रेम करनेवाले दो और तरुण भी थे। बिचारा ड्राइवर असफल रहा ? वह वहाँ से भागकर अन्तर्मंगोलिया चला गया, जहाँ पर कि उस समय जापानियों का शासन था— अन्तर्मंगोलिया, मंचूरिया का भाग माना जाता था। जापानियों के कुम्भ और स्वेच्छाचार के विरुद्ध तरुण ने वैयक्तिक बहादुरी भी दिखलायी, किन्तु इतने से जापानियों का कुछा धोड़े ही हटाया जा सकता था। अन्त में उसे उनके हाथ से बचने के लिये फिर उलानबातुर चला आना पड़ा। चिंगीजखान और पहले से भी वीरता और बहादुरी के टूनामिन्ट मंगोलों में हुआ करते थे। तरुण ने उसमें भाग लिया और मंगोलिया के सर्वश्रेष्ठ पहलवान का पदवाइ दिया। कुर्ती, दर्शकों आदि के दृश्य बड़े ही सुन्दर थे। देश के सर्वश्रेष्ठ पहलवान को उसकी प्रशंसा अब कैसे तिरस्कृत कर सकती थी ? दोनों फिर मिले और जनता ने उनका स्वागत किया। पहिले मंगोल फिल्मों की तरह इस फिल्म का संवाद रूसी में नहीं बल्कि मंगोल भाषा में ही था, इसलिए वार्ता-लाप समझ में नहीं आया।

भारत में एसियायी सम्मेलन होने वाला था, जिसके लिये रूस से भी कुछ लोग निमंत्रित किये गये थे। आशा की जा रही थी कि अकस्मिक वारसिकोफ जायेंगे। उनकी इच्छा भी थी। जिस देश के अतीत और वर्तमान के साहित्य के अध्ययन-अध्यापन में ही जिनका सारा जीवन बीता था उस देश को उन्होंने अर्धा एक बार भी नहीं देखा था। लेकिन स्वास्थ्य के कारण डाक्टरों ने मना कर दिया और वह नहीं जा सके।

२६ नवम्बर को एक मिश्र-प्रवासी रूसी विद्वान् का पत्र आया। उसके पिता कान्ति से पहिले क्यास्ता ( बुरियत, साइबेरिया ) में शराब के कारखानेदार और श्रमी आदमी थे। पुत्र को काहिश में रहते १६ साल हो गए थे और उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, तथा सूदान की राजकुमारी से विवाह भी किया था, जिसके धारे में उनका कहना था : शायद पूर्वजन्म में भी वह मेरी सहायनिष्ठी थी। पूर्वजन्म के कहने से ही मालूम हो गया, कि उनकी इस्लाम में कोई अनुरक्ति नहीं रह गई थी, यद्यपि वह काफी समय से एक मुस्लिम देश में मगल

मान बन कर रह रहे थे । उन्हें किसी से मेरे बारे में मालूम हो गया था, इसलिये पत्र में पूछ रहे थे कि मैं अलुवावों से अलग पाली और बौद्ध धर्म को कैसे पढ़ सकता हूँ । मैंने उन्हें स्वयं पाली पढ़ने का ढंग लिख दिया तथा बौद्धधर्म के परिचय के लिये कुछ आवश्यक अंग्रेजी की पुस्तकों के नाम भी दे दिये ।

सोवियत में जब साधारण लोगों के सुख और निश्चिन्तता के तल को देखते हैं, तो कहना पड़ता है, कि दुनिया में अमेरिका जैसे अत्यंत धनी देश में भी इतनी अर्द्धा हालत में लोग नहीं हो सकते, आखिर अमेरिका में हर वक्त लाखों की तादाद में लोग बेकार रहते हैं । बेकार का मतलब है, दाने-दाने के लिए तरसना । रूस में कोई बेकार नहीं है, और न किसी को दाने-दाने के लिये तरसने की आवश्यकता है । गरीबी का वहां अत्यन्ताभाव है; हां बेटन और चामदनी सबकी एक-सी नहीं हैं; लेकिन कम से कम बेटन पानेवाले को भी खाना-कपड़ा और रहने आदि की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है । आदमी तो अपने वर्तमान से सन्तुष्ट नहीं रहता— और न उसे सन्तुष्ट रहना चाहिये, न अपने पूर्व स्थिति से मुकाबला करना चाहता, विशेषकर यदि वह दुःख और दारिद्र्य की हो । जो लोग अपने आप धेक्कूपी कर बैठते हैं, उन्हें तो कष्ट सहना ही पड़ता है । हमारे ऊपर की कोठरी में बच्चों की मां एक प्रौढ़ा स्त्री थी । सशान-कार्ड घन्ट हीना ही था, जबकि उसने किसी काम को करना नहीं स्वीकार किया । अन्त में २७ नवम्बर की रात को फाँसी लगा कर वह भर गई ।

मान्या उस दिन मुना रही थी : मैंने आज स्वप्न में बड़ी सींगेवाला चोर्त ( शैतान ) देखा । मैंने लोला से पूछा— मान्या ने तो चोर्त देखा और तुमने ?

लोला— मैंने कुछ नहीं देखा ।

मैंने कहा— न भगवान् को ही देखा, न चोर्त को ही, फिर ईसाई धर्म की इतनी भक्ति से क्या फायदा ?

लोला अपने ईश्वर को पूरा धार्मिक ( ईसाई ) बनाने की कोशिश कर रही थी । उसे निमूर्ति ( पिता-पुत्र-पवित्रात्मा ) का नाम लेकर प्राण बनाना भी



सिखाया दिया था। भगवान् के प्रति ईश्वर का कुछ विश्वास हो चला था। कभी कभी तो वह शपथी प्रार्थना में कहता था— “हो वोजिन्का (भगवान्) ऐसा कर, कि मेरी माया नीम्बना-गिल्लाना छोड़ दे।” लेकिन भगवान् उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहा था। अद्य में भारत जाने का निश्चय कर चुका था, इसलिये कभी कभी वह वोजिन्का की प्रार्थना से भरे भारत न जाने का वरदान भी माँगा करता था। इस भगवान्-भक्ति का एक प्रभाव तो तुम्हें दिखाई पड़ा— वह अद्य अंधेरे कमरे में पैर नहीं रखता था। जब भगवान् जैसा महान् नीज विना देखें रह सकती है, तो शायद चार्ती (शैतान) कहीं उस अंधेरे में न खिपा हो। विश्वास की पराकाष्ठा तब पहुँची, जब पड़ोसिन तोसूया के छ महीने के बच्चे (कोत्या) के हाथ को वह आलपीन से कुरेदने का कोशिश करने लगा। वह उस बच्चे को बहुत प्यार करता था, अपने हाथ से खिलाता था, इसलिये समझ में नहीं आया, कि आलपीन से उसका हथेली क्यों कुरेदना चाहता था। पंडे मालूस हुआ : हमारे शयन-कक्ष के कोने में ईसासमीह की मूर्ति रखी हुई थी, जिसकी हथेली में खून लगा था। मालूस नहीं उसे असली क्या मालूस थी या नहीं कि ईसानसमीह को सिर-पैर, और दोनों हाथों को फेंकाकर उन्हें कीलों से लकड़ी की राखे पर बाँध दिया गया था, इसलिये उससे उतरने पर हाथ में खून के दाग थे। ईश्वर के दिमाग में यह बात आगई— कि उस छोटे मिशका को भी ईसासमीह का रूप दे दिया जाय। इसी सदृच्छा से प्रेरित होकर उसने मिशका की हथेली में आलपीन चुभोनी चाही। मैंने लोला से कहा— लो और धर्म की बातें बच्चों को सिखलाओ। उन्होंने भी कहा— हाँ, इसने तो अभी हाथ में ही आलपीन चुभोनी चाही थी, यदि कहीं दूसरे भर्मस्थान में चुभा-देता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं, कि ईश्वर की धर्म-शिक्षा को कुछ कम कर दिया गया।

पहिली विसम्बर को सबसे तापमान हिंस-विन्दु से नीचे चला गया था और दिन से बर्फ भी पड़ गई। हमारी तरह और भी बहुत से लोग कहने लगे— बर्षों कीचड़ से जलन छूटी। लेकिन अगले ही दिन बर्फ गलने भी लगी थी,

जत से वृं दें टप-टप चूने लगीं ।

वैसे गरीबी और बेकारी के न होने के कारण कस में भिखमंगों को नहीं होना चाहिए, लेकिन भिखमंगी को पैदा करने वाली केवल गरीबी और बेकारी नहीं है; कामचोर भी भीख मांग सकते हैं। कानून का डर होने के कारण वह तुक छिपकर अपने पेशे को करते हैं। कितनों के लिये यह अच्छा खासा पेशा है। एक दिसम्बर को एक बहुत बुढ़िया भिख-मंगिन हमारी खिड़की की तरफ आयी। उसकी आंखें भीतर घुसी हुई थीं, कमर दुहरी थी, ऐसी मूर्ति को देखकर किसको क्या नहीं आयेगी? लोला ने एक टुकड़ा रोटी और मछली दी। बुढ़िया निहाल हो गई। आजकल के राशन की कड़ाई के दिनों में इतने दयालु कहां मिलने लगे? उसने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया— भगवान् की माता तुम्हारी रक्षा करे, तुम फूलो फलो। मान्याने बतलाया, उसका पति जिस स्त्री के पास रहता है, उसकी मां भी भिखमंगिन है, और दिन में इतना रोटी, आलू आदि मांग खाती है, कि तीनों प्राणियों को खाने की चिन्ता नहीं।

४ दिसम्बर को अभी बर्फ और कीचड़ वारों वारों से आते जाते रहने थे। उस दिन रात को बर्फ पड़ गई, सबेरे भी पड़ती रही। तापमान हिम-विन्दु के पास था। शाम तक बहुत सी बर्फ गल गई, फिर कच्चे रास्ते में कीचड़ उच्चलने लगी। कई दिनों से सूर्य के दर्शन नहीं हुए थे, फिर दिसम्बर के प्रथम मसाल में इतना उज्जा तापमान क्यों? इस बारमी का कारण सूर्य से अन्यत्र झूँटना पड़ेगा।

यदि लिखी-पढ़ी चीजों को तुरन्त भारत भेजने और छपने का प्रबन्ध होता तो, शायद मेरा दिल इतनी जल्दी नहीं उचटता, लेकिन चिट्ठियों की यह हासिल थी कि आधी भी यदि पहुँच जावे, तो मैं उसके लिए धन्यवाद देता। निराला, रवीन्द्र और प्रेमचन्द पर तीन लेख लिख कर मैंने वहाँ से भेज दिये, और एक ही के छपने का पता लगा। ऐसी अवस्था में महीनों-वर्षों लगाकर लिखी गई पुस्तकों को मैं डाक के हवाले कैसे कर सकता था?

पहले रात्रि खोटी होकर शय्य तक पहुँची थी। अब दिसम्बर के प्रथम

समाह में दिन छोटा होते होते ६ घंटे का रह गया था, यद्यपि संधिवेला कुछ समय तक लाल किरणों, लाल आभाको दिखलाती थी। नेवा का अभी सोने का कोई ठिकाना नहीं था। पहले सूर्य के न दिखलायी देने पर भी तापमान ने ऊंचे उठकर कीचड़ फैलाया। ८ तागिल को सूर्य का खूब दर्शन हो रहा था, लेकिन तापमान ने नीचे उतर कर कीचड़ को बर्फ बना दिया। ९ दिसम्बर को भी सूर्य दिन भर निरन्तर आकाश में उगा हुआ था, किन्तु तापमान हिमविन्दु से काफी नीचे था। १० को सरदी खूब थी, लेकिन बर्फ का नाम नहीं था, नेवा भी अपनी भस्तानी चाल से चल रही थी। आज युनिवर्सिटी में रवीन्द्र दिवस मनाया गया। प्रेमचन्द-दिवस और रवीन्द्र-दिवस मनाने को लेनिनभ्रातृ युनिवर्सिटी में परिपाटी सी चल गई है। यद्यपि प्राच्य-विभाग के अध्यापक और छात्र ही इसे अधिक मनाते हैं, लेकिन उत्सव में भाग लेने वाले सभी विभागों में आते हैं। हाल की सारी कुर्सियाँ उस दिन श्रोताओं से भरी हुई थीं, लोग चार घंटे तक भाषण सुनते रहे। वराचिकोफ ने कवि के जीवन पर प्रकाश डाला। हमारे अर्थशास्त्र और राजनीति के अध्यापक सार्था सुलेकिन ने रवीन्द्र के समय के सामाजिक और आर्थिक टांचे का सिंहावलोकन कराया और रवीन्द्र के मानवता-प्रेम तथा प्रगतिशीलता की प्रशंसा की। बेरा नार्वीकोवा ने “रूसी भाषा में रवीन्द्र साहित्य” के ऊपर एक सुन्दर लेख पढ़ा। फिर रवीन्द्र-महिमा पर मैंने अपना लेख हिन्दी में पढ़ा, जिसका रूसी अनुवाद दीना माकोव्ना ने पढ़ मनाया। वह साल्म ही है, कि अंग्रेजी में अपना लेख पढ़ने पर भी उसे रूसी अनुवाद ही द्वारा श्रोताओं तक पहुंचाया जा सकता था, इसलिये ऐसे द्रविड-प्राणायाम की क्या आवश्यकता थी। एक रेडियो-कलाकारिणी ने रवीन्द्र की एक कहानी को नाटकीय ढंग में रूसी में पढ़ा, जिसमें लोगों का बड़ा मनोरंजन हुआ। सारी कार्यवाही का फिल्म लिया जा रहा था— युनिवर्सिटी का अपना फिल्म-स्टूडियो है। जयन्ती बहुत अच्छी तरह मनाई गई। लेकिन भारत में जो नया राजनीतिक परिवर्तन हाल में हुआ था, उसके महत्त्व को मानने के लिये वहां के लोग तैयार नहीं थे, वही भारत के महत्त्व को वह अच्छी तरह मानने थे, जिसका ही प्रमाण

तो यह उत्सव था ।

१३ दिसम्बर को तापमान हिमविन्दु से  $१४^{\circ}$  और १४ दिसम्बर को  $१६^{\circ}$  सेन्टीग्रेड नीचे चला गया था । नेवा अब तक बहुत चटलानी थी, लेकिन आज उसे जवरदस्ती से जाना पड़ा । १८ को मोटी बरफ देखकर मालूम हुआ, कि अब साधारण हिमकाल शुरू हो गया, लेकिन अगले ही दिन तापमान ऊपर उठ गया और नेवकी राजपथ की बर्फ गल गयी । नेवा भी फिर जाग उठी, उसका पानी बहता दिखाई पड़ा । घर पर हमारे कन्ट्रोल-ऑफिस की शाला में ही लड़कों को दिखलाने के लिये फिल्म आया था । मुहल्ले भर के लड़के जमा हुए थे, ईगार भी देखने के लिए गया, लेकिन उसकी मां हाय-तोवा कर रही थी; क्योंकि लड़का साधारण लड़कों में चला गया, कहीं वह उनके साथ गुंडा न बन जाय ।

२० दिसम्बर आ गया । ५ ही दिन बाद क्रिसमस ( बड़ा दिन ) होगा । इस साल बरफ का जिस तरह अभाव देखा गया, उसमें लोगों को डर मालूम हो रहा था, कि कहीं इस साल काला-क्रिसमस और काला-नववर्ष न देखना पड़े । २२ को काले क्रिसमस की संभावना और अधिक हो गई । बर्फ शायद ही कहीं दिखलाई पड़ती थी । शहर के भीतर तो उसका थिलकल अभाव था । साढ़े तीन बजे तक सूर्य की किरणें दिखलाई पड़ती थीं । २४ को क्रिसमस की संधा आर्या । लोला ने त्यौहार की विशेष नैयारी की । देवदार-शाखा, भोजनग्रह में सजा दी गई । बन्धुओं के पास क्रिसमस का भेंटें भी भेजी गई । २५ का सवेरा भी आ गया । सरदी काफी लेकिन बरफ का अभाव, इसलिये काला-क्रिसमस ही अबके देखना पड़ा । सरकारी त्यौहार न होने से आज काग से छुट्टी नहीं थी, लेकिन लोगों ने अपने पर्व को अच्छी तरह से मनाया । गिरजा में प्रसाद के लिये खाद्य को तैयार करके भोग लगवाने के लिये जो लोग गये थे, उन्हें दो-दो घंटा क्यू में खड़े रह कर इन्तजार करना पड़ा । कौन कहता है कि बोल्शेविकों ने रूस से धर्म को उठा दिया ? लेकिन प्रसाद के गिरजा में क्रिसमस को ही नहीं इतवार को भी इतनी भीड़ रहा करती थी, जो और

देशों में देखना मुश्किल है।

२६ दिसम्बर को १७ वीं सदी के उकइनी नेता “भगवान रुमेनिसकी” फिल्म देखने को मिला। ऐतिहासिक फिल्म या नाटक इतिहास-प्रेमियों के लिये स्वयं एक ज्ञान-बद्धक पाठशाला का काम देते हैं। भगवान का अर्थ है भगवानदत्त। वह भगवान् और दान भी दत्त या दान का रूसी पर्याय है। लेकिन उकइनी नेता अपने नामानुसार कोई भगवान् का भक्त नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। बेलोसती, और उकइनी वस्तुतः रूसी भाषा की ही बोलियाँ हैं, किन्तु अब दोनों स्वतंत्र साहित्यिक भाषा मानी जाती हैं। रूसी शासक जाति थी, इसलिये क्रान्ति से पहले उकइनी और बेलोसती अपने स्वतंत्र अस्तित्व की मांग कर रहे थे। क्रान्ति के बाद उसकी आवश्यकता खतम हो गई। जहाँ जारशाही अदूरदर्शिता के कारण २० वीं सदी के आरम्भ तक उकइनी स्वतंत्र होना चाहते थे, वहाँ आज से प्रायः तीन सदी पहले के इस उकइनी दूरदर्शी-नेता ने समझ लिया था, कि उक्रेन का हित रूस के साथ रहने में है। उस समय उक्रेन रूस के अधीन नहीं था। उसके पड़ोस में एक और पोलैंड के पोल शासक उसे दवाने के लिये तैयार थे, और दूसरी तरफ क्रिमिया के तानावर उन्हें “कमजोर की धड़ सारे गांव की भाभी” बनाये हुए थे।

उस समय के उक्रेन के लोग सिर में हिन्दुओं की तरह ही लम्बी चौड़ी रखते थे। प्रथम रूसी राजा ( जो १० वीं शताब्दी में विजन्तीन राजधानी कन्स्तान्तिनोपोल में पहुँचा था ) का भी सिर घुटा और बोन में हिन्दुओं जैसी छटिया थी। न जाने कैसे यह हिन्दुओं की चौटी उक्रेन में पहुँची, या उनकी चौटी हिन्दुओं के पास आई। अथवा हिन्दुओं में भी तो पहले सारे केश रखने की प्रथा थी, जिसे पूजा आदि के समय न बिखरने देने के लिये बांधना पड़ता था और इस प्रकार शिखा-बन्धन धर्म का एक खंभ हो गया था। जब शिखा से लोगों को अरुचि हो गई अर्थात् फैशन बदल गया, तो धर्म की मांग शिखा-बन्धन को पूरा करने के लिये केश का कुछ भाग रख छोड़ा गया, यह शिखा के क्रम-विकास का इतिहास हमारे देश में और उक्रेन में एक तरह का ही रहा है। लेकिन

ईसाई हो जाने के बाद भी ईशित्वा को रखना कभी आवश्यक समझा गया ? शायद हममें ईसाइयों का मुसलमानों जैसा असहिष्णु न होना ही कारण था । वगदान को अगर अकबर, जहाँगीर के समय कियो ने देखा होता, तो रंग के कारण चाहे संदेह पैदा होता, लेकिन छुटिया तो जकर उगे हिन्दू बतला देती । पोल, तातार और उक्रोनी कैंसी वेश-भूषा और रीति-रिवाज रखते थे, इसका इस क्लिप्त से प्रत्यक्ष ज्ञान होता था । सभी दृश्यों और चीजों को बड़े व्यापक पैमाने पर दिखलाया गया था । वगदान पोलों को मगाकर अपने देश को स्वतंत्र करने में सफल हुआ । कई लड़ाईयों में अपने सफल वीर नेता को दरबारियों ने स्वतंत्र राजा बनाना चाहा और उसे खिलघत लाकर पहनायी । वगदान ने उस खिलघत को वहीं फाड़ फेंका और कहा कि उक्रोन की स्वतंत्रता की रक्षा की गारण्टी अपने भाई रूसियों के साथ रहने में है ।

२६ दिसम्बर को एक बेलें “ क्वेशी सराय का फोनारा ” देखा । यह भी १६ वीं-१७ वीं सदी की ऐतिहासिक घटना को लेकर लिखी गई थी । उस वक्त पोल सामन्त दक्षिणी रूस पर मनमानी कर रहे थे, किसिया का तातार खान दक्षिण में चोट कर रहा था । लेकिन उक्रोन के स्वतंत्रता-प्रेमी लोग अपनी तलवार रख देने के लिये तैयार नहीं थे । तातारों के आक्रमण में नायक तरुण मारा गया और उसकी प्रेमिका को खान पकड़ ले गया । तरुणी के सामने खान के हरम की सारी सुन्दरियों फीकी पड़ गई । ईर्ष्या के मारे खान की पटरानी (शाहबेगम) ने उसे मरवा दिया । खान शाहबेगम को पानी में डुबा अपनी किस्मत को भँखने लगा । बेलें का सौंदर्य ही देश-कालातुकूल परदे, वेश-भूषा और उत्कृष्ट नृत्य, यह सभी चीजें इस दैते में मौजूद थीं । नाट्यशाला में हजार से कम दर्शक नहीं रहे होंगे, और टिकट पच्चीस-तीस रूबल ( १५-२० रुपया ) । इतनी महँगी चीजों को सामन्तवाद या साम्यवाद ही प्रस्तुत कर सकता है, वह पूँजीवाद के बस की बात नहीं है । पूँजीवादी देशों में तो सिनेमा के आते ही नाट्यशालाओं पर वज्र पड़ गया ।

३१ दिसम्बर को सोवियत में नर्कों का त्योहार मनाया जाता है और उसमें

आसले दिन पहिली जनवरी का नव-वर्ष का त्योहार सभी लोगों के लिये है । हमारे घर में दो देवदार शाखायें पहिले ही लाकर खड़ी कर दी गई थीं । लोला को कहीं एक और अच्छी शाखा बाजार में बिकती दिखाई पड़ी, वह उसे भी खरीद लायी । अब छोटी सी भोजनशाला देवदार वन का रूप ले चुकी थी । ईगर के स्कूल और बालोद्यान के मिन लड़के-लड़कियां भी आकर देवदार शाखा की बहार देख भिठाई भी खा गये थे । उनके गान और नृत्य का कुछ आनन्द हमें भी मिला ।

आज फिर एक वर्ष समाप्त हो रहा था । हमने काम क्या किया था ? सध्यपुस्तिका के लिये कुछ पुस्तकें पढ़कर सामग्री जरूर जमा की थी, अपने साथ ले जाने के लिए कुछ पुस्तकें भी इकट्ठा कर ली थीं, लेकिन जहां तक लिखने का सवाल था, वह नहीं के बराबर था ।



## १७-१९४७ का आरम्भ

पूँहिनी जनवरी बुधवार का दिन आया। आज थोड़ी सी बर्फ दिखाई पड़ी, सरदी भी थी। मेहमानों की आशा से भोजन तैयार किया गया था, लेकिन मेहमान निर्ममित नहीं थे। त्यौहार के दिन मिलने-जुलनेवाले आते ही रहते हैं, इसी ख्याल से तैयारी की गई थी। किन्तु हमारे अधिकांश मिलने जुलनेवाले तो युनिवर्सिटी के आस-पास रहते थे। ५ मील ट्रास में धक्के खाते आना सबके बस की बात नहीं थी। देवदारों का प्रदर्शन केवल घरों में ही नहीं था, बल्कि चालोघानों और स्कूलों में उसको और भी ज्यादा धूमधाम से सजाया गया था। ईगर के स्कूल में भी बड़ी देवदार-शाखा खड़ी की गई थी। २ जनवरी को ईगर अपनी मां के साथ उसे देखने गया। उसे २ सेव १ नारंगी मिली, जिसका अर्थ है, सारे स्कूल के लड़कों को दो-दो सेव और एक-एक नारंगी मिली होगी। यही नहीं, ईगर का स्कूल बच्चों, लेकिनग्राद नगर ही बच्चों, सारे सांविधत के स्कूलों के बच्चों को दो-दो सेव और एक-एक नारंगी जैसी कोई चीज अवश्य मिली होगी।



ईंगर अब बराबर गूल जाने थे। चाहे अपने सहपाठियों से आठ ही दस गहरीने बड़े हों, किन्तु वह अपने को लड़का नहीं पुरुष समझते थे। व्यवहार, बातचीत का ढंग अच्छा था, इसलिये सभी सन्तुष्ट रहते थे। अपने क्लाम की चार्चा (अध्यापिका) के तो स्नेह-पात्र थे ही, लेकिन लड़कों के मेल के समय वह अक्सर दूसरी अध्यापिका के साथ टहला करते थे। उनकी अपनी अध्यापिका ने सजाक करते कहा—यदि वहाँ पसन्द है, तो ऊहो उसी की क्लाम में सेज दें।

ईंगर ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया—“नहीं इसकी जरूरत नहीं, तरुणी अधिक सनोहर हैं, इसलिये उसके साथ टहलने चला जाता हूँ।”

३ जनवरी को तापमान हिमबिन्दु से २८° नीचे चला गया था अर्थात् फार्नहाइट से लेने पर वह हिमबिन्दु से ३०°—३२° नीचे था। मुझे कोई उतनी सरदी नहीं मालूम होती थी। शरीर तो गरम कपड़े से ढंका ही रखना पड़ता था। सरदी का पता लगता था कान से। जब मैं कान खोले ही बाहर जा सकता था, तो इसका मतलब था, कि अभी सरदी अधिक नहीं है। अगले दिन तापमान २०° (हिमबिन्दु से ३५—३६° फार्नहाइट) नीचे चला गया था। कश्मीर में ९° ही नीचे गया था, जबकि वहाँ ६० इंच वर्ष पड़ी थी, यह रेडियो बतला रहा था। लेनिनग्राद की इतनी सरदी में वरफ मुश्किल से कहीं दिखाई पड़ती थी। उस दिन सारत के एक प्रकाशक की चिट्ठी आयी। मालूम हुआ बड़े-बड़े करोड़पति सेटों ने ५० लाख की पूंजी से एक कम्पनी कायम की है, जिसके उद्देश्यों में हिन्दी के भी अच्छे अच्छे ग्रन्थों का प्रकाशन करना है। उनकी और से मेरे पास पत्र आया था—हम १५ सैकड़ा रायल्टी देंगे। मैंने डाइरेक्टरों के नामों को देखा। उनमें कुछ करोड़पति सेठ थे और कुछ बड़े-बड़े राजनीतिक नेता तथा संघी। परामर्श देनेवाले बोर्ड में ३८ आदमी थे, जिनमें मुश्किल से ११ को ही कहा जा सकता था, कि वह साहित्य और लेखन-व्यवसाय से संबंध रखते हैं। पांच प्रान्तों के संघी भी इन परामर्शदाताओं में थे। क्या यही लोग हमारी पुस्तकों का मूल्यांकन करेंगे? खैर भूटी हो या सच्ची यह तो आशा बँधने लगी, कि अब करोड़पतियों के रूपसे साहित्य के प्रकाशन

में भी आगे आने लगे हैं। भारतीय संवि-मंडल की स्थापना का एक फल तो यह जरूर था।

६ जनवरी को अब भी वर्ष के अभावकी शिकायत की जा रही थी। अब चार दिनों के लिये स्कोलिकों की छुट्टियां थीं, इस लिये ईंगर भी घर पर था। आज उसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पारितोषिक प्राप्त सोवियत-फिल्म “पाषाण-पुष्प” दिखाने ले गये। हमारे मुहल्ले के सिनेमाघर में ही फिल्म आया था, टिकट था १ रूबल। शाला खचाखच भरी हुई थी। सभी माताएं अपने लड़कों के साथ वहां पहुंची थीं। फिल्म उरालपर्वत की एक जन-कथा को लेकर बनाया गया था। सामन्त द्वारा सताया वृद्ध पाषाण-शिल्पी (संगतराश) रंग-विरंगे पत्थरों की कलाकृतियां निर्माण कर रहा था। उसका दत्तक पुत्र और भी प्रतिभाशाली था, और मुरली बजाने में भी अद्वितीय था। तरुण का मन उराल की एक तरुणी ने मोह लिया। दोनों का विवाह हुआ। पुराने समय के वेष पुराने समय के नृत्य और पुराने समय के वैवाहिक संति-रिवाज दिखलाये गये थे, जो कि ऐशिया से ज्यादा समीपता रखते थे। शिल्पी तरुण को ब्रह्मदेवी पाषाण पुष्पों का लोभ दिलाती पहाड़ों के भीतर ले गई। वहां रंग-विरंगे चमकीले पत्थरों के तरह-तरह के पुष्प बने हुए थे। शिल्पी स्वयं छेती और हथौड़ा लेकर वहीं एक ऐसा विशाल पुष्प बनाता है, जो अपने सौंदर्य में वन देवी के दिखलाये पुष्पों से कम नहीं है। अन्त में दोनों प्रेमियों का मिलाप हो गया—यह फिल्म भारत में भी आ चुका है।

८ जनवरी को विश्वविद्यालय में निबंधों का पखचारा चल रहा था। अध्यापक लोग अपने अपने विषय पर ज्ञानपूर्ण निबंध पढ़ रहे थे, जिनके सुनने के लिये कार्क श्रोता—प्रोफेसर और विद्यार्थी-इकट्ठा होते थे। अकदमिक बरान्निकोफ ने तुलसा की कविता पर एक निबंध पढ़ा, जिसे लोगों ने बहुत पसन्द किया। प्रोफेसर फ्राइमान और दूसरे विद्वानों ने भी अपने निबंध पढ़े। साढ़े तीन हजार जहां अध्यापक हों, वहां निबंध सुनने के लिये सब का इकट्ठा होना संभव नहीं है। तो भी सबके पास निबंधमाला की सुनना पहुंचाने का

पूरा प्रबन्ध किया गया था। युनिवर्सिटी की अपनी एक पत्रिका थी, जिसमें सूचना निकलती थी, इसके अतिरिक्त पत्रपत्रों के निर्बंधों के संबंध में सक्षिप्त विवरण के साथ एक छोटी सी पुस्तिका निकाल दी गई थी।

१२ जनवरी को बम्बई के डाक्टर मुन्ही ने किसी से मेरा पता पाकर लिखा कि हमदानी सन्त की कब्र का हमें फोटो भिजवाइये। उन्होंने मोविशन की भिन्न-भिन्न संस्थाओं को कई पत्र भेजे, किन्तु जवाब नहीं पाया। हमदानी की कब्र ताजकिस्तान के खुत्तल प्रदेश में है, लेकिन फोटो मिलना मुझे भी उतना आसान नहीं जान पड़ा, तो भी मैंने स्तालिनाबाद की युनिवर्सिटी को पत्र लिख दिया। पत्रों का उत्तर न देना, यहाँ के लोगों का स्वभाव सा है। खासकर अपरिचित आदमी से पत्रोत्तर के मिलने की आशा कम ही रखनी चाहिये। जो लोग पुस्तक या फोटो मंगाना चाहते हैं, उनके लिये तो थोर भी दिक्कत है। क्योंकि इन चीजों को दो-दो राज्यों के मेम्बरों के भीतर से गुजरना पड़ता है।

१३ जनवरी को भी तापमान ऊपर उठा हुआ था; इसलिये सड़कों पर जहाँ-तहाँ पानी ही पानी दिखाई पड़ता था। रात को अपने मुहल्ले की क्लब (बोरोदार्सकी क्लब) के हाल में च्यू-च्यू-सान् दुःखान्त थ्रोपेरा-नाटक देखने गये। यह किसी स्थायी-नाट्य संस्था की थोर से नहीं खेला जा रहा था, बल्कि नगर की ही एक नाटक मंडली ने अभिनय करने का आयोजन किया था। थी तो यह मुहल्ले के क्लब की शाला, लेकिन दूसरे देशों की बड़ी-बड़ी नाट्यशालाओं का मुकाबिला कर सकती थी। हर तरफ के मनोरंजन थोर कलाप्रदर्शन में चूँकि अब जन-साधारण बहुत भाग लेने लगा है, इसलिये ऐसी शालाओं थोर मकानों पर पैसा खर्च करने में सरकार संकोच नहीं करती। लोग भी मंचों को भरकर काफी पैसा जमा कर देते हैं। थ्रोपेरा अर्थात् पद्यमय-नाटक मुझे पसन्द नहीं है, यह मैं पहिले कह चुका हूँ, लेकिन इष्ट-भियों के आग्रह को भी देखना पड़ता है, इसलिये मैं भी चला गया। कथानक था—एक अमेरिकन अधिकारी जापान की गैसा (नर्तकी) से जापानी रीति से विवाह करता है। कुछ दिनों के दाम्पत्य जीवन के बाद पुरुष अपने देश चला जाता है। तरुण पत्नी च्यू-च्यू-सान् अपने

पति के जाने के बाद पैदा हुए पुत्र को लिये आशा लगाये वाट जाहती रहती है। आर्थिक संकट का पसाह उसके ऊपर टूटता है। अमेरिकन कौन्सल में जाकर पुत्रही है, तो वह कहता है— तरुण ने दूसरी शादी करनी है। बच्चे को देखकर पसने कहा—चाहो तो इसे दे सकती हो। लेकिन मां बच्चे को छोड़ने के लिये तैयार नहीं। आशा-निराशा में पांच-छ साल और बीत जाते हैं। पॉन्डे पति के आने की खबर सुनकर अपने घर की फूलों से सजा सारी रात प्रतीक्षा करती है। वह सवेरे अपनी अमेरिकन पत्नी के साथ आता है।

अमेरिकन पत्नी अपनी निर्दोषता को प्रकट करते हुए व्यू-व्यू-सान में महानुभूति दिखलाते बच्चे के साथ प्रेम करने का वादा करके उसे मांगती है, लेकिन मां अब पुत्र का भी कैसे दे दे। अंत में आर्थिक संकटों से सज्जूर होकर बुद्ध की मूर्ति के सामने प्रार्थना करके वह हराकिरी (आत्महत्या) करना चाहती है, इसी समय पुत्र आ जाता है। उसे किसी तरह बहला कर फिर वह पंठ से छुरी मार लेती है। पिता अमेरिकन कौन्सल के साथ आता है और बच्चे को उठा लेता है। अभिनय बहुत सुन्दर था। पुरुषों के देश अच्छे नहीं थे, और बुद्ध की मूर्ति भी भदी थी, लेकिन यह तो एक व्यवसायी मंडली द्वारा किया गया अभिनय नहीं था।

लेनिनग्राद की सबसे पुरानी और बड़ी लाइब्रेरी “लोक-पुस्तकालय” (पब्लिक लाइब्रेरी) है। मैं उसमें भी जय-तब जाने लगा था। मुझे ज्यादातर काम था मध्यएशियायी विभाग के ताजिक उपविभाग से। यहाँ मैंने बहुत सी नई नई पुस्तकें भी देखीं, जो कि न युनिवर्सिटी के प्राच्य पुस्तकालय में भी न अकदमी के प्राच्य-प्रतिष्ठान में। पुस्तकालयाध्यक्षा बड़े स्नेह से हरेक चीज को दिखलाती थीं। यह पुस्तकालय जारशाही जमाने में भी बहुत प्रसिद्धि रखता था और हर साल हजारों पुस्तकें दूसरे देशों से भी मंगाई जाती थीं। सोवियत क्रांति के बाद भी उसमें किसी तरह की कम न करके बजट की और बढ़ाया गया था। जाड़े के दिनों में रूस की और संस्थाओं की तरह यहाँ भी घरके भीतर जाने के बाद एक जगह अपने ओवरकोट, हैट, और हाथ के बैग को रखना पड़ता था। मकान

गरम है, और आदमी के शरीर पर गरम सूट भी है, फिर भीतर सर्दी का डर क्या ? कपड़े लेकर नम्बर लगाकर रखने के लिये आदमी वहीं तैनात रहते हैं। एक लेनिनग्राद ही में ५-७ हजार से कम आदमी ओवरकोटों की रखवाली के लिये नहीं होंगे। इसे आप अपव्यय कह सकते हैं, लेकिन यह आदमी के आराम के लिये ही किया जाता है। मोटे ओवरकोट के साथ कुर्सी पर बैठना भी मुश्किल है, और जहाँ बहुमूल्य पुस्तकें पड़ी हों, वहाँ थैलों को ले जाना भी बुद्धिसंगत नहीं है, इसलिये यह प्रबन्ध करना ही पड़ता है। वाचनालय में मेज-कुर्सियों का जंगल-सा लगा हुआ था, जहाँ सैकड़ों आदमी चुपचाप बैठ अध्ययन कर रहे थे। पुस्तकों का अंक और नाम दे देने से आपकी मेजपर उनके आने में देर नहीं लगती। असुसंधाल करनेवाले विद्वानों और विधाधियों का इस तरह का सुभीता लंदन म्यूजियम के पुस्तकालय में भी है।

जर्मनी के साथ युद्ध समाप्त होते ही सोवियत और उसके पश्चिमी मित्रों की अन्वेषण प्रकट होने लगी। जापान के मुकाबिले में सोवियत सेना जिस तेजी के साथ मंचूरिया और कोरिया को दखल करती जा रही थी, और इंग्लैंड और अमेरिका की सेनायें अपनी कमजोरी को जिस प्रकार पश्चिमी युद्ध-क्षेत्र में दिखला चुकी थीं, उसे देखते हुए पश्चिमी साम्राज्यवादियों को डर लगने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे पहुँचने के पहिले ही सोवियत सेनाएं जापान पर भी काबू कर लें; इसलिये बिना सोवियत से पूछे ही चर्चिल की राय से दूमन ने जापान के हिरोसीमा और नागासाकी नगरों पर दो परमाणु बम गिरा दिये। अब युद्ध बन्द हुए दूसरा झाल हो रहा था, इसलिये बेमनस्य भी बहुत आगे तक बढ़ चुका था। सोवियत ने भी अपनी जनता को सजग रखने के लिये युद्ध-संबंधी फिल्मों का उत्पादन बन्द नहीं किया था। बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस को कमजोर देखकर अरमेनिया और जार्जिया के कुछ भाग तुर्की ने हड़प लिये थे, और सो भी हजारों अरमेनियन नर-नारियों, बूढ़े-बच्चों की बड़ी निर्मम हत्या के बाद। इस हत्या को सुनकर उस वक्त सारे पश्चिमी देश बौखला उठे थे। अब सोवियत अरमेनिया अपने खोये हुए भूभाग को लौटाने की मांग कर रही थी।

तुर्की उस देने के लिये कैसे तैयार हो जाता, जबकि अमेरिका उसकी पीठ ठोकने के लिये तैयार था। अरमेनिया के हाथ से छिने, ये जिले संवियत और तुर्की के बेमनम्य के मुख्य कारण हैं। तुर्की को चेतावनी देने के लिये ही मानीं "अदभिरल नखिमोफ" फिल्म बनाया गया था। १-५३ का घटना है, जबकि क्रिमिया के लिये तुर्की और रूस में भगड़ा हुआ। इंग्लैंड और फ्रान्स ने पीठ ठोकी और तुर्की ने सौर कालासागर को अपने हाथ में करने की कोशिश की। दोनों पश्चिमी साम्राज्य पहिले युग सहायता देते रहे, लेकिन जब तुर्की को पीटते देखा, तो वे भी युद्ध में कूद पड़े। इंग्लैंड फिर भी चालाकी करता रहा। वह चाहता था कि बलिदान अधिकतर तुर्की और उसमें भी ज्यादा फ्रान्स को देना पड़े। उस समय रूसी नौसेना का महासेनापति नखिमोफ था। अपने निकम्मे दरबारियों की सलाह से जार ने नखिमोफ को अपना वेड़ा डुबा देने का हुक्म दिया, जिससे कि वह दुश्मनों के हाथ में न पड़े। लाचार होकर नखिमोफ को बैसा करना पड़ा। सेवेस्तापोल की रक्षा के लिये नखिमोफ ने बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए अपने प्राण दिये। तुर्की का अन्त में फायदा नहीं हुआ। नखिमोफ ने भी तुर्की को अन्तिम उपदेश दिया था—“तुर्की ने जब-जब बाहरवालों की बात सुनी, तब-तब उसे मुंह की खानी पड़ी।”

फरवरी का महीना आया। ४ फरवरी को तापमान २५°, ७ को २७°, ८ को २४°, इस प्रकार सरदी बढ़ती ही गई। १० फरवरी को सरदी भी खूब थी और बर्फ भी खूब पड़ रही थी। बर्फ गिरानेवाले बादलों के बीच से निस्सर कर आता सौर प्रकाश वृक्षों की शाखाओं और टहनियों में लिपटे हुए बरफ को बड़ी सुन्दर रीति से चमका रहा था। टहनियां तो मालूम होती थीं, जैसे सफेद मुँगे की बेलें हों। अधिक टैम्परेचर गिरने से श्वास से निकलनेवाली भाप की मात्रा ज्यादा थी। इसके अतिरिक्त काम-काज में मुझे कोई कष्ट नहीं मालूम होता था। २३ फरवरी को ब्लीनी (चीले) का सप्ताह समाप्त हुआ। चीला मीठा और नमकीन दोनों तरह का उच्चरी भारत में बहुत पसन्द किया जाता है। मुझे तो मीठे चीले खास तौर से पसन्द हैं। चीले को रूसी भी हमसे कम

पन-व नहीं करत। एगने समय में जब उनके यहाँ चीनो नहीं चीनी थी, तो सादे चीने को पनाकर उपर से सधु लगव देने थे। अपने चलि-प्रेस के कारण ही रूसियों में एस ब्लोनी सप्ताह की अब भी कायम रखा है। आज से = शताब्दी पहिले, जब कसो ईसाई नहीं हुए थे, तो वह सूर्य-देवता के पूजक थे। मकखन को चुपड़कर या पूड़े की तरह मकखन में डालकर पकाया जाता रूसी भाषा में ब्लोनी कहा जाता है। गोल आकार तथा थ्राटे के रंग के कारण पकनेपर लाल रंग और उरु पर भी सधु चुपड़ने से रंग का और लाल होना— सूर्योदय के समय के सूर्य का अनुकरण है। वसन्त के सूर्य के उपलक्ष्य में यह त्यौहार प्रार्थना रूसी लोग मनाते थे। उस वक्त खूब ब्लोनी खाई जाती थी, उसी तरह जैसे कि पृथ्वी उत्तर-प्रदेश और बिहार में कार्तिक की छठ को ठकुरा। कार्तिक की छठ भी सूर्य-पूजा का ही त्यौहार है। हमारे घरमें भी ब्लोनी अक्सर बन जाया करती थी और ब्लोनी-सप्ताह में तो आनेजानेवालों को भी खिलाया जाता थी।

जान पड़ता है, ब्लोनी-सप्ताह के लिये ही सूर्य भगवान् ने वर्ष की रोक रखा था। देर ही से सही, किन्तु ६ फरवरी को ६ इंच बरफ पड़ गई। वह दिन भर पड़ती रही। नवा वर्ष की धूल उड़ा रही थी, सरदी बहुत थी। वह स्नान का दिन था, लेकिन स्नानागार में सरदी को घुसने की आज्ञा नहीं थी। हम स्नानागार से लौटकर स्कूल में ईगर का लाने गये। देखा पहिली वारी के लड़के स्कूल से निकल रहे हैं, और दूसरी वारी के अन्दर जा रहे हैं। साढ़े चारह वजे का समय था। लड़ाई के कारण मकानों की जो बति हुई थी, उसके कारण स्कूलीय इमारतों की भी कमी थी, उसी के लिये एक ही स्कूल की इमारत में धारी-वारी से दो बार स्कूल लगता था।

अकदमिक बरानिकोफ ने बड़े परिश्रम और अनुराग के साथ तुलसी-दास के अमरकाव्य रामायण का रूसी में पद्यानुवाद किया था। अकदमी ने भी उसे बढ़िया से बढ़िया रूप में छापने का निश्चय किया था। मेरे भारत याजाने पर पुस्तक छपी और साल ही भर के भीतर बिक भी गई, जिससे मालूम होता है,

कि विद्वान् और साधारण पाठक दोनों ने ब्राह्मिकों के अनुवाद को पसन्द किया। पुस्तक को सजाने, चित्रित करने आदि में जहाँ अनुवादक ने मुझे मेरे परामर्श लिया था, वहाँ तुलसीकाव्य कितना उन्कट है, इसको जतनाने के लिये रेडियो ने भी उन्हें तुलसीदास पर बोलने के लिये निमंत्रित किया था। मुझे ब्राह्मिकों ने मूल चौपाइयों को दोहरा देने के लिये कहा। २८ फरवरी को हम दोनों रेडियो-कार्यालय में गये। मैंने साधारण लय में मूल को पढ़ा और ब्राह्मिकों ने अपनी भूमिका के बाद उसका पद्यानुवाद रूसी में पढ़ा। रेडियो स्टूडियो वाले अंगुलभर चौड़े स्वर जैसे भीतिपर शब्दों को उतरवा कर समय-अनुकूल करने के लिये फीते की काट-छाट रहे थे। मैंने देखा, दो-तीन हाथ फीता कैंची से काटकर उन्होंने फ्रेंक दिया और जोड़कर भाषण को फिरसे मूलवाया। पहिली बार मुझे अपना स्वर सुनने का मौका मिला था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, कि यह मेरा ही स्वर है। हरेक आदर्सी समझता है, कि मैं अपने ही स्वर को सुन रहा हूँ, लेकिन वस्तुतः कोई अपने स्वर को नहीं बल्कि अपनी प्रतिध्वनि को सुनता है, जो प्रतिध्वनि उतनी साफ नहीं होती, जो अच्छे रेडियो या फोनोग्राफ के रिकार्ड से निकलती है। फिल्म की काटकर फेंक देने के बारे में रेडियोवाले कहते थे—कोई परवाह नहीं, हमें क्या दूसरे देश से संगवाना है। हाँ, रूस सभी चीजें अपनी तैयार करता है, वह परम्खापेची नहीं है, और न चीजों को दूसरे देशों से संगाने के लिये उसे विदेशी विनिमय की भारी रकम भेजनी पड़ती है।

आज सात बजे में ईरानी-सम्मेलन भी हो रहा था। मैं वहाँ गया। अकस्मिक फ्राइमान का ईरानी संस्कृति के किसी पहलू पर भाषण हुआ। ऐनी के भी आने की आशा थी, लेकिन स्वास्थ्य के कारण वह नहीं आये। ताजिब (फारसी) के महान् कवि लाहूती आये थे। लाहूती की कविताओं को मैं पढ़ चुका था और मेरे पास उनकी कुछ पुस्तकों का संग्रह भी था। श्वेत-केश, कसियों जैसे सारे, चमकीली आँखोंवाले इस महान् कवि को अपने कान्तिकारी विचारों के कारण ईरान छोड़ना पड़ा, किन्तु २२ साल से उसकी मान्-भूमि



ताजकिस्तान है, जहाँ का वह सहाय नागरिक और सहाय कवि है ।

पहिली मार्च ( १९४७ ) को सरदी हिमवन्दु से २३° नीचे थी । पिछले साल तापमान २.०° तक पहुँचा था और उस साल--२.९° तक पहिले ही सप्ताह पहुँची थी । लेकिन लंदन की तरह यहाँ कोई नहीं कहता था-- ऐसी सरदी तो पहिले सौ साल में कभी नहीं पड़ी थी । खेत में शरद में बोये गेहूँ जमकर बर्फ के नीचे दबे रहते हैं, जो बर्फ पिघलने के बाद ही बड़ी तेजी से बढ़कर बसन्त के बोये गेहूँ से जल्दी पक जाते हैं । जाड़े के गेहूँ को तर्सी हानि पहुँचती है, जबकि बरफ पतली या नहीं हो, और सरदी ज्यादा पड़े । ऐसी सरदी गेहूँ के पौधों को मार देती है । लेकिन बोये गेहूँ के टंडे होने का डर नहीं था, क्योंकि जहाँ उसकी बोआई ज्यादा हुई थी, वहाँ बरफ की मोटी तह पड़ी हुई थी । अब तो बरफ काफी पड़ गई थी ।

मुहल्ले की कलत्र की रंगशाला में बीमे वयस्कों के लिये अक्सर फिल्म और दूसरे परिदर्शन हुआ करते थे, कभी कभी वहाँ बच्चों का भी तमाशा होता था । २ मार्च को लड़कों का प्रोग्राम था और इतना मनोरंजक था, कि शाला में बैठने की जगह नहीं रह गई थी । बन्दरों का तमाशा होनेवाला था । मुहल्ले के सैकड़ों बन्दर भी आकर तमाशा देखने के लिये अपनी सीटों पर जम गये थे । उनको हल्ला-गुल्ला और मार-पीट से रोकना आसान नहीं था । थोड़ी ही देर में सारा हाल उनके शोर में भर गया । लेकिन बालकों के लिये तमाशा करनेवाले उनके मनोविज्ञान में भी परिचित होते हैं । तुरन्त हारमोनियम लिये एक पुरुष और उसके साथ प्रशन्नोत्तर करनेवाली स्त्री रंग-मंच पर आगई । उसने कुछ प्रश्न किये, कुछ पहेलियाँ कहीं और कुछ गाने गाये, इस तरह मिनट भी नहीं बीता, कि लड़कों के ऊपर पूरी तौर से नियंत्रण कायम हो गया । खेल के साथ सरकस भी था, जिसमें एक बन्दर, ४ भालू, ४ कुत्ते, १ भेंड़िया, १ बकरी, १ गिलहरी पार्टी ले रहे थे । कुत्ते, भालू नाच भी करते थे, उनका "गाना" भी बड़ा मनोरंजक था । लड़के खेल खतम हो जाने के बाद भी और की प्रतीक्षा में उठना नहीं चाहते थे, लेकिन आखिर उठना ही पड़ा और सब अपने-अपने

ले आज के खेल की चर्चा करते खुश-खुश घर लौटे ।

३ मार्च को स्नान का दिन था । सरदी कम रही, लेकिन वर्षा फिर पड़ी थी । स्नानागार जाते समय भी अपने चमड़े के आंबरकोट और चमड़े की टोपी को छोड़ना नहीं जा सकता था । उस दिन स्नानागार में बड़ी भीड़ रही, क्योंकि भरोड़े लड़कों की ५०-५० की दो पांतियाँ आ रही थीं । ये लड़के युद्ध की उपज थे । युद्ध में मां-बाप के मरने या आश्रय-हीन रहने के कारण भग खड़े हुए, और जगह-जगह भौंख या सरी तरह खाते-पीते दुनिया की सैर करते ऊधम मचा रहे थे । युद्ध में वे-मां-बाप के लड़कों को लाखों की संख्या में लोगों ने दत्तक पुत्र बनाया था । मध्यएशिया के तुर्कों और ताजिकों के परिवारों में भी यूरोपीय दत्तक पुत्र पल रहे थे । इस प्रकार अनाथ बच्चों का उतना अधिक कल नहीं हुआ, जितना कि ऐसी स्थिति में किसी पंजाबवादी देरा में होता, तो भी कुछ मनचले लड़के किसी के दत्तक पुत्र न हों मनमाना धूमना और मनमाना करना पसन्द करते थे । उन्हें वैसी अवस्था में छोड़ देनेपर जहाँ उनके विगड़े का घर था, वहाँ उनकी शिक्षा का समय भी चला जाता, इसलिये सोचियत जे जगह-जगह बच्चों के घर स्थापित किये थे, जिनमें उनके पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध था, लेकिन विगड़े लड़के जरा सा भौका पाते ही भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिये उन्हें कड़े शासन में रखना पड़ता था । वह हर हफ्ते पांती बांधकर स्नानागार में जाते थे । नारे देश में प्रथम को ताकीद थी, कि भरोड़े लड़कों को पकड़कर नजदीक के बालगृह में भेज दें । इनके अतिरिक्त युद्ध में मृत सैनिकों के होनहार लड़कों के लिये सुवारांक सैनिक स्कूल स्थापित थे, जिनमें उन्हें शिक्षा के साथ मविष्य के सैनिक अफसर बनने का अवसर दिया जाता था । क्रान्ति-दिवस या मई-दिवस में जब सुवारांक स्कूल के लड़के अपनी सुन्दर वर्दी में बड़ी शान के साथ परेड करते लाल मैदान में निकलते, तो कितनी ही देर तक तालियों की खूँज होती रहती ।

भारत की आयी चिट्ठियों की विचित्र हासत थी । अमृतशय की चिट्ठी बनारस में एक भहीने में पहुँच गई और मेरी चिट्ठी भी उन्हें तक

महीने में मिल गई, किन्तु आनन्दजी के पास मेरी हवाई चिट्ठों ७ महीने में पहुँची ! हवाई डाक पर क्या भरोसा हो सकता था ? जिसदिन ( १ मार्च ) को यह चिट्ठियाँ मिलीं, उसी दिन मैंने दानुन्दा का ( ताजिक भाषा ) का उर्दू में अनुवाद समाप्त किया था। समय कान्ते के लिये मैंने सोचा, भाग्य जाकर अनुवाद करने की जगह यहीं अनुवाद कर लूँ, तो अच्छा। उर्दू में ताजिक ( फारसी ) के मूल शब्द बहुत रखे जा सकते थे, इसलिये मैंने पहिले उर्दू में ही तर्जुमा किया। सोवियत में रहते ही मध्य-एशिया के महान् उपन्यासकार ऐनी के "दानुन्दा" और "सुलामान" दो उपन्यासों का उर्दू में अनुवाद कर लिया था। दो-दो कागज करने के लिये समय नहीं था और उसी एक कागज को डाक और सेन्सर की गड़बड़ी में भारत भेजना बुद्धिमानों की बात नहीं थी।

१७ मार्च को सरदी हिमविन्द से १०° नीचे थी, जिसे हम गरमी मानने लगते थे। अब सूर्य के दर्शन भी अक्सर हो जाने थे, लेकिन बसन्त में अभी डेढ़ महीने की देर थी, हमारे यहाँ और लेनिनग्राद के बसन्त में इतना अन्तर होता है। हमारे यहाँ पतझड़ और बसन्त एक साथ आते हैं, किन्तु रूस में पतझड़ अतिशय और बसन्त मई में आता है। मद्रास की तरफ जानेपर तो बसन्त और पतझड़ का ही नहीं बल्कि सारी ऋतुओं का आगम एक ही साथ होता है, अन्तर केवल वर्षा और अर्बण का है।

समय बीतता जा रहा था। वह दिन भी आनिवाला था, जब युनिवर्सिटी की पढ़ाई का वर्ष खत्म हो जायेगा और मैं यहाँ से चल पड़ूँगा। सबसे ज्यादा फिकर इस बात की थी, कि कौन रास्ता पकड़ा जाय ? लंदन का रास्ता बहुत चक्कर का था। अदेरसा ( काला-सागर ) से जहाज पर समुद्र द्वारा बम्बई पहुँचने का रास्ता था। तीसरा रास्ता ईरान से था, किन्तु आये रास्ते से लौटना मुझे पसन्द नहीं है। चौथा रास्ता स्थलमार्ग का अफगानिस्तान होकर था, जो सबसे समीप का भी था। लेकिन दिक्कत यह थी कि मेरे पास विदेशी विनिमय का जो चेक था, वह सोवियत या भारत में ही भुनाया जा सकता था। सोवियत रूबलों को कमा नहीं था, किन्तु वह तेरभिन्न ( आप्दरिया तय ) तक ही काम

था सकते थे। तेरमिजा में दरिया पार होते ही अफगानिस्तान आ जाता, जहाँ सोवियत के सिकके बेकार हो जाने, और वैधानिक तौर में इस अपने साथ उन्हें ले भी नहीं जा सकते थे। थाम् के घाटपर उतर कर मज्जारशरीफ तक का किराया कहां में खाना और मज्जारशरीफ में काबुल जाने का भी सवाल था। साथ भरोसे यात्रा करना मेरे लिये कोई नई बात नहीं थी, शायद मानवता वहां भी कोई गन्ना निकाल देती या पास की एकाध चीज बेचकर किराये का पैसा जमा कर लेता, किन्तु मेरे पास जो दार्द वषों में काम की बड़ी दुर्लभ पुस्तकें जमा हो गई थीं, और प्रायः सभी रूसी भाषा में थीं, उनके लिये खतरा हो सकता था। कम्युनिज्म से सभी देशों के शासक पनाह मांगते हैं, यदि उन्होंने कुछ किताबों को रख लिया तो ?

१३ मार्च को एक और दुःखद घटना सुनी। लियुवानिया में उत्पन्न बहुत सी भाषाओं के परिणत डाक्टर सिव्कोचिक्स मर गये। सिव्कोचिक्स लंदन में भी रहे थे, लंदन युनिवर्सिटी के पी० एच्० डी० थे। यूरोप की नयी-पुरानी तथा इबरानी और उससे संबंध रखनेवाली कितनी ही भाषाओं के अच्छे परिणत थे। लियुवानिया पर जब जर्मनों का हमला हुआ, तो वह वहां से सोवियत की ओर भाग आये। सारी लड़ाई भर कोई न कोई काम करके गुजारा करते रहे। यहूदी होने से उनको जर्मनों से जितना डर था, उससे वह सोवियत विरोधी हो नहीं सकते थे। ४-५ साल तक सोवियत में शरणार्थी होकर घूमते अब युनिवर्सिटी में आये थे। नौकरी के लिये युनिवर्सिटी में बहुत सी जगहें खाली थीं। उन्हें आशा थी, कि कोई काम मिल जायेगा। वह प्रान्त्य-विभाग के पुस्तकालय में रोज आते, और धीरे धीरे बहुत से लोग उनके परिचित और मित्र बन गये थे। राष्ट्रीय महत्व के काम न करनेवाले के लिये राशन-टिकट बन्द हो गया था, इसलिये बेचारे सिव्कोचिक्स पर सारी विपत्ता आयी। उनकी पत्नी और एक छोटा बच्चा था। तीनों को राशनविहीन खाय से गुजारा करना बहुत मुश्किल था। बड़ो दौड़-धूप लगायी, सब तैयार थे, पर हमारे विभाग का दल-सेक्रेटरी ऐसा भूर्ख मिला था, कि उसने इन्कार कर दिया। कहां-लंदन का पी० एच्०

जी० हैं, क्या जाने अंग्रेजों का गुत्तचर हो। उसकी इस राय के विरुद्ध किसी को जाने की हिम्मत नहीं थी। प्रो० स्टाइन हमारे चीन यद्दी थे, इसलिये वह भी कोई कदम उठाना नहीं चाहते थे। सामूह हुआ, बोड़ा बहुत जो जाना सिक्वोचिकस जमा कर पाते, वह अपने शिशु बच्चेवाली पत्नी को दे देते, और खुद कोई बहाना करके भूखे रह जाते। सिक्वोचिकस का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। इस अनाहार में वह धीरे धीरे चुलने लगे। अन्त में एक दिन जाणों ने उस शरीर को छाड़ दिया और एक प्रतिभाशाली भाषातत्वज्ञ से देश को दीक्षित हो जाना पड़ा। सिक्वोचिकस का मृत किसी के सिरपर तो जरूर पड़ना चाहिये। लेकिन उगका दोषा इस साम्यवाद या रूस की कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं कह सकते। लेनिनवाद में कुछ मूर्ख उस समय पार्टी के सर्वेसर्वा हो गये थे, जिन्हें दो साल बाद दण्ड अवश्य मिला, लेकिन उस वक्त तो वह अपनी हरकतों में अनर्थ कर डालने में सक्षम थे। इसी तरह एक मंगोल विद्वान् भी उस समय अध्यापक का काम हूंटने लेनिनवाद आया था। वह पिछले षड्यंत्रों में जी के साथ जुग की तरह पिस गया था और कुछ साल जेल में रहकर अभी अभी छुटा था। जैसे उसने यूनिवर्सिटी में साहस की शिक्षा पाई थी, लेकिन मंगोल बौद्ध होने के कारण पहिले अपनी अर्धभाषा तिब्बती को कुछ पढ़े हुए था, और जेल में उसे और पढ़ने का मौका मिला। ६ साल में उसने तिब्बती भाषा का बहुत अच्छा अध्ययन कर लिया था। आजकल प्राच्य-विभाग में तिब्बती भाषा के अध्यापक की आवश्यकता भी थी। विभागीय पुस्तकालय में ही एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी। वह भी समय समय पर पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करता और प्रबन्धिकाओं की मदद करता था। उसे भी अध्यापक नियुक्त करना लोग चाहते थे, किन्तु सिक्वोचिकस के साथ अन्याय करनेवाला वही मूर्ख फिर बाधक हुआ। कहा—राजद्रोह में जिसको सजा हुई है, उसे कैसे नौकर रखा जा सकता है? लेकिन मंगोल विद्वान् को सिक्वोचिकस की हालत में पहुँचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कुछ मंगोल (बुरियत) लेनिनवाद में रहते थे, जिनकी सहायता से रेल पर बैठकर वह फिर अपने देश को लौट गया। वह काले दाग हैं, जिनका

कि अत्यन्त उज्ज्वल वस्त्र पर रहना बहुत खटकता है। हममें शक नहीं कि सोवियत के शासक इसके लिये जागरूक भी रहते हैं, और पता लगते ही विना स्त्रियायत के अपराधी का दण्ड भी देते हैं।

पूर्वी भाषाओं के पढ़ाने में सबसे अधिक कठिनाई उच्चारण की थी। मैं अपने विद्यार्थियों के उच्चारण को ग्रीक करने का काफी प्रयत्न करता था। हमारे अध्यापकों ने जब सुना, कि मैं भारत लौट रहा हूँ—यद्यपि उस वक्त मैंने दो वर्ष के लिये ही जाने की बात कही थी—तो उन्होंने कहा, कि मैं उच्चारण के लिये कुछ ग्रामोफोन रिकार्ड में बोल दूँ। युनिवर्सिटी के साथ बड़ा-सा फोटोग्राफी का विभाग भी है। किनों-फिल्म और ग्रामोफोन जैसे विभागों को सुनकर हमारे यहाँ शायद आश्चर्य किया जाय, लेकिन रूस में साधन-सम्पन्न हुए विना शिक्षण-संस्थाओं के कार्य में बाधा होती है, इसका ख्याल रखा जाता है। ग्रामोफोन रिकार्ड करने का विभाग हमारे प्राच्य-विभाग की इमारत के पास में ही था। मैंने वहाँ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, उर्दू, और निच्यती भाषा के ग्रंथों के पाठ रिकार्ड करायें।

२४ मार्च को दिल्ली-रेडियो से भागत से हुई अन्तर्-एशिया-कान्फेंस की रिपोर्ट सुनी। वक्ताओं ने अपनी भाषा में कितने ही भाषण दिये थे। सोवियत के प्रतिनिधियों में गुर्जा ( स्तालिन की जाति ), कजाक, और उज्बेक प्रतिनिधि भी थे। एशिया का इतना बड़ा सम्मेलन बहुत दिनों बाद भारत की भूमि पर हुआ था। मुझे नालंदा का ख्याल आता था, जहाँपर कि मध्यएशिया तथा सारे पूर्वी एशिया के छात्र पढ़ने के लिये आया करते थे। भारत को फिर एकबार अपने पुराने संबंधों को जाग्रत करने का अवसर मिला। यद्यपि उस समय भी बौद्धधर्म ने आक्रमणकारी संस्कृति का प्रचार नहीं किया था, बल्कि जिस देश में भी वह गया, वहाँ की संस्कृति की रक्षा करने हुए अपनी देन से उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, तो भी आज के युग में तो भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के संघर्ष का कोई कारण नहीं है। संघर्ष का कारण तो वस्तुतः आर्थिक शोषण होता है। आर्थिक शोषण हटा दीजिये, तो संस्कृतियों का समन्वय बड़ी मधुरता के साथ हो

जाना है। सोवियत रूस इसका उदाहरण है। मध्य-एशिया इस्तामिक संस्कृति में पला है, लूसी अपने इतिहास के आरम्भ ही में ईसाई संस्कृति को अपनी मानने आये हैं; मंगोल बौद्ध संस्कृति को अपनी जाति में अलग करके देख नहीं सकते। उनके अनिश्चित बृद्धा धर्म के अनुयायी सारे रूस में बिखरे हुए हैं, और जिनकी एक भौगोलिक इकाई स्थापित करने के लिये भूदूर-पूर्व में बोरोविजान का एक स्वायत्त आसिन भू-भाग स्थापित किया गया है। इन संस्कृतियों में काफी भेद है, और विद्यते इतिहास को देखने पर मालूम होता है, कि उनका पारस्परिक संबंध कितना कटु था। धर्म-निर्भर संस्कृति के अनिश्चित रक्त में भी परस्पर भेद था, जो कि ऊँच-नाच के भावों को उठाकर भगड़े का कारण बन जाता था। लेकिन आज भारी संस्कृतियाँ परस्पर नीरबीर हो गई हैं। एक दूसरे के भावों को लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं और एक दूसरे के वीरों का सम्मान करने में पीछे नहीं रहते। संस्कृतियों का सुन्दर समन्वय कैसे हो सकता है, इसका रास्ता सोवियत रूस ने दिखाया है, लेकिन उसके लिये आर्थिक शोषण का अन्त होना आवश्यक है।

निरयोकी में एक वृद्ध आर्मेनियन संगीतकार से भेरा परिचय हुआ था। वह लेनिनग्रद के गिने-गुने उस्तादों में से थे। ४ मास वह लेनिनग्रद की प्राचीन और प्रतिष्ठित कम्पोजिटरी (संगीत-विद्यालय) में प्रोफेसर का काम करते, और २ महीने अपनी जन्मभूमि की राजधानी येवरान नगरी में। उनके निमंत्रण पर २६ मार्च को वह उनके घर गये, जहाँ एक और ७० वर्षीया वृद्धा संगीत-आचार्या नियंत्रित थी। वृद्धा के साथ उनका तरुण नार्ता (धेटी का लड़का) भी आया था। २० वर्षीय तरुण जैसे साहस का विचारार्थ था, लेकिन संगीत तो उसके मूढ़ में था, इसलिये उसमें भी उसकी काफी गति थी। जन-संगीत की वह बहुत पसन्द करता था और इसके लिये अपनी छुट्टियों का एशिया और दूसरी जगहों की जातियों के जन-संगीतों के अभ्यास और संग्रह में खिताता था। भारतीय संगीत के बारे में भी क्या बतला सकता था? मैंने पहिले ही कह दिया, कि संगीत और काव्य यह मेरे लिये दो सर्वथा अपरिचित से विषय हैं, उनकी

जोग न भेरी कोई विशेष रुचि है न गति । मैं तो शायद अपने को उनके संबंध में शून्य समझ सकता था, किन्तु कुछ संगीत— विशेष कर जनसंगीत और कुछ कविताओं-विशेषकर जनकविताएँ और दूसरी कविताओं से मेरा हृदय व्याप्लावित हो जाता है, इसलिये अपने को सर्वथा शून्य नहीं कह सकता । भारतीय संगीत के बारे में कुछ न कह सकने की जगह मैंने अपने माथ लायें दो ग्रामोफोन रिकार्डों को रख दिया । उनमें से एक में मामूली जनता सिनेमा का गाना था, जिसे बड़ी अरुचिपूर्वक दोनों वृद्ध-वृद्धायों ने सुना और अलग रखवा दिया । सौभाग्य से “तानसेन” फिल्म में गाये दो गाने के भी रिकार्ड थे, जिनमें भारतीय संगीत का ज्यादा शुद्ध रूप था, जिसे बहुत पसन्द किया गया । मैंने दोनों संगीत विशेषज्ञों से पूछा: भारतीय संगीत को अन्तर्राष्ट्रीय नोटेशन में लिखा जा सकता है ? वृद्धा ने इसके जवाब में किसी अंग्रेजी शोधपत्रिका के पुराने दो-तीन अंक निकाल कर रख दिये । वहाँ हमारे गानों को यूरोपीय नोटेशन में बद्ध किया गया था । लेकिन छपे हुए नोटेशन तो मेरे लिये भैस के आगे बान बजाना था । इसपर वृद्धा के नाती ने कहा मैं नोटेशन में बांधकर सुनाता हूँ । रिकार्ड फिर लगाया गया । उसने जल्दी जल्दी कागजपर नोटेशन लिख लिया । फिर “वरसो रे वरसो रे” के गान को पियानो पर बजाकर दिखा दिया । उन्होंने कहा: किसी भी वास्तविकता को रेखाओं में बाँधना संभव नहीं है, यह बात संगीतपर भी घटती है । नोटेशन का काम है स्वर और लय में वास्तविकता के समीप तक पहुँचने में सहायता करना । मैंने देखा, वह काम यहाँ हो गया था । फिर मुझे खयाल आया— हमें भारतीय संगीत के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नोटेशन को अपनाना चाहिये । न अपनाकर हम अपना ही नुकसान करेंगे । नोटेशन-बद्ध भारतीय संगीत की महिमा को दुनिया के वे लोग समझने लगेंगे, जिनके लिये यह बन्द हुई पुरतक साँ है । अन्तर्राष्ट्रीय नोटेशन का उद्गम चाहे यूरोप रहा हो, किन्तु आज वह जापान तक एशिया के सारे देशों में प्रचलित है । संकीर्ण राष्ट्रीयता के फेर में पड़कर उसका बाधकाट करना हमारे लिये न श्रेयस्कर है, न वाञ्छनीय ही । तरुण जे कई एशियायी जनगीतों को



गाकर सुनाया। संगीत के लिये शुष्क सा मेरा हृदय भी उस मंडली में सरस हो उठा था।

२७ मार्च को युनिवर्सिटी जाने समय रातने में पानी ही पानी दिखाई पड़ा। नेवा में भी बर्फ के ऊपर पानी तैर रहा था। अंधके गाल हमारे लिये नेवा ने रातने का काम बहुत कम समय दिया। अन्न तो लोग उसकी जमी धार पर भी विश्वास नहीं करते थे—क्या जाने कहीं बर्फ पतली हो थोर बोझ सह न सके, फिर गडाप से गिरकर समुद्र में पहुँचने की किसको इच्छा होती? आज हिन्दी-उर्दू की कविताएँ, तथा यजुर्वेद के कुछ सस्वर मंत्रों का रिकार्ड करवाया।

२८ मार्च को मानवतत्व संग्रहालय में फिर गये और वहाँ के पुरातत्व विशेषज्ञ से देर तक बातें करते रहे। अर्थार्जन की कठिनाई से निश्चित होने के कारण सोवियत विद्वानों को शास्त्रचर्चा करने के लिए काफी समय मिलता है और उनकी तरफ उनकी रुचि भी होती है। अपने विषय में जिसकी रुचि नहीं वह उस विषय के अध्ययन और अध्यापन की ओर पैर ही नहीं बढ़ाता—यह सभी लोगों को काम मिलने की गारण्टी का परिणाम है। उक्त विद्वान् से मैं मध्यएशिया के प्रागैतिहासिक काल पर बातें कर रहा था। उन्होंने निम्न बातें धतलारथी—

उजबेकिस्तान—यहाँ मूस्तर (नियंडर्थल) मानव के शरीरावशेष तेशिकतारा की गुफा में मिले हैं। पास में ही अमीर तैमूर गुफा में हड्डियाँ तो नहीं किन्तु उनके पाषाणयुग मिले हैं। तेरमिज के पास मचई गुफा में मूस्तर और मध्यापाषाणयुगीन हथियार मिले हैं। समरकन्द इलाके में ऊपरी पुरापाषाणयुग के हथियार प्राप्त हुए हैं।

ताजकिस्तान—यहाँ पर पाषाणयुग के अवशेषों वाली बहुत सी गुफायें हैं, मगर अभी खुदाई का काम नहीं हुआ है।

तुर्कमानिस्तान—में वलु नदी की पुरानी धार उजबोयी के कास्पियन समुद्र से मिलने के स्थान पर मनकिश्लक में ऊपरी पुरापाषाण और मध्य-पुरा पाषाणयुगों के हथियार प्राप्त हुए हैं। यह स्मरण रखना चाहिये कि किसी समय वलु (आमूदरिया) आज की तरह अगल समुद्र में न गिरकर कास्पियन में

गिरती थी, पीछे वह अराल समुद्र में गिरने लगी। १२-१३ वीं शताब्दी के भीषण युद्धों में नहरों के लिये बने बांध टूट गये, तो एकबार फिर उज्जवोयी ने बन्दू का रूप लिया था। शताब्दियों से उज्जवोयी सूखी पड़ी थी। वर्षा के अत्यन्त कम होने से आस-पास की धरती बन्दू के पानी से वंचित रहकर कितने दिनोंतक हरी भरी रहती? वहाँ की भूमि कराकुम के विशाल रेगिस्तान के रूप में परिणत हो गई। लेकिन अब फिर उसका समय लौटनेवाला है। इसी साल से दुनिया की सबसे बड़ी नहर—मुख्य तुर्रमान नहर—आधुनिकतम यांत्रिक साधन द्वारा खुदने लगी है। चंद ही सालों बाद यामू फिर कास्पियन में गिरने लगेगी। उसकी नहरों के जालों से कारकुम की भूमि फिर हरी भरी हो उठेगी। नहरों के खोदने के समय इस भूमि के भी पुराने मानव-अवशेषों का पता लगेगा, जिनमें वांते युग की सभ्यताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

कजाकस्तान—इतिहास नदी के तटपर अल्ताई के पास यहाँ ऊपरी पुरापाषाणयुग के जो हथियार मिले हैं, उनका संबंध साइबेरिया से प्राप्त सामग्रियों के साथ है। कुस्तनइ जिले में केरिनकुल भौल के किनारे अशुपाषाणयुग के हथियार मिले हैं, किन्तु उनके साथ मृतपात्र नहीं है।

किरगिजिस्तान—त्यान-शान पर्वतमाला में अवस्थित इस गणराज्य में भी ऊपरी पुरापाषाणयुग के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

जिस तरह मध्य-एशिया के इतिहास की सामग्री के लिये हमें पुरतकों का अध्ययन करना आवश्यक था, उसी तरह पुरातत्व-सामग्री के बारे में विद्वानों का मतसंग भी जरूरी था। मध्यएशिया की पुरातत्विक ऐतिहासिक सामग्री कई संग्रहालया में रखी हुई है, जिनमें से कुछ तो मध्य-एशिया के गणतंत्रों में थे, जहाँ हमारे जानने की ध्व संभावना नहीं रह गई थी। लेकिनग्राद और मास्को के संग्रहालयों के कमरों को धीरे धीरे सजाया जा रहा था, इसलिये विद्वान् ही इस बारे में ज्यादा सहायक हो सकते थे।

२६ मार्च को पता लगा, कि भारत सोवियतभूमि के साथ दीर्घ-संबंध स्थापित करने जा रहा है। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित भारत दूत बनकर आरही

हैं, और यहाँ से जूकोफ़ दिल्ली जा रहे हैं। हमारे रहने तक विजयलक्ष्मी जी नहीं आई और पंद्रह जूकोफ़ नहीं, दूसरे रूस सोवियत की तरफ से दिल्ली भेजे गये। अंग्रेज के पहिले हफते से अब भारतीय अखबार भिन्न-भिन्न भाषाओं में काफी संख्या में मेरे पास पहुँचने लगे। यद्यपि सभी २-३ भाषी के पुराने थे, किन्तु उनसे देश की बहुत सी बातें मालूम होती थीं। ताजी खबरों के लिए रेडियो पास था ही। हाँ, किसी अखबार के सारे अंक नहीं मिल रहे थे। मालूम होता था, कुछ को समाचारपत्र-प्रेमी रास्ते ही में भटक लेते हैं। लेकिन जो भी मिल जाते थे, हम तो उन्हें ही गर्वित समझते थे। काश, यदि यही बात उड़ वर्ष पहिले से हुई होती ? ५ अंग्रेज को एक और भी काम हमारे पास था। वह था रूसी फिल्मों का हिन्दी भाषान्तर करना। “शपथ” फिल्म के सिनारियो को हमारे पास रूसी से हिन्दी में तर्जुमा करने के लिये भेजा गया था। इसमें जितना अभिनय था, उतना वार्तालाप नहीं था। कुल ७४ पृष्ठ की सामग्री रही होगी। फिल्म-निर्माण ने इसके अनुवाद करने के लिये साढ़े चार हजार रूबल पारिश्रमिक देने के लिये लिखा था। खैर, रूबल तुरंत नहीं थे, किन्तु मुझे उनका उतनी परवाह नहीं थी। उन्होंने यह भी लिखा था, कि हम ऐसे बहुत से फिल्मों का अनुवादकार्य आपको देंगे। उधर पत्रों-पत्रिकाओं ने भी लेख लिख देने का आग्रह किया था और मैंने एक लेख लिखा भी था। अब भी आय के बारे में अकदमिक बराबर्कोफ़ का रास्ता कुछ छोटे आकार में सामने दिखाई पड़ने लगा था। रेडियो की भी मांग शुरू होगई थी। भारतीय इतिहास से संबंध रखनेवाली सामग्री एमॉन्ताज और मानवतत्व स्पृशियमों में थी, वहाँ पर विशेषज्ञ परामर्शदाता होने की बात चलने लगी। सोवियत में किसी विद्वान् से कोई काम मफन नहीं लिया जाता। हर जगह काम करने के लिये पारिश्रमिक नियत था। इसलिये जहाँ तक पैसों का सवाल था, उसकी बाढ़ सी आने वाली थी। युनिवर्सिटी की ओर से तीन-चार कमरोंवाले अच्छे मकान की भी पूछताछ अब ज्यादा संभारता से होने लगी थी। हमारे सामने अब प्रश्न था—क्या यहाँ रह कर आराम का जीवन चितारें, या भारत लौटकर अपने गान्धियिक काम को जारी करें।

पहिला रास्ता मुझे जीवन-मृत्यु जैसा मालूम होता था। ऐसी आराम की जिन्दगी लेकर क्या करना था, जबकि वास्तविक काम को मैं यहाँ रहकर ग्रीक तरह से कर नहीं सकता था। भारत से आये दार्ई वर्ष से अधिक हो गये थे। भारत में रहते इतने समय में दो-दार्ई हजार पृष्ठ तो जरूर लिखा होता। इन दार्ई वर्षों में मेरा दिमाग खाली बैठता नहीं था, किन्तु ही पुस्तकों की कल्पना मन में तैयार हो रही थी, जिनको यहाँ रहकर कागज पर उतारना बेकार था, क्योंकि इसमें बहुत संदेह था, कि संसरो की मार से बचकर वह प्रेस में पहुँचने में सफल होंगा। मुझे यह निश्चय करने में जरा भी कठिनाई नहीं हुई, कि मैं जीवन-मृत्यु को कभी पसन्द नहीं कर सकता। दिल में जो इसके कारण कसक होती थी, उसी को मिटाने के लिये ही मैंने “दाखुन्दा” “गुलामान” का अन्तुवाद करना शुरू किया था। “दाखुन्दा” समाप्त होकर ६ अप्रैल को “गुलामान” (जो दाम थे) में भी ३६४ पृष्ठ तक पहुँच गया था। प्रति सप्ताह २०० पृष्ठ की गति थी। लेकिन जब उनके प्रकाशित होने का ख्याल आता, तो रास्ता नहीं दिखता था पड़ता।

६ अप्रैल को ईसाइयों का ईस्टर-रविवार बहुत बड़ा त्यौहार आया। कैथलिक उसे आज मना रहे थे, लेकिन रूस में ग्रीकचर्च की प्रधानता है, जिसका त्यौहार अगले (१३ अप्रैल) रविवार को होनेवाला था। लोला के पितामह फ्रेंच कैथलिक थे, जिसके कारण पिता और लोला भी कैथलिक रहे। आज वह ईंगर को लेकर कैथलिक चर्च में पूजा-प्रार्थना करने गयीं। घर में तो ईंगर रोज ही ईसामसीह की प्रार्थना कर लिया करता था, लेकिन चर्च के भीतर जाने का उसे यह पहिली ही बार मौका मिला था। बोजिन्का (भगवान्) के दर्शन के लिये बड़ा उतावला हो रहा था। समझता था, कि गिरजे में जरूर भगवान् विराज रहे होंगे। वहाँ मैं तो नहीं गया था, लेकिन उसकी साँ के मुँह से सारी बातें सुनीं। वह सामने बैठा रो रहा था। एक भक्तिन बुढ़िया ने देखकर कहा—“कैसा सुन्दर-हृदय लड़का है, भगवान् की भक्ति में गद्गद होकर रो रहा है।” ईंगर बहुत आहता था कि भगवान् के पास पहुँचे,

लेकिन ल्योहार के कारण मांड बढ़ी थी, वहां तक पहुंचने का मौका नहीं मिला । फिर वह जल्दी करने लगा — “मांसा, किनी ( सिलेसा ) खतम हो जायेगा । जल्दी करो ।” यहाँ ईगर की भक्ति नंगी ही गई थी, उसे वाजिदका के दर्शन से ज्यादा किस्म अपनी और खींच रहा था । मालूम नहीं बुढ़िया ने इस भक्त हृदय शिशु के इस रूप को देखा या नहीं । रात के भक्त कभी कभी में भी वोजिन्का की बात करता, और दुनिया के सारे दुःख-मुख, अन्ध-पल्लवात का जिम्मेवार उस सर्वशक्तिमान को बतला कर ऐसा चित्रित करता, कि वह वोजिन्का ( भगवान् ) नहीं बल्कि चोर्त ( शैतान ) दीसने लगता । लोला को यह बात बहुत बुरी लगती, वह खींभकर कहती—बच्चों के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिये । मैं कहता—बच्चों के हृदय को कोरी स्लैट की तरह रहने देना चाहिये । वह ईश्वर विश्वासी हो या नास्तिक, इस बात को उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिये ।

यह बतला चुके हैं, कि रूस में भीख मांगना कानूनन् नहीं व्यवहारतः भी उठ गया है, लेकिन कुछ कामचोर इसे अच्छे लाभ का पेशा समझकर मौका पा करने से वाज नहीं आते । गिरजा के पास ऐसे सिखमंगे कमी कमी मिल जाते हैं । किसी बुढ़िया को लोला ने उस दिन पैसा दिया था, जिसपर क्रिसतुस् के लिये कह कर बुढ़िया ने अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों से सिर छाती और दोनों कंधों को छूकर कास बनाया । उस दिन घर लौटकर ईगर को जब मां ने मिठाई दी, तो उसने ठीक बुढ़िया की तरह ही “ क्रिसतुस् ” के लिये कहकर कास बनाया । क्रिसतुस् की भक्ति में आकर पड़ोसी तोस्या के ७-८ सहीने के बच्चे कोल्या की हथेली में मुई चुमोने की कोशिश करते हुए ईगर पकड़ा गया था और वह बच्चे को क्रिसतुस् नहीं बना सका । उसका स्मरण दिला कर मैंने लोला से बहुत कहा कि असी हाश संभालने दो, इंगे अभी से धर्म की भद्री धुट्टी मत दो, लेकिन वह कद्रां होनेवाला था ।

१० अप्रैल को मास्को की खबर से मालूम हुआ कि वहां नदी सुस्त-धार होकर बह रही है, यहां नेवा की नदी अभी भी नहीं खुली थी, हां कभी कभी पनवली धार निकल कर टेढ़ी-मेढ़ी चाल से दूर तक जा बरफ में गुम हो

जाती थी ।

हमारे विभाग में हिन्दी पुस्तकों की कमी थी, नयी पुस्तकें तो आती ही नहीं थीं । ११ अप्रैल को मेरी अपनी लिखी ११ पुस्तकें पहुँची, जिनमें “जीवनयात्रा”, “मानव समाज”, “दिमागी गुलामी”, “सतमी के बच्चे”, “नई समस्याएँ”, “इस्लाम की रूपरेखा”, “विस्मृति के गर्भ में”, “शैतान का आख”, “साम्यवाद ही क्यों”, “बाइसवीं सदी” थी । मैंने एक एक प्रति युनिवर्सिटी को दे दी । प्रकाशक ने यह देखने के लिये थोड़ी ही और हल्की हल्की पुस्तकें भेजी थीं, कि वह वहाँ पहुँचती हैं या नहीं, लेकिन अब दूसरी पुस्तकें भंगाने का अवसर नहीं रह गया था । मैंने कुछ हिन्दी संस्थाओं को कुछ नयी पुस्तकें मुफ्त भेजने के लिये लिख दिया । दाम भेजने में विदेशी विनिमय का भगड़ा इतना था, जिसके फेर में पड़कर काम होना मुश्किल था । हाँ, सोवियत के राजदूत के दिल्ली में पहुँच जाने पर यह कठिनाई दूर होने की संभावना थी ।

१३ अप्रैल रविवार को ग्रीक-चर्च का पासख ( ईस्टर ) दिन था । ग्रीक चर्च के अनुयायियों की संख्या अधिक होने से आज सभी धर्मों में उत्सव मनाया जा रहा था । ईगर ने पूछा—माँसा, उत्सव का दिन है तो भोंडा, पताका क्यों नहीं ?

लोला—यह सरकारी महोत्सव नहीं है, घेठा ।

लड़के को बात समझ में नहीं आ रही थी : सरकारी महोत्सव क्या और गैर सरकारी महोत्सव क्या । आज कई मेहमान घर में निमंत्रित थे, जिनमें तीन लोलार्यें और दो सिरियोजा थे । एक लोला, लोला की भतीजी थी, और दूसरी लोला उसके बहिन के लड़के सिरियोजा की बीबी । सिरियोजा के वहनोई का नाम भी सिरियोजा था । भोज में पान की छूट थी । भोज भी अच्छा था । दो सप्ताह के बछड़े के मांस का रूप उसके बाद भेड़ का मांस, बैकन, कैक थीं । पनीर और दूसरी चीजों को मिलाकर बहुत स्वादिष्ट पासख बना था । सब लोग चपक उठा रहे थे, तो ईगर कैसे चुप बैठता । उसे शरबत में

नीबू का रस डालकर दिया गया। पहिले ही चषक में वह मतवाला होने लगा। जान पड़ता है, लडके में अभिनेता बनने के कुछ गुण अवश्य हैं, शायद नृपति ही चषक पीते-पीते वह लोट-पोट होजाता, किन्तु शरभत देते उसने देख लिया, इसलिये नशा बहुत नहीं चढ़ा। मान्या आज काफी पी गई थी, उसपर नशा का असर ज्यादा था। जैसे सर्सी की आँखें लाल थीं। पीवा वहाँ साधारण पान को कहते हैं, जिसमें नशा नाम मात्र होता है, लेकिन बोंदका बहुत मशहूर और कड़ी शराब है, जो आजकल अधिकतर आलू से बनाई जाती है। शब्दार्थ को लीजिये तो पीवा संस्कृत का पेय है, और बोंदका संस्कृत का उदक। च्सा में बदा ( उदा ) पानी को कहते हैं, लेकिन क और जोड़ देने से बदका ( बोंदका ) कड़ी शराब का वाचक हो जाती है। हमारी पड़ोसिन ने अपने सात मास के बच्चे को पीवा नहीं बदका का प्याला चखाया। आखिर उसे बचपन ही से तो आदत लगाना था। पासख त्योंहार ठहरा। त्योंहार में अगर हतनी चीजें न पकाई जायें, जो कि दों-तीन दिन चले, तो वह त्योंहार ही क्या ?

१६ अप्रैल से हफ्ते भर ईंगर को बराबर बुखार पकड़े रहा। खैरियत यही थी, कि छूत की बीमारी नहीं थी, इसलिये वह घरपर ही रहा। दूसरे ही दिन डाक्टर बुलाया गया और फिर वह प्रतिदिन आता रहा। यदि फीस देनी होती, तो सारी बीमारी में हजारों रूबल खर्च होते। चिकित्सा के लिये सोवियत में किसी को एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी का कोई साफ पता नहीं लगता था, इसलिये हम डाक्टर की सलाह से ईंगर को मुहल्ले के अस्पताल में ले गये, जो कि समीप में ही था। उपाकी तिमंजिला विशाल और भव्य इमारत और कर्मचारियों की सेना को देखकर विश्वास नहीं होता था, कि यह मुहल्ले का अस्पताल है, वहाँ चिकित्सा का इंतिजाम सरकार ने मुफ्त कर रखा था। चाहे शिशुशाला हो या बालोद्यान, पाठशाला हो या चिकित्सा-स्थान, जितने बड़े पैमानेपर उनका इंतिजाम है, और उनका जो सालाना खर्च है, उसे देखकर तो हम भारत से तुलना करते ब्रह्म निराश हो जाते थे। सोवियत सरकार जिनना लेनिनग्राद के अस्पतालों पर खर्च करती है, उतना तो हमारे उत्तर-प्रदेश

का सारा बजट होगा। फिर उसका अनुसरण हमारे यहाँ कैसे हो सकता है ? रोन्तेगेन ( एकसरे ) के कमरे में ले जाकर डाक्टर ने ईगर के फेफड़े आदि की गच्छी तरह परीक्षा की—हमारे यहाँ जिसे एकसरे कहते हैं, उसके आधि-कालक जर्मन वैज्ञानिक रोन्तेगेन के नाम से उसे कम और दूसरे देशों में पृकारा जाता है। एकसरे के डाक्टर ने कहा टी० बी० का अन्तर नहीं है; दूसरे डाक्टर ने कहा : लगातार उबर है, इसलिये अस्पताल में रखें। लेकिन लौला की घोषणा में यह बात जन्दी आनिवाली नहीं थी, उसे डाक्टर और दवा में ज्यादा अपने हाथ के भोजन पर भरोसा था। फिर हम एक बड़े हाल में गये, जहाँ बीसी स्त्रियाँ काम कर रही थीं। चिट के देने पर एक महिला ने कई ट्यूबों और स्लाईडों पर ईगर का खून लिया। यह स्पष्ट ही है, कि यहाँ के डाक्टर अत्युप भौतिकवादी हैं और पूछा-ताछ पर उतना विश्वास नहीं रखते, जितना कि अपने यांत्रिक साधनों पर। लड़की ने एक दर्जन ट्यूबों में ईगर का खून ले ईगर का नम्वर चिपका दिया। अब वह कहीं दूसरे अपरिचित व्यक्ति के पास जांच करने के लिये जायेगा, जहाँ से वह अपने अपने विषय की बीमारियों के बीटागुणों के होने या न होने की सूचना देगा। खून लेने में महिला बड़ी दक्ष थी और उतका औजार भी यंत्र-चालित था, जिसमें शायद सैकेन्ड के सैकड़े हिस्से में घाय होकर खून निकलने लगता था। दिमाग में घाय की सूचना पहुंचने से पहिले ही काम हो जाता था, फिर कष्ट मालूम क्यों होता ? इस विशाल कार्यालय को देखते समय हमारे दिल में यह भी खयाल आरहा था, कि यह लेनिनग्राद के एक मुहल्ले का चिकित्सालय है।

२४ अप्रैल को युनिवर्सिटी जाते वक्त देखा, नेवा अब पूरी तौर से जाग-कर मुक्तप्रवाह है। शायद दो एक दिन पहिले ही वह हिममुक्त हुई थी। अब बर्फ का कहीं पता नहीं था। आज गरमी भी मालूम होती थी। चमड़े के ओवरकोट और टोपी को धरपर रखकर गये थे, लेकिन जब शास के वक्त लौटने लगे, तो सरदी भी लौट आई थी, इसलिये अपनी बेवकूफी पर हँसी आती थी।

पहिली मई को फिर मई का महोत्सव आया, फिर मई-पतिके और



नेताओं के फोटो, यांत्रिकाओं के रेखाचित्र जगह जगह चिपकाये गये। मुझे भर्तृ-विग्रह देखने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिये घर में रेडियो-गे ही उस्तव की मार्ग बानें मनुता रहा। हाँ, उस दिन तीन लड़के लिये एक स्त्री गीख मांगती फिर रही थी। हमारा मूहला एक काने में था, प्रतिभ आस-पास में नहीं थी, इसलिये वह निडर ही अपने व्यवसाय का कर सकती थी, केवल एक लज्जा छोड़ देने की जरूरत थी, फिर ऐसा लज्जा-हीन कौन होगा, जो एक टुकड़ा रोटी या एक कब्रल देने से इन्कार करे।

नेवा लदोगा नाम की एक बड़ी भोज से निकलकर आती है, जिसकी धरक जल्दी खतम नहीं होती, इसलिये मूक्तप्रवाह नेवा की धारा में अब लदोगा से बढ़कर आते वर्ष के बड़े बड़े खण्ड धारहे थे। लोग कह रहे थे। कि उन्हीं के कारण आजकल सरदी बढी हुई है, वैसे सूर्य का दर्शन बराबर हो रहा था। बढ़ते हुए हिमखण्डों के साथ हवा ने भी कुछ सहायता कर दी थी, इसलिये हम बसन्त को पूरी तौर से अपने पास नहीं पा रहे थे। १० मई को एक जगह कुछ छोटी छोटी पत्तियां मैने देखी, एक-दो जगह हरी घास भी निकली हुई थी। नगर में वैसे बालोद्यानों के सिवाय हरियाली की कमी थी। पांच-पांच महीने तक हरियाली के लिये तरसती थाखें क्यों न हरी-पत्तियों और घासों की ओर एकटक लग जायें ? बसन्त का मूल्य यहीं के लोग समझ सकते हैं

लोला की बहन का लड़का सिरियोजा था मस्त-मौला, घर-फूंक तापनेवाला, शराब पीने-पिन्दाने में बिलकुल खुले हाथ। लेकिन, आदमी बहुत अच्छा था, कामचोर नहीं था। हाँ, किसी एक काम पर उसका मन नहीं लगता था। सेना से हटे काफी दिन हो गये थे, अब तक चाहता तो अच्छी स्थायी नौकरी मिल जाती, लेकिन उसे तो बराबर काम बदलते रहना पसंद था। लोग समझते हैं, सोवियत रूस में लोगों से जबर्दस्ती काम लिया जाता है, यह ख्याल कितना सतत है, इसका उदाहरण सिरियोजा था। वस्तुतः वहाँ भूखे मरने के लिये नेयर लोगों को कोई रुकावट नहीं थी, सरकार किसी को जबर्दस्ती कामपर नहीं लगाती। अबकी बार वह फिलिपेंड की सीमा की ओर कामपर गया था, जहाँ से

कुछ सौधी-सादी आर्माण लड़की को विवाह लाया। उनके पास न राशनकार्ड था और न पैसा ही। लेकिन सिरियोन्ना को कोई परवाह नहीं थी। वह हमारे यहां कुछ दिन रह जाने और कुछ दिन कहीं दूसरी जगह। लड़की बेचारी काम इंड रहती थी, लोला भी कोशिश कर रही थी।

यात्रा के रास्ते की फिर चिन्ता होनी जरूरी थी, क्योंकि अंग्रेज का आधा महीना वीत रहा था और शायद जून में ही यहां से जाना हो। लंदन के एक मित्र को लिखा, तो मालूम हुआ वहां से बम्बई तक का जहाज का किराया ७२ पौंड है। जहाजों की कमी और यात्रियों की अधिकता के कारण कमी-कमी महीना भर इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने यह भी लिखा, कि लंदन में महीने भर के लिये ४० पौंड खर्च चाहिये। ११२ पौंड का सीधा हिसाब बन रहा था, और यहां अपने पास ६० ही पौंड का बैंक रह गया था, इसलिये वहां होकर जाने का ख्याल छोड़ने का मन हो रहा था। वात्सागर के रास्ते की और कमी कमी मन जाता था। पता लगाने पर मालूम हुआ कि अदेस्सा बन्दर से सोवियत के जहाज बराबर जाया करते हैं। सोवियत जहाजों में सबसे बड़ा फायदा यह था, कि हम सोवियत के सिक्के को इस्तेमाल कर सकने थे, लेकिन और पूछने पर मालूम हुआ, कि सोवियत जहाज बम्बई की ओर नहीं जाता, वह फिलिस्तीन के बन्दरगाह पर उतारकर अमेरिका की ओर चला जायेगा। फिलिस्तीन से पोर्टसईड तक का पैसा कहां से आयेगा और पोर्टसईड से बम्बई के लिये भी तो किराया चाहिये। अगर लड़ाई नहीं होती, तो हमारा साठ पौंड के बैंक पर रूस का नाम दर्ज होने की आवश्यकता नहीं थी, फिर तो हम आपानी से फिलिस्तीन या पोर्टसईड में अपने बैंक को मुना सकते थे, लेकिन वह तो होनेवाली बात नहीं थी। अभी हम यात्रा-मार्ग के बारे में किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाये, यही कह सकते थे, कि अब भारत जाना निश्चित है। ईगर इस साल दो-दो बार बीमार पड़ा, जिससे उसकी पढ़ाई में हर्ज हुआ। आखिर में परीक्षा के समय भी बीमार हो घरमें पड़ा रहा। लेकिन सोवियत के शिक्षा-विभाग को सिर्फ पढ़ाने की ही नहीं, बल्कि बच्चों को आगे बढ़ाने की भी फिकर रहती है, इसलिये

ईंगर को अध्यापिका ने वर आकर उसकी परीक्षा ली। गणित और रूसी भाषा की परीक्षा में उसे ५-५ अंक मिले, यानी शत-प्रतिशत। लिखना उतना अच्छा नहीं था, इसलिये ४ अंक मिले, निश्चय में भी ४ अंक। सबसे कम अंक उसे शारीरिक व्यायाम में मिले क्योंकि ३ जो कि पास-मार्क है। आज सभी मां-बाप अपने बच्चों की सफलता के बारे में जानने के लिये स्कूल में इकट्ठा हुए थे। अध्यापिकाओं ने साल भर का हिसाब दिया। ईंगर अपनी बलास में प्रायः सभी विषयों में प्रथम रहता रहा, यह जान कर खुशी हुई !



## १८- अन्तिम महीने

सिनिंगमा कोई दुर्लभ नहीं था, मरे लिये ही नहीं, बल्कि दूररे जागृत्को के लिये भी यही बात थी। वह तो गाँवों तक में सुलभ था, लेकिन नाटक दुर्लभ चीज थे, उसमें भी बैले ( कथाकला ) मेरी सब से प्रिय चीज थी। अब चलते-चलाते उसके देखने के किसी अवसर को मैं हाथ से छोड़ने के लिये तैयार नहीं था, तो भी प्रतिस्प्ताह एक से ज्यादा देखना पसन्द नहीं करता था। उस वक्त “ जोलुष्का ” नामक बैले ही रहा थी। उस अपने बैले के लिये अद्वितीय है, सर्वोत्कृष्ट नृत्य और अभिनय देखना हो तो रूसी बैले को देखें। मैं भोच रहा था, सोवियत के अभिनेता यूरोप तक अपनी कला का प्रदर्शन करने जाते हैं, फिर क्या इन्हें भारत नहीं भेजा जा सकता। यहाँ माथा का भी सञ्चाल नहीं, उसके लिये जैसा लेनिनग्राद, वैसा ही लंदन और बैसा ही दिल्ली। लेकिन फिर क्याल आता : अभिनय के सामान और कलाकारों के सम्बन्ध में जो साखर्ची यहाँ भरती जाती है, उसे ले जाना मुश्किल होगा। चाहे हजार नटों और नटियों, वादकों और वादिकाओं को यहाँ से हिन्दुस्तान भेजना कितना व्यय-साध्य होगा। यदि उन्हें कम कर दिया जाय, जिसके लिये बैले

जो भी काट-छांट करना पड़ेगी, तो शायद भेजा जा सके। इसे देखकर भारतीय चागरिकों और कलाकारों की भाँव खुल जायेगी और वह समझेंगे कि यह उन्हीं क्रोशेविकों के देश को चीता है, जिनका कला और संस्कृति का शत्रु समझा जाता है।

२० अप्रैल को लोता की वाक्सगो वेरा निकोलायेवना की खबर आयी : उसको कारागृह (जहरवाद) ही गया था। बेचारी बूढ़ी मुश्किल में बची थी। एकर कई महीनों से वह लेनिनग्राद और क्रिविशियेफ को एक कर रही थी। अपने पिता की इकलौती बेटी थी। लोला और उसके पिता एक ही वर्ग के तथा मित्र थे, इसलिये उनकी पुत्रियों में भी बड़ी घोरनी थी। वेरा का पिता एक भराइर इंजीनियर तथा बहुत धनी आदमी था। उसके पास एक डबे भर चाँदी-सोने और कामती चीनी-मीटों के बर्तन तथा अन्य चीजें थीं जिन्हें साथ लिये बिना यह युद्ध के समय लेनिनग्राद छोड़ने के लिये तैयार नहीं था। जर्मन लेनिनग्राद के नजदीक पहुँच गये थे, इसलिये भले दत्त इंजीनियर को खोलने के लिये सरकार तैयार नहीं थी। आखिर सोवियत सरकार अपने विशेषज्ञों की नाजबंदारी के लिये तैयार तो रहती ही है, इसलिये वेरा के पिता को एक माल का डब्बा दिया गया, जिसमें बूढ़ा अपने सामान को लाद कर क्रिविशियेफ पहुँचा, जहाँ उस समय सोवियत की अस्थायी राजधानी थी। वेरा को पति लड़ाई के बाद लेनिनग्राद चला आया, इसलिये वेरा बराबर पिता के साथ नहीं रह सकती थी। पिता की कोई परिचारिका थी, जो मरने के समय उसके साथ रही। लड़की को खबर आयी। पहुँचते पहुँचते दो नार दिन लग ही गये, तब तक कितनी ही चीजें परिचारिका हटा चुकी थी। उसने यह भी दावा किया था, कि वह बूढ़े की पत्नी है, इसलिये बची-खुची सम्पत्ति — जो भी पचासों हजार की होगी — में उसका हिस्सा है। वेरा बेचारी को अब दीवानी अदालत का मुँह देखना पड़ा। यह ठीक था, विवाह की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, इसलिये परिचारिका के पास विवाह का कोई प्रमाण-पत्र नहीं था, किन्तु सोवियत कानून विवाह के लिये रजिस्ट्री को अनिवार्य नहीं मानता। अब मामला गवाहों पर था। गवाह वेरा

के पक्ष में ही मिल रहे थे, इसलिये उसे उम्माद थी, कि तारी संपत्ति उसे मिल जायेगी। उसे एक-कप बोर्डे (अलसारी) की बड़ी जिम्ता थी। कह रही थी, उमकी दर्राज के एक कौने में मेरे पिता ने अपने घर के पुराने रत्नों को छिपा रखा है, जिनका पता पिता और पुत्री के भिवा और किसी को नहीं है। वह किसी तरह में उस कपबोर्डे को अपने हाथ में करना चाहती थी, लेकिन अभी तक उसमें सफल नहीं हुई थी, बीच में बेचारी दो-तीन महीने में इस बुरी बीमारी में पँस गई थी और संकोच के भारे उसने अपनी बालसखी को भी अभी अभी सूचित किया। वेरा के इस उदाहरण से सोवियत के दीवानी मुकदमे की भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है। सोवियत में वैयक्तिक संपत्ति है, यद्यपि धरती और कल-कारखाने आदि उत्पादन के साधन किसी की वैयक्तिक संपत्ति नहीं हो सकत। दूसरे रूप में आदर्सी लाखों की संपत्ति रख सकता है। वस्त्राभूषण, बहु-मूल्य रत्न, बर्तन, चित्रपट, घर सामान आदि आदि बहुत सी चीजें वहाँ वैयक्तिक हैं, जिन पर सोवियत सरकार स्त्री और बच्चों का उत्तराधिकार मानती है, और उस पर लालचभरी नजर नहीं डालती।

२२ अप्रैल को ईगर को लिये प्राणी संग्रहालय में गये। अपनी एक मिट्टी आगया था, बाकी करीब करीब बही जन्तु थे, जिन्हें हमने पिछले साल देखा था। हाँ, एक ऊँट और एक सफेद भालू भी शायद नये थे। ऊँट पर लड़कों को चढ़ाकर घुमाया जाता था। ईगर को देखने में बड़ी दिलचस्पी थी, किन्तु बढ़ने के लिये न वह ऊँट पर तैयार था न कठबोड़े पर।

इधर उधर धूमते रहे, इस ख्याल से कि अब नला-जल् की बेला है; लेकिन १५-२० पौडों के बिना काम बिगड़ रहा था। सोचते थे यदि काबुल तक विमान जाता, तो कितना अच्छा रहता, किन्तु अच्छा कहने से थोड़े ही ऐसा हो सकता था। तेहरान तक विमान जाता था, लेकिन भरसक हम ईरान के रास्ते लौटने के लिये तैयार नहीं थे। हम अपनी खिडकी पर बैठे इसी तरह की बातें सोच रहे थे, और लोग बाहर की पड़ी जर्मन में आलू और दूसरी तरकारियाँ बो रहे थे। २५ अप्रैल को वर्षा हो गई थी, लोग अपने काम में

हुट गये थे। यहा सान-भाजा और गांवों में गहूँ आदि खेतों में बोये जा रहे थे, उसी समय तुर्कमानिया में अभी अभी फसल काटी गई थी। तुर्कमानिया यद्यपि सोवियत का सभसे गरम प्रदेश माना जाता है, लेकिन यहाँ भी ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ पर साल में एक बार बर्फ न पड़ती हो।

२५ अप्रैल की दिल्ली रेडियो की खबरों को सुनकर मैं कहने लगा : क्या हो गया, जो अब हिन्दी शब्द भी आने लगे। दिल्ली रेडियो तो हिन्दुस्तानी के नाम से उर्दू का पृष्ठपोषक था। कभी कभी सिर दर्द पैदा करने वाला प्रोग्राम भी हमारे रेडियो पर चलता आता था। २७ अप्रैल को अशोक के कविग-विजय का नाटक प्रसारित किया गया, जिसमें लेखक ने शब्द का प्रभाव भी करवाया था। इन्हें देव-राजा का भी डर नहीं। ऐतिहासिक कहानी और नाटक खेलते वक्त तत्कालीन समाज के ज्ञान की बिलकुल आवश्यकता ही नहीं समझी जाती। दुनिया में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे लोग ऐसे नाटकों को सुनते होंगे, वह हमारे उद्योग पर कितना हँसते होंगे ?

२६ अप्रैल आया। अब विदेशी विनिमय और सोवियत से बाहर जाने का (निर्यात) विज्ञापन की चिन्ता हुई। पढ़ाई का काम बस दो ही तीन दिन का रह गया था, जिसके बाद वार्षिक छुट्टी हो जाने वाली थी। सरकारी बैंक में गये। कहा गया — विदेशी बैंक का विदेशी सिक्का नहीं मिल सकता, वह खर्च देने के लिये तैयार थे, लेकिन हमारे पास तो हजारों खबल थे। यहाँ दिखलाई पड़ने लगा कि और रास्ता न निकलने पर लंदन का रास्ता ही लेना पड़ेगा। लंदन आर काबुल बस दो ही तरफ नज़र थी। जर्बत जाने और कुछ नई चीजों को देखने के लिये तो काबुल का रास्ता अच्छा था, लेकिन निश्चिन्तता-पूर्वक जाना लंदन के रास्ते ही हो सकता था। इन्तूरिस्तवाले हमारी विशेष सहायता नहीं कर सकते थे। वह मास्को जाने की सलाह दे रहे थे। मैं सोच रहा था, अगर मास्को जाना हो तो फिर उधर से उधर ही जाना अच्छा होगा। तेहरान जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ इतने परिचित थे, कि भारत लौटने के लिये रुपया मिल सकता था, अथवा दो चार दिन रह कर

तार से रूपया मंगा सकता था, लेकिन चार मन कितारों जो साथ में थीं ।

जून का महीना शुरू हो गया । ३ तारीख को लंदन में २२° डिग्री फारेनहाइट तापमान था, लोग गरमी के मारे तड़फड़ा रहे थे । और यहाँ आज बादल नहीं था, तो भी सरदी साथ छोड़ने के लिये तैयार नहीं थी । मई के अन्तिम असाढ़ में ही सर्वा-शुक्लारानि शुरू हो गई थी, जिससे अब अग्न्यण्ड प्रकाश देखने को मिल रहा था । इस साल ज्यादा तैयारी मालूम होती थी । लड़ाई के दिनों में उदास हो गये लेस्मिन्ग्राद का एक विशाल उद्यान वायुशिकन अब काफी सजा हुआ था । पान, भोजन आदि की दुकानें खुल गई थीं, लड़कों के भूलने का कठघोड़ा भी लग गया था । रंगाई और सफाई का काम भी हो चुका था । एक तरफ वायुशिकन पर हिटलरी आक्रमण का चिन्ह नहीं रह गया था, जो घर से बहुत दूर नहीं था, इसलिये चाहते तो रोज वायुशिकन उद्यान जा सकते थे, लेकिन इसको टहलने का और ईगर को परिश्रमवाला खेल खेलने का कम शौक था । ५ जून को जब हम वहाँ गये, तो ईगर की समवयस्का लड़कियाँ जितनी अच्छी तरह खेल रही थीं, वह उतना भी खेल नहीं सकता था । चार साल का बच्चा भी यदि झिड़क दे, तो वह डर जाता था । मैं सोचता था—इतना डरपोक क्यों ? क्या यह स्वाभाविक भरता है, या कोगरू माँ के लालन-पालन का परिणाम । शायद दोनों का । पढ़ने में वह अच्छा रहेगा, इसमें शक नहीं । तीसरे दर्जे में पढ़ाई जाने वाली साहित्यिक पुस्तकों को वह धँटो अकेले में पढ़ता रहता था, कविताओं को भी समझता और रस लेता था; लेकिन जान पड़ता है, शारीरिक साहस के कामों में वह पीछे ही रहेगा । शायद पीछे बुद्धि के ताले जब पूरी तौर से खुल जायें, तो वह अपने ही कुछ सोचकर इतना डरना पसन्द न करें ।

७ जून को वस्तुतः गरमी मालूम हुई । लेकिन गरमी का मतलब हमारे यहाँ का गरमी का मौसम नहीं । किसी वक्त अपनी स्कूली पाठ्य-पुस्तक में पढ़ा था—

“मई का आन पड़ुंवा है महीना । वहाँ चोटों से एड़ी तक पसीना !”

लेकिन यहाँ मई में तो अभी ऊनी कपड़ों को छोड़ने की दिम्मत नहीं



थी, लेकिन आज तापमान ३०° सेंटीग्रेड से नीचे हो था। यह तो यहाँ का सर्वोच्च तापमान समझा जाता है। लेकिन प्रतिमान वहाँ तापमान दूहराया जाये, यह कोई आवश्यक नहीं है। ६. तारीख को हम सांस्कृतिक उद्यान में गये। पिछले साल जून में मैं नदी में नैरा था, लेकिन अब के पानी टंडा था, इसलिये लोग पिछले साल की तरह नहाने की हिम्मत कैसे कर सकते थे ?

इंत्ूरिस्त ने बतलाया कि आज ( ७ जून ) यहाँ से लंदन का जहाज छूट रहा है और अब से हर पखवार एक जहाज जायेगा। अगले महीने में ५ जुलाई के आस-पास उसके जाने की बात सुनकर मैंने उसी दिन की प्रथम-दिन मित्रों को बतलाया। जाने का समय निश्चित-ता हो रहा था। मन में विचित्र-सा भाव पैदा हो रहा था। २५ महीने लेनिनवाद में रह कर उस स्थान को छोड़ना था। वहाँ के अनुभव अधिकतर मयुर थे, कष्ट अनुभवों की मात्रा बहुत कम थी, और उसमें भी जो बात दिलको खटकती थी, वह थी लेखनी का सफा रहना। अदेस्सा चिट्ठी भेजकर इंत्ूरिस्त ने खबर मंगवायी थी, इतना ही मालूम हुआ कि वहाँ से अमेरिका जानेवाला जहाज जुलाई के प्रथम सप्ताह में जायेगा और हैफा ( फिलिस्तीन ) में मुझे छोड़ देना। आगे की समस्या का कोई हल नहीं था।

२५ जून ( रविवार ) को संस्कृति उद्यान में एक दिन की छुट्टी चिताने गये। सचमुच ही इस साल उसकी कायापलट हो गई थी। उद्यान बहुत साफ-सुथरा और सुज्यस्थित था। इमारतों की भी सभ्यता होगई थी और उन पर रंग भी पुत गया था। भोजन की अब कोई शिकायत नहीं थी, और न मेज पर बैठे देर तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। पिछले साल से सारी उन्नति हुई थी, इसमें शक नहीं। उतनी गर्मी नहीं थी, इसलिये आज नदी में नहाने-वाले कम थे। एक जगह मैदान में अमेरिकन जाज बज रहा था, वहाँ और दूसरी जगह वाद्य, गान और नृत्य हो रहे थे। आज यह देखकर प्रसन्नता हुई कि पिछले दो सालों में लोगों को जिन बातों की शिकायत थी, वह दूर हो गई। वस्तुतः सोवियत वाले प्रथम काम को प्रथम करना जानते हैं। पहले मकानों

और कारखानों को रहने और उत्पादन के लायक बनाने की आवश्यकता थी, इसलिये उनका सारा ध्यान उधर लगा था; अब वह बाकी चीजों पर भी ध्यान दे रहे थे। नेटवर्क राजपथ और दूसरी सड़कों पर गिरे पड़े, या टूट-फूटे मकान विलकुल तैयार हो गये थे— मुख्य नगर में एक तरह से युद्ध का कोई चिन्ह बच नहीं रहा था। मकानों के निर्माण और मरम्मत का और ही ध्यान नहीं दिया गया था, बल्कि उन पर सुन्दर रंग भी पोता गया था। रंग के काम में द्वात्र-द्वात्राओं के संगठनों ने बड़ी सहायता की थी और इस तरह उन्होंने दूसरे मजदूरों को अन्य कामों के लिये मुक्त कर दिया था।

मैं पता लगा रहा था, कि कोई सुदूर-पूर्व की ओर जाने वाला जहाज जाता मिले। सोचा था शायद भारत समुद्र से अलादीयोस्तोक्रेक का जहाज जाता हो, जिससे हम कोलम्बो में जाकर उतर सकते। बहुत ढूँढ़-ढोंढ़ करने पर भी ऐसा कोई जहाज नहीं मिला। अदेस्सा से ५ जुलाई को अमेरिका जाने वाला जहाज हैफा में छोड़ देगा, इतना मालूम हुआ। एक सहृदया महिला ने अपने पास दर से रखे १२ डालर मुझे दे दिये, लेकिन तीन साढ़े तीन पौंड से क्या हो सकता था ? हां, इतने से बच्चा-तट से मज्जर शरीफ तो मैं पहुँच सकता था। लेकिन १६ जून को मेरे मित्र डा० बाके विहारी मिश्र का पत्र लंदन से आया, जिससे फिर विचार बदलना पड़ा। उन्होंने कहा, यहाँ से दूसरे दर्जे का बम्बई तक का किराया ५२ पौंड है और लंदन में रहने के लिये ४ पौंड सप्ताह से काम चल जायेगा। ६० पौंड का चेक मेरे पास था, इसलिये बिना किसी की ओर मुंह ताके यह बात होने लायक थी। बाकेजी मेरे पुराने सहयोगी मित्र थे। विहार में किसान-सत्याग्रह करके मैं जेल चला गया, तो उन्होंने एक हाई स्कूल की प्रवचनाध्यापकी डॉइकर किसान-सत्याग्रह को संभाला और बड़ी लगन से काम किया। इधर वह इतिहास में प एच० डी० करने के लिये लंदन आये थे। उनकी सलाह थी, साथ ही भारत चलने की। मैंने उनको लिख दिया, कि पांच जुलाई के जहाज से यहाँ से चलाँगा और १६ जुलाई को लंदन पहुँच जाऊँगा।

खिड़की में देख रहा था २० जुलाई, को लोग खेतों में आलू निकाल रहे थे। निराई करके पानी देना भी शुरू कर दिया था, लेकिन हमारे आलू रामभरोसे चल रहे थे।

२१ जून से यात्रा की तैयारी की कुछ चीजें भी खरीदी जाने लगीं। कपड़ा-लत्ता हमें लेना नहीं था। १५ रूबल की एक टूथपेस्ट खरीद ली। पोर्टफेल का दाम ११० रूबल था। हमने सोचा, बाहर थोर सस्ता मिल सकता है, इसलिये खरीदने की क्या आवश्यकता? हमारे पड़ोसी इंजीनियर-महिला से जब साग-सब्जी के बारे में पूछा, तो उसने कहा— हम में से कुछ ने लेनिनग्राद से ३० किलोमीटर पर अपनी तरकारी की खेती कर रखी है। छुट्टी के दिन हर सप्ताह चले जाते हैं। जब बीस-तीस रूबल किलोग्राम आलू खरीदना हो, तो लोग क्यों न २० मील तक का धावा बोले। हां, ये खेत रेलस्टेशन के पास थे। युद्ध के कारण बहुत से गांव उजड़ गये, इसलिये खेतों के मिलने में कोई दिक्कत नहीं थी। पूंजीवादी देश में यह नहीं हो सकता था, चाहे खेत परती रहतीं किन्तु साक्षिक को वेदखल कैसे करते ?

तिलाक के कानून के कड़ा करने से कैसे व्यवस्था हो सकती है, इसका उदाहरण हमारी पड़ोसन महिला तोस्या थी। वह विजली-मिस्त्रि थी। उसने पहिला पति छोड़ दिया था, शराब-खोरी और मार-पोट शायद कारण था, अब दूसरे पुरुष की पत्नी थी, जिसके साथ वह कई सालों से रह रही थी। पति लड़ाई के बाद सेना से मुक्त होकर घर आया था। दोनों का उम्र—महीने का बच्चा कोल्या था। चूंकि तिलाक लेना मुश्किल था, इसलिये पहिले पति से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ था और अब कोल्या कागज-पत्र में अपने बाप का नहीं बल्कि अपनी मां के पहिले पति का पुत्र था। ईगर की मौमेरी बहिन लोला ने भी विवाह कर लिया था, लेकिन उसके पति की भी पहिली पत्नी मौजूद थी। तिलाक लेने के लिये दो हजार रूबल दण्ड देने पड़ते, इसलिये दोनों ने बिना रजिस्ट्री के ही विवाह करके साथ रहना शुरू किया था। यह विचित्र सी बात मालूम होनी थी : एक स्वच्छन्द समाज में इतने कठोर वैवाहिक नियम क्यों रखे

जाये और क्यों पुत्र को अपने बाप को छोड़कर दूसरे का नाम रखने के लिये मजबूर किया जाय ? लेकिन इसके समाधान में कहा जाता था : "तिलाक को हलम करना अच्छा नहीं है । स्त्री पुरुष के संबंध का प्रभाव केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उनकी सन्तान पर भी लागू होता है । तिलाक का सुलभ कर देने पर कितने ही परिवार जल्दी जल्दी बनते घिरड़ते रहेंगे, जो कि संतान के लिये अच्छा नहीं होगा, यद्यपि तोस्या और कोक्या की स्थिति को हम अच्छा नहीं समझते ; तो भी परिवारिक स्थायित्व को अधिक लाभदायक समझ कर हमें तिलाक के लिये कड़ा नियम बनाना ही पड़ा ।"

२५ जून को हम निर्गम विजा ( देश के बाहर जाने का आज्ञापत्र ) के लिये आवेदनपत्र देने गये । अधिकारी ने कहा : यदि दक्षिणी सीमान्त ( अफगानिस्तान के रास्ते ) से जाते, तो हम दो दिन में विजा दे देते, लंदन के रास्ते जाने के लिये विजा मास्को की स्वीकृति से देना पड़ता है, जिसमें काफी दिन लग सकता है । जुलाई ५ का जाना फिर नंदिश्व होने लगा । फिर लंदन के रास्ते को छोड़ने का विचार मन में आने लगा । सोचने लगे, क्यों न अफगानिस्तान के रास्ते ही चलें ।

अब बोरिया-विस्तरा बघना और देखने सनने की बातें रह गई थी । २७ जून को मैं फिर रूस म्युजियम देखने गया । असी सारे कमरे तो नहीं सजाये जा चुके थे, किन्तु काफी चित्र और दूसरी चीजें देखने को मिलीं । चित्रों का देखने में मालूम हुआ, कि ग्यारहवीं से चौदहवीं सदी तक यहां भी पुराने ढंग के अधिकतर कल्पनिक और धार्मिक चित्र बनाये जाते थे । हमारे यहां की तरह वास्तविकता से उनका नजदीक का संबंध नहीं था । इसीलिये पोर्तरेत ( व्यक्ति ) चित्र नहीं बन सके थे । भारतीय कला युगकाल में उन्नति के शिक्षण पर पहुँची थी । उस समय चित्र और मूर्तियाँ दोनों ही बड़ी सुन्दर और भावपूर्ण बनती थीं; लेकिन यहां तक पोर्तरेत का संबंध है, हमारे कलाकार विलाकुल बच्चों जैसे थे, यह युग काल के सिक्कों को प्रीकोबास्तरा सिक्कों से मिलाने से साफ मालूम हो जाता है । १४ वीं सदी तक यही हालत रूस की भी थी । यह कहने

की अवस्थाकता नहीं, कि ईसाई होने से पहले के चित्र और देवमूर्तियाँ रूस में प्रायः नहीं हैं। हाज के पुराने शिकों के कुछ पुराने नगरों की खुदाइयाँ हुई हैं, जिनमें कुछ मूर्तियाँ मिली हैं उनपर प्राक प्रभाव साफ है। विशाल शक-जाति — जो ईश्वरी सन् के आरम्भ के समय चीन की सीमा से दग्ध के तट तक फैली हुई थी — के पूर्वांचल पर जहाँ भारतीय संस्कृति अपना प्रभाव डाल रही थी, वहाँ पश्चिमांचल पर ग्रीक प्रभाव पड़ रहा था। १६ वीं शताब्दी में रूस की चित्रकला का जरा-जरा वास्तविकता की ओर खिंचाव होने लगा, लेकिन अभी भूतकाल के भूत ने पीछा नहीं छोड़ा था। १७ वीं में वह कुछ कुछ छूटा, १८ वीं सदी में प्रथम पीढ़ी ने रूस को पश्चिमी यूरोप से मिलाना चाहा, जिसके कारण नये प्रकार के वस्तु-वादी चित्र बनने लगे, पोर्तरेत भी अच्छे खासे तैयार होने लगे, जिसमें पश्चिमी कला-शुरूओं की सहायता बहुत लाभदायक हुई। लेकिन अभी भी बहुत सी तस्वीरों में प्रत्येक मुख का पृथक व्यक्तित्व रेखाओं में अंकित करना बहुत कम हुआ था। यह काम १९ वीं सदी के शुरू से होने लगा। इवानोफ, रेपिन, मुस्कोफ जैसे महान् चित्रकारों के तुलिका पकड़ने पर रूसी चित्रकला विश्व की चित्रकला में सिर उठाकर खड़ी होने लायक हो गई।

उसी दिन “ स्तारिची वोदोविल ” नामक सोवियत रंगीन फिल्म देखने गये। १९४६ में बनने से, यह बिलकुल नयी चीज थी। इसमें, १९१४ ई० के आस पास के रूसी समाज और सारकों का बड़ा ही वस्तुवादी चित्रण किया गया था। अभी तक सोवियत फिल्मों में युद्ध और वीरता अथवा आर्थिक योजनाओं की प्रधानता रहती थी, जिनके कारण जो अमेरिकन या ब्रिटिश फैशन और प्रेम के फ़िल्म आते थे, उनमें भाड़ लग जाती थी। “लेडी हेमिन्टन” चित्र को लोगों ने न जाने कितनी बार देखा, क्योंकि उसमें अंग्रेज सेनापति नेल्सन और उसकी प्रेमिका का रंगीला जीवन चित्रित किया गया था। शाब्द सोवियत-फिल्म-उत्पादक भी अपनी घुटि को समझने लगे थे — केवल रूखे सूखे ज्ञानवद्धक चित्रों के प्रति लोगों के मन में आकर्षण नहीं पैदा किया जा सकता, अतएव ऐतिहासिक

पृष्ठ भूमि पर विलकुल वस्तुवाद के आधार पर बने इस फिल्म में ग्राम की माया ज्यादा थी, इसीलिये दर्शकों की भाँड़ बहुत होती थी। आग्नि के पहिले कितने ही वर्षों तक या पहिली पंच वर्षीय योजना के समय में भी सुत्रारूप, अधरराम जैसी विलास-साधग्रियों का उत्पादन और व्यवहार सोवियत में अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन उन्होंने देखा, कि स्त्रियों के इस स्वाभाविक आकर्षण को इस तरह हटाया नहीं जा सकता, इसका परिणाम यहाँ होता है, कि बटिया और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक वस्तुओं का उपयोग बढ़ जाता है। इसीलिये उन्होंने कितनी ही विलास-साधग्रियों के उत्पादन के लिये कारखाने खोल दिये।

२६ जून को अब हम साथ ले चलने की पुस्तकें छाँट रहे थे। दो साल में ६-७ मन पुस्तकें जमा हो गई थीं—वैसे जहाज द्वारा चलने के वारण ममां को ले चलने में किराये के अधिक होने का डर नहीं था, लेकिन डर लग रहा था : कहीं सांख्यिक कस्टमवाले कहने न लगें—“यह सारा पुस्तकालय यहाँ से उठाये लिये जा रहा है।” यह डर पीछे गलत साबित हुआ, लेकिन उस समय कितनी ही पुस्तकों को छोड़ देना पड़ा। हमारे बड़े चमड़े के सूटकेस और दूसरे बक्सों में भी सारी पुस्तकें नहीं आ सकती थीं। एक लकड़ी का पुराना मामूली बक्स हमने मग्या से खरीदा। लोला की भागिनियी लोला कुत्रभिना के पत्ति ने जब मुना, तो वह एक बहुत बड़ा बक्स बना के ले आये। उसका पेशा बदर्ह का नहीं था, लेकिन सभी तरह के कामों का अभ्यास करना यहाँ वालों की शिचा और रुचि में सम्मिलित हो गया है। हमें पुस्तकों के रखने की चिन्ता नहीं रही।

३० जून को विज्ञा के लिये एक और भ्रमड़ा पैदा हो गया। विज्ञा देनेवाले ने कहा : युनिवर्सिटी से छुट्टी-पत्र लाइये। मैंने सोचा था, साधारण ग्रीष्म की छुट्टियाँ दो महीना चलेगीं ही, चलते वक्त और आगे के लिये छुट्टी की दरखास्त देदूंगा। छुट्टी-पत्र में मुश्किल यह थी, कि उस पर रैक्टर का हस्ताक्षर होना चाहिये। दिन ५ रह गये थे, और रैक्टर बहुधंधी थे, मय था, शायद फिर सास्को का ही रास्ता लेना पड़े, क्योंकि सारी तैयारी करके दूसरे जहाज के लिये

पन्द्रह दिन और प्रतीक्षा करना मरे बस की बात नहीं थी। जोला को मेरी यात्रा पसन्द नहीं थी, यह श्वाभाविक था।

पहला जुलाई को इसी अतिशयित अवस्था में छुट्टीपत्र के फेर में पड़े, युनिवर्सिटी गये। जोला के कहने से पता लगा, कि शायद अब वह इतनी जल्दी न शिलत सकेगा। दोना माकोव्नागे रूसी में आवेदन-पत्र लिख दिया। मेरी रेक्टर के सेक्रेटरी को दे दिया। उन्होंने कहा— शायद कल तैयार मिले। कुछ आशा बड़ी, लेकिन अगले दिन तिरयोकी भी जमा था, ईगर में अन्तिम सेंट करने।

उस दिन हमारे विभाग की वार्षिक बैठक हुई। यह जानकर हमें और छात्राओं को भी प्रसन्नता हुई, कि पांचवें वर्ष की दोनों तरुणियाँ— वेया बल्चुक और तानिया शोगलोवा उत्तीर्ण हो गईं और पांच वर्ष की पढ़ाई के बाद, विश्वविद्यालय की स्नातिका बनीं। लड़ाई के समय उनका एक-दो वर्ष खराब हो गया था, नहीं तो पहले ही पढ़ाई समाप्त कर किसी काम में लगतीं होतीं।

वार्षिक बैठक और मेरी विदाई थी, इसलिये अकदमिक बराचिकोफ के यहां विशेष तैयारी थी। कितनी ही मिठाइयों और फलों के साथ उत्कृष्ट जाति का मद्य भी मौजूद था। हमारे सहकारियों में विस्कोव्नी की तबियत ठीक नहीं, थी, इसलिये वह नहीं आ सकें, नहीं तो सभी वहां मौजूद थे। प्रो० कालियानोफ संस्कृत महाभाग के रूसी अनुवादक डा० श्रेच्योव्स्की के प्रिय शिष्यों में थे, जिसके कारण उनके साथ मेरी अधिक घनिष्टता होनी ही चाहिये थी। वह संस्कृत के विशेषज्ञ तथा उसमें विशेष रुचि रखते थे। वह मुझसे बहुत मिलते और संस्कृत की अपठित पुस्तकों को पढ़ते रहते थे। दोना माकोव्ना गोल्डसान हिन्दी पढ़ती थी। “मत्सरोज” का उन्होंने रूसी में अनुवाद किया था। लेकिन, अब्रामोफ भी आज की पान-गोप्टी में सम्मिलित थे। अकदमिक बराचिकोफ ने विदाई के समय अपने हार्दिक भाव प्रकट किये। अंग्रेजी शरान से मैं आज भी बंचित रहा, शायद जीवन भर बंचित रहूँ।

२ जुलाई को रेल से तिरयोकी गये। जोला ने देर करदी, ट्रेन छूट

बाई, चौथे डेढ़ घण्टा फिजलैड स्टेशन पर प्रतीक्षा करना पड़ा । दो घण्टे में उन्हीं परिचित दृश्यों के बीच में गुजरते ट्रैन में हमें तिरयोकी पहुँचाया । सात मर में देश कितना आगे बढ़ा, इसकी नाप के लिये आज स्टेशन में उपवन में ले जाने के लिये लारी नहीं बल्कि युनिवर्सिटी की बस खड़ी थी— अब रंगो-पुतों आरामदेह, नई बस । उपवन में देखा, वहाँ बहुत से जये घर बन गये थे, कमरे भी साफ थे, सभी घरों में धिजली लग गई थी । बलब में रेडियो भी था । किनारे में समुद्र के जल तक तकड़ी के तरंगों का रास्ता तैयार हो गया था । भोजन भी पत्रिले में बहुत अच्छा था । कितना जल्दी बुद्ध का प्रभाव लुप्त हो गया था ? पिछले साल दावाग्नि स्वच्छन्दतापूर्वक कुछ ही मिनट पर जल रही थी, और कोई उसकी खोज-खबर लेने वाला नहीं था; इस साल जगह जगह दावाग्नि में सावधान रहने के लिये नोटिसें टंगी थीं । हमारे पिछले परिचित चेहरे बहुत कम दिखाई पड़ रहे थे । पेरिस में शिक्षा-भ्राता एक महिला अपनी दूसरी सखी के साथ समुद्र तट पर धूप और हवा लेने आई थीं । वह अपने साथ स्वास्थ्य-स्नान के लिये अपनी थिली भी लाई थीं, जो एक बड़ी समस्या हो गई थी । अपरिचित नई जगह थी, बेचारी को वह पसन्द नहीं आती थी, और वह रात भर चिल्लाती रहती थी । शाम को टहलते वक्त अकदमियों की नगरी में गये । अब वह अपने मेहमानों के स्वागत करने के लिये बहुत कुछ तैयार थी । पर सारे काठ के थे, लेकिन बहुत ही सुरक्षित और सुखद थे । उस रात तिरयोकी में शौं रह गये । अगले दिन भी चार बजे तक वहीं रहना था, इसलिये कितना ही दूर तक घूमने गये ! सभी जगह साल भर धैकार न रहने वाले हाथों की करामात का परिचय मिल रहा था । यह निश्चय था, कि अबको सल्ल आने वाले अतिथियों को बहुत सी बातों की शिक्षागत नहीं रह जायेगी !

४ बजे चलने के लिये तैयार हुये । ईगर छोड़ी दूर तक आया । ६ वर्ष का हो रहा था, उसी के अनुसार उसकी समझ भी बढ़ी थी । विदाई लेते वक्त वह फूट फूटकर रोने लगा । मैंने बहुत समझाया — लेकिन वह धैर्य धरने के लिये तैयार नहीं था । कहता था — तुम नहीं आओगे । क्या जाने



उसकी सविन्यवाणी ठीक निकले, यह ख्याल मेरे मन में भी आया, लेकिन जीवन-कर्तव्य किसी माया-मोह के कन्दे को मानने के लिये तैयार नहीं था। द्रवित हृदय को कुछ कड़ा करके उससे छुट्टी ली। लोला वहीं रह गई, और मैं पांच बजे शाम की गाड़ी पकड़ कर लेनिनग्राद की ओर चल पड़ा— किराया ४ रूबल था। ट्रेन शायद तिरयोकी से भी पीछे से आरही थी। उस वक्त उसमें खाली जगह बहुत थी, लेकिन नगर के पास के स्टेशनों से तरकारी वाले खेतों के नर-नारी शाम को लौट रहे थे, इसलिये भीड़ बहुत थी।

४ जुलाई को सवेरे उठने पर भी चिन्ता का बोझ हमारा बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस में जाने पर थिज्ञा-सहित पास-पोर्ट मिल गया। जहाज से बड़ी भीड़ नहीं थी, इसलिये एक दिन पहले टिकट मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी। मैंने पासपोर्ट और लंदन तक का ४५१ रूबल किराया इंत्रिस्त को दे दिया। लोला उस दिन दोपहर को तिरयोकी से आयी। उसने बतलाया, कि कल सोहर लगवाना है, नहीं तो मेरे दो महीने के वेतन के पैसे नहीं मिलेंगे। वेतन साढ़े चार हजार रूबल मासिक था, लेकिन उसमें चन्दे, मजूर-समा की मेम्बरी का शुल्क, इंश्योरेंस तथा पंचवार्षिक योजना के ऋण आदि के लिये डेढ़ हजार के करीब निकला जाता था। खैर, पैसे न मिलने की दिक्कत में मैं कल की यात्रा को स्थगित करनेवाला नहीं था, तो भी यह जरूर चाहता था कि रुपये ठमे मिल जायें।

५ जुलाई का दिन भी था गया। आज मुझे लेनिनग्राद में प्रस्थान करना था। युनिवर्सिटी में जा यह देखकर प्रसन्नता हुई, कि दो महीने के वेतन के रूबल लोला को मिल गये। हमारे खर्च के लिये ४५१ रूबल जहाज का किराया और भोजन तथा मोटर-कुली आदि के लिये ११० रूबल खर्च हुए। लोला के पास कई हजार रूबल रह गये। मासिक दो हजार रूबल उसको मिलते ही रहेंगे, यदि संभोल-भाषा की अध्यापकी पाकर उसने पुस्तकालय का काम नहीं छोड़ दिया। लंदन में पैसे की कमी होगी, इसलिये अपने प्रकाशक के पास रुपया भेजने के लिये तार दे दिया, वकिजी को भी लंदन आने की सूचना तार

द्वारा दे दी, कितने ही भिन्नों की चिट्ठियाँ लिख दीं। युनिवर्सिटी में दोस्तों ने भी मुलाकात हो गई। सभी अफसोस प्रकट कर रहे थे, लेकिन मैं कहता था— दो वर्षों में मेरा लिखने का काम खतम हो जायेगा, फिर मैं यहाँ आजाऊँगा— खाला मेरी बात पर विश्वास नहीं करती थी। हम दोनों की प्रकृति में सामंजस्य नहीं था। मैं पुस्तकों का एकान्त प्रेमी था और वह उसे उतनी आवश्यक बात नहीं समझती थी। कितनी ही बार हमारा मन मुटाव भी हो जाता था, यद्यपि झगड़ा करने का स्वभाव न मेरा था न उसका ही; इसलिये बात दूर तक नहीं बढ़ती थी। मुझे कविरत्न सत्यनाराण की पंक्तियाँ याद आती थीं— “भयो क्यो अन्-चाहत को संग ।” तो मैं उसका कृतज्ञ अवश्य था, क्योंकि कि कुछ स्वभाव सी बन गई बातों को छोड़ देने पर उसमें गुण भी अनेक थे।

उस दिन रेक्टर के कार्यालय में मालूम हुआ, कि अभी भी छुट्टी-पत्र तैयार नहीं हुआ। इंजिनियरिंग-वालों ने ४७ दिन के मेरे विश्राम-पत्र को पाकर कह दिया, कि इसमें काम चल जायेगा। मेरे सहकारी मित्र जहाज पर पहुँचाने आना चाहते थे, लेकिन इंजिनियरिंग-वालों ने धतलाया, कि पास बिना बन्दर के फाटक के भीतर जाने की इजाजत नहीं है। इंजिनियरिंग की कार सामान लेने हमारे घर पर आयी। सवा दस बजे निकलकर हम पहिले इंजिनियरिंग के आफिस में गये। सामान भेजने का काम उनका था। जहाज पाँच बजे जानेवाला था, इसलिये अभी हमारे पास दो-तीन घंटे थे, जिन्हें हमने जाकर युनिवर्सिटी में अपने भिन्नों के साथ बिताया। फिर कार पर लोला के साथ बन्दरगाह के फाटक पर पहुँचे। फाटक वाले ने रोका; इसलिये फाटक पर से ही लोला को बिदा करना पड़ा। बेचारी निराश और विकल थी। हमने शोकातिरेक को अधिक दिखवाने की कोशिश नहीं की। वह वहाँ से चली गई। कार हमें समुद्र के तट पर पहुँचाने गई। मेरे साथ इंजिनियरिंग के एजेन्ट थे। जहाज में चले जाने के बाद पानी बरसने लगा। मैंने समझा था, अब सबसे बिदाई ले चुका, लेकिन कलियानोफ नहीं माने। माँगते हुए, पास की दिक्कतों को न जाने कैसे दूर करने जहाज तक पहुँचे।

अज्ञान में कर उस वाली ने आकर खोजी की देखभात का, लेकिन उसमें बहुत दिक्कत नहीं हुई। एक पुरानी लपटी हुई पुस्तक को उन्होंने निकाल लिया। ईतूरस्त के आदमी ने जब बेरा परिचय दिया, तो उन्होंने उसे भी दे दिया और दो एक वस्तुओं को तो खुलवाया भी नहीं। “कैसे में फिल्म तो नहीं है।” पृथ्वी पर मैंने समझा था, नहीं है, लेकिन वेद पृथ्वीपोजर वाला सोचियत लाटका (फेद) फिल्म इतनी जल्दी थोड़े ही खतम होने वाला था। फिल्म वहाँ मौजूद था। खैर उसको निकाल दिया। अब मालूम हुआ, जैसे हृदय के ऊपर में भारी भार उतर गया। कलियानोफने ने बहुत अभिवादन और अतुनय धिनय के साथ विदाई ली, जरूर शोवात्सकी के बाद उनके साथ ही बेरा बहुत धानव मनेर था।



## १९- लंदन के लिये प्रस्थान

निश्चय और अनिश्चय के क्षणों में झूलते आखिर मर्दाने अर पहिले निश्चय किये दिन ( ५ जुलाई ) को मैं लेनिनग्राद से विदा हुआ । ३ जून १९४५ को मैं सोवियत सीमा से दारिद्र्य हुआ था । ४ को लेनिनग्राद पहुँचा था । गोंया २५ मर्दाने तीन दिन रहने के बाद मैं सोवियत-भूमि छोड़ रहा था ।

हमारे जहाज का नाम " वेल्पोस्वॉफ " यथार्थ " श्वेतद्वीप " था । पाँच घंटे वह खाना हुआ । "श्वेतद्वीप" बहुत सुन्दर नया पोत था । केबिन और शाला की सफाई और सजावट आदि में कमाल किया गया था । बिजली के लैम्प भी कलापूर्ण थे, और वहाँ चात कुर्सियों और मेजों की थी । १२ नं० का केबिन मुझे मिला था, जिसमें एक ही आदमी के लिये स्थान था । चाखाई, बिछौना और केबिन की भीतरी स्थिति बहुत साफ सुथरी थी, भीतर ही गल-ठंडे पानी के बलों के साथ धीनी का प्रकालनपात्र भी चमक रहा था, छोटे से काष्ठ-फलक ने टॉक देने पर वह छोटी सी मेज का काम देता था । केबिन में दो बगियाँ भी थीं । गवाश समुद्र की तरफ खुलता था, जिसमें दूर तक का दृश्य हम चारपाई पर बैठे

बैठ देख सकते थे। सभ्यता और स्वच्छता की कमीयों, रहने का कमरा नहीं, बल्कि पाखावा होता है। हमारा शौचालय भी बहुत साफ था, शॉक का कमोद चम-चम चमक रहा था। पालिश की हुई लकड़ी की दीवारों में चेहरा देखा जा सकता था। लादर्गी की दीवारों में देते हुए भी काफी सजावट और सफाई हर जगह पाई जाती थी। मैं इसकी तुलना उन लड़ाई जहाज में कर रहा था, जिस पर चढ़ कर तेहरान में सोवियत-भूमि में आया था। शायद अगर दो वर्ष पहिले सामुद्रिक यात्रा करना पड़ता, तो उस समय “श्वेतद्वीप” जैसा जहाज न मिलता। लड़ाई बन्द होने के दो वर्षों की सोवियत-गस्ट्रू ने हर काम में बड़ी-नत्परता के साथ इशतेमाल किया। उसका ही हमारे सामने यह फल था। लेनिन-ग्राद का बन्दरगाह भीधे समुद्र के तट पर न होकर जरा भीतर की ओर है, लेकिन वह बहुत बड़ा है, उसमें दुनिया के बड़े से बड़े जहाज सैकड़ों की संख्या में लंगर डाल सकते हैं। जहाज के चलते ब्रक्त किनारे पर हम देख रहे थे—मालगोदामों की पंक्तियां दूर तक चली गईं। यहां लड़ाई का प्रभाव अब भी था। बहुत-सी पेट्रोल की टंकियां टूटीं फूटीं पड़ी थीं। युद्ध के समय पेट्रोल की टंकियों को सबसे पहिले लूट्य बनाया जाता है। उनके तेल को ही नष्ट करना आवश्यक नहीं समझा जाता, बल्कि भीषण आग की लपट पैदा करके शत्रु के नगर को भी तबाह करने की कोशिश की जाती है; यद्यपि तेल-टंकियों को नगर से दूर रखा जाता है।

कुछ ही समय में हमारा “श्वेतद्वीप” अब फिनलैंड-खाड़ी के खुले समुद्र में आ गया। समुद्र चंचल नहीं था। ७ बजे रात्रि-भोजन हुआ—कटलेट, मकरोनी, कोई भिउआई, रोटी-मकखन और सेब। भोजन सुस्वादु था। हमारा जहाज उत्तर की ओर जा रहा था। साढ़े ग्यारह बजे रात्रि को अभी शोभूक्ति थी, रात केवल रुदिवंश ही कह सकते थे। समुद्र हिलोरें लेने लगा था, किन्तु हमें तो प्रकृषित समुद्र भी विचलित नहीं कर सकता था।

दलसिंकी— ६ बजे सवेरे जब खिड़की में बाहर की तरफ देखा, तो सामने फिनलैंड की हरित-भूमि दिखाई पड़ रही थी। देवदार वृक्षों में टैंकी

पहाड़ियां मानो समुद्र में बुबुकी खेल रही थीं। बहुत से छोटे छोटे द्वीप थे, जिनमें से अधिकांश आदिमियों के पास लायक नहीं थे। ६ बजे “श्वेतद्वीप” किनारे से जा लगा। मालूम हुआ, कि अब २४ घंटे जहाज को यहीं रहना है। हमारे जहाज में ४० से ज्यादा मुसाफिर नहीं थे। १६ घंटे में हम लैनिनग्राद में हेल्सिंकी पहुँचे थे! अब अगले २४ बंटों में अठारह बीस घंटे तो हम जूमेने फिनने में लगा सकते थे।

फिनलैण्ड के एक गृहपूर्व नगर — विपुरी को एक साल पहिले मैं देख चुका था, लेकिन विपुरी युद्ध-व्यस्त और पुराने निवासियों से परित्यक्त था, उससे हम किसी फिन-नगरी का अच्छी तरह अन्दाजा नहीं लगा सकते थे। यहाँ हमारे सामने फिनलैण्ड की राजधानी थी— किला, विशाल घर और गिरजे दूर तक दिखाई पड़ रहे थे। जहाजों के ठहरने के डक एक नहीं, अनेक थे। समुद्र इतना गहरा था, कि जहाज किनारे जाकर लग सकता था। बन्दर पर कोई युद्ध चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। पास-पोर्ट देखते समय नगर देखने का आजा-पत्र भी मिल गया, लेकिन बादल और वर्षा का डर था। मक्खन, गोभी, जाम, आमलेट, कॉको का प्रातराश हुआ। २ बजे मध्याह्न भोजन भी किया, फिर अपराह्न चाय तक हमारा घूमना-फिरना अधिकतर बन्दरगाह के पास ही रहा। वस्तुतः यात्रा में दो सैलानियों की बहुत आवश्यकता होती है, नहीं तो आदमी आलस्यवश या अरुचिवश देखने-भालने में अपने समय का पूरा उपयोग नहीं कर सकता। हमारे लिये हैलसिंकी नई नगरी थी, लेकिन वह यूरोप के दूसरे ही नगरों जैसी होने से कोई अधिक आकर्षण नहीं गन्ती थी। प्राकृतिक सौंदर्य को हमने ६ बजे से ही देखना और आनन्द लेना शुरू किया था। खैर पांच बजे शहर देखने के लिये निकले। यहाँ हमें कलकत्ते के धर्मतला जैसा मालूम होता था— मकान चौम-जिले-पंचमंजिले ज्यादा थे, और उसमें भी अधिकांश १६१७ के बाद के बने थे। कितनों ही की छतें सीमेन्ट की थीं, और क़ब्ज पर लाल टाइल भी दिखाई पड़ती थी— खास कर पास के द्वीपों में जो मकान थे, उनकी लाल टाइलवाली छतें, हरियाली के बीच में सुन्दर मालूम होती थीं। चौड़ी सड़कों के ऊपर आयादार

बुद्ध लगे हुए थे। नानानगाद रो यहाँ की ट्राम और मोटर परों चञ्चिक साफ-सुथरी थीं, लेकिन हेल्सिंकी की तेजिनगाद जैसी युद्ध की वैसी भयंकर भद्दी में से गुजरना नहीं पड़ा था। यहाँ वर्ग भेद का रूप स्पष्ट दिखाई पड़ता था। तेजिनगाद में सड़ारिनें भी आजार या किर्सादाथान में जाते समय भद्रवर्ग की महिलाओं जैसा रूप ही पहिच कर निकलती थीं, वहाँ फटे तुरे रूपड़े पहिने नर-नारी मिलने नहीं थे, किन्तु यहाँ मजदूरों के ऊपर दरिद्रता की भलक स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी, और उनके विरुद्ध उच्च और मध्यम वर्ग की फेशन में भरी नारियाँ भीदर्य प्रदर्शन करती देखने में आती थीं। जग ही आगे बढ़ने पर एक और बात ने दोनों संसारों के अन्तर को स्पष्ट कर दिया। एक धादमी ने थाकर चञ्चिजों में कहा— “ बहुत सुन्दर लड़कियाँ और बढ़िया अंगूरी शराब तैयार है, नलिये रात की बेहमानी कीजिये। मैंने कहा “ अन्यथाद, एके दोनों नहीं चाहिये। ” गोबियत बूझ में यह कर्सा सोचने की भी बात नहीं थी। विचार के कारण आज दुकानें शब्द थीं, खुली रहने पर भी खरीदने के लिये हमारे पास पैसा नहीं था। दर आतर जो किसी सहृदयजन ने दिये थे, उन्हें इतनी अच्छी खतर कर देना अच्छी बात नहीं थी। नगर के बरों, कारखानों, सम्पत्ति, तथा नागरिकों की पोशाक और जीवनतल को देखकर मैं सोचता था— फिनलैंड हमारे एक गोरखपुर जिले के बराबर भी नहीं है, लेकिन क्या गोरखपुर जिले में हेल्सिंकी और विपुरी जैसे नगरों की कल्पना की जा सकती है? क्या कारण है जो गोरखपुर इतना दरिद्र है और यह इतना धनी? इसका उत्तर कोई मुश्किल नहीं था। यह तो साफ था कि गाँधीवाद गोरखपुर का हेल्सिंकी के बराबर नहीं बना सकता। यहाँ के लोग अपने हाथ और बरितस्क का उपयोग करते हैं, साइस के नये नये आविष्कारों को तुरन्त बर्तने के लिये तैयार रहते हैं। पूँजीवादी वाधा होने के बाद भी यह इतनी सम्पत्ति पैदा कर सके हैं। फिनलैंड के जंगल फागज की खान हैं। यहाँ कितनी ही खानें भी हैं। इनके कारण इसके उद्योगीकरण में बहुत समीता हुआ, लेकिन हमारे यहाँ भी तो गढवाल और कुमाऊँ में इरगे भी ज्यादा खनिज और वानस्पतिक सम्पत्ति है, फिर वहाँ दरिद्रता का क्यों आखण्ड

नाश्व है। यदि फिनलैंड कागज की भूमि है, तो गोरखपुर चीनी की भूमि है। यह आपसी चीनी से देश भर की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, फिर पैसा पैदा करने के लिये तम्बाकू, सिगरेट के कारखाने, कपास और सूती मिलें जैसे बहुत से उद्योग-धन्धे वहां चल सकते हैं, धन से उम भूमि को पाट सकते हैं। यही सोचते हुए स्थावर-जंगम वस्तुओं पर दृष्टि डाले हेल्सिंकी की सड़कों पर पैरों का आगे बढ़ाता जा रहा था। किताब की दुकानें आयीं। शीशे के भीतर पचासों बहुत ही सुन्दर छपी नई नई पुस्तकें सजी हुई दिखाई पड़ गयी थीं। एक नहीं, कई किताबों की दुकानें थीं। क्या गोरखपुर शहर में इस तरह की किताब की दुकानें देखी जा सकती थीं? क्या जिस भाषा के ३५ लाख बोलनेवाले हों, उस भाषा में इतनी पुस्तकें भारतवर्ष में छप सकती हैं? ३५ लाख क्या १५-१६ करोड़ नर-नारियों की भाषा होने पर भी हिन्दी को इतनी संख्या में ऐसी पुस्तकों के छापने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। इसके लिये शिक्षा-प्रचार इतना होना चाहिये, कि देश में कोई स्त्री-पुरुष अनपढ़ न रहे, साथ ही धन पैदा करने के आधुनिक साधनों के उपयोग से लोगों की जेबों में पैसे भर देने चाहिये। राज-धानी के दो तीन उद्योगों को भी हमने देखा। आज छुट्टी का दिन था इसलिये नर-नारी वहां सनोविनोद के लिये आये थे। दो रेस्तरां खूब सजे हुए थे, जिनसे नर-नारी खचाखच भरे हुए थे। उनकी राजावट को देखकर पहले मालूम हुआ, कि फूलों का बाजार है। “किन्नी सवाय” मिला। उसके सामने टिकट खरीदनेवालों की इतनी लम्बी पांती थी, जिससे मालूम होता था, शायद इनमें से कितने ही आज तमाशा देखने से वंचित रह जायेंगे। लिविनग्राद में सिनेमाघरों की संख्या बहुत अधिक है, वहां दर्शकों से सीटें सदा भरी रहती हैं। लेकिन वहां सिनेमाघरों की अधिकता के कारण भीड़ नहीं होती, हरेक सिनेमाघर में एक और भी विशालशाला दर्शकों के प्रतीक्षा-ग्रह के तौर पर अवश्य होती है। टिकट न पानेवाले वहां जाकर बैठ जाते हैं। टिकट लेकर भी लोग प्रतीक्षा करने के लिये वहां चले जाते हैं। किन्हीं किन्हीं प्रतीक्षागृहों में तो गान-बाद्य का भी इंतजाम है। इसे हरेक पूंजीवादी देश फिज़ूलखर्ची समझेगा! सिनेमा का



टिकट आध १ स्वयं में खरीदे, और मुफ्त में गान-वाद्य का आनन्द भी मिले। सोवियत के इन प्रतीका-गृहों के साथ खाने पीने की चीजों की दुकानें होती हैं। प्रतीकाओं के वहां रहने में चीजों की बिक्री भी होती है। शायद इन बिक्री में प्रतीकागृह का खर्च निकल आता हो। फिनलैंड के लोग उर्मा वंश से सम्बन्ध रखते हैं, जिससे हमारे देश के द्रविड़-मुंडा लोग। भाषातत्त्वज्ञों का विचार है, कि नव-पाषाण युग में द्रविड़ों की पूर्वज जाति का एक शाखा उत्तर की ओर फेंक दी गई। उसी की संतानें कोसी, इस्तोनिया, और फिनलैंड में आजकल रह रही हैं। हमारे यहां शुद्ध द्रविड़ की पहचान शरीर का काला होना है, लेकिन हेलसिंकी में काले बाल वाले नर-नारी भी मिलने बहुत मुश्किल थे। क्या ६-७ हजार वर्षों तक अतिशीतल प्रदेश में रहने के कारण इतना अन्तर हो गया ? हां, हेलसिंकी-की गलियों में भी ऐसे नर-नारी बहुत थे, जिनका फोटो लेकर यदि किसी शुद्ध द्रविड़ पुरुष-स्त्री के फोटो से मिलाया जाता तो समानता साफ दिखलायी पड़ती— फरक रंग का ही था, नहीं तो नाक, चेहरे की हड्डी और वना-बट, तथा शरीर की खर्दकायता एक ही जैसी थी।

हेलसिंकी का “स्वेतद्वीप” ने ७ जुलाई के सवेरे बड़ा। रास्ते में कई जगह उसने थोड़ी थोड़ी देर तक रुककर, कहीं कौयला लिया और कहीं यात्री। अब जहाज में खाली स्थान नहीं रह गया था। मेरे दिमाग में अब भी फिनलैंड हलचल मचाये हुए था। २५ लाख की आबादी वाले देश में हेलसिंकी जैसे नगर, ट्राम, रेल, जहाज, विमान, युद्ध के बहुव्ययसाध्य यंत्र और आदमियों का सारा लिकाफा। फिर वहां के सैकड़ों यात्री मनोविनोद या किसी और काम के लिये स्वीडन, और इंग्लैंड की यात्रा कर रहे थे। हमारे देश के लिये तो यह स्वप्न की-सी बात थी। पुराने रूस के पितरबुर्ग जैसे नगरों में भी अभिजात्यवर्ग की सुख-सम्पत्ति बहुत रही होगी, लेकिन जन-साधारण रूसी तथा परार्ध-न एसियायी दरिद्रता की क्रूर चक्की में भिस रहे थे। सोवियत शासन का बहुत बड़ा काम यह है— समाजवाद के आधार पर उसने अपने उद्योग-धंधे को बहुत नेजी से अत्यन्त विशाल रूप में प्रस्तुत करना। समाजवाद ने इतनी शक्ति और

साधन पैदा किये, जिसके कारण रूस में युद्ध में अपने को अजेय साबित कर दिया। संस्कृति और शिक्षा का जितना सार्वजनिक प्रसार वहाँ पर है, उतना कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी भी उसको करने को बहुत काम है। अपनी कितनी ही प्रतियों को दूर करने की आवश्यकता है, लेकिन जो काम सोवियत शासन ने किया, उसके लिये हम उसके साथ खून नहीं हज़ार खून माफ़ करने के लिये तैयार हैं। समय के साथ सोवियत की नौकरशाही यांत्रिकता से अवश्य हटेगी, और उसके कार्यों में ज्यादा विकेन्द्रीकरण होगा। नगरों से लोग जिनकी संख्या शायद हज़ार ब्यां लाख में एक ही, यदि चाहते हैं, कि सोवियत तंत्र और उसके नायकों के खिलाफ कुछ कहे, तो उन्हें भी पूरा मौका दिया जायगा क्योंकि उससे कोई हानि नहीं हो सकती। ऐसी कुछ प्रतियाँ— जिनका अन्तर बहुत ही नगरों की संख्या पर पड़ता है, बड़ी है, जिनको लेकर सोवियत और समाजवाद के शत्रु दुनिया में तरह तरह का प्रोपेगण्डा करते हैं। केवल एक ख्याल से भी उन्हें हटाना होगा।

८ बजे कर १० मिनट पर “श्वेतद्वीप” ने हेलमिकी छोड़ा। यहाँ से हमने हवाई डाक से कई चिट्ठियाँ भेजीं।

स्टाकहोम— ८ जुलाई को सबेरे समुद्र कुछ तरंगित था। ५ बजे शाम को देवदारों से आच्छादित स्वीडन की पथरीली भूमि दिखाई पड़ी। ६ बजे “श्वेतद्वीप” फ़्लोर्ड में घुसा। स्वीडन और नावें अपने इन फ़्लोर्डों के लिये सशर्त हैं— समुद्र की मूर्छे प्योर्ड के रूप में स्थल के भीतर घुसी चली गई है। इनके किनारे बालुकाहीन तथा पथरीले हैं, किन्तु मिट्टी अवश्य है, तथा तो इन पथरीली पहाड़ियों और द्वीपों पर सब जगह हरे भरे देवदार-जातीय वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। एक एक फ़्लोर्ड से निकल कर हजारों टेढ़े-मेढ़े सोते दूर तक चले गये हैं। एक घूम-घुमावै फ़्लोर्ड के भीतर हमारा जहाज चला जा रहा था। किनारे की पहाड़ियों पर जगह जगह लाल टाईल के लाल-गृह बने हुए थे, जिनमें यातायात का साधन नौकार्ये थीं, जो कि अधिकतर मोटर परिचालित थीं। हम राजधानी की ओर बढ़ रहे थे, इसलिये एकान्ध फ़िक्ता-बन्दी न हो, तो

कैसे काम चलता ? लेकिन स्वीडन अपनी कित्ता-बन्दी पर नहीं, बल्कि तटस्थता पर ज्यादा विश्वास रखता है। दो-दो महायुद्धों में वह तटस्थ बना रहा और हमारे देश के दो-तीन जिलों के बराबर के देश ने धन में अपने देश को माला-माल कर दिया। कहीं यह छोटा-सा देश इतना शक्तिशाली था, कि इसके विजेता रुस तक थावा भारत थे। उन्होंने ही वहाँ के रोशरिक राजवंश को जन्म दिया। २५ बंटों की यात्रा के बाद ६ बजे सवेरे “ एवेनट्रीप ” स्ट्राकहाम के तट पर जा लगा। शहर यहीं से शुरू हो जाता था। पास-पोर्ट देखने-दूखने में काफी वेंर लगी, शायद दो-शे-चिकों के देश का जहाज था, इसलिये पूंजीवादी स्वीडन को बहुत भय था। मालूम हुआ, अब परसों शाम तक जहाज यहीं रहेगा। देखने के लिये बहुत समय था। काश, अगर पन्द्रह ही पींड और हमारी जेब में होते, तो हम आधे स्वीडन को देख आते। केवल १२ डालरों पर क्या भरोसा कर सकते थे, जबकि लंदन में कृन्ती और टैक्सी का पैसा भी इन्हीं में से चुकाना था। स्वीडन के अधिकारी ने पास-पोर्ट देख-दाख कर वहीं राशन कार्ड भी दे दिया। लेकिन हमारा राशनकार्ड लेकर क्या करते, हमें तो “ एवेतट्रीप ” के भोजन पर ही संतोष करना था। नगर भी सामुद्रिक धाराओं के किनारे ही बसा हुआ है। जन-संख्या में स्वीडन फिनलैंड से दूना बड़ा है, इसलिये उसकी राजधानी भी हेल्सिंकी से अधिक विशाल और भव्य होनी चाहिये। कितने ही भकान पास की पहाड़ियों पर बने होने से और भी अधिक बड़े मालूम होते हैं। लोग प्रायः सभी पिंगल या पांडु-केश थे। खोपड़ियां उनकी लम्बी तथा कद उँचे थे। इन्हें असली हिन्दी-यूरोपीय ( आर्य ) जाति का नमूना माना जाता है। अपेक्षाकृत यहाँ के लोगों में सौंदर्य भी अधिक है यह मानना पड़ेगा।

६ जुलाई को सारे दिन स्ट्राक हॉम में रहना था। खर्च करने के लिये पैसे तो नहीं थे सँभ्र रहने का भी डर नहीं था, इसलिये चाय और भोजन के समय को छोड़कर बाकी समय हमने अपने पैरों चलाने में लगाया। टामस-कूक की यहाँ शाखा थी, हमारा यात्री चेंक भी उसी का दिया हुआ था, किन्तु उसने डमे भनाने में अपनी असमर्थता प्रकट की। क्योंकि बैंकों पर स्वीडन का नाम

नहीं था। १२ डालरों में रो ७ डालरों को ३०६ क्रोनर प्रति डालर से भुना लिया, क्रोनर करीब करीब एक रुपये के बराबर था। देखने में अपनी मालूम हो रही थीं। ४३ क्रोनर की अच्छी बरसती मिल रही थी। मैं सवा गौ क्रोनर का भरस मुट अवश्य सस्ता था। किताबें उतनी सस्ती नहीं थीं। स्ट्राकहोम गाइड (अंग्रेजी) को ५ क्रोनर में खरीदना पड़ा। अब इफरात का पता इसी में मालूम होता था, कि एक बाग में चिट्टियों के लिये रोटी के टुकड़े नहीं बल्कि तीन-चार छोटी छोटी रोटियां फेंकी हुई थीं। कई डिपार्टमेंट स्टोर (महा दुकानें) थीं। फैशन भी खूब देखने में आता था। राजा का प्रासाद विशाल और बहुत दूर तक फैला हुआ था। पार्लियामेंट का भवन भी बहुत ही सज्ज था। नगर के पास में ही कई विलास-गृह थे। मजूरों की वेष्ट-भूषा देखने पर मालूम होता था, कि नगर और देश का सारा वैभव उनके लिये नहीं है, हालांकि सबसे कठोर काम उनसे ही लिया जाता है। यहां की भी दामने और नसें अधिक साफ थीं और भीड़ भी कम थी। लंदन के शखबार दवाई जहाज में यहां आते थे, हमने “टाइम्स” और दूसरे दो एक पत्र लिये। मालूम हुआ, फ्लकता में फिर हिन्दू-मुसलमानों में भगडा हो गया, खून की नदी बह रही है। पाकिस्तान ने अनाज देना रोक दिया है। अब तक पाकिस्तान बन चुका था, यद्यपि अभी सीमा-कमीशन ने अपना कार्य नहीं खतम किया था।

१० जुलाई को फिर मेरे पैर स्ट्राकहोम की सड़कों पर थे। शहर पहाड़ी जगह में पसा हुआ है, लेकिन पहाड़ शिमले या मसुरी की तरह ऊँचे नहीं हैं, घरों और सड़कों के बनाने में अच्छी योजना में काम लिया है। नगर में जगह जगह कितने ही उद्यान हैं। मैं एक बड़े उद्यान में गया। यहां पता लगा, लोग विलासोपवनों में देखदारों को क्यों नहीं रखते। इनके पतभङ्ग का समय नियत न होने के कारण वह बराबर सूखे पत्ते गिराते रहते हैं, यदि नीचे घास भी हो, तब तो इन पत्तों का भाड़ना आसान नहीं है। उद्यान बड़ा सजीव था।

१५ क्रोनर अर्थात् प्रायः एक रुपये में बाल बनाने का साधुन सस्ता

नहीं कहा जा सकता। पंशाक जरूर सस्ती थी, यदि मिलाने के बंधो दास को भी उसमें शामिल कर लिया जाय। उस दिन घूमते हुए मैंने लिखा था—  
 “स्वीडिश नर-नारी कद में ही बड़े नहीं होते, बल्कि अपेक्षाकृत ज्यादा सुन्दर भी होते हैं। सभी दीर्घकपाल हैं।” स्वीडन हमारे दो बड़े जिलों के बराबर हैं और उसका यह वैभव ! वह अपने लिये ही नहीं, सोवियत के लिये भी दर्जनों जहाज बना रहा है, जिसके लिये सारी सामग्री इसके कारखानों में तैयार होती है। हॉ, मोटर और विमान यहां भी अधिकतर बाहर से आते हैं। बाजार में दूसरी चीजें भी काफी विदेशी हैं। भारत की चीजों का एक दुकान थी, जिसमें हाथों दांत की चीजें रखी थीं।

६॥ बजे शाम को “श्वेतद्वीप” ने फिर लंगर उठाया। ११.४० बजे रात को अभी सोभूति ही थी, फिर रात को क्या आशा की जा सकती थी ! ११ जुलाई को हमने समुद्र में चिताया। आज समुद्र तरंगित था, किन्तु बहुत अधिक नहीं, तो भी लोगों ने खाना छोड़ दिया था, मुझे भूला भूलने का आनन्द था रहा था। हमारा पोत समुद्रतट से नातिदूर चल रहा था। उसका मुंह दक्षिण और कभी कभी दक्षिण-पश्चिम की ओर होता था। मैं कभी शाला में जाकर वहां रखी सोवियत सम्बन्धी अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ता और कभी बाहर की ओर समुद्र और तट-भूमि का दृश्य देखता। कुछ अंग्रेजी भाषा-भाषी लोग भी हमारे जहाज में थे, लेकिन मेरा किसी से अधिक परिचय नहीं हुआ।

१२ जुलाई को सबरै से ही तटभूमि दिखाई देने लगी। पहिले दाहिनी ओर डेनमार्क की भूमि और बायीं तरफ जर्मनी की। सब दो बजे दिन को “श्वेतद्वीप” कील नहर के मुख पर पहुँचा। इस नहर में हमें ६ घंटे चलना था। अगर नहर न होती, तो डेनमार्क और नार्वे के बीच से होते दो दिन से अधिक का चक्कर काटना पड़ता। तीन बजे से साढ़े नौ बजे तक “श्वेतद्वीप” चलता रहा। गति १५ किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। नहर के दोनों तरफ पहिला नगर आया। घरों की छतें अधिकतर लाल टाइल की थीं। कारखानों

की चिमनियां अधिकांश निवृत्त थीं। नहर में दो उल्टे पड़े जहाज विगत महा-युद्ध का परिचय दे रहे थे। कारखाने भी जर्मनी थे और तेल की टंकियां विदीर्ण पड़ी हुई थीं। वैसे युद्ध की ध्वंसलीला लेनिनग्राद की तुलना में बहुत ही कम थी। एक सहयायिणी अंग्रेज महिला कह रही थी— “प्रदेश समृद्ध है।” इधर तो युद्ध केवल वैमानिक वसवर्षा तक ही सीमित था। कील नहर स्वेज से दुगुनी से अधिक चौड़ी है, इसमें एक साथ दो नहीं तीन जहाज चल सकते हैं। कुछ दूर तक नहर आस पास की भूमि से ऊपर थी। नहर के आस-पास कुछ कारखाने वाले कस्बे भी थे। बहुत सी खेती लायक भूमि गोनर छोड़ दी गई थी, आखिर दूध और मांस की सी तो इस देश में अधिक जरूरत होती है। सारा प्रदेश हरा-भरा था। देवदार वन भी जहां-तहां थे। जर्मनी का यह भाग अंग्रेजों के हाथ में था, इसलिये कहीं कहीं अंग्रेजी सेना की छावनियां भी दिखाई पड़ती थीं। यह वह जर्मनी थी, जो संसार-विजय के लिये उठकर अब पराजित पड़ा हुई थी। यदि युद्ध का मद हिटलर के सिर पर सवार नहीं हुआ होता, तो आज उसको यह दशा क्यों होती ? लेकिन पूंजावाद का तो मतलब ही है युद्ध। शांति के वक्त में वह अपनी का खून पीता है, और युद्ध के समय परायों का। यदि शोषण संभव न होता, तो देश के अधिकांश लोगों की दरिद्रता की भार न खानी पड़ती; यदि शोषण का लोभ न होता, तो दूसरे देशों से युद्ध करने की इच्छा न होती।

नहर के दूसरे छोर पर पहुँच कर घंटे से ज्यादा जहाज खड़ा रहा। और पौने दस बजे (लेनिनग्राद समय) वह फिर अतलांतिक-समुद्र की ओर बढ़ा।

बाहरी समाचार हमें जो कुछ मिला था, वह स्टाकहोम में स्वर्दि अंग्रेजों पत्रों द्वारा ही। अब फिर सच्चाटा था। रेडियो बहुत कम काम देता था। खेलों में शतरंज की दो जोड़ों के सिवाय और कुछ नहीं था। शतरंज के मोहरों की मैंने देवली की नजरबन्दी के समय हाथ लगाया तो था, लेकिन उसके लिये जितने समय की आवश्यकता है, उसे देने के लिये मैं कभी तैयार नहीं हुआ; इसलिये

पुस्तकों और प्रकृति-निरीक्षण के सिवाय मन-ब्रह्मण्य का कोई साधन नहीं था। हाँ, इस समय मैं अपने ताजिक भाषा के अनुवाद के लिये “दावुन्दा” और “मुला-मान” की आवृत्ति जख्म कर लेता था।

१३ जुलाई ( रविवार ) को दिन भर तटभूमि दिखाई नहीं पड़ी। “श्वेतद्वीप” इतना तेजी दिखाता रहा था, कि परसों शाम की जगह कल ही लंदन पहुँचने का उम्मीद थी। आज जहाज हिल-डुल ज्यादा रहा था। रेडियों की खबरों में पता लगा कि सिलहट ने ५० हजार के मताधिक्य से पाकिस्तान में जाने का निश्चय किया है।

१४ जुलाई ( सोमवार ) को सबेरें = वजे ही “श्वेतद्वीप” टेम्स के भीतर चल रहा था। लंदन की धुन्ध ने आगे बढ़कर हमारा स्वागत किया, लेकिन लंदन डॉक पर पहुँचने पहुँचते वह छंट गई। साढ़े दस वजे हम तट पर पहुँचे। पास-पोर्ट मारुली तौर से देखा गया। यात्रियों की सुख-मुविधा का ख्याल अंग्रेज बहुत ज्यादा रखते हैं। जो देश प्लेस करेगा, वही अपने यहां पाकेट खाली कराने के लिये अधिक यात्रियों को बुला भी सकेगा। मेरे बड़े बक्श का कस्टम-वालों ने घूँट मर खोला, चाकी हमारे यह कह देने पर, कि सभी पुस्तकें हैं, उन्होंने देखने की भी जरूरत नहीं समझी। यद्यपि वहीं मालूम हुआ, कि भारत में चेकोस्लोवाकिया जाने के लिये आयी एक भारतीय महिला के साथ की सब पुस्तकों को रखवा लिया गया था। उन पुस्तकों में शायद साम्यवाद के प्रचार की सामग्री ही, लेकिन मैं तो साम्यवाद की जन्म-भूमि से आ रहा था। जहाज समय से ३० घंटा पहिले आया था। मैंने समझा शासक चाँके जी इसी कारण नहीं आ सके। अब भारत का जहाज मिलने तक के लिये लंदन में कहीं ठौर-ठिकाना बृद्धने की जरूरत थी।



## २०— इंग्लैण्ड में

जहाँ हाजिराट से टैक्सी करके मैं टामसकुक के मुख्य कार्यालय में गया, क्योंकि पहिले अपने बैंक के बारे में पूछना था। वहाँ तक पहुँचने में घंटा भर लगा। सोचा था, सामान रखने की जगह मिल जायेगी, किन्तु वहाँ उसके लिये कोई स्थान नहीं था। शायद होटल का इंतजाम हो सकता था, किन्तु उसमें अपने पाकेट को देखना था। टैक्सी ड्राइवर ने सलाह दी कि सामान को स्टेशन में रख देना अच्छा होगा। मैंने वहाँ असवाब-घर में सामान रखा और सले मालुस टैक्सी ड्राइवर से साढ़े तीन शिलिंग में १६ हिलग्रोव रोड में पहुँचा दिया, जहाँ पर वांकेजी का रहना होता था। पता लगा, वांकेजी तीन सप्ताह से एडिम्बरा की ओर चले गये हैं। हमारा तार आया था, जिसे वहाँ भेज दिया गया है। नहीं मालूम हो सका, वह भारत चलने के लिये तैयार है या नहीं, लेकिन अभी सबसे पहिले तो ठहरने का कोई सरता प्रबन्ध करना था। इस बोर्डिंग-होस में बिहार के एक-दो विद्यार्थी थे। उन्होंने २५ लौंगरिज रोड पर पेयरली होटल का नाम दिया। मैं उक्त होटल में पहुँचा। वहाँ बहुत से भारतीय



थे। तीन गिर्बा, ३ पौंड ३ शिलिंग या ४० रुपये के करीब प्रति सप्ताह में एक कमरे में जगह मिली, जिसमें पहिले से ही एक भारतीय छात्र रह रहे थे। इसी में दो वक्त का भोजन भी शामिल था। ७ शिलिंग खर्च पड़ा, स्टेशन से टैक्सी पर सामान लाने में। अब हाथ में ५५ पौंड रह गये थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि रूस के लिये दिये गये चैक को टामसकुक यहां भुनाने को तैयार था। अब पैर जमीन पर था, इसलिये बहुत भय नहीं लग रहा था। अभी यह नहीं मालूम था, कि कितने दिनों बाद जहाज मिलेगा। पहिली चिट्ठी से मैं एक महीना प्रतीक्षा करने के लिये तैयार था।

लंदन में जहां तहां अब भी गिरे हुए मकान पड़े थे। लेनिनग्राद में ऐसा दृश्य देखने के लिये नगर के छोर पर जाने की आवश्यकता होती। लेनिनग्राद उस तरह भी लंदन में बहुत सुन्दर था, उसकी सड़कें बड़ी प्रशस्त थीं। दोनों ओर के मकान भी बड़े भव्य थे। सफाई यहां भी कम नहीं थी। हरेक चौराहे पर बड़ी भाड़ दिखाई पड़ती थी, जो लेनिनग्राद में दिन के किसी किसी समय ही देखने को मिलती थी। लेनिनग्राद की सड़कें भी अधिक चौड़ी थीं, और यहां की संभरी, कुछ तो टेढ़ी-मेढ़ी थीं। आज पता लगा, पाकिस्तान डोमीनियन के भवर्नर-जनरल मुहम्मद अली जिन्ना हुए।

दूसरे दिन बांके जी के एक मित्र से मालूम हुआ, कि वह आपरे शान कराकर ग्लासगो में पड़े हुए हैं। यह भी मालूम हुआ, कि वहां उनके एक डाक्टर मित्र हैं। खैर, यह तो निश्चिन्तता हुई कि वह अपरिचित स्थान में नहीं पड़े हैं। टामसकुक और इंडिया आफिस में जाकर भारत की यात्रा के लिये कुछ करना था, सोचा उसके बाद ग्लासगो चलेंगे। भेरे पास के ५५ पौंड काफी नहीं थे।

शायद मैं अच्छी तरह सैर कर सकता था, लेकिन कुछ ऐसा वानक बना, कि दो हफ्ते और रहना पड़ा, लेकिन सैर उतनी नहीं हो सकी। इंडिया हाउस में अब भारत के उच्च व्यापक मिस्टा मेनन का दरवार था। अंग्रेजों की तरह ही अब भी वेदवर्ती से नौकर-नाकरों पर पैसा खर्च किया जा रहा था।

नौकरशाही मशीन भी उसी तरह चल रही थी, लेकिन वहाँ के अंग्रेज कर्मचारी मिस्टर हाडिंग ने बहुत सहृदयता दिखा लायी। पी० ओ० कम्पनी के दफ्तर में फोन कर के बी० दर्जे के टिकट का प्रबन्ध करा के चिट्ठी लिख दी। मैंने सोचा था, बाँकेजी भी जायेंगे, इसलिये दो टिकटों का इतिजाम करवाया। किराया ५४ पौंड देना था, अर्थात् किराया चुका देने के बाद हाथ खाली हो जाता था। इंडिया आफिस से कुछ कर्ज लेने के लिये प्रान्तीय सरकार में इजाजत मंगवाने की जरूरत थी। खैर इतना हो जाने से यह तो मालूम हुआ, कि चिट्ठियों में जिस तरह जहाज के न मिलने का डर दिखलाया गया था, वह बात नहीं थी।

अभी देखना सुनना था, प्रस्थान तिथि आदि के बारे में अभी कुछ तै नहीं हो पाया था। कम्युनिस्ट-पत्र “ डेली वर्कर ” से बोले कुछ पता लगेगा, इस खयाल से मैं हँदते-टाँदते वहाँ पहुँचा। मालूम हुआ, कि सुरादावाद के साथी शरफ अतहर यहीं पर हैं। मजूरों और किसानों की अवस्था देखने के लिये बतलाया गया, कि लंदन पार्टी-आफिस से उसका इतिजाम हो जायगा। लंदन कोई छोटा शहर थोड़ा ही है। ७०-७५ लाख की आबादी के शहर को एक जिला ही समझिये, इसलिये एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय काफी लगता था। पैसे खर्च कम करने का इतिजाम लोगों ने कर रखा था : और भूगर्भी रेलों तथा बसों के द्वारा वह बहुत सस्ता पड़ता था। पार्टी आफिस ने परसों ( १ = जुलाई ) मजूरों की बरतियों को दिखलाने का बचन दिया। साथी शरफ को भी टेलीफोन कर दिया था। वह मेरे पुराने परिचित थे। शाम को वह मेरे स्थान पर आगये और कहा कि किसानों और खेती हर मजदूरों की अवस्था को सी देखिये, उसका भी प्रबन्ध कर दिया जायेगा। १७ जुलाई को आत्मान पर बादल बिगड़ हुआ था, जब तब बूढ़ें पड़ती रहीं, शाम को तो अच्छी खासी वर्षा हो गई। उस दिन रीजेन्ट पार्क लंदन के बड़े उद्यान को देखने गये। दूसरी जगह के चिड़ियाघरों को युद्ध ने उजाड़ दिया था। कलकत्ता के चिड़ियाघर में साँपों का बहुत ही विशाल संग्रह था, लेकिन जापानी बम पड़ने से मृत हजारों साँप कहीं नगर में न लुप्त जायें, इसलिये उनमें से बहुत

हो गये और किलनों को स्थानान्तरित कर देना पड़ा। लंदन का विडिया-घर अब भी अच्छी हालत में था। वानर, विडिया, निम्पाजी, ऊँट, भालू, बाघ, सिंह सभी थे— विद्र-बाघ काफी संख्या में थे। लैनिनग्राद का विडिया-घर अच्छी हालत में रहते समय भी इसमें छोटा ही था, अब तो वह उजड़-सा गया था। तार की सामन्तशाही सरकार विडिया-घर का महत्त्व केवल तमारी के लिये समझती थी, लेकिन एंजीवादो इंग्लैंड में उसको विज्ञान की प्रयोगशाला माना जाता था, इसलिये उसे समृद्ध रखने की पूरी कोशिश की गई थी। तभी आखिरत बने बगे हुए लैनिन के शर्म में इतनी पड़ी हुई जमीन कुछ ज़रूरत से अधिक मालूम होनी थी। पर जब कि एक बार जगह, प्रार्णा-उद्यान के लिये छोड़ दी गई, तो फिर आवादी के लिये उसमें से काटा कैसे जा सकता था ? आज कोई रविवार या हुरदी का दिन नहीं था, लेकिन दर्शकों की संख्या भारी थी।

रीजेट-पार्क के पास ही में कहीं पर ग्लोसिस्टर रोड था, जिसके एक मकान में पन्द्रह वर्ष पत्रिके में लीज मन्दीना रह गया था। सोचा, चलो उसे भी देखा जें। इंडने दांडते वहाँ पहुँचा, किन्तु अब ग्लोसिस्टर रोड की जगह उसका नाम ग्लोसिस्टर एवेन्यू हो गया था। उसके ४१ नं० वाले मकान में अब कोई महाबोधि तमा नहीं थी। एरसे आदमी ने एक दूसरा घर बतलाया, जहाँ काम करने मजदूर से पूछने पर मालूम हुआ, कि अब लोग हैम्पटन रोड के पास २६ इम्पेचड स्ट्रायर में चले गये हैं। खैर, आदमी तो मेरे परिचित नहीं होंगे, ऊपर से चूँदे भी पढ़ने लगे थीं, इसलिये वहाँ जाने का ख्याल मैंने छोड़ दिया। आधुनिक युग के मद्रान् बौद्ध मिशनरी अनागरिक धर्मपाल ने जिस मकान को खरीदा था, वह इसलिये कि इंग्लैंड में बौद्ध धर्म का एक अच्छा मंदिर और प्रचार-केन्द्र बने, अब वहाँ उसका कोई पता नहीं था। मकान लड़ाई की बम वर्षा से बच गया था। लेकिन मालूम नहीं अब भी वह महाबोधि सोसायटी का है। मेरे पहुँचने से कुछ ही समय पहिले भारत-स्वतंत्रता कानून को इंग्लैंड की कॉमन-सभा ने पास कर दिया था। आज लार्ड-सभा ने भी उसे पास कर दिया। भारत ने स्वतंत्रता अपना विद्वानों से नहीं प्राप्त की, बल्कि अंग्रेजों की

सदिच्छा में— यही इस का अभिप्राय था ।

मजदूरों की बस्ती— पूर्व निश्चयानुसार १८ जुलाई को एक कम्यूनिस्ट तमग्न हैरी वाटसन मुझे मजदूरों की बस्ती की ओर ले चले । १ बजे मे ३ बजे तक मैंने वेस्ट इंडिया डॉक, ईस्ट इंडिया डॉक, विक्टोरिया डॉक आदि का नजर काटा । डॉक अर्थात् जहाज-घाट इंग्लैंड के लिये बड़े महत्व रखते थे । एक गुप्तनाम सा छोटा राष्ट्र अपने व्यापार के बलपर ही विश्व की एक महान् शक्ति बना और वह व्यापार इन्हीं डॉकों से होता था । ईस्ट इंडिया में मतलब भारत और पूर्व के देश थे, जहां आने-जाने वाले जहाज इस घाट पर खड़े होते थे । गोया यह तीन शताब्दियों की इंग्लैंड की समृद्धि का कीर्ति स्तंभ था । वेस्ट इंडिया डॉक से अमेरिका की ओर जहाज जाते रहे होंगे । डॉक में जहाज से माल की उतराई-चढ़ाई का काम होता था, जिसमें मजदूरों के हाथ ही काम आ सकते थे । वहाँ के मजदूर यद्यपि अधिकतर अंग्रेज थे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य और दूसरे देशों के कितने ही आदमी भी यहाँ दिखाई देते थे । चीनी और भारतीय रेस्तोरान् भी थे । युद्ध के समय यहाँ बड़े जोर की बस वर्षा हुई, इसलिये अधिकतर मकान ध्वस्त हो गये थे । कुछ घरों को अस्थायी तौर से रहने लायक बना दिया गया था । वैसे जिस गति से लेनिनवाद में पुनर्निर्माण का काम हुआ, उसकी आधी गति से भी काम किया गया होता, तो यहाँ बहुत से मकान तैयार हो गये होते । बैंकड़ों घर ऐसे थे, जिनकी छतें-गिड़कियाँ-दरवाजे नष्ट थे । उन्हें आसानी से भरमत्त करके आदमियों के रहने लायक बनाया जा सकता था । लेकिन लेनिनवाद और लंदन में बहुत अन्नर है । कहने को लंदन में मजदूरों की सोसलिस्ट गर्वमेंट शासन कर रही थी, लेकिन अब भी वैयक्तिक-सम्पत्ति बहुत पवित्र सभर्भा जाती थी । मकानवाले इन दीवारों को न स्वयं रहने लायक बना सकते थे, न नगरपालिका को ही इसके लिये अधिकार देते थे । सरीखने पर जो पैसा देना पड़ता, वह नगरपालिका की शक्ति के बाहर था । यह भी मालूम हुआ, कि यहाँ के सारे मकानों के बनाने का काम ठेकेदार ही करते हैं । वह पैसा ठेका लेने के लिये क्यों तैयार होंगे, जिसमें नफा कम हो । नये मकानों

के बनाने के लिये वह तैयार थे, किन्तु इन मजदूरों पर छत रखने के लिये नहीं। हैरी ने बतलाया, कि यहां पर सीधे बर्मा में मकानों को उतना नुकसान नहीं पहुँचा, जितना कि आग और हवा के धक्के से। एक पंचनखले मकान को दिखला कर हैरी ने बतलाया : इसपर बम गिरते समय मैं पास में था। एक चटियल सी पड़ी जगह को दिखला कर कहा : यहीं उड़न गोला ( राकेट ) गिरा था। पास में एक बड़ा जूट का गोदाम था, जो दफतें भर जलता रहा। स्कूल की एक चौमजिला इमारत का अब टाँचा भर खड़ा था। वैयक्तिक स्वार्थ और काम-चोरों के कारण, न जाने, कितने समय बाद का यह उजड़ा नगरोपान्त फिर आबाद हो सकेगा। और यह देश भी अभिमान कर रहा था कि उसके यहां समाजवादी मजदूर पार्टी का राज्य है। ऐसे समाजवाद से भगवान् वचाये, जिसको देखने के लिये बहुत शक्तिशाली अशुवीक्षण की जरूरत पड़ेगी। लेनिनवाद और रूस से निश्चय ही अभी लंदन और इंग्लैंड बहुत दूर है। लंदन नगरपालिका चाहती है : माल गोदामों में यहां भारी जगह घेर रखी है उन्हें हटा कर नगर का विस्तार किया जाय, लोगों के लिये अच्छे-अच्छे घर बनाये जायें, किन्तु भूमि के मालिक इतना दाम मांग रहे हैं, कि जिसे दिया नहीं जा सकता।

एक जगह पर चीनी नाविकों के संघ का ऑफिस देखा। मुहल्ले में चीनियों की काफी संख्या थी। यद्यपि वह सारे शुद्ध चीनी न होकर अंग्रेज माताओं की संतान थे। चीनी मुखमुद्रा इतनी जबरदस्त होती है, कि एक पीढ़ी में जरा सा सम्पर्क हो जाने पर कई पीढ़ियों के लिये वह स्थिर हो जाती है, इसलिये चीनी मुखमुद्रावाले किसी पुरुष के जानने के लिये अंग्रेज माता के बारे में पूछना पड़ेगा। इस मुहल्ले में भयंकर धूस-लीला हुई थी। जो भी आदमी रह गये थे, उनके घर द्वार बहुत ही मैले कुचैले थे। १ बजे बाटसन मुझे डाक-मजूरों की सभा में ले गये। व्याख्यान मुझे नहीं देना था। बाटसन के खड़े होते ही दो सौ मजदूर आसपास जमा हो गये। छोटा-सा व्याख्यान था, कोयला वाले मजदूर कम से कम ६ पौंड प्रतिसप्ताह मजूरी की मांग कर रहे हैं, उसका समर्थन करना चाहिये। अर्जन्तीन के तानाशाही की बीबी ईवा पेरौन

यदि लंदन आवे, तो उसके खिलाफ आम हड़ताल और प्रदर्शन होना चाहिये। ईस्ट इंडिया बैंक के फाटक पर सभा हुई, फिर बसते हुए हम थिक्टोरिया बैंक की तरफ गये। यहाँ भी ध्वंस-लीला उभी तगह थी। इंग्लैंड का आहार इन्हीं बैंकों पर उतरता था, इसलिये हिटलर ने चाहा, कि इनको नष्ट कर अंग्रेजों को भूखों मारा जाय। इस नगरपालिका के बनाये घरों की और गये। किराया २५ में ३० शिलिंग था, जो घरोंदे जैसे घरों के लिये जरूर अधिक था। निचले तले के घरों का किराया १०-११ शिलिंग था। मसाले में एक आदमी के भोजन पर २४ शिलिंग से कम खर्च नहीं होता था, यदि स्त्री-पुरुष और दो बच्चे हों, तो ३० शिलिंग अपना तथा ३ शिलिंग प्रति बच्चा स्कूल में देने पर उन्हें एक समय का भोजन मिलता। ४ व्यक्तियों के परिवार के लिये प्रति सप्ताह ५ पौंड की आवश्यकता थी। पुस्तकों का दाम भी ज्यादा था। वह इतनी दुर्लभ हो गई थीं, कि लड़कों को पढ़ाने के लिये पुरानी पुस्तकों को काम में लाया जाता था। सबसे सस्ते (युटिलिटी) सूट का दाम ४ पौंड १० शिलिंग अर्थात् ६० रुपये से अधिक था। शीवर कोट २० पौंड, जूता टाई से तीन पौंड मजूरों का जूता (बर्किंग बूट) २५ से अट्टाईस शिलिंग अर्थात् १०० रुपया, जूते की मरम्मत पर १० शिलिंग (६ रुपया से ऊपर), एक सूट के धुलवाने में ३० शिलिंग, सिनेमा का टिकट १ से साढ़े चार शिलिंग तक, सामूली शराब एक पिन्ट का १ शिलिंग, २० सिगरेट का टाई शिलिंग। जीवन इतना महंगा था, जब कि हरेक आदमी के लिये काम का मिलना निश्चित नहीं था। घर में बीमार होने पर अस्पताल सेबिंग ऐसोसिएशन की सेम्बरी का चन्दा देने वालों की ही मुफ्त चिकित्सा होती, नहीं तो शाधारण डाक्टर के लिये भी ३-४ गिनी प्रति सप्ताह देना पड़ता। पिता के बेकार होने पर बच्चे को मुफ्त दूध नहीं तो पौन शिलिंग पर १ ल्टांक दूध-चूर्थ मिलता। बाटसन अपने एक परिचित घरमें ले गये। ज्येष्ठ अविवाहित पुत्र मां के साथ रहता था, और राज का काम करता था, जिससे उसे ४ पौंड ५ शिलिंग प्रति सप्ताह मिलता। वियामलाई के डब्बों की तरह के छोटे छोटे चार कमरे थे, जिसमें ३ शयन-कोष्ठक और एक भोजन

कोष्टक, रसोई की कोठी ५ बी. बी। मकान का किराया १० शिलिंग प्रति सप्ताह था— यदि ऊपरी मंजिल पर होता, तो साढ़े प्याह शिलिंग देना पड़ता। विजखी का चार शिलिंग। नूद्रे की गेन का ५ या ६ शिलिंग प्रति सप्ताह अलग लगता। और कमाने वाला केवल साढ़े चार पौंड, यानी ( ८५ शिलिंग) प्रति सप्ताह पाता था। हम कद चुके हैं, २ धर्रे और २ भियॉन्-बीची के भांजन का खर्च १०० शिलिंग होता था। अंग्रेज-मजदूर परिवारों की क्या अवस्था होती होगी, इसका अनुमान आप आसानी से कर सकते हैं। सोने की कोठरियों में लोहे की चारपाई पर थोढ़ने बिच्चोंन और सेज तथा दिजली बनी थी। इन मजदूरों के माल पर बैठे जमीन का मालिक, मकान का मालिक और किराया उगाहने वाला पुजन्ट तीन-तीन काश-चोर मौज कर रहे थे। इनका नाम लेने पर लेनिनग्राद वाले हंस पड़ते। मजदूर सरकार इसमें कोई दखल देने के लिये तैयार नहीं थी। कभी तो लड़ाई और कभी कम्युनिज्म के हौधे के नाम पर अमरीका से रोटी मक्खन आ रहा था, मजदूर नेता सबभते थे, इसी तरह उनकी नैया पार हो जायगी। लेकिन पहले से आज की स्थिति में इतना कम परिवर्तन होने के कारण लोग कहां तक मजदूर साम्राज्यवादियों की लम्बी लम्बा बातों पर विश्वास करते ? एक दिन जरूर वह उन्हें निकाल बाहर करके ही रहते। प्रश्न यही था— मजदूर साम्राज्यवादियों को हटाकर टोरी साम्राज्यवादियों के निरुद्धतम शासन में जायेंगे या ऐसे शासन-तंत्र में जो यहाँ से सारी दरिद्रताओं और दुःखों को सदा के लिये नष्ट कर दे।

लंदन में अब खबरों का कोई घाटा नहीं था। दुनिया भर की मोटी-मोटी खबरें बात की बात में यहाँ के अखबारों में छप जातीं, और अंग्रेजों की गुलामी के कारण हमें सुसीता या अंग्रेजी अखबारों को पढ़ सुन लेने का। २० जुलाई को पता लगा, वर्मा में अंग-सांग और पांच दूसरे मंत्रियों को गोली का शिकार बनाया गया। विरोधी-पार्टी को तलवार से कुचलना अच्छा नहीं है, क्योंकि तलवार के वदने फिर तलवार उठने लगती है। भारत की अस्थायी सरकार बन गई, और सारे विभाग को दो में बाट कर नये मंत्रियों को सुपुर्द कर दिये।

गये। लंदन में अब भी भारतीय छात्रों का आगमन कम नहीं हुआ था, बल्कि जान पड़ता था इधर छात्रवृत्तियों के देने में अधिक उदारता दिखलाई जा रही थी। पौंड-पावना बहुत सा इकट्ठा हो गया था, इसलिये उसे यहाँ बेदरदी में खर्च किया जा रहा था— आखिर वैरिस्टी या संस्कृत की पी० एच० डी० कर आने के लिये पौंड को बराबर करने की क्या आवश्यकता थी? यदि छात्रवृत्ति देनी थी, तो वह साइंस और टेक्नीकल शिक्षा के लिये होनी चाहिये।

२१ जुलाई को बहुत सवेरे मैं वृमने निकला। सोचा पैसा कहीं खर्च न हो जाय, इसलिये पहले जहाज का टिकट ले आऊँ। पी० आ० कम्पनी का जहाज स्ट्रेथबोर पहली अगस्त को यहाँ से चलकर १७ तारीख को बम्बई पहुँचने वाला था। मैंने ५४ पौंड देकर बम्बई का टिकट ले लिया। २१ जुलाई और १ अगस्त में १० दिनों का अन्तर था, जिसके लिये अब पास में पैसा नहीं रह गया था। २० पौंड कर्ज लेने से काम चल सकता था। लेकिन इंडिया-हाउस में तो प्रान्तीय सरकार से पूछ कर ही रुपया मिलता, जो कि नौ मन्त्र तेल पर राधा के नाचने की शर्त थी। किसी ने हाई कमिश्नर को लिखने का कहा। टामसकुक के पास इधर कई दिनों न जाकर मैंने गलती की थी। वहाँ जान पर मालूम हुआ कि ५०-५० पौंड के दो बार दो ड्राफ्ट इम्पीरियल बैंक के नाम मेरे लिये आ चुके हैं। इम्पीरियल बैंक ब्राक-स्ट्रीट में था जहाँ सारे बैंक ही बैंक थे। लक्ष्मी का प्रताप जहाँ रात दिन विराज रहा हो, वहाँ की सड़कें, बनारस की कचौड़ी गली जैसी हों, यह कोई ठीक बात नहीं थी। सोचा अब तो पैसा काफी आ गया, और इसको पौंड के रूप में भारत लौटाना अच्छा नहीं है।

अब निश्चिन्त होकर सैर-सपट्टे की बात सोचने लगा। २२ तारीख को ब्रिटिश म्यूजियम गया। सिर्फ एक शाला खुली थी, जिसमें थोड़ा बोझा सर्मा चीजों का संग्रह था। उसके देखने में ३० मिनट भी नहीं लगे। बाकी के बारे में जो पता मालूम हुआ, उससे तो शायद सालों लगेगे, ब्रिटिश म्यूजियम को फिर से सजाने में। इसकी तुलना लेनिनग्राद के एर्मिताज म्यूजियम से करने पर अंग्रेजों के सांस्कृतिक प्रेम की गति की मंदता साफ मालूम होती थी। एर्मिताज



में पिछले ही साल पच्चीसों हाल खुल गये थे और अब की साल तो सों के करीब हाल सजाये जा चुके थे। मैंने वहाँ सिर्फ अपने काम की चीजों को देखा, फिर भी ६-७ घंटे पर्याप्त नहीं हुए। आज मैंने एक सफरी रेडियो खरीदा। यद्यपि अभी यह निश्चित नहीं था, कि मुझे भारत में विजली वाले नगर में रहना पड़ेगा। कंशिश की, कि कोई बैटरी और विजली दोनों वाला मिल जाता, किन्तु वैसा नहीं मिल सका। उस दिन ५-६ घंटे का चक्कर कहीं पैदल कहीं बस या भू-गर्भ ट्रेन से रहा। शामको विहार के परिचित अध्यापक-डॉक्टर डाक्टर ब्रह्म-चारी, प्रो. दिवाकर विद्यार्थी आदि के साथ कई घंटों बातचीत होती रही। उन्होंने अपने अपने से पहिले की भारत की स्थिति को बतलाया।

२२ जुलाई को कई म्यूजियमों को देखा, जिसमें विकटोरिया अल्वर्ट म्यूजियम भूतत्व म्यूजियम, और साइंस-म्यूजियम भी थे। भूतत्व और साइंस म्यूजियमों को करीब करीब पूरी तौर से सजा दिया गया था, लेकिन ऐतिहासिक सामग्री तथा कला की चीजों के संग्रहालय विकटोरिया अल्वर्ट म्यूजियम के सूक्ष्म चित्रों वाले कुछ ही कमरे तैयार हो पाये थे। ऐसियायी चीजों के संग्रह को अभी विलकुल ही नहीं रखा गया था। मैं मध्य-एशिया से संबंध रखने वाली चीजों को देखने के लिये बड़ा उत्सुक था, लेकिन ब्रिटिश म्यूजियम की तरह इस म्यूजियम से भी हताश होना पड़ा। भूतत्व और साइंस के म्यूजियमों को इतनी जल्दी सजा देने से मालूम हो गया कि अंग्रेज कितने यथार्थ-वादी हैं। इंग्लैंड की भूमि में क्या क्या सम्पत्ति है, और उसकी भूमि का निर्माण कैसे हुआ, इसे बतलाने के लिये एक एक इलाके को भूतत्व म्यूजियम में अच्छी तरह दिखलाया गया था। वहाँ से निकलने वाली चीजों का जहाँ संग्रह करके रखा गया था, वहाँ साथ ही नक्शे और रेखाचित्र बनाकर उन्हें अच्छी तरह समझा दिया गया था। लेक्चर का भी प्रबन्ध था। उस समय भीतर बहुत सी छात्रायेँ भूम रही थीं। अणुबम के युग में थ्रय उरानियम (उरान) धातु का महत्व ज्यादा था, इसलिये उसके डले भी वहाँ रखे हुए थे। मुझे ख्याल था रहा था, भारत की भूमि भी रत्न-गर्भा है, कब वहाँ के भू गर्भ की सामग्री इस तरह दिल्ली आदि में इकट्ठा

का जायगी और उसे द्वाचो और लोगों को जानने का मौका मिलेगा। साइंस म्यूजियम में रेल, मोटर, विमान, जहाज, प्रेस, सिखारि आदि सैकड़ों प्रकार की मशीनों के विकास का इतिहास दिखाया गया था। कुछ मशीनें तो वहाँ ऐसी रची हुई थीं, जिन्हें आविष्कारक पहिले पहल निर्माण किया था। अन्वर्ट म्यूजियम की चित्रशाला में देखने से मालूम होता था, कि इंग्लैंड पन्द्रहवीं सदी में ही वस्तुवादी हो गया था, जब कि रूस का वहाँ पहुँचने में १० वीं सदी तक इतिजार करना पड़ा। पार्श्वों में एक दो भारतीयों के भी चित्र थे।

अभी तो भारत की डोमीनियन-स्वतंत्रता का आरम्भ हुए समय ही कितना बीता था, तो भी दीख पड़ता था कि स्वतंत्रता के कारण देश की सन्तो-वृत्ति में जो परिवर्तन होना चाहिये, उसका अभाव काफी समय तक रहेगा। भारतीय विद्यार्थियों की लंदन में भरमार थी, संख्या शायद पहिले से भी अधिक थी। आश्चर्य तो यह था कि अभी कानून और कला की डिग्रियों के लिये लोग दौड़े आ रहे थे। इंडिया हाउस में अब भी अंग्रेज कर्मचारियों की अधिकता थी और भारतीय कर्मचारियों के मनोभावको देखकर काले साहब से अधिक नहीं कहा जा सकता था। इसी मुहल्ले में भारत विद्यार्थी संघ (इंडिया स्टूडेंट्स यूरो) था, जहाँ भारतीय खाना मिल जाता था। हमारे होटल में दिल्ली के एक व्यवसायी जैन सज्जन ठहरे हुए थे। यद्यपि अब जैन होना असाधारण प्रमाण नहीं था, किन्तु उक्त सज्जन इस बात में ईमानदार थे। दिल्ली में उन्होंने स्टेशनरी का कारबार बीस वर्ष से अधिक हुए आरम्भ किया था। वह उन व्यवसायियों में नहीं थे, जिनको थोड़ा-सा लाभ हो जाने पर तेली के कोल्हू के बेल की तरह उतनी ही सीमा से धूमने और अधिक लाभ उठाने का ख्याल रहता है। उन्होंने स्टेशनरी तैयार करने में काफी तरक्की की थी, जो कि उनके पास की छपी हुई मूचियों से मालूम होता था। वह महीने भर से अधिक समय से लंदन में उसी संबंध में धुनी रमाये थे, और इंग्लैंड की कई जगहों में धूम-धूम कर वहाँ से सीखने और लेने की चीजें ले रहे थे। पीछे वह इसी सिलसिले में जर्मनी और अमेरिका में भी धूमे। दिल्ली-निवासी होने से दिल्ली की वह खिचड़ी मुसलमानी पोशाक उनके

लिये अपरिचित नहीं थी, जिसे कि नेहरूजी ने भारत की राष्ट्रीय पोशाक बनाने का बीड़ा उठाया है। पैर से मटा हुआ पतला पाजामा, शेरवानी और ऊपर किशतीतुसा टोपी— दूधले पतले नहीं थे, नहीं तो “शंकर” को फायदेन बनाने के लिये कलाकार को अधिक पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती और फोटो से ही काम चल जाता। खैर, जैन भाई से पता लगा कि यहाँ पर भारतीय खाना भी मिलना है। इसी लालच में वह दसों मील का चक्कर काटकर व्यूंग की भोजनशाला में जाते थे। यद्यपि यहाँ होटल में उनको निरामिष भोजन मिलने में कोई दिक्कत नहीं थी— यूरोप के किसी देश में रूस में भी— निरामिष भोजन मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि रोटी, मक्खन, दूध, फल वहाँ काफी मिलते हैं, उबले आलू, गोभी के खाने का तो वहाँ रिवाज है। हाँ, निरामिषाहारियों को तली हुई चीजों से परहेज करना चाहिये, क्योंकि वहाँ तली हुई चीजों में चरबी इस्तेमाल की जाती है। पाव रोटी में कोई अंडा डालनेवाला बेवकूफ वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि अंडा बहुत महंगी चीज है। पर अच्छे विस्कट और केक में उसके होने का डर अवश्य है। जैन भाई भारतीय भोजनशाला में जाया करते थे। २५ को हम भी गये। वहाँ चास-मांस दोनों तरह का प्रबन्ध था। मिर्च बहुत तेज मालूम हुई। मैं ऐसे देश से २५ महीने बाद आया था, जहाँ के आदमी मिर्च का नाम भी मुँह से निकलने पर तीखापन अनुभव करते हैं, जहाँ मसाले देखने को भी नहीं मिलते। मेरे पास कुछ काली मिर्च थी। एक दिन मैंने कपड़े की पोटली में चार-पाँच मिर्चें डाल कर मांस सूपमें रख दिया। ईश्वर और लोला दोनों ही शिकायत कर रहे थे, कि उनका हलक जल गया। आखिर मेरा हलक भी दो वर्ष से मिर्च की मार से मुक्त था। वैसे मैं मिर्च का बायकाट तो नहीं करता, लेकिन बहुत कम मिर्च खाता हूँ। बहुत दिनों से परित्यक्त होने से उस दिन मेरा भी हलक भारतीय भोजनालय के भोजन से जलने लगा और मैं फिर वहाँ नहीं गया। भारत में आने के बाद छः महीने तक मिर्च से अस्यस्त होने के लिये गलनाली को तैयार करना पड़ा। विद्यार्थियों और व्यापारियों की इनकी माँझ रहती थी, कि लोगों को इतिहास

करना पड़ता था। उस रेस्तोरों के लिये जगह भी छोटी थी। दूसरी जगह पक्का घर किराये का मिल सकता था, लेकिन वह इंडिया होल में दूर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इंडिया के कर्मचारी, भारतीय व्यापारी, विद्यार्थी इधर आसपास अधिक रहते थे। व्यापारी काफी संख्या में लंदन में रहते हैं। हमने देखा, स्यालकोट के बने खेल का सामान बेचनेवाले व्यापारी अपनी मजबूत, सुन्दर, और सस्ती खेल की चीजों में अपने और देश को काफी लाभ पहुँचा रहे हैं। विद्यार्थियों की यह बाढ़ तो बन्द होनी चाहिये। लेकिन वह बन्द कैसे हो सकता है, जबकि हरेक मंत्री और उच्च भारतीय कर्मचारी अपने भाई-भतीजों को यहाँ की डिग्री दिलाकर वाजी मारना चाहता है, और उच्च नौकरियों के देने में अभी भी अंग्रेजी भाषा का अंग्रेजों जैसा परिचय आवश्यक समझा जाता है। अंग्रेजों की टुकमाल में हलां खोपड़ी अभी भी अंग्रेजी को उसके स्थान से पदच्युत करने के लिये तैयार नहीं है। इंडिया-होस को पढ़ने से भी इसी का प्रमाण मिलता था। वहाँ पत्र-पत्रिकाएँ बहुत थीं। किन्तु सरकारी पत्र "आजकल" और "फोर्जि खबर" के अतिरिक्त सभी अंग्रेजी के थे। भारतीय खबरों के देने के लिए भी मनन साहब और उनके अनुचरों को कोई परवाह नहीं था। रूटर की मशीन में जो स्वयं मुद्रित खबरें निकलती रहती थीं, उन्हें वहाँ खड़े होकर आप पढ़ लीजिये। समाह में एक बार बुलेटिन निकलता, उसमें भी भवियों की कृति और सरकार के कामों की ही बातें भरी रहतीं।

उस दिन मन में आया : इंग्लैंड में आये हैं, तो यहाँ की चीजों को भी खाना चाहिये, इसके लिये फल से शुरू किया। फलों की दुकानों से सेब और काले अंगूर खरीद लाये। अंगूर अच्छे नहीं तो बुरे भी नहीं थे, लेकिन सेब तो इतने खड़े थे कि उनकी चटनी ही खाई जा सकती थी, सो भी चीनी डालकर। इंग्लैंड के लोग जब अपने कारखानों की उपज और साम्राज्य की लूट से मकखन, गेटी, मांस और अच्छे अच्छे फल बाहर से सस्ते मंगाकर खा सकते हैं, तो उन्हें क्या आवश्यकता है, अच्छी जाति के फलों के उत्पादन की।

२६ जुलाई को अब पांच हाँ दिन रह गये थे। इसमें शक नहीं, कि इतने

दिनों-को हमने लंदन में बेकार नहीं खोया था, लेकिन स्काटलैंड तक के घूमने की जो आकांक्षा थी, वह पूरी होती दिखाई नहीं पड़ी। मैं तो कहीं-या सैलानियों के लिये एक से दो रहना आवश्यक है, क्योंकि दोनों की गति के समन्वय के लिये यात्रा ज्यादा अच्छी होती है। यदि मेरे साथ कोई और सैलानी होता, तो इतने दिनों में मैं इंग्लैंड, स्काटलैंड ही नहीं आयरलैंड की भी सैर कर आता। उत्तरी स्काटलैंड और वेल्श के बारे में मैंने जो पढ़ा था, उसके कारण वहाँ जाने की बड़ी इच्छा थी। खैर भाई अतहर की कृपा से लंदन के बाहर जाकर दो-तीन दिन विताने का अवसर मुझे मिल गया। मैं २६ जुलाई को ६ बजे अपने स्थान से चला। अर्लकोर्ट स्टेशन हमारे पास था, वहाँ से विकटोरिया स्टेशन तक भू-गर्मी रेल से गया। लंदन की भू-गर्मी रेल बहुत पुरानी और बहुत कार्यक्षम भी है। यदि यह रेल न होती तो लंदन में यातायात करना मुश्किल हो जाता। हर पाँच-पाँच मिनट पर ट्रेनें छूटती रहती हैं, और रास्ते में कोई डर न होने के कारण हवा से बातें करती चलती हैं। लंदन की भू-गर्मी रेल और उसके स्टेशन मास्को का कभी मुकाबिला नहीं कर सकते, क्योंकि मास्को में वहाँ के शासकों ने कार्योपयोगी ट्रेन नहीं बनाई है, बल्कि हर स्टेशन को ताजमहल का रूप देने की कोशिश की है, बहुत रंग के संगमरमर के पत्थर बड़ी कलापूर्ण रीति में लगाये गये हैं। प्रकाश दीपों को भी बड़े कमनीय रूप में रखा गया है। भला पृजावादी लंदन अपनी भू-गर्मी-रेल पर इतना धन और धन क्यों खर्च करने लगा। विकटोरिया स्टेशन पर हमने भू-गर्मी रेल छोड़ी और ऊपरवाली रेल पकड़ी। बीच में क्लैपहैम में ट्रेन बदल कर टेम्सडिक्टन पहुँचे।

इंग्लैंड का ग्राम— टेम्सडिक्टन लंदन के बाहर है, लेकिन उसके घरों और सड़कों, बिजली और पानी के इंतजाम को देखकर उसे गाँव नहीं कह सकते। निवासी भी खेती का काम नहीं, बल्कि अधिकतर लंदन या आसपास के कारखानों और कार्यालयों में काम करते हैं। अतहर भाई ने शायद सूचना दे दी थी, लेकिन समय नहीं बतलाया था। मुझे मिस्टर जान कोमर के घर का पता लगाने में दिक्कत नहीं हुई। वहाँ तक पहुँचने में एक घंटा लगा होगा।

यहाँ अधिकतर निम्न मध्यम-वर्ग के लोग रहते थे। उच्च मध्यम-वर्ग के लोगों के घर सरी में थे, जहाँ बहुत से पेशानर भारतीय आई० सी० एम० परिवार भी रहा करते थे। जान कोमर और उसकी पत्नी मार्गरेट कोमर ने स्वागत किया। वहीं कैम्बरले ( कार्लाइल ) के एक सार्थी मिले। उन्होंने कैम्बरलेड के बारे में बहुत सी बातें बतलायीं। इस द्राप के उत्तर्ग अंचल में यह बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है। लोग ज्यादातर भेड़ पालते हैं। अधिकतर किसानों के अपने खेत हैं जो अच्छी हालत में हैं। उनके नौकर खेत-मजदूरों की हालत बड़ी बुरी है। वह अपने मालिक के साथ रहते हैं। उनके पास न अपनी जमीन होती है, न अपना मकान। हमारे यहाँ के खेत-मजदूर कम से कम अपनी भ्रोंपड़ी तो रखते हैं। किसान अपने मजूरों के लिये चाहे बाहर भ्रोंपड़े बना देता है, या अपने साथ रखता है। भ्रोंपड़ों में बंधे हुए यह दास-से है, इसीलिये इस प्रथा को वहाँ “टाइट काटेज” ( बंधा भ्रोंपड़ा ) कहते हैं। सचमुच खेत-मजदूर घर के बंधुए हैं। वह काम छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अर्थ है, परिवार-सहित बेकाम ही नहीं, बेघर हो पथ का बटोही बनना। मजदूर सरकार ने कानून बनाया है, जिससे उन्हें ४ पौंड १० शिलिंग ( ६० रुपये ) प्रति सप्ताह मजूरी देनी पड़ेगी। लेकिन बेघर तथा जगह जगह विखरे हुए लोग अपने अधिकार को पूरी तरह इस्तेमाल कैसे कर सकेंगे। उक्त मित्र ने बतलाया कि कैम्बरलेड में “ टाइट काटेज ” प्रथा बहुत ही सरल है। इस इलाके में सात हजार खेत-मजदूर होंगे। अब भी वहाँ पर मजदूर-हाट लगती है, जहाँ पर मजूर अपना श्रम बेचने, और किसान उन्हें खरीदने के लिये आते हैं। यह दास-हाट का अवशेष है। पुराने काल की तरह ही मालिक मजूर को खरीदते बक्त उनके हाथ-पैर टटोलकर देखते हैं : वह काम करने की कितनी शक्ति रखता है। पहिले इंग्लैंड की बहुत सी देहातों में यह हाट ( हायरिंग मार्केट ) लगती थी। अब उसके अवशेष कैम्बरलेड जैसे पिछड़े इलाकों में ही है। इस पर भी अंग्रेज दुनिया को सभ्यता सिखलाने का दम भरते हैं। वस्तुतः अंग्रेज पूंजीपतियों साम्राज्य-वादियों की लूट से इंग्लैंड की साधारण जनता को बहुत फायदा नहीं हुआ है।

कुछ फायदा न होता, तो वहाँ पर कब का बोम्बेविष्म था गया होता और एटलों की साम्राज्यशाही मजदूर पार्टी राज्य नहीं करने पाती। केम्बर्ली का कर्णन मुन करके मेरे मुंह में पानी भर आता था, लेकिन अब दिन कहां था। जब दिन था, तो हाथ में पैसा नहीं था, और जब हाथ में पैसा है, तो दिन नहीं। रिचार्ड-लेम्प एक किसान था। किसान कहने से भारतीय किसान नहीं समझना चाहिये। इंग्लैंड का किसान (फार्मर) अब छोटा किसान नहीं है। छोटे किसान पाँदियों पहिले अपना सब कुछ खेचकर या तो कारखानों के मजदूर बन गये या “टाइट काटज” वाले खेत मजदूर। लेम्प ने २५ जुलाई के टाइम्स में लिखा था—“खेत मजदूरों की मजदूरी को बढ़ाया जायेगा, तो गजब हो जायेगा, यदि मजूरी की वृद्धि के अनुसार खेत की उपज के दाम में वृद्धि न की गई।” इंग्लैंड की खेती में विज्ञान का भी बहुत उपयोग नहीं किया जाता, इसलिये वहाँ की उत्पादित चीजें सस्ती होती हैं। इससे भी और सद्भाव करने पर बाहर से सँगाई चीजें बहुत सस्ती हो जायेंगी। देश की चीजों को कौन खरीदेगा, यदि विदेशी मुकाबले को दबाने के लिये भारी कर की दीवार नहीं खड़ी की गई। पिछली शताब्दी में दीवार खड़ी की गई थी, जिसका परिणाम अच्छा नहीं निकला था, क्योंकि इंग्लैंड स्वयं अपनी चीजों को दुनिया के बाजारों में निबोध रूप से बेचने का हिमायती था।

उक्त मित्र बतला रहे थे कि वहाँ १२-१४ साल के विद्यार्थी भी खेतों में आलू चुनने के लिये जाते हैं। किसान खाने पीने का प्रबन्ध करता है और कुछ पैसा दे देता है। बेचारे लड़के चाहते हैं, कि कुछ पैसा कमा कर परिवार के खर्च में मदद करें। खेत मजदूरों में इधर संगठन हुआ है, उनके लिये पत्र भी निकाले गये हैं, लेकिन वह कारखानों की तरह एक जगह नहीं रहते, कि कारखाने के फाटक पर खड़े होकर आप उन्हें व्याख्यान दे संगठित कर सकें। उस पर से किसान अपने भोंपड़ी में बसाये मजूरों पर काफी निगाह रखता है, जिसमें उस पर बाहरी प्रभाव न पड़े। कम्युनिस्ट सारी दुनिया की तरह इंग्लैंड में भी सबसे अधिक मेहनती और स्वार्थ-त्यागी हैं। वह इन खेतिहर मजूरों को संगठित करने

की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड की सारी संख्या में यह इतने कम हैं, कि अपने संगठन और वोट द्वारा यह गवर्नमेंट पर प्रभाव नहीं डाल सकते। मजदूरों पर अभी मजदूर-पार्टी का प्रभाव है। खेतिहर मजदूरों के ऊपर हर वक्त अर्थ और विपत्ति की तश्तवार लटकती रहती है। बीमार होने पर मालिक घर छोड़ने का भयानक करता है। किसानों का संगठन— नेशनल फार्मर्स यूनियन (राष्ट्रीय किसान संघ) बहुत मजबूत है, कृषि खेतिहर-मजदूर राष्ट्रीय-संघ उतना मजबूत नहीं है, तब भी वह इस बात पर जोर दे रहा है कि सरकार अपनी ओर से खेतिहर मजदूरों के लिये जगह-जगह मकान बनवादे, सस्ते किराये पर उन्हें दे दे। लेकिन फार्मर इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं, अगर उनकी भयोपड़ा से वह निकल गये, तो अपनी मजदूरी के लिये उसी तरह लड़ेंगे, जिस तरह कास्त्रानों के मजदूर। यह किसान टोकरियों के सबसे अधिक समर्थक हैं। १९५१ के ब्रिटिश चुनाव में चर्चिल को जितानेवालों में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं देहाती फार्मर किसानों का रहा।

सिस्टर कोमरने बतलाया— बरिचमी इलाकों में यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, और पूरु में बड़े बड़े। नाफोंक में कोमर की अपनी १५० एकड़ की खेती है, जिसमें एक हजार एकड़ एक जगह और बीस एकड़ दूसरी जगह है। २० एकड़ बेकर और २५ एकड़ धात की जमीन छोड़कर बाकी में गेहूँ, जौ, धकसा, गोभी, चुकन्दर तरकारी बोयी जाती है। उन्होंने अपने खेत को ह्वाट नाम के एक किसान को दे रखा है। १९५५ ई० में हजार पौंड में यह खेती उन्होंने खरीदी, ५०० पौंड और लगाया, फिर ६५ पौंड माल-गुजारी पर दे दिया, जिसमें २५ पौंड सरकार को आबकर ३० पौंड टार्ड (टिथे, धर्म-कर) सरकार के पास देना पड़ता है। जिस किसान ने ठेके पर खेती संभाली है, उसके स्त्री-पुरुष और बेटा-बहू चार प्राणी खेत में काम करते हैं। कानून के मुताबिक खेत का मालिक अभी अपने असमयी को हटा सकता है, जब कि वह खुद खेती करना चाहे। यदि कोमर स्वयं खेती करना चाहें, तो भी उन्हें एक साल पहिले नोटिस देना होगा और दो साल की मालगुजारी अर्थात् १६० पौंड खेती करनेवाले को कति-पूर्ति के तौर पर लौटाना पड़ेगा। उस वक्त जो कानून पार्लियामेंट में पेश



होने वाला था, उनके पास ही ज़ाने पर जौतदार का हटाना और भी मुश्किल हो जायागा। कोमर बतला रहे थे कि हमारे ठेकेदार के पास १२ गायें, २ छोटे-बड़े ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर की मशीन, एक मोटर, एक लोरी, दस घोड़े, दस सूअर, १२ मुअरियाँ और बहुत-सी मुर्गियाँ हैं। उसे अपनी गायों का दूध बेचने के लिये चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं, दूधशाला की लोरी घर पर आकर दूध ले जाती है।

उस खेतिहर की प्रगति के इतिहास को बतलाते हुए कोमर ने कहा— पहिले पहल वह १९२० में एक आटा मिल का मजूर था। १९२० से १९४५ तक वह एक छोटी दुकान के साथ पोस्टमास्टर भी था, जिसको तीन पौंड सप्ताह वेतन मिलता था। पहिले उसने एक एकड़ भूमि लेकर तरकारी की खेती शुरू की, तरकारियाँ काफ़ी बंदगी बिक रही थीं, उसके लाभ को देखकर उसने ५० एकड़ जमीन में खेती शुरू की। १९४५ में कोमर की १५० एकड़ की खेती ट्रेक पर ले ली, और उसी साल उसने पोस्टमास्टरी छोड़ दी। कोमर को हजार पौंड ( १३ हजार रुपया ) खरीद पर खर्च करने के अतिरिक्त १०० पौंड लगाकर पानी का रास्ता ठीक कराना पड़ा, जिसमें से आधा सरकार ने लौटा दिया। सीमेंट कराई, एक कमरा और रसोई घर तैयार कराने में ५०० सौ पौंड और लगे। सबसे अच्छी जमीन लचरे भाई को २० पौंड प्रति एकड़ पर बेच दी, जिसमें बाकी जमीन १२ पौंड प्रति एकड़ पड़ी। जर्मन में खलिहान-शाला, डेरी, अश्वशाला, पशुशाला के अतिरिक्त नीचे ३ और ऊपर ३ कमरे तथा एक रसोई घर हैं। भूमि बहुत उपजाऊ नहीं है। यदि १९३० का सन् होता तो ६५ की जगह २५ पौंड की मालगुजारी मिलती। डेढ़ हजार पौंड हर पचास पौंड का लाभ। कोमर दम्पति अपनी खेती को इस तरह दूसरे के हाथ में देकर अपने आप अब यहाँ नौकरी कर रहे थे। शायद यह अधिक शिक्षा का परिणाम हो। हमारे यहाँ भी यह बला फैल रही है। लेकिन दोनों पति-पत्नी कम्युनिज़्म के समर्थक हैं, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता, कि वह जीवन से भागना चाहते हैं।

फलवाला इलाका इंग्लैंड में दक्षिण की ओर है। हिमालय में भी सात हजार फुट से ऊपर की जगहों में सरदी की अधिकता के कारण सेब और दूसरे फल खट्टे होते हैं और उनको फलों की भूमि में परिणत नहीं किया जा सकता। उत्तरी इंग्लैंड की यही हालत है। दक्षिणी इंग्लैंड फार्नवाल में इस बार पहिला बार बरफ पड़ी। वह बतला रहे थे, कि नार्थरोड में पूरव में उपजाऊ भूमि है। भालूम नहीं दक्षिणी इंग्लैंड के सेब भी जैसे ही होते हैं जैसे कि मैंने उस दिन खरीदे।

इंग्लैंड और वेल्श के दूध का व्यवसाय एक बड़ी डेरी संस्था के हाथ में है, जिसका हेडक्वार्टर टेम्सडिट्टन में है। केवल उसके ऑफिस में ८५० कर्मचारी हैं। कोमर नहीं अफसर हैं। हिसाब करना व लिखना आदि सभी मशीनों से होता है, वहीं ती कर्मचारियों की संख्या और भी अधिक होती। कार्यालय की इमारत देखने गये। वह बहुत विशाल थी। दूध का रोजगार ज्यादातर वेल्शवालों के हाथ में है। उपडाहरेक्टर भी इस संस्था का एक वेल्श जन था। कार्यालय का मकान बहुत साफ और हवादार था। कोमर हमें शाम के वक्त रायल अर्सनल कोर्पोरेटिव डेरी के कारखाने को दिखाने के लिये ले गये। यहाँ सौ सौ मील दूर से लोरियों पर ढोकर हजारों मन दूध प्रतिदिन आता है। दूध एक सौ साठ डिग्री की भारी गरमी में तपाकर निष्कृमि बनाया जाता है, फिर मशीनों में ठंडा करके बिना हाथ लगाये ही बोतलों में भर दिया जाता है, भरी हुई बोतलें छोटे छोटे खुले ढाचों में रख कर लोरियों में धुँच जाती हैं जहाँ से वह ग्राहकों के दरवाजों की ओर जाती हैं। सत्रे के वक्त हरेक ग्राहकों के दरवाजे पर दूध से भरी बोतलें मौजूद रहती हैं। दूध में मिलावट का वहाँ कोई सबाल नहीं है। कारखाने के कर्मचारी ने एक एक चीज को घुमाकर दिखलाया और हम रात को १२ बजे घर लौटे।

कोमर परिवार को देखकर हम साधारण अंग्रेजी परिवार का अनुमान नहीं कर सकते थे। कम से कम स्वभाव में तो भारी अन्तर था। कोमर दम्पति कम्युनिज्म के भक्त होने से वनियामन को भूल चुके थे। उनके यहाँ मैं ही नहीं,

बल्कि एक और भी उत्तरी इंग्लैंड में काम करनेवाले पुरुष मेहमान थे। साथ ही एक महिला भी परिवार में रहती थी। हम दोनों मेहमानों को पैसा देने का मौका देने के लिये वह तैयार नहीं थे, वैसे में प्राचीन भारतीय प्रथा को पसन्द करता हूँ कि मेहमानों में जाने पर आदमी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिये, आज के भारत में तो उस प्रथा की ओर भी आवश्यकता है। भरसक ऐसा करना चाहिये, जिससे गृहपति को मेहमान का बोझ हल्के से हल्का मालूम हो। इसी मटर की फलियों को उवाल या तलकर खाना वहाँ भी अच्छा समझा जाता है। श्रीमती कोणर छिलकों को फेंक रही थीं। मैंने उन्हें बतलाया कि इन छिलकों का भी उपयोग हो सकता है, केवल उनके भीतर के कड़े चमड़े को निकाल देना चाहिये। मैंने उनको दबाकर निकाल कर दिखला भी दिया। उन्हें मेरे इस आविष्कार पर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा— यह मेरा आविष्कार नहीं है, तिब्बत में मैंने नरम फलियों के छिलकों को इसी तरह छीलकर कच्चा खाने देखा था, और इसकी तरकारी बनाकर स्वयं इसके स्वाद की परीक्षा की है। मंहरी मन्त्री में छिलकों का भी उपयोग लाभदायक है, यह गृहिणी को मालूम था, क्या जाने देखा-देखी पंडित और गृहिणियों ने भी छिलकों को फेंकना छोड़ दिया हो।

टेम्पलिट्टन एक नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके परले पार हैम्प्टन कोर्ट का प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रासाद है। १७३२ ई० में कार्डिनल (रोमन कैथलिक पादरी) बोज्जेली ने इस प्रासाद को बनवाया था। सामने एक छोटा सा सरोवर, वाटिका, हरे भरे विशाल उपवन और मैदान हैं। २७ को रविवार का दिन था, इसलिए हजारों लोग उस वक्त हैम्प्टन-कोर्ट में मनोविनोद के लिये आये थे। इसके बनाने में फ्रान्स के मशहूर प्रासाद बसॉई की नकल करने की कोशिश की गई है। आजकल यह प्रासाद विनोद-वाटिका का रूप ले चुका है, लेकिन पहले यहाँ मुसलमानी परिवार के लोग रहा करते थे। पूर्वाह्न में हमें जागर हैम्प्टन कोर्ट को देखा।

अपराह्न में ३० मील दूर की एक खेती (फार्म) को दिखलाने के लिये लोग मे हमें मि०कोसर ले गये। यह फार्म जंगल के बीच में है। इंग्लैंड

की शस्य श्यामला भूमि का सौंदर्य यहां दिखलाया पड़ रहा था। प्रकृति ने इंग्लैंड को दरिद्र नहीं बनाया, यदि वह दुनिया का शोषण नहीं करता, तो भी समृद्ध जीवन बिता सकता था। हाँ, भूमि सारी नीची अँची है। यह फार्म किसी लार्ड का था, लेकिन उसके पास लंदन में बहुत सी जमीन और मकान हैं, शायद कम्पनियों में भागीदार भी था, इसलिये उसे फार्म की क्यों चिन्ता होने लगी? किसी खेतिहर परिवार को यहां बसा दिया था जो कि कोमर के पूर्व्व पोस्टमास्टर की तरह अपनी खेती समझ कर काम नहीं करता—शायद उसके पास उतने शक्तिशाली हाथ भी नहीं थे। खेती शायद डेढ़ दो गाँ एकड़ की होगी, लेकिन एक तिहाई के करीब खेतों में बोये आलू को छोड़कर खारी खेती बेकार थी। मशानों उपवित्त पड़ी थीं, जई, गेहूँ, और गोसी के खेतों को देखकर यह कहना मुश्किल था, कि वह घास के खेत हैं, या फसल के। जहाँ अन्न का इतना कष्ट हो, राशनिंग इतनी कड़ी रखनी पड़ती हो, वहाँ सौ-दो-सौ एकड़ जमीन का इस तरह की बरबादी! सोवियत रूस में तो इसे भारी अपराध समझा जाता। फार्म के आस-पास दूर तक जंगल था, जिसमें लोमड़ी जैसे जानवर थे। इंग्लैंड के लार्डों को लोमड़ी के शिकार का बहुत शौक है, और जगह-जगह हजारों एकड़ जंगल केवल इस शिकार की शौक मिटाने के लिये छोड़ रखे गये हैं। इंग्लैंड वस्तुतः स्राघ में स्वावलम्बी हो सकता है, यदि इन शिकार के शौकीनों को खतम करके बहुत से जंगलों को खेत के रूप में परिणत कर दिया जाय, और विज्ञान के आधुनिकतम साधनों की व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया जाय। इस सी जंगल में दूर तक घूमते रहे। इतवार के दिन के सैलानी नर-नारी हजारों की संख्या में आये हुए थे। यातायात का हर जगह सुभीता होने के कारण लोग लंदन की गलियों और उदासीन वातावरण को छोड़कर दिल बहलाव के लिये ऐसी जगहों में आ जाते हैं। एफिन्हैम में हमने लौटते वक्त रेल पकड़ी। लंदन के आस-पास दूर तक रेलों का बिजलीकरण हुआ है, लेकिन बम्बई या दूसरे देशों की तरह बिजली के तार आदमियों की पहुँच से दूर खम्भों पर नहीं टांगे गये हैं, बल्कि दो रेलों के बीच में एक और रेल लगा दी गई है, जिसमें बिजली भरी रहती है।

यदि प्राणी का पर जरा सा उससे छू जाय, तो एक सेकण्ड में मौत अपना काम कर सकती है। मैंने पूछा— तब तो पशुओं और जंगली जानवरों में बहुत धरते होंगे। कोमर ने कहा— पहिली पहल बहुत मरे, लेकिन अब वह भी जानते हैं, कि यहाँ पर मौत खड़ा है। पालतू पशुओं के रोकने के लिये तो कितारे तार भी लगे ही हुए थे।

दो दिन पूरा बिना, इंग्लैंड के प्राणीज जीवन का थोड़ा-सा परिचय प्राप्त कर २८ जुलाई को मैं कोमर-दम्पति को बहुत बहुत धन्यवाद दे साढ़े दस बजे लंदन लौट आया।

मालूम हुआ था कि उत्तरी इंग्लैंड में धूमने के लिये सासिक टिकट मिल सकता है, जिसमें कहीं पर भी उतर कर हम देख-माल कर सकते हैं। लेकिन अब समय कहाँ था? आकर्षण तो बहुत हुआ, किन्तु मजबूरी। उस दिन अधिकतर अखवार और साथ लार्डी चीजें पढ़ते रहे। रेडियो को कम्पनी ने घर पर भेज दिया था। देखा उसमें सुदूर देशों की खबरें नहीं आ रही हैं। भारत के बारे में इतना मालूम हुआ कि मजदूर साम्राज्यवादियों ने भारत छोड़ते वक्त जो धडयंत्र किया था, वह अब फल लानेवाला है। भारत को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में बाँटकर ही अंग्रेजों को संतोष नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने पुराने संधि-पत्रों का बहाना करके हमारे यहाँ के छत्रधारियों को बिलकुल स्वतंत्र कर दिया था। दायनकोर, हैदराबाद, भीमाल आदि कितने ही रजुल्लों ने अब अपने को सर्वतंत्र स्वतंत्र घोषित करने का संकल्प किया था और नवस्थापित राष्ट्रीय सरकार परेशान थी। लेकिन इन रजुल्लों का पता नहीं था, कि अब भारतीय जनता सामन्तशाही युग में दूर हो चुकी है। अब वह अंग्रेजों की संरक्षित गुड़ियों को अधिक दिनों तक छाती पर कोदों दलने नहीं देगी।

लंदन में राशन की कड़ाई थी। किसी भोजनालय में जाने पर तीन चीजें ही खाने को मिलती थीं। लेकिन अगर पास में पैसा हो, तो आपको भूखे रहने की अवश्यकता नहीं। आप एक रेस्तोरां में उठकर दूसरे रेस्तोरां में जाकर खा सकते थे, क्योंकि रूस की तरह राशन-कार्ड का कड़ा नियम नहीं था।

श्री, गरीबों व कम वेतन पाने वालों के लिये जरूर आफत थी। मजदूर सरकार का कैसा अच्छा समाजवाद चल रहा था। वहाँ की सारी व्यवस्था देखने में ही पता लग जाता था, कि मजदूर-दल से गरीबों का हित नहीं हो सकता। वह लम्बी-लम्बी बातों में लोगों को फँसाना चाहती है, और निराश जनता को टोरियों की गोद में जाने के लिये तैयार कर रही है। वह इस बात में भाग्यवादी है कि शासक पार्टियाँ बारी-बारी से शासन की बागडोर अपने हाथ में मंभालती रहें। पांच साल मजूर पार्टी राज्य करे, फिर पांच साल टोरी। यह निश्चय है, कि जब तक इंग्लैंड के आर्थिक ढाँचे को आमूल गदलकर शोषण को नहीं ख़तम किया जाता, तब तक जनता कर्मी मजूर-दल को अपना स्वार्थी शासक नहीं बना सकती। भूटें बादों की कलई खुलने ही नये निर्वाचन में ब्रद विरोधी पायों को अपना बोट देगी। यह आंख-मिचौनी वहाँ के राजनीतिज्ञों के लिये विगोद की चीज हो सकती है, लेकिन साधारण जनता तो उसमें बराबर पिसती रहेगी। हमारे देश के समाजवादी दोस्त भी इसी आदर्श को भारत में कायम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एटली और चर्चिल की तरह यहाँ भी जयप्रकाश और नेहरू की अदला-बदली होती रहे। लेकिन हिन्दुस्तान इंग्लैंड से बहुत अन्तर रखता है। उद्योग प्रदान होने से इंग्लैंड दरिद्र देश नहीं है, भारत की दरिद्रता और भुखमरी के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी आंख-मिचौनी से करोड़ों आदमी मृत्यु की बलि पर नष्ट जायेंगे।

२६ तारीख को मैं नहाने के साबुन की खोज में निकला। कई दुकानों में इँदने के बाद एक जगह स्नानीय साबुन था लेकिन दुकानदार ने कहा कि इसके लिये राशनबुक की जरूरत है। मेरे पास वह नहीं थी। थोनेके माधुन के बारे में भी ऐसी दिक्कत थी। मैंने सोचा था, कि कुछ कपड़ों को थोले तो अच्छा, लेकिन वह नहीं हो सका। इसी तरह किताबों का भी अकाल सा था। श्रं, अखबारों की कमी नहीं थी।

अब एक ही दिन हमारे लंदन के निवास का रह गया था। मुझे एक दोस्त के लिए प्लांट की हिन्दी-अंग्रेजी डिक्शनरी की आवश्यकता थी। ३ पीठ

३ शिलिंग में वह मिल गई और मैंने ५ पौंड के बीजा के साथ उसे लेनिनग्राद भेज दिया। आमतौर पर पीछे देखा कि यहाँ से सोवियत रूस में पुस्तकों को भेजना जितना मुश्किल है उतना लंदन में नहीं था। यहाँ तो उसके लिये विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है, इसी कारण मैं अपनी पुस्तकों को रूस नहीं भेज सका। लंदन में कुछ विशेष प्रकार के बहुत सस्ते रेस्तोरां हैं। ए. वी. सी. की भोजनालय की सैकड़ों शाखायें नगर के विच-विच भागों में फैली हुई हैं। भोजनशाला में मेज-कुर्सीयां पड़ी रहती हैं, परमने वाले नौकरों की आवश्यकता नहीं होती, भोजन करते वक़्त स्त्रयें खेदें उठाकर परिसरे वातां के पास जा खाने की चीजों को लेकर अपनी भेज पर बैठते हैं। दूसरी भोजनशालाओं से इनका भोजन चुरा नहीं होता, और कम पैसा रखने वाला आदमी भी सजे से खा लेता है। भोजनशाला की संचालिका कम्पनी हॉक वस्तु की थोक दाम पर खरीदती है, इसीलिये वह रुपया-डेढ़-रुपया में आदमी को भोजन करा सकती है।

३१ जुलाई का अखिरी दिन आया। अपने तीन बक्सों को पहिले वाटरलू स्टेशन पर सौथम्प्टन के लिये दे आया। अपनी चीजों को रेलवे कम्पनिशों या दूसरी यात्रा एजेंसियों को दे आइये, फिर चिन्ता करने की जरूरत नहीं, वह आपके मतव्य स्थान पर पहुंचनी रहेंगी। डिपार्टमेंट स्टोर (महा दूकान) की तरह रेलवे एजेंसियां भी सामान को घर पहुंचा दिया करती हैं।

प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर सामान को सौथम्प्टन के लिये बुक कराने का किराया ६ शिलिंग के फरीब पड़ा। टैक्सीवाले को सत्रा चार शिलिंग देना था, ५ शिलिंग देने पर भी उसने इनाम मांगा। मालूम हुआ कि अब इनाम और बखसीश का सार्वजनिक ध्यवहार इंग्लैंड में भी होने लगा। मय्यान्ह-भोजन के लिये मैं एक रेस्तोरां में गया, जहाँ ३ रुपये में आधपेट भोजन मिला। २८ आना सेर नासपाती, १२-१२ आने का एक एक आइ, खरीदते बक्त पता लगा कि फल भी यहाँ कितने महंगे हैं। आज पालियामेन्ट-भवन को देखा और पास में वेस्टमिनिस्टर एबे को भी। पालियामेन्ट भवन को युद्ध के समय कुछ चति

पहुँची थीं, किन्तु अब उसकी भरभरात हो चुकी थी। वेस्ट मिनिस्टर एवं इंग्लैंड के सम्प्रदायीय मुद्दों के कब्रिस्तान का भी काम देती है। पहिले यह एक सट था, और आज भी इंग्लैंड के राजा का अभिषेक इसी में होता है। वीर पूजा सभी देशों और कालों में पाई जाती है। वेस्ट मिनिस्टर एवं सें शरीर या शरीर-बेराप का गाड़ा जाना, अथवा नाम की तरुती का लग जाना बड़े सम्मान की बात है।





## २१- भारत के लिये प्रस्थान

लंदन से नजदीक के समुद्री बन्दरगाह सौथम्प्टन में पहिली अगस्त

को “ स्ट्रेमोर ” जहाज को पकड़ना था । चाय पीकर तैयार हो गया, लेकिन टैक्सी मिलने में देर हुई । ६ शिलिंग ( ४ रुपया ) पर वाटरलू स्टेशन के लिये टैक्सी मिला, जहां मैं सवा ग्यारह बजे पहुँचा, लेकिन जहाज सौथम्प्टन के लिये सवा बजे रवाना हुई । २ घंटे का रास्ता था । यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि इस ट्रेन में सभी सामुद्रिक यात्री थे, जिनमें बहुत से भारतीय भी थे । ट्रेन बहुत बड़ी थी । ५ शिलिंग में हमें मध्याह्न भोजन मिल गया और दो घंटे की यात्रा के बाद ट्रेन जहाज के पास लगी । टिकट, पासपोर्ट देखा गया । स्टीमर में गये । वी० क्लास में काफी सीटें थी, बल्कि “ श्वेतद्वीप ” से मुकाबिला करने पर दोनों में स्वर्ग और नरक का अन्तर था । कहां श्वेतद्वीप की सफाई, बढ़िया सजावट, सुख-सुविधा का हर तरह का ध्यान और कहां यह जानवरों का पिंजड़ा । ए. क्लास में कैबिन ( कोठरी ) था, किन्तु बी. क्लास तो नीचे ऊपर सचान बंधा नील का गोदाम था । मुझे ३६ वर्ष पहिले की बात याद आई । अरर प्राहमरी स्कूल पास कर मैं मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिये निजामाबाद, आजमगढ़

गया था। निजामाबाद से प्लेग होने के कारण स्कूल उठकर टैम्सनवाँ के परले पार एक परिवर्तित नील-गोदाम में हो रहा था। नील का व्यवसाय सब एक जर्मनी के कृत्रिम-रङ्ग ( ऐनी लाइट ) द्वारा खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी लोग आशा लगाये थे, इसलिये गोदाम खस्त नहीं हो पाया था। नील को टिकियों को मुखाने के लिये नीचे ऊपर कई तरह के मचान बन्धे हुये थे। यहाँ त्रिवाधियों का बोधिग था। लेकिन वह इतना मैहगा नहीं था। यहाँ मचान अब १७ दिन के लिये हमारा घर था। सीढ़ भी काफी थी। यदि कैबिन का इतिजाम नहीं कर सकते थे, तो किराया कम करना चाहिये था, लेकिन युद्ध ने हरक चीज की दर बढ़ा दी थी। युद्ध के समय अधिक से अधिक सैनिकों को भर कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था, इसलिये कैबिन तोड़ कर मचान स्थापित हुये। कह रहे थे, मचान तोड़कर फिर कैबिन बनेगा, लेकिन तब किराया ७०-७२ पौंड हो जायेगा। युद्ध ने केवल मुसाफिरों के किराये को ही नहीं बढ़ाया था बल्कि मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ा दी थी। सबसे कम वेतन कोयला वाले का था, युद्ध के पहिले २३ रुपया मासिक था, अब वह ६० रुपया हो गया था, ५० रुपया पालेवाला सारंग अब २०० पा रहा था। 'स्ट्रेचबोर' में दूसरे जहाजों की तरह हिन्दुस्तानी मन्लाहों को रखा जाता था। अंग्रेज मजदूर इतने वेतन पर नहीं मिलते, इसलिये अंग्रेज सेट हिन्दुस्तानियों को भरती कर चौगुना नफा कमाने की फिर में थे।

१९४० से १९४२ तक के ढाई वर्षों के जेल-जीवन में मैंने सिगरेट पीना सीख लिया था। बाहर निकलने पर भी वह जारी रहा। ईरान के सात महानों में भी वह दिल-बहलाव का साधन था। लेकिन मुझे सिगरेट में कमी रस नहीं आया। मेरे सिगरेटची-दोस्त कहते थे, कि ५० सिगरेट रोज पीने पर किसी किसी समय रस आता है। मेरा वहाँ तक पहुँचने की सागर्य नहीं था। मुझे तो ऐसा ही मालूम होता था, मानो आदत पड़ जाने से कोई लकड़ी मुँह में दे ली हो, इसलिये जिस दिन तेहरान से सोवियत जाने के लिये विमानपर परे रखा, उसी दिन ( ३ जून १९४५ ) सिगरेट पीना छोड़ दिया। सारे सोवियत और

लंदन प्रवास में सिगरेट नहीं पिया। जैसे बढिया सिगरेट कौन होती है और घटिया कौन, नरम कौन होती है, और कड़ा कौन, इसकी परख मालूम हो गई थी। कर का कोई भ्रगडा न होने के कारण “ स्टूथमार ” पर बहुत बढिया सिगरेट सस्ते दाम पर विक रही थी। १७ दिन के जहाजी सफर में अब मुझे कोई गंभीर काम करने का मौका मिलने वाला नहीं था। सला मचानों में एक दूसरे के साथ लेटे लोग क्या पढ़-लिख सकते थे ? बाहर डेक पर कपड़े की कुर्शियां पड़ी थीं, जिनकी संख्या इतनी नहीं थी, कि हरेक मुसाफिर बैठ सके। बैठने पर फिर राय-शप शुरू हो जाती थी। एक तो बहुत सालों बाद भारतीयों से भेंट हुई थी, इसलिये मुझे भी बहुत सी बातें जानने की उत्सुकता थी, दूसरे रूस में २५ महीने रहकर मैं लौट रहा था इससे हमारे भारतीय बन्धु भी उम रहस्यमय देश के बारे में बहुत सी बातें जानना चाहते थे। यह कह सकता हूँ कि १७ दिनों में प्रायः प्रतिदिन ६-७ बंटों के लिये कहने की बातों का मेरे पास टोटा नहीं था। जैसे थोता बदलते रहते थे, और उनकी जिज्ञासामयें भी बदलती रहती थीं। बात करने में सिगरेट का कष्ट अगर बीच-बीच में लिया जाय, तो रस जरूर कुछ अधिक आने लगता है, चाहे यह कारण समझिये, या सस्ते बढिया सिगरेटों का सुलभ होना समझिये, जिस दिन मैंने “ स्टूथमार ” पर पैर रखा, उसी दिन से सिगरेट को फिर शुरू कर दिया, जिसका अन्त गांधीजी की अस्थिरियों के प्रयाग में प्रवाह के दिन ही हुआ।

ए. और बी. कलास का निवास अलग अलग था। ए. कलास के केचिन अच्छे थे, लेकिन खाना दोनों कलासों का एक ही जैसा था। स्नानागार पाखाना भी ए. का बेहतर था। बी. कलास में सारे भारतीय थे, जिनमें अधिकांश विद्यार्थी थे, जो बैरिस्टर, डाक्टर या और कोई डिग्री प्राप्त कर लंदन से भारत लौट रहे थे। ग्वालियर के शंकरराव पिसाल दर्जी का डिपलोमा लेने आये थे, और दो मास रहकर सफल लौट रहे थे। उनके ग्राहकों पर लंदन से डिपलोमा प्राप्त दर्जी का रोब जरूर पड़ेगा। लेकिन सीवन-कला पर उनकी पुस्तकें पहिले से ही चलती थीं कितने ही समय से वह सीवन-कला पर अपना पत्र भी

निकाल रहे थे। क्या यह पर्याप्त नहीं था? खैर लंदन में उन्हें बहुत अधिक सांख्यना नहीं था। डिप्लोमा देने वाले भी उनका योग्यता को जानते थे, इसलिये दो महीने से अधिक ठहरने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे साथियों में एक भारतीय सेजर थे, जो बलिया की हैलटशाही में सैनिक अफसर रह चुके थे। वह बलिया के लोगों पर सैनिकों के अत्याचार से बिलकुल इन्कार करते थे। कहते थे— “वह सब काम पुलिस का था, जिसे सैनिकों के मत्थे मढ़ा गया।” “स्ट्रेचमोर” का खाना बुश नहीं था, और कभी-कभी भारतीय भोजन भी मिल जाता था।

“स्ट्रेचमोर” कल शाम को किसी वक्त चला था। २ अगस्त को साढ़े तेईस हजार टन का यह भारी जहाज अब तट से इतना दूर चल रहा था, कि हमें किनारा दिखलायी नहीं पड़ता था। जहाज की गति काफी तेज थी। २४ घंटा मचान में रहने के बाद तो हम कहने लगे, कि यह तीसरे दरजे से भी बुरा है। वहां सब से असह्य चीज थी गंदा पाखाना। पीछे कुछ परिचय प्राप्त हो जाने पर स्नान का प्रबन्ध हमने ए. क्लास में कर लिया। उस वक्त सभी भारतीयों में १५ अगस्त (१९४७) की चर्चा थी। हमारे लिये क्यों यह हमारे देश के लिये सबसे बड़ी घटना थी, क्योंकि उस दिन तलवार के जोर पर दाखल करनेवाली अंग्रेजों की सेनाएं भारत को छोड़ जाने वाली थीं, हमारा देश अपने भाग्य का विधाता होने वाला था। मैंने हमेशा इसको इस रूप में लिया, यद्यपि इसका यह मतलब नहीं कि अपनी स्वतंत्रता को मैं परिसीमित नहीं समझता था। लेकिन यह परिसीमन अंग्रेजों के हाथों से नहीं हो रहा था, बल्कि उनके चले-चांटे जो भारत में पैदा हुए, अमेरिका के मुक्त हर्षी गुलाम की तरह अपने बेरा को मालिक के अस्तबल में ही रखना चाहते थे, और अब भी चाह रहे हैं। देश में स्वतंत्रता के लिये कितनी बार बड़े बड़े बलिदान सामूहिक और वैयक्तिक रूप में हुए, उन्हीं बलिदानों और राष्ट्र की नवजागृति के कारण अंग्रेजों ने समझा, कि अब इस देश पर शासन करना बहुत महंगा पड़ेगा, जिसके लिये हमारे पास साधन और शक्ति दोनों नहीं हैं। भारतीय नौ-

सैनिकों के विद्रोह ने खतरे की घंटी बजा दी और दिवालिया ब्रिटिश सरकार को जल्दी जल्दी अपना बोरिया-बंधना बांध कर भारत छोड़ने के लिये मजबूर होना पड़ा ।

यह कैसे हो सकता था कि “स्ट्रेथमोर” के भारतीय १५ अगस्त मनाने के लिये लालायित न होते ? हम १७ अगस्त से पहिले बम्बई नहीं पहुंच सकते थे, इसलिये उस महोत्सव को देश में नहीं बल्कि जहाज में ही मना सकते थे । लेकिन जहाज में भारतीय और पाकिस्तान दोनों के नागरिक थे और जिस मनोवृत्ति के कारण एक देश के दो देश बने, वह वहां पर मौजूद थी, इसलिये महोत्सव को इस तरह मनाना था, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी दोनों सम्मिलित हो सकें । तै हुआ दोनों देशों के झंडे फहराये जायें । भारत और पाकिस्तान के महामंत्रियों के पास शुभ संदेश भेजे जाय, बच्चों को मिठाइयां खिलाई जाय, और इसके साथ ही कुछ मनोविनोद और मनोरंजन के प्रोग्राम रखे जाय ।

महोत्सव कर्माटी जहाज पर चढ़ने के दूसरे ही दिन वनाली भरी थी । चौबीस घंटे ही में भारतीयों में भेरा कुछ अधिक परिचय शायद रूस से आने के कारण हो गया, उसका परिणाम यह हुआ कि मैं भी कर्माटी का मेम्बर बना दिया गया— राजनीतिक जीवन के बाहर इस तरह के सार्वजनिक परिदर्शन के पदों पर रहना मैं कभी पसन्द नहीं करता था ।

३ अगस्त को परिचय बढ़ने का और परिणाम यह हुआ, कि अब मैं कुछ पढ़ नहीं सकता था और जिन अनुवादों ( गुलामान ) का मैं आवृत्ति करना चाहता था, वह भी नहीं हो सकता था । अधिकतर समय बात-चीत में लगता था । पाकिस्तान के हिन्दू घबड़ाये हुये थे, यह हमारे साथ के यात्रियों की बातों से मालूम हो रहा था । एक सिन्धी व्यापारी कह रहे थे : हमारी पूंजी तो द्रव होती है, इसलिये हम अपने हैड-क्वार्टर को भारत में परिवर्तित कर देंगे । देश के भीतर पंजाबियों के पराक्रम और अभ्यवसाय का बहुत से लोगों को परिचय है, लेकिन सिंधियों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं । दुनिया का कोई देश नहीं जहां सिन्धी दुकानदार न पहुँचें हों । क्रान्ति के पहिले वह रूस के बहुत से

नगरों में भी थे, और वाकू के सिन्धी व्यापारियों ने तो वहाँ की बड़ी ज्वालामाई को अपनी श्रद्धा भक्ति से खूब जागृत कर रखा था। ज्वालामाई के सठ में हमेशा भारतीय साधु रहा करते थे। दूसरे देशों में, चाहे जापान की ले लीजिये, या कोरिया को, मंचूरियाको ले लीजिये या मिश्र को, अफ्रिका के उत्तर-दक्षिण, पश्चिम के भिन्न-भिन्न देशों को ले लीजिये या दक्षिणी अमेरिका को; कहीं भी रेशमी तथा दूसरे बढ़िया कपड़े के व्यापारी सिन्धियों को अवश्य पायेंगे। इन व्यापारियों के घर कराँची-हैदराबाद-शिकापुर में हैं, लेकिन वह घर पर कभी दो तीन वर्ष बाद ही आते हैं। वह अपने गुमाशतों और मुनीमों को अपने देश ले जाते हैं, जिन्हें देश की अपेक्षा काफ़ी अधिक वेतन मिलता है, और दुनिया की सैर करने का सुभीता भी, यद्यपि सभी नौकर सैलानी तबियत के नहीं होते। पाकिस्तान के कालानों में जिनकी पूंजी लगी है, उन हिन्दुओं के लिए भारी दिक्कत थी, और वह बहुत परेशान थे।

अभी जहाज के हिन्दू-मुसलमानों को आगे आनेवाले सैकट का पता नहीं था। वह समझते थे, जैसे कागज पर आसानी से देश का बँटवारा हो गया वैसे ही आदमियों के मनों का भी परिवर्तन हो जायेगा। एक लाहौर के सरदार साहब हमारे सहयात्री थे। अभी सीमा कमीटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी थी। लेकिन उनका पूरा विश्वास था, कि लाहौर पाकिस्तान को नहीं, भारत को मिलकर रहेगा, क्योंकि लाहौर में मुसलमानों की नहीं गैरमुसलमानों की संख्या अधिक है। मैंने कहा—“ कोई बहुत भूभाग किसी देश में द्वीप की तरह दूसरे देश के अधीन नहीं रह सकता और यह आप जानते हैं कि लाहौर के आस पास के गांवों में मुसलमान ही सबसे अधिक हैं।” इस पर उन्होंने कितने ही सिक्खों के मनोभावों को प्रकट करते हुए कहा— “ खून की नदियां बह जायेंगी, यदि लाहौर को पाकिस्तान के हाथ में दिया गया।” मेरा कहना था— “ खून की नदियां बह सकती हैं, लेकिन उसका परिणाम जो आप चाहते हैं वह नहीं होगा। असल में पिछले २५ सालों में जब हिन्दुओं और सिक्खों के लिये मुसलमान-प्रधान पंजाबी इलाकों में अपनी सूद सवाई और दुकानदारी का उतना सुभीता

गांवों में नहीं रहा, न गांव वालों की जमीन ही तिकड़म से अपने हाथ में करके उससे खूब फायदा उठाया जा सकता था। तब वह भाग-भाग कर शहरों की ओर आने लगे। लाहौर का आकर्षण उनके लिये बहुत अधिक था। मैं पहिले-पहिले १९१६ में लाहौर गया था। उस समय मैंने जो लाहौर देखा था, उससे १९४३-१९४४ के लाहौर में बहुत अन्तर पाया। सिख-हिन्दुओं की बदीखत शहर बहुत बढ़ गया था, और रामनगर, कृष्णनगर, सन्तनगर जैसे कितने ही लाहौर के शाखानगर आयाद हो गये थे। वहाँ लोगों ने अपनी कमाई लगा कर पक्के प्रासाद और मकान खड़े कर दिये थे। उन्हें अपने इस धन और श्रम का मोह था, जिसमें उनको पूरी आशा थी कि लाहौर को अंग्रेज पाकिस्तान के हाथ में नहीं देंगे। वह भूल जाते थे, कि अंग्रेज किसी सदिच्छा से प्रेरित होकर हिन्दुस्तान का परित्याग या बँटवारा नहीं कर रहे हैं। यदि बँटवारे के परिणामस्वरूप देश में खून की नदियाँ बहें, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी और वह कहेंगे— देखा हमारे रहने से देश की क्या हालत थी और अब निकलने से क्या हालत हुई। जितना अधिक से अधिक भगड़े का कारण हिन्दुस्तान में रहे, उतनी ही अंग्रेजों की प्रसन्नता होगी और उतना ही हिन्दुस्तान के दोनों देश अपने पुराने शत्रुओं की खुशामद के लिये तैयार रहेंगे। रियासतों को वह ऐसी अवस्था में रख गये थे, जिसके कारण तरह तरह का अय होने लगा था। हमारे साथियों में से कुछ का विश्वास था कि छोटी-छोटी रियासतें न सही, हैदराबाद, मैसूर, टावनकोर, बड़ौदा, कश्मीर जैसी १५-२० बड़ी रियासतें अवश्य स्वतंत्र राज्य का रूप धारण करेंगीं। मैं कहता था— वह तभी जबकि हमारे वर्तमान शासक नेताओं की अकल मारी जायेगी। अभी यह गुड़िया राजा अंग्रेजों के साथ की गुलामी की संधियों पर कूद-फ़ाँद रहे हैं! वह समझते हैं, जैसे किसी अदालत में त्रिजय के लिये कागजी सचूत काफ़ी होता है वैसे ही जातियों का भाग भी कागज के पुरजों पर सदा के लिये बेचा-खरीदा जा सकता है। वह नहीं जानते, कि तोपें जब रत्ता के लिये नहीं रह गईं, तो निपटारा कागज नहीं करेगा, बल्कि अब फैसला उनकी मूक बहुसंख्यक प्रजा के हाथों में होगा। अभी इस छिपी हुई

शक्ति को वह देख नहीं रहे हैं, लेकिन जब गुडिया राजा महान् मुगल का अनुकरण करने नलेंगे, तब यह नये पंजे चारों ओर से नीचने के लिये उठेंगे और इन्हें लेने के लिये पड़ जायेंगे।

हमारे साथियों में द्वैरावाद (सिन्ध) के शर्माजी भी थे, जो साहसी और उदार आदमी थे। अफ्रीका के किसी कोने में उनकी या उनके मालिक की दूकान थी, व्यापारियों के सम्बन्ध में ही वह लंदन आये थे, और अब भारत जाते रहे थे। व्यापार में कर उगाहनेवालों को धोखा देना, चोरबाजारी करना, सट्टे-बाजी की तरह कोई अर्थम की बात नहीं समझी जाती, इसलिये जो भी आदमी इस तरह का काम करता हो, उसे हम जन्म-सिद्ध अपराधी नहीं मान सकते। उनमें अच्छे भी हो सकते हैं। बाजार में जब देखते हैं, कि अगर दूधरों का रास्ता हम नहीं स्वीकार करते, तो घाट उलटना पड़ेगा और अपने ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भूले भारना पड़ेगा। इसलिये वह भी रातगुनतिक ही जाते हैं। शर्माजी के पास कई टूकों में कीमती रेशम के कपड़े थे। कस्टमवाले उस पर भारी टैक्स लेते, इसलिये उनको बड़ी फिकर थी, कि कैसे कस्टम का खफा देकर अपने सामान को उतारा जा सके। हो सकता है सोना भी उनके पास हो। हमारे देश में सोने के आयात पर भारी कर लगाकर उसे अवश्यकता से अधिक महंगा बना दिया गया था, इसलिये चोरी-छुपे सोने को लाना भी एक बड़े सफे का व्यवसाय था। शर्माजी से बहुत बातें हुआ करती थीं। द्वैरावाद में उनका घर भर था, जिसकी उन्हें बहुत परवाह नहीं थी।

तीसरे दिन दोपहर के करीब हमारा जहाज जिब्राल्टर के पास से गुजरा। उस समय अफ्रीका और यूरोप दोनों के तट हमारे दाहिने बायें थे। शर्माजी ने बतलाया : जिब्राल्टर में हमारे स्थिधियों की एक दर्जन से अधिक दूकानें हैं। सुभे ख्याल आ रहा था जिब्राल्टर के असली नाम जबजवस्त-तारिक अर्थान् (तारिक-पर्वत) का। जिब्राल्टर एक पहाड़ के किनारे बसा हुआ है, इसलिये अरबी में इसका जत्र नाम होना ही चाहिये, लेकिन तारिक कौन था? उमैय्या खलीफोंक मशहूर सेनापति तारिक, जो इस्लाम के प्रचार तथा साम्राज्य के विस्तार



के लिये अपनी अरब सेना के साथ आज से १२ सदी पहिले इसी जगह अफ्रीका से यूरोप की भूमि पर पैर रख कर उसने अपनी नावों को तोड़ते हुए सैनिकों से कहा था— “ जीतो या मरो, अब तुम्हारे लिये तीसरा रास्ता नहीं है ।” उसके बाद की ५-६ शताब्दियों में स्पेन मुसलमानी देश हो गया था, और खतरे के मारे सारा ईसाई यूरोप अपनी खैरियत बना रहा था । उत्तरी स्पेन की एक बड़ी लड़ाई में ईसाई सेना ने मुसलमानी सेना पर भारी विजय प्राप्त की, जिससे इस्लाम फ्रान्स के भीतर घुस कर आगे नहीं बढ़ सका । उसी जबरदस्त-तारिक को अपने वाणिज्य सम्बन्धी महा अभियानों में अंग्रेजों ने स्पेन से ब्रान लिया और अपने व्यापारी मार्ग की रक्षा के लिये उसे एक सुदृढ़ दुर्ग और व्यापारिक नगर का रूप दे दिया । सदियां बीत गईं । २० वीं सदी में भी दो दो विश्व युद्ध हो गये, लेकिन अंग्रेजों का पंजा जबरदस्त-तारिक से नहीं उठा । उन्होंने दूसरे देशों के शब्दों और नामों की तरह इसका भी नाम बिगाड़कर जिब्राल्टर बना दिया । पूरब में स्वेज और पश्चिमी में जिब्राल्टर को अपने हाथों में रखकर अंग्रेज भूमध्यसागर को अपनी भीला बनाये हुए हैं । भूमध्यसागर के तट के यूरोपीय देश— स्पेन, फ्रान्स, इताली, ग्रीस, तुर्की घुंहा ताकते ही रह गये, और वहाँ तृती बोल रही है अंग्रेजी नौ-सेना की । मैं सोच रहा था, द्वितीय महायुद्ध ने इंग्लैंड का दिवाला निकाल दिया है । वह अमेरिका के दिये टुकड़ों पर पेट पाल रहा है । उसकी सारी किलाबन्दियां अब अमेरिका की किला बन्दियां हैं । अब तो फ्रेंच को भी बात नहीं है, जबकि फुटली के बाद फिर इंग्लैंड का प्रधान मंत्री बनने वाला चर्चिल ब्रिटेन को अमेरिका की ४६ वीं रियासत बनाने के लिये तैयार है । जब तक पराई भूमि पर इस तरह जबरदस्ती कब्जा रहेगा, तब तक कैसे विश्व में शान्ति रह सकती है ।

हमें जहाज में अब रेडियो से टाइप की हुई खबरें पढ़ने को मिलती थीं । उस दिन म. लूम हुआ गांधी जी इसके लिये नाराज हैं, कि भारत के डोमिनियन 'हते तक राष्ट्रीय झंडे के साथ यूनियन जैक ( अंग्रेजी झंडे ) के रखने के उनके सुझाव को लोगों ने टुकरा दिया, अब भारत की सरकारी इमारतों पर यूनियन

जैक नहीं फहरायेगा । मैंने उस दिन लिखा था— “ वृद्धा सटिया गया है, इसमें तो सँदेह नहीं ।” क्या ६० वर्ष की अवस्था को पार कर जाने पर शरीर की तरह आदासियों की बुद्धि भी लीग हो जाती है ? हो सकता है, कितनी ही बार यह बात सच्ची हो, लेकिन सटियाने का एक और कारण है : आदमी समय के साथ आगे नहीं बढ़ता । हमने २५ साल पहिले बच्चे का नंगा देखा था, २५ साल बाद भी उसे वही समझना चाहते हैं । नहीं समझते, कि अब वह शिशु नहीं बल्कि शरीर और सस्निष्क दोनों से प्रौढ़ मानव है । तरुण होने के हरेक नवीन प्राणिक चीज को ग्रहण करने के लिये तैयार है, इसलिये उसको ६० वर्ष के बूढ़े में अधिक सजस मानना चाहिये । साईंस के बड़े बड़े आविष्कारों के बारे में हम इसी बात की सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं । आविष्कारकों में सबसे अधिक संख्या तरुणों की मिलेगी । यदि ६० की ओर तेजी से बढ़ते दिमाग तरुणों की क्षमता पर विश्वास करने के लिये तैयार हो जायें और सदा अपने ही पथ-प्रदर्शक बनने की खालसा को छोड़कर उन्हें भी पथ-प्रदर्शन करने की आज्ञा दें, उस पर चलने के लिये तैयार हों, तो किसी को सटियाने की अवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

सहोत्सव के लिये चन्दा जमा हो रहा था । ५ अगस्त तक वह ८० पौंड के करीब पहुँच गया था । पंजाब के एक पेन्शनर पोस्टमास्टर जनरल अंग्रेज भारत लौट रहे थे । कह रहे थे— “इंग्लैंड में हमारी पेन्शन खर्च के लिये अपर्याप्त है, क्योंकि वहाँ जीवनोपयोगी चीजें बहुत महंगी हैं । साथ ही हमें भारत में नौकर-चाकर रखने की आदत थी, और इंग्लैंड में वह बहुत महंगे हैं । टैक्स भी यहाँ अधिक है, जब भारत से आने वाली पेन्शन पर ही जीना है, तो क्यों न भारत में ही चलकर आराम से रहें ।” वृद्धा ७० वर्ष का था । बहुत स्वस्थ भी नहीं मालूम होता था । उसके ऊपर परिवार का बोझ भी नहीं था, इसलिये हिन्दुओं के कारीवास की तरह वह भारतवास के लिये आ रहा था । पाकिस्तानवास पर उसका विश्वास नहीं था । अंग्रेजों ने यद्यपि हिन्दुओं के मुकाबले में मुसलमानों को हमेशा प्रोत्साहन दिया, लेकिन अपने मन के भीतर वह इस्लाम पर विश्वास नहीं करते थे । शायद इसके पीछे शताब्दियों पीछे गुजरे सलवी

जंगों ( धार्मिक युद्धों ) के युग का अनुभव काम कर रहा था, जब कि इस्लाम के गान्धी और ईसाइयत के क्रुसेडर धर्म के नाम पर एक दूसरे के ऊपर हर तरह के अत्याचारों को उचित समझते थे। उक्त वृद्ध अंग्रेज ने जब सुना, कि स्वतंत्रता-महोत्सव के लिये चन्दा जमा हो रहा है, तो उसने शिकायत की--“हमसे क्यों नहीं चन्दा मांगा गया, हमने भारत का नमक खाया है और जीवन की अन्तिम घड़ियां हम वहीं बिताने की इच्छा रखते हैं।” खैर वृद्ध ने एक पाँड चन्दा दिया। हमारे जहाज में वह अकेले ऐसे पेंशनर अंग्रेज नहीं थे, जो भारत में अपना शेष जीवन बिताने के लिये लौट रहे थे।

कमीटों को प्रोग्राम ठीक करना था। वहाँ दो तरह के विचार के लोग थे। कुछ हमारे परिचित शमीजी की तरह बहुत कुछ पुराने विचारों का प्रतिनिधित्व करत थे, जिसे वह शुद्ध भारतीयता का नाम देते थे, और कुछ अल्ट्रा मोडर्न ( चरम आधुनिक पंथी ) थे, जो चाहते थे कि उत्सव ऐसी शान से मनाया जाय, जिसमें यूरोपीय यूरोपियन यात्रियों पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। ए० क्लास में यूरोपियन यात्रियों की संख्या अधिक थी, जहां पर कि हमारे अल्ट्रा मोडर्न मद्र पुरुष और मद्र महिलामें रहती थीं, और जिनसे उनका संभाषण और नृत्य आदि में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया था। वह समझते थे, कि जब तक पान और नृत्य हो, तब तक उसे सभ्य दुनिया में महोत्सव नहीं माना जा सकता। कमीटों के कुछ लोग अपने यूरोपीय मित्रों को शराब पिलाना चाहते थे-- पैसे का सवाल नहीं था, वह शायद अपनी जेब से शराब खरीदकर भी पिला सकते थे; लेकिन कुछ लोग सिद्धान्ततः इसके विरोधी थे। उनका कहना था -- गांधी जी के नेतृत्व में हमने स्वतंत्रता को प्राप्त किया, हमारे गांधीवादी शासक धर्मेश्वर शराब बन्दी के पक्षपाती हैं, इसलिये इस महोत्सव में शराब पीना महात् पाप है। मैंने जीवन में कभी शराब नहीं पी, लेकिन शराब को कोई महापाप की बात वैसे ही नहीं समझता, जैसे कि अपने मांस-सङ्घर्ष को। असंयम सभी जगह बुरा होता है, यह नियम शराब पर भी लागू हो सकता है। हमारे शमीजी को अच्छा पुराण-पंथी नहीं माना जा सकता था। अपनी तरुणार्ई से अब ५०-६० के बीच में

पहुँचते समय तक ऐसिया, यूरोप, अफ्रीका के मिल भिन्न जगहों की खाक खानते उन्होंने भी शराब पी थी, लेकिन वह समझते थे, इस पवित्र महोत्सव के समय कमीटी की ओर से पान का प्रबन्ध उचित नहीं है। ५ अगस्त को इस पर बहुत गरमागरम बहस हुई, लेकिन उसका निर्णय उस दिन नहीं हो सका।

६ अगस्त को हम भूमध्य सागर में चल रहे थे। गरमी बहुत बढ़ गई थी, या शायद मुझे ही अधिक मालूम होती थी। वा. क्लास के कंधियों को तोड़कर मचान बनाने समय कुपियों को उखाड़ नहीं फेंका गया था, यही खेरियत थी, इसलिये हमें कुपिया हवा की पिचकारी छोड़ते प्राण-दान कर रही थीं। दिन में जैसे डेक पर बैठने से खुली हवा मिल जाती थी, लेकिन रात के वक्त तो यह वायु-कुपियाँ ही प्राणाधार थीं। भोजन के लिये जहाज का नियम था— सबेरे बिस्तर पर चाय, आठ बजे प्रातराश, १ बजे मध्याह्न भोजन ( लंच ), साढ़े चार बजे व्यारू। भोजन को अच्छा ही कहना चाहिये और वह पेट भर मिलता था। ता० ६ का उत्सव के लिये १० पौंड चन्दा हो गया था। उसदिन बहुमत में भोजन में शराब शामिल करने के प्रस्ताव को टुकरा दिया गया। यह भी निश्चय हुआ, कि भारतीय नाविकों को भोजन दिया जाय और बच्चों को मिठाईयाँ।

६ को कुछ टापू जव-तव दिखाई भी पड़ रहे थे। किन्तु ७ अगस्त को कोई स्थल-चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। हाँ, जव-तव एकाध जहाज उल्टी दिशा की ओर जाते हमें देखकर भोंपू बजा देते थे। अपने सामने तो विस्तृत नील सागर और अनन्त नील नम ही दिखाई पड़ते थे। हाँ, हमारी जहाज की भी एक दुनिया थी, जिसे हम ए. बी. क्लास के अधिकांश यात्रियों के लिये हंसी-खुरी की दुनिया कह सकते थे। अस्सी भारतीय यात्रियों में बड़ी बड़ी उमंगे लेकर कोई डाकरी या दूरी डिगरी प्राप्त कर देश लौट रहा था, कोई व्यापार के धन्ये को करके और कुछ सैलानी भी अपना मौजो जीवन बिता देश को जा रहे थे।

८ अगस्त को भी पहिले की तरह मौसिम अच्छा था, लेकिन भूमि का कहीं दर्शन नहीं होता था। अगले दिन ६ बजे सबेरे ही हमारा जहाज पोर्तुगैल में पहुँच कर मिश्र की भूमि से लग गया। कमीटी ने तै किया था, कि भोजकी

सामग्री पोर्टसईद में खरीदी जाय । उसमें आगे जहाज के खड़े होने का कोई ऐसा स्थान नहीं था, जहाँ सभी चीजें सरती और आसानी से मिल सकें । “स्ट्रैथमोर” ने नहर के मुँह के पास लंगर डाला । आस-पास बहुत से देशों के जहाज पड़े थे, जिनमें तुर्की और अमेरिका के काफी थे । कुछ उतरनेवाले यहाँ उतर गये । सैर करनेवालों के पासपोर्टों पर मिथी अफसर ने मूहर लगा दी और हमारी तरह वह भी पोर्टसईद की सैर करने के लिये निकले । पोर्टसईद अन्ताराष्ट्रीय नगर है । हे यह अफ्रीका के उत्तर-पूर्वी छोर पर बसा, लेकिन इसके उच्च तरफ भूमध्य सागर के पहले तट पर यूरोप है, ऐशिया तो यहाँ अफ्रीका से मिल गया है । इसको ही बाधा सम्भरकर स्वेज नहर बनाई गई, जिसमें भारतीय-महासागर या अरब समुद्रताल सागर से भूमध्य सागर को मिलाया जा सके । तीन महाद्वीपों का सम्मिलन स्थान होने से तीनों महाद्वीपों की जातियों के सम्मगम का यह स्थान है, वहाँ तीनों महाद्वीपों के गुँडे, गिरहकट और वेश्याओं का भी यह भारी अड्डा है । दिनमें भी गली कूचे में अकेले निकलना खतर से खाली नहीं है । हमारे एक सहयात्री किसी गली में जा रहे थे । एक बदमाश ने उन्हें “हीरे” की अंगूठी खरीदने के लिये कहा । उनको संदेह हो गया, लेकिन “हीरा” बेचने वाले ने छुरा दिखला कर एक पौंड में अंगूठी उनके मध्ये मढ़ दी । दूसरे जोशी महाशय को भी छुरा दिखलाया गया था । बात यह है जहाज कुछ घंटों के लिये ठहरनेवाला था, यदि कोई दुर्घटना हो गई, तो भी जहाज किसी यात्री के लिये निश्चित समय से अधिक ठहर नहीं सकता । यात्री भी अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचने की धुन में रहता है, इसलिये वह छुरे का जबाब न छुरे-से दे सकता है और न पुलिस तथा अदालत की शरण लेने के लिये तैयार हो सकता है । इस कमजोरी को पोर्टसईद के गुँडे अच्छी तरह जानते हैं । हम चार आदमी एक साथ शहर घूमने गये । राई घंटे तक घूमते रहे । रमजान का महीना होने से रोजे का दिन था, लेकिन इस्लामिक देश में किसी को उसकी परवाह नहीं थी— सारे रेस्तोरों खुले हुए थे । गरमागरम तंदूरी रोटियाँ विक रही थीं । शासक तो मुसलमान गाजी होने पर भी किसी देश और

किसी काल में इस्लाम के साधारण नियमों की भी पाबन्दी करना अपने लिये आवश्यक नहीं समझते थे। इस्लाम के नाम पर भारत के लाखों लोगों का खून बहानेवाले, मंदिरों और नगरों को ध्वस्त करनेवाला महमूद गजनवी, रात-रात भर अपनी शराब की महफिलें लगाता था। भला शासकों को रोजा, नमाज की उतनी पाबन्दी की क्या आवश्यकता थी। यदि उनकी देखादेखी अब पौर्नजईद या कहीं की मुसलिम जनता समजान को घना बनलाये, तो इसमें आश्चर्य करने की क्या आवश्यकता ? यहाँ पर नंगी और बहुत ही अश्लील तस्वीरों का तो, जान पड़ता था, बाकायदा रोजगार होता है। कितने ही आदमी इन तस्वीरों को हाथ में रखे चुपके से दिखाकर बेच रहे थे। इसमें कर्मा-कर्मी लोग बुरी तौर से फंस जाते हैं। सीलोन के एक भिक्षु यूरोप से लौट रहे थे, उन्होंने यह तस्वीरें खरीद ली थीं, जब कोलम्बो में जहाज पर से उतरे और उनकी चीजों की देखभाल हुई, तो वह तस्वीरें निकल आईं। उनकी बड़ी भद्र हुई। पिछली यूरोप-यात्रा में जब मैं लौट रहा था, तो एक चीनी छाव ने इस तरह की बहुत सी तस्वीरें यहाँ खरीद ली थीं। जब मैंने उसे कोलम्बो वाली घटना सुनायी, तो कोई परवाह न करते वह कह रहा था— हमारे बन्दरगाहों में कोई नहीं पूछता। बेश्या नगरी के दलालों का निमंत्रण तो पग-पग पर था— “ बड़ी सुन्दर चीक-तरुणी है, ” या और कुछ कहकर उस रास्ते के लिये पथ-प्रदर्शन करनेवाले दर्जनों आदमी घाटपर मौजूद थे। मैंने छेड़ पौड में एक चमड़े का थैला बक्स खरीदा। शर्माजी हैदराबादी हमारे साथ थे, इसलिये दाम-काम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। दो तीन पौड के कपड़े और कागज उत्सव के लिये खरीदे गये, और १६ पौड की मिठाइयाँ भी। इसी तरह कुछ और चीजें खरीदी गईं। लौटकर जहाज की ओर जाते समय कस्टम वालों ने रोका। खरीदी हुई चीजों पर भारी टैक्स माँग रहा था, पर शायद १०-१५ पौड और खर्च करना पड़ता। शर्माजी साथ थे। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि हम भारतीय स्वतंत्रता-दिवस के उत्सव के दिन के लिये यह चीजें खरीद कर लेजा रहे हैं। लेकिन भावुकतापूर्वक अपील करने में सफलता नहीं हुई, फिर उन्होंने रोकनेवाले के हाथ में २ पौड

थमा दिये और सारा किस्सा मिट गया। उसने इकट्ठी की हुई चीजों के थलम थलम भाग कर दिये और कह दिया, थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर जाओ। थोड़ा थोड़ा ले आने के लिये हमारी संख्या कम नहीं थी, लेकिन इस बाधा को हमने पहिले समझा नहीं था, इसलिये बहुत से लोग पहिले ही चले आये थे। खैर, दो पौंड में काम चल गया। पोर्टमईद और आगे स्ट्रेजनहर के पास आनेवाले स्थानों में हमने देखा, मिथ्री लोग अंग्रेजों को बड़ी भद्दी-भद्दी गालियाँ दे रहे थे। यह १९५१ का अन्त नहीं बल्कि १९४७ का अगस्त था। उस समय भी मिथ्री अंग्रेजों को अपना भारी शत्रु समझते थे और अपने गुस्से को गन्दी गालियों द्वारा उतारना चाहते थे। स्वेज़ नहर में रातको भी जहाँ-तहाँ यह गालियाँ दूहरायी जा रही थीं— वृणा-प्रदर्शन का उन्होंने यह अच्छा तरीका निकाला था। मिथ्री प्रसलमान औरतें पर्दा रखती हैं, लेकिन घुंहर नाक को ढाँके आखें खुली रखने के लिये जाली रखती हैं। इन जालियों के आंतर से उनके ओठ और कपोल भी दिखलायी पड़ते हैं। इंग्लैंड की अपेक्षा पोर्टसईद में चीजे बहुत सस्ती थीं। जिस बेग को हमने डेढ़ पौंड में लिया था, वह इंग्लैंड में चार-पाँच पौंड से कम में नहीं मिलता।

१० अगस्त को “स्ट्रेथमोर” लाल सागर में चल रहा था। लाल सागर, जान पड़ता है, हर समय ही गुस्से में लाल रहता है। अपने यात्रियों को परेशान करना वह अपना काम समझता है। पिछली यात्रा का भी मेरा ऐसा ही अनुभव था। अबकी बार भी जब हवा चल पड़ती, तो जान में जान आती, नहीं तो बड़ी परेशानी होती। उसदिन पता लगा, कि जहाज के कप्तान ने १५ अगस्त के महोत्सव मनाने के प्रोग्राम में स्वतंत्रता के शहीदों के लिये २ मिनट मौन रखने पर एतराज किया। फिर क्या था, लाल-सागर का प्रभाव हमारे लोगों पर भी पड़ा, लोग लाल-पीले होने लगे।

११ अगस्त को भी हम लाल सागर ही में थे। घंटों शरीर से पसीना चूता रहा। हवा बन्द-सी दीख पड़ रही थी। यानी हवा की तलाश में एक डेक से दूसरे डेक की ओर डोल रहे थे, यह जानकर सन्तोष हुआ, कि कप्तान ने

सार प्रोग्राम को मान लिया । सारे अंग्रेजों पर शीतल जल पड़ गया । लोग विरोध-प्रदर्शन के तरह-तरह के तरीके सोच रहे थे । डेक पर बैठे पसीना बहाते किसी तरह दिन का समय तो कट गया, लेकिन रात को पसीने में तर शरीर के कारण नींद कैसे आती ? अब सर्वशीतला-रूस-भूमि के गुण याद आ रहे थे । १२ अगस्त को भी गरमी की परेशानी पहिले ही जैसी रही ।

१३ अगस्त को अरब-सागर में दाखिल होते ही, तरंगित समुद्र आ गया । हवा के बिना समुद्र तरंगित नहीं हो सकता है, उर्मीन अब गरमी को कम कर दिया— भूमध्य रेखा के समीप तथा गरमी के मौसम के कारण हवा भी गरमी से बिलकुल छुट्टी देने के लिये समर्थ नहीं थी ।

१४ अगस्त को समुद्र अति तरंगित था । कितने ही लोग लुढ़क पड़े थे, जिनमें महोत्सव के दिन खेले जानेवाले “ विलायत से लौटा ” नाटक के अभिनेता भी शामिल थे । जल्दी जल्दी उत्सव-कर्माटी में परिवर्तन कर लिया गया । कर्माटी की अध्यक्षता महोदया के विचार में सभ्यता का स्वरूप नहीं ठीक है, जो कि यूरोप में देखा जाता है । ऐसे विचारों से सहमत होना ऐसे भारतीयों के लिये मुश्किल था, जो कि वहाँ इंग्लैंड में चिता कर लौट रहे थे । मेहमानों को शराब पिलाने की बात तो खैर समाप्त कर दी गई थी, लेकिन प्रोग्राम में कर्माटी से बगैर पूछे ही नृत्य रख दिया गया था । विरोध का कोई उचित कारण नहीं था— भारतीय नृत्यों पर कोई उज्र नहीं और यूरोपीय नृत्यों पर विरोध, इसमें क्या तत्व था ? समुद्र के उद्वेग के कारण बहुत से लोग आज खाने पर नहीं आये कुछ लोगों को के भी हुई । हम अन्वल-अटल रहे । साढ़े तेईस हजार टन का भारी भारकम “ स्ट्रैथमोर ” उच्चाल तरंगों पर कागज की नाव की तरह ऊंचे-नीचे उछल रहा था, लेकिन मुझे भूले का आनन्द आ रहा था । यही नहीं, मैंने तरंगों के बल को नापने के लिये डेक के किनारे की रेलिंग का इस्तेमाल शुरू किया— हमारी दृष्टि, रेलिंग और पानी की एक रेखा में भित्ताकर जब पांचवी रेलिंग तक पहुँच जाती, तब हम समझते थे कि समुद्र पूरे वेग से उछल रहा है ।



१५ अगस्त— आखिर पन्द्रह अगस्त का दिन आया, लेकिन आज तो ललितज आठवीं रेलिंग तक उठ जाता था। उत्सव का काम अच्छी तरह नहीं हो सकता था। खड़ा होना भी लोगों के लिये मुश्किल था, क्योंकि जब जहाज एक तरफ खड़ा होने लगता, तो आदमी दूसरी तरफ लुढ़कने लगते। खैर, उत्सव तो करना ही था। १० बजे भंडा फहराया गया। चारों तरफ भारतीय और अमरातीय यात्री खड़े थे। अथ्यन्ता महोदया बम्बई की एक गुप्त नाम से अंग्रेजी पत्र की सम्पादिका भी थीं, उन्होंने वाही-तवाही जो भी मनमें आया कह डाला। भाषण की गम्भीरता तो उसमें थी नहीं, पूरा छद्मदरी भाषण था। खैरियत यही थी, कि हवा के मारे भाषण पांच-सात आदमियों से आगे जा नहीं सकता था। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के भंडों को दो वहिन-भाई बच्चों ने ऊपर उठाया था। भारत के लिये राष्ट्रीय गान “जन गण मन” हुआ और पाकिस्तान के लिये “पाकिस्तान हमारा”। शहीदों की स्मृति में दो भिन्ट का मौन भी रहा। इकबाल के बनावे पाकिस्तानी राष्ट्रगीत में— “चीनी अरब हमारा, सारा जहां हमारा।” “तलवारों की साया में हम पले हैं।” अन्तमें नारये तकबीर कह कर “अल्लाहो अकबर” जैसा पुराने इस्लामिक गाजियों का नारा बुलन्द किया गया— कितनी खोखली सी बात थी! एक युग में अजर जहाद के नाम पर इस्लामी गाजियों ने विश्व खलित काफिरों के भीतर सफलता प्राप्त करली, तो सदियों से एक इस्लामिक देश पश्चिमी काफिरों के पैरों के नीचे रौंदे भी जा रहे हैं, यह भी बात सत्य है। जहाद का युग बीत गया, अब साईंस का युग है, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान समझते थे, कि उन्होंने इस्लामी छुरा-बाजों के बलपर पाकिस्तान कायम किया, और जिन्ना ने अपनी अकल का चमत्कार दिखला कर पाकिस्तान बनाने में सफलता पाई। वह यह मानने के लिये तैयार नहीं थे, कि अंग्रेजों ने अपना नाक कटाकर अशशुन पैदा करने के लिये पाकिस्तान को बनाया। खैर, उत्सव और तरह से सानन्द समाप्त हुआ। यदि समुद्र देवता और वायु देवता ने प्रकोप न किया होता, तो जो लोग सामुद्रिक बीमारी के कारण स्वस्थ नहीं थे, वह भी आनन्दभागी होते।

लड़कों से मिठाई चांटी गड़े । लश्कर के आदमियों ने पताकोत्तोलन में न बुलाये जाने के कारण मिठाई लेने में इन्कार कर दिया । लश्कर एक पारिभाषिक शब्द है, जो कि यूरोपीय जहाजों के दिन्दुस्तानी मल्लाहों के लिये उपयुक्त होता है । किसी जहाज से नौकरी छोड़कर वह इस जहाज द्वारा देश भेजे जा रहे थे, उनमें से अधिकांश चटगांव, अतः पाकिस्तान के थे । जान-बूझकर उन्हें न बुलाने की बात नहीं की गई थी । सभी लोग जानते थे, कि अमुक समय अमुक स्थान पर पताकोत्तोलन होगा । लोग अपने आप चले आये थे । लश्कर को मालूम हुआ, कि औरों को निमंत्रित किया गया था, और हमें नहीं । उनको समझाने की कोशिश की गई, किन्तु वह न माने ।

साढ़े चार बजे बच्चों का “ फैंसी ड्रेस ” हुआ । दो लड़के गार्थ और जिन्ना की शकल बनाकर आये । लोगों ने बहुत पसन्द किया । भोजन में विशेषता लाने के लिये जहाजवालों ने भी सहयोग दिया था और कुछ भारतीय भोजन भी तैयार हुआ था । रात के ९ बजे से मनोरंजन की दूसरी रातें हुईं । “ विलायत से लौटा ” नाटक हुआ । किसी ने जादू का खेल भी दिखाया और किसी ने और कुछ । हम भारत भूमि से दो दिन के रास्ते पर अरब समुद्र में थे, लेकिन हमने भी आजके महान् दिवस को अच्छी तरह मनाया ।

अगले दिन ( १६ अगस्त ) जहाज में रहने का आखिरी अहोरात्र था । आज हवा भी चल रही थी और वर्षा भी हो रही थी ।

१७ अगस्त रविवार का दिन आया । प्रातः १० बजे से भारतीय तट दिखलाई पड़ने लगा, ३४-३५ महीने बाद मैं फिर भारत भूमि की आंकी कर रहा था । रह रह कर “ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ” याद आ रहा था और साथ ही यह भी कि अब हमारी मातृभूमि अंग्रेजों के हाथ से मुक्त है । १२ बजे के करीब जहाज समुद्र तट से लगा । मानो मातृभूमि का स्पर्श हो गया, इसलिये हृदय और आह्लादित हो उठा । अफसर ने आकर जहाज हॉ पर पास-पोर्ट पर मुहर लगा दी । पास के पौडों में से, कुछ मुनाये । जहाज का अन्तिम भोजन भी हो गया । जहाज के नीचे लाल झंडा लिये हुये कुछ कमकर नारे

लगा रहे थे । मुझे वृद्धने पर मैंने कहा— शायद आदिल साहिब के लिये । आदिल साहिब मजदूरों के नेता थे, शायद कांग्रेस या सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे । मुझे यह ख्याल नहीं आया, कि यह मेरे स्वागत में हो सकता है । लेकिन जब साथ साथ कामरेड राहुल का नाम मुनाई देने लगा, तो इन्कार करने से काम नहीं चलता । जो लोग १७ दिन तक मेरे साथ बातचीत करते रहते थे, उनको इतना ही मालूम था कि मैं लेनिनवाद में संस्कृत का अध्यापक था । अब नारे ने बतला दिया, कि नहीं यह तो कोई नेता है, जिसके लिये बम्बई के मजूर भी नारे लगा रहे हैं । फिर तो कितने ही सहयात्री “ गुस्ताखी माफ ” की बात करने लगे । इसमें कोई आत्मगोपन की बात नहीं, यदि मैं कहूँ कि कम से कम अपने लिये प्रदर्शन मुझे पसन्द नहीं है । एकान्त में चुपचाप काम करने में जितना आनन्द मुझे आता है, प्रदर्शन में उतना ही चित्त को विचोभ होता है । हमारे सहयात्री न इंडोलोजी के विद्वान थे, न भाषातत्त्व या इतिहास के । उनकी जो जिज्ञासायें सोवियत के बारे में थीं, उतने ही तक बोलने पर मैं संतोष करता था । मैं भड़ामशाही मार्क्सवादी प्रचारक नहीं था, कि हरेक को कन्वर्ट ( मत परिवर्तन ) करने के नशे में २४ घंटे चूर रहूँ । अपने जीवन में मुझे ऐसा करने की आवश्यकता इसलिये भी नहीं थी, कि मौके-बेमौके बोलने से जितना काम नहीं हो सकता था, उतना मेरी कितानें कर रही थीं ।

कम्युनिस्ट नेता कामरेड मिरजकर, अधिकारी, रमेश, ओमप्रकाशसंगल, भद्रेंद्र आचार्य आदि पुराने मित्र जहाज पर आ मिले । किसी ने डरा दिया, कि कस्टमवाले कितानों के लिये बहुत तंग करेंगे । उनका कहना गलत नहीं था, लेकिन मैं १५ अगस्त के दो ही दिन बाद आया था । १५ अगस्त के ऐतिहासिक दिन के सामने पुरानी नौकरशाही सहम गयी थी । सचमुच ही उस समय यदि बुद्धिमानी से काम लिया जाता, तो उसका रुख बहुत कुछ बदल जाता, लेकिन जब पीछे उन्होंने अपने मालिकों के असली रूप-रंग को देखा, तो “ वही रफ्तार बेढंगी, जो पहिले थी सो अब भी है ” को स्वीकार कर लिथा । हमारे पास सभसे बड़ा धन रूस में संग्रहात पुस्तकें थीं, जिनमें कम्युनिज्म के बारे में

दो-चार ही होंगी, नहीं तो अधिकतर मध्य-एशिया के इतिहास से संबंध रखनेवाली थीं तो भी वह स्त्री में थीं, इसलिये कस्टम वालों की क्या पता था, यदि आइया लगाना चाहते, तो वह वैसा कर सकते थे; लेकिन १५ अगस्त की आंधी के कारण बड़ी आसानी से छुटकारा मिल गया । मामूली तौर से देखा, एक दो बक्सों को तो खोला ही नहीं, हाँ रेडियों के ऊपर १५० रुपया देवस जरूर लग गया । शायद इससे कम में ही हमें वैसा रेडियो भारत में मिल सकता था । कस्टम से छुट्टी लेते-लेते चलकर अपने निवास-स्थान में पहुंचने में ४ घण्टा गया । आज भी बम्बई की सड़कों पर अभी १५ अगस्त को तैयारी दिखालाई पड़ रही थी । आज भी महोत्सव-संबंधी दीपमाला हुई । तिरंगे भंडे और बन्दनधार-पताकयों सभी जगह फहरा रही थीं सभी जगह असाह दिखाई पड़ रहा था । शुभे भी नये भारत में लौट आने का बड़ा आनन्द हुआ ।